



जयधवलासहितं  
क सा य पा हु ङं

भाग १०

( वेदगो )



भारतीय दिगम्बर जैन संघ

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

६१८५

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

२

५७

वर्ष १९५५ म. १५

अंक ५१९५

१९५५ म. १५, पृ. १५



भा० दि० जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य दशमोदलः

श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्

श्रीभगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतम्

# क सा य पा हु डं

तयोश्च

श्रीवीरसेनाचार्यविरचिता जयधवला टीका

[ सप्तमोऽधिकारः वेदकअनुयोगद्वारम् ]

सम्पादकौ

पं० फूलचन्द्र

सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्य

सम्पादक महाबन्ध, महसम्पादक

धवला

पं० कैलाशचन्द्र

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्य,

सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

प्रधानाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय

काशी

प्रकाशक

मंत्री साहित्य विभाग

भा० दि० जैन संघ, चौरासी मथुरा

वि० सं० २०२४ ]

वीरनिर्वाणान्द २४९३

मूल्यं रूप्यकद्वादशकम्

[ ई० सं० १९६७

# भा० दि० जैन संघ ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य  
संस्कृत प्राकृत आदिमें निबद्ध दि० जैनागम, दर्शन,  
साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भव  
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन



सञ्चालक

भा० दि० जैनसंघ

ग्रन्थाङ्क १-१०

प्राप्तिस्थान

मैनेजर

भा० दि० जैनसंघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक

श्री पं० शिवनारायण उपाध्याय

नया संसार प्रेस, काशी ।

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No 1-X

# KASAYA-PAHUDAM X

VEDAK

BY

GUNADHARACHARYA

WITH

Churni Sutra Of Yativrashabhacharya

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF  
VIRASENACHARYA THERE UPON

*EDITED BY*

**Pandit Phulchandra Siddhantashastrf**

*EDITOR MAHABANDHA*

*JOINT EDITOR DHAVALA.*

**Pandit Kailashachandra Siddhantashastrf**

*Nyayat rtha, Siddhantaratra,*

*Pradhanadhyapak Syadvada Digambara Jain*

*Mahavidyalaya Varanasi*

*PUBLISHED BY*

THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT

**THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA**

CHAURASI, MATHURA

VIKRAMA S. 2024

VIRA-SAMVAT 24 3

1967 A. C.



# Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year— ]

[ Vira Niravan Samvat 2468

*Asm Of the Series :—*

*Publication of Digambara Jain Siddhanta,  
Darshana. Purana, Sahitya and other works  
in Prakrit Sanskrit etc, possibly with Hindi  
Commentary and Translation*

*DIRECTOR—*

**SRI BHARATA VARSHIYA  
DIGAMBARA JAIN SANGHA  
NO. 1. VOL. X.**

*To be had from :—*

**THE MANAGER  
SRI DIG. JAIN SANGHA,  
CHAURASI, MATHURA.**

**PRINTED BY  
Naya Sansar Press,  
Bhadaini, Varanasi-1**

**800 Copies,**

**Price Rs. Twelve only**

## प्रकाशककी ओरसे

कसायपाहुडं (श्री जयधवल जी) का दसवां भाग पाठकों के कर-कमलोंमें अर्पित करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। यद्यपि इस भागका प्रकाशन चार वर्ष के बाद हो रहा है। नौवां भाग चार वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था।

इस समय देशमें घोर महँगाई होनेसे कागज, छपाई, जिल्द बँधाई आदिके व्ययमें भी वृद्धि हुई है और इस तरह लागत व्यय पहलेसे डबोड़ा हो गया है। फिर भी मूल्य पुराना ही रखा गया है। ऐसे महान् ग्रन्थ बार-बार नहीं छपते। अतः मन्दिरोके शास्त्र भण्डारोंमें इन ग्रन्थगजोंकी एक-एक प्रति सर्वत्र विराजमान अवश्य करना चाहिये।

यह ऐसा ग्रन्थ है जिसका जिनवागीसे एक तरहसे साक्षात् सम्बन्ध है।  
पं० आशाधर जीने कहा है—

ये यजन्ते श्रुतं भक्त्या ते यजन्तेऽञ्जसा जिनम् ।  
न किञ्चिदन्तरं प्राहुराप्ता हि श्रुतदेवयोः ॥

जो शास्त्रकी पूजन करते हैं वे वस्तुतः जिनदेवकी ही पूजन करते हैं। क्योंकि सर्वज्ञदेवने जिनवागीमें और जिनदेवमें कुछ भी अन्तर नहीं कहा है।

अतः जिन मन्दिरोँ और जिन मूर्तियोंके निर्माणमें द्रव्य व्यय करनेके इच्छुक दानी जनोंको जिनवागीके उद्धारमें भी अपना धन लगाकर सुकीर्तिके साथ सम्यग्-ज्ञानके प्रसारमें हाथ बटाना चाहिये।

अब इस ग्रन्थके केवल चार भाग शेष है। यदि उदार धनिक एक-एक भाग अपनी ओरसे प्रकाशित करा दें तो यह महान् कार्य जल्द पूर्ण हो सकता है।

अन्तमें हम इस कार्यमें सहयोग देनेवाले सभी सज्जनोंका आभार मानते हैं।

जयधवल कार्यालय  
भदौनी, वाराणसी  
बी० नि० सं० २४६३

कैलाशचन्द्र शास्त्री  
मंत्री साहित्य विभाग  
भा० दि० जैन हॉब  
चौरासी, मथुरा


# भा० दि० जैन संघके साहित्य विभागके सदस्योंकी नामावली

## संरक्षक सदस्य

- १३०००) दानवीर सेठ भागचन्दजी डोगरगढ़  
८१२५) दानवीर श्रावक शिरोमणि साहू शान्तिप्रसादजी कलकत्ता  
५०००) स्व० श्रीमन्त मर सेठ हुकुमचन्दजी इन्दौर  
५०००) सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद  
३००१) सेठ नानचन्दजी हीरालालजी गांधी उस्मानाबाद  
२५००) लाला इन्द्रसेन जी जगधरी  
२००१) मिश्रई श्रीनन्दनलालजी बीना

## सहायक सदस्य

- १२५०) सेठ भगवानदामजी मथुरा  
१०००) बा० कैलाशचन्दजी एस० डी० ओ० बम्बई  
१००१) सकल दि० जैन परिवार पञ्चान नागपुर  
१००१) सेठ श्यामलालजी फर्रुखाबाद  
१००१) सेठ घनश्यामदामजी मरावगी लालगढ़  
[ रा० ब० सेठ चुन्नीलालजी के सुपुत्र स्व० निहालचन्दजी की स्मृति मे ]  
१०००) लाला रघुवीर मिहजी जैना वाच कम्पनी देहली  
१०००) रायसाहब लाला उल्फतरायजी देहली  
१०००) स्व० लाला महावीरप्रसाद जी ठेकेदार देहली  
१०००) स्व० लाला रतनलाल जी मादीपुरिये देहली  
१०००) लाला धूमिल जी धर्मदास जी देहली  
१००१) श्रीमती मनोहरी देवी मातेश्वरी लाला बसन्तलाल फिरोजीलाल जी देहली  
१०००) बाबू प्रकाशचन्द जी खण्डेलवाल ग्लार्स वर्क्स सासनी ( अलीगढ़ )  
१०००) लाला छीतरमल शंकरलाल जी मथुरा  
१००१) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलाल जी आगरा  
१०००) सकल दि० जैन पंचान गया  
१०००) सेठ मुखानन्द शंकरलाल जी मुल्तानवाले देहली  
१००१) सेठ मगनलाल जी हीरालाल जी पाटनी आगरा  
१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावती जी धर्मपत्नी स्व० साहू रामस्वरूप जी नजीबाबाद  
१००१) सेठ सुदर्शनलाल जी जसवन्तनगर  
१०००) प्रोफेसर खुशालचन्द जी गौरावाला वाराणसी  
[ स्व० पूज्य पिता शाह फुन्दीलाल जी तथा मातेश्वरी केशरोबाई गारावाला को पुण्यस्मृति में ]  
१००१) सेठ मेधराज खूबचन्द जी पेंडरा रोड  
१०००) सेठ ब्रजलाल बारेलाल बिरमिरी



## विषय-परिचय

अनादिकालमे जैन परम्परामें जो भी मञ्जूल कार्य किया जाती है उमके मंगलाचरण पूर्वक करनेका प्रघात है। टीकाकार आचार्यने अपने इष्ट मंगलकार्यकी सिद्धिके अभिप्रायवश वेदक महाधिकारके आदिमें सर्व प्रथम सिद्धोंको भाव-द्रव्य नमस्कार किया है।

जैसा कि इस अर्थाधिकारके नामसे स्पष्ट है इममे यह संमारी जीव मोहनीय कर्म और उसके अवान्तर भेदोका कहीं कितने काल तक सान्तर या निरन्तर किस रूपमे वेदन करना है आदि विषयका स्पष्ट निर्देश किया गया है। इसके मुख्य अधिकार दो हैं—उदय और उदीरणा यहाँ कषायप्राभूतके पन्द्रह अधिकारोंमेंसे इसे छटा अधिकार कहा गया है। इम ग्रन्थके प्रारम्भमे आचार्यवर्य वीरसेनने इन अधिकारोंका विचार तीन प्रकारसे किया है। उमके अनुमार एक दृष्टिमे यह सातवाँ अधिकार भी ठहरता है। हमने उम दृष्टिकी मुख्यतासे इसे सातवाँ अधिकार सूचित किया है। इमके लिए इम ग्रन्थकी प्रथम पुस्तक पर दृष्टिपात कीजिए।

यो तो उदीरणा उदयविशेषका ही दूसरा नाम है। किन्तु उन दोनोंमें अन्तर यह है कि कर्मोंका जो यथाकाल फलविपाक होता है उमकी उदय संज्ञा है और जिन कर्मोंका उदयकाल प्राप्त नहीं हुआ उनको उपाय विशेषसे पचाना उदीरणा कहलाती है। इम महाधिकारको आचार्यवर्य गुणधरने चार सूत्र गाथाओंमें निबद्ध किया है। उनमेंसे प्रथम सूत्र गाथा कदि आवल्लियं पवसेइ इत्यादि है।

इमका विवेचन यहाँ दो प्रकारमे किया गया है। इमकी प्रथम व्याख्यामे बतलाया है कि इम द्वारा प्रकृति उदीरणा, प्रकृति उदय और उसकी कारणभूत बाह्य सामग्रीका निर्देश किया गया है। वहाँ बतलाया है कि इमके प्रथम पाद द्वारा उदीरणा सूचित की गई है, दूसरे पाद द्वारा विस्तार सहित उदय सूचित किया गया है। उक्त गाथाके दूसरे पादद्वारा क्या सूचित किया गया है इसका प्रकारान्तरसे निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि अथवा उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुई उदय प्रकृतियों और अनुदय प्रकृतियोंको ग्रहण कर प्रवेश संज्ञावाला अर्थाधिकार इम सूत्रवचन द्वारा सूचित किया गया है।

यहाँ यह शंका होनेपर कि पहले जब कि वेदक महाधिकारमें उदय और उदीरणा ये दो अधिकार ही सूचित किये गये है ऐसी अवस्थामे उक्त पाद द्वारा तीसरे अधिकारका सूचन हुआ है यह कहना उपयुक्त नहीं है, ममाधान करते हुए बतलाया है कि किसी भी प्रकारसे इस प्रवेश संज्ञावाले अधिकारका उदयके भीतर ही अन्तर्भाव हो जाता है, इमलिए कोई दोष नहीं है।

इसप्रकार गाथाके पूर्वार्धका स्पष्टीकरण करनेके बाद उमके उत्तरार्धका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंको निमित्तकर कर्मोंका उदय और उदीरणारूप फलविपाक होता है। यहाँ क्षेत्र पदसे नरकादि गतियोंका क्षेत्र लिया गया है, भवपदमे एकेन्द्रिय आदि पर्यायोंको ग्रहण किया गया है, काल पदसे शिपिर, वसन्त, ग्रीष्म और वर्षाकाल आदिका ग्रहण हुआ है तथा पुद्गल पदसे गन्ध, ताम्बूल, वस्त्र, आभरण आदि पुद्गलोंका ग्रहण हुआ है।

प्रकृति उदीरणके समग्र विवेचनके बाद प्रकृति उदयका संकेत करते हुए उक्त गाथाके उत्तरार्धका आलम्बन लेकर चूर्णसूत्र और उसकी टीकामें पुनः इसका विचार किया गया है। वहाँ उदयकी व्याख्या करनेके बाद लिखा है कि कर्मोंका वह उदय क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंको निमित्तकर होता है। टीकाके शब्द है—खेत्त-भव-काल-पोगाले अरिसऊण जो द्विदिक्खयो उदियणफलकम्मक्खंधपरिसङ्गण-लक्खणो सोदयो त्ति सुत्तथावल्लवणादो।

ध्रुव, अध्रुव, एक जीवकी अपेक्षा बाल, अन्तर, नाना जीवकी अपेक्षा भगवच्चय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, बाल, अन्तर, भाग और अपबद्धत्व ।

इस प्रकार इन अनुयोगद्वाराका नाम निर्देश वर सर्व प्रथम उनक माध्यममे मूलप्रकृतिउदीरणाका विवेचन किया गया है । सुगम हानमे यहा उनका अवन्तारमे स्पष्टीकरण नही करेंगे ।

### एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणा

इसके बाद एकैक उत्तरप्रकृतिउदीरणाका उल्लेख कर उच्चारणाके बलसे २४ अनुयोगद्वाराका आलम्बन लेकर उभवा विचार किया गया है । १७ अनुयोगद्वार तो पूर्वोक्त ही है । इनमे सर्व, नोसर्व, उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जघन्य, अजघन्य और मन्त्रिर्ष इत ७ अनुयोगद्वाराके मिलानपर २४ अनुयोगद्वार हो जाते हैं । मोहनीयनी २८ प्रकृतियामेस प्रत्येककी उदीरणाका विचार एकैक प्रकृतिउदीरणा अधिकारमे विस्तारग किया गया है । सुगम होमे इसका विचार भी हम यहा पर अठगमे नीचे कर रहे हैं ।

### प्रकृतिस्थानउदीरणा

इस प्रकार इतना विवेचन करार बाद प्रणिमुन और उच्चारणा दानाना आम्सन लेकर प्रकृतिस्थानउदीरणाका विचार किया गया है । प्रकृतियाके रखा जन्मि प्रकृतिगूणा नाम प्रकृतिस्थान है और उभकी उदीरणाका प्रकृतिस्थानउदीरणा प्रकृतिस्थान है । एक प्रकृतिस्थान प्रकृतियाका उदीरणा एक जीवके सम्भव है उनी प्रकृतियाके मुद्राकी प्रकृतिस्थान उदीरणा माला ये उक्त प्रकृतिया का प्रथम है । इसमे १७ अनुयोगद्वार है—समुत्कर्तनामे वरर अपबद्धत्व का । साथ ही भुजगार, पदनिक्षप और वृद्धि य तीन अनुयोगद्वार और जानने चाहिए ।

मोहनीय नानी उत्तर प्रकृतियाके उदीरणाके कुछ प्रयोगद्वार है—तान प्रकृतिक स्थानका छोडकर एक प्रकृतिस्थानमे लेकर इस प्रकृतिस्थान तक, क्याकि तीन प्रकृतिक कोई उदीरणास्थान नही है । इसका यहा गागापाग विचार किया है । इन प्रकृतियाके प्रथम कितने भग हे और कौन किम गुणस्थानमे जाता है इसके विशेष विचारके लिए आचार्य यतिवृषभा तीन गाथाए जपने चूणिमुनामे उद्धृत की है । प्रथम गाथामे प्रथम स्थानके भगानी सरा दी है तथा दूसरा और तीसरी गाथामे किम गुणस्थानमे तीन तीन और कितने उदीरणास्थान हाने उगता विवरण दिया है । इसप्रकार इन गाथाआ द्वारा स्वामि रखा विचार कर तथा आगे एक जीवकी अपेक्षा वरर आदि एक अनुयोगद्वाराका निरूपणकर १७ अनुयोगद्वार समाप्त किया गया है । इसके बाद भुजगार, पदनिक्षप और वृद्धि इन अनुयोगद्वाराका आम्सन लेकर प्रकृतिस्थान उदीरणाका विचार किया गया है । इतने विचारके बाद इस अधिकारके समाप्त हानेके साथ प्रकृति उदीरणाका यथा समाप्त हाना है ।

### प्रकृतिप्रवेश

आगे प्रकृतिप्रवेश प्रकरणका आधार है जिसकी सूचना वरर अनुयोगद्वाराकी प्रथम गाथामे दूसरे पादमे मिलती है । इस प्रकरणमे उदयावलिसे प्रवेश करनेवाली उदय और अतुरम्प प्रकृतिगतना ग्रहण किया गया है, इसीलिए इसका प्रकृतिप्रवेश यह नाम मार्यक है । इसके बाद है—मूल प्रकृतिप्रवेश और उत्तर प्रकृतिप्रवेश । उत्तर प्रकृतिप्रवेश का प्रकरण है—एकैक उत्तर प्रकृतिप्रवेश और प्रकृतिस्थान प्रवेश । सुगम हानमे यहा मूल प्रकृतिप्रवेश और एकैक उत्तर प्रकृतिप्रवेश अधिकारका व्याख्यान न कर मात्र प्रकृतिस्थानप्रवेश अधिकारका समुत्कर्तना आदि १७ अनुयोगद्वारा तथा भुजगार, पदनिक्षप और वृद्धि इन अधिकारों द्वारा निरूपण किया गया है ।

२८ प्रकृतिक प्रवेशस्थानसे लेकर १ प्रकृतिक प्रवेशस्थान तक कुल प्रवेशस्थानोंकी संख्या २० है । मध्यके १८, १७, १६, १५ और १४ प्रकृतिक ५ प्रवेशस्थान, ११ प्रकृतिक १ प्रवेशस्थान, ८ प्रकृतिक १ प्रवेशस्थान तथा ५ प्रकृतिक १ प्रवेशस्थान कुल ८ प्रवेशस्थान नहीं है । इनमेंसे कौन प्रवेशस्थान किस प्रकार घटित होता है और प्रत्येक प्रवेशस्थानमें कितने प्रकृतियोंका घटण हुआ है इसका अधिकारी भेदके कथनपूर्वक मागोपाग विचार किया गया है । आगे इसी क्रममें शेष अनुयोगद्वारा तथा भुजगार आदिका विचार कर यह अधिकार ममान हाता है ।

### प्रकृति उदय

यह तो हम पहले ही सूचित कर आये हैं कि वेदक अनुयोगद्वाराकी प्रथम गाथाके उत्तरार्धद्वारा मकारण प्रकृति उदयकी सूचना की गई है, इसलिए प्रकृतिप्रवेश अधिकारकी प्ररूपणाके बाद प्रकृति उदय अधिकारका कथन अवसर प्राप्त है, क्योंकि मोहनीय कर्मका उदय चार प्रकारका है—प्रकृति उदय, स्थिति उदय, अनुभाग उदय और प्रदश उदय । अतएव प्रकरणानुसार यहां सर्वप्रथम प्रकृति उदयका कथन करना चाहिए, किन्तु उदीरणाम ही उदयका ग्रहण हा जाता है, क्योंकि किंचित् विशेषताको छोड़कर उदीरणामे उदय सर्वथा भिन्न नहीं है । इसलिए यहां उदयका सूकारने अलगसे व्याख्यान नहीं किया है ।

### स्थिति उदीरणा

अब वेदक अनुयोगद्वाराकी दूसरी गाथाके प्रथम पादद्वारा सूचित स्थितिउदीरणामा कथन अवसर प्राप्त है । स्थितिउदीरणा का प्रकारकी है—मूल प्रकृति स्थितिउदीरणा और उत्तर प्रकृति स्थितिउदीरणा । प्रमाणानुगम आदि कुल अनुयागद्वारा २४ है । उनमेंसे मूल प्रकृति स्थितिउदीरणामा सन्निकर्षक सिवाय २३ अनुयागद्वाराके द्वारा और उत्तर प्रकृति स्थितिउदीरणामा सन्निकर्षक महित २४ अनुयागद्वाराके द्वारा कथन हुआ है । इसके सिवाय भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्ध और स्थान ये चार अधिकार और हैं । इन द्वारा भी दोना प्रकारकी स्थितिउदीरणामाका विचार किया गया है । इतने विचारके बाद अन्तमें मक्षामे स्थानका प्ररूपणा करके स्थितिउदीरणामाका प्रकरण ममान किया गया है ।

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मंगलाचरण	१	प्रकृति उदीरणाके दो भेदोकी तथा उसके १७	
वेदक अनुयोगद्वारके दो उत्तर भेदाकी सूचना	२	अनुयोगद्वारोकी सूचना	११
उदयका लक्षण	२		
उदीरणाका लक्षण	२		
उदय और उदीरणा दोनोकी वेदक संज्ञा हीनेका खुलासा	२	<b>१ मूलप्रकृतिउदीरणा</b>	
इस विषयमें चार सूत्र गाथाओकी सूचना	२	समुत्कीर्तनानुगम	११
प्रथम सूत्रगाथा और उमका खुलासा	३	सादि आदि ४ अनुयोगद्वार	११
प्रथम सूत्र गाथाके प्रथम पादसे प्रकृतिउदीरणाकी सूचना मिलती है इसका निर्देश	३	स्वामित्वानुगम	१२
दूसरे पादसे प्रकृतिउदय और प्रकृतिप्रवेशकी सूचना मिलती है इसका निर्देश	४	कालानुगम	१२
क्षेत्र, भव, काल और पुगदल ये कर्मोदय और कर्मोदीरणाके निमित्त है इसका उक्त गाथाके उत्तरार्ध द्वारा निर्देश	४	अन्तरानुगम	१३
कुछ परिवर्तन पूर्वक उक्त गाथाके उक्त अर्थका खुलासा	५	नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय	१३
द्वितीय सूत्र गाथाके पूर्वार्ध द्वारा स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोदीरणाकी सूचना	६	भागाभागानुगम	१४
तथा उत्तरार्ध द्वारा कालादि अनुयोगद्वारोकी सूचना	६	परिमाणानुगम	१५
तृतीय सूत्र गाथा द्वारा भुजगार अनुयोगद्वार और उसके कालादि उत्तर अनुयोगद्वारोकी सूचना	७	क्षेत्रानुगम	१५
चतुर्थ सूत्र गाथा द्वारा बन्ध, संक्रम, उदय, उदीरणा और सत्त्व इनकी तथा इनके अल्प-बहुत्वकी सूचना	८	स्पर्शनानुगम	१५
प्रथम गाथा किस अर्थमें निबद्ध है इसका चूणि-सूत्रों द्वारा खुलासा	९	कालानुगम	१६
प्रकृतिउदीरणाके दो भेद और उन्हे स्थगित करनेकी सूचना	१०	अन्तरानुगम	१७
ऐकैक प्रकृति उदीरणाके दो भेद और उनके चौबीस अनुयोगद्वारोकी सूचना	१०	भावानुगम	१७
उदीरणाके चार भेदोकी सूचना	११	अल्पबहुत्वानुगम	१७
		<b>२ एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणा</b>	
		उत्तरप्रकृतिउदीरणाके दो भेदोका निर्देश	१८
		एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणाके २४ अनुयोगद्वारोका निर्देश	१८
		समुत्कीर्तनानुगम	१८
		सर्व नोसर्व उदीरणानुगम	१९
		उत्कृष्टानुत्कृष्ट उदीरणानुगम	१९
		जघन्याजघन्य उदीरणानुगम	१९
		सादि आदि ४ अनुयोगद्वार	२०
		स्वामित्वानुगम	२१
		कालानुगम	२२
		अन्तरानुगम	२६
		सन्निकर्षानुगम	२६





विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रवृत्तिस्थानप्रवेशके १७ अनुयागद्वार	११२	उत्कृष्ट ममुक्तीर्तना	१७७
ममुक्तीर्तनाके दो भेद	११०	जघन्य ममुक्तीर्तना	१७७
इन दोनोंके एक साथ कथनका निर्देश	११३	स्वामित्वके दो भेद	१७७
स्थानममुक्तीर्तनाका लक्षणनिर्देश	११३	उत्कृष्ट स्वामित्व	१७७
प्रवृत्तिनिर्देशका लक्षणकथन	११३	जघन्य स्वामित्व	१७८
इन दोनोंका एक साथ कथन	११३	अल्पबहुत्वके दो प्रकार	१७९
सादि आदि ४ अनुयोगद्वार	१३०	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१७९
स्वामित्व	१३०	जघन्य अल्पबहुत्व	१७९
एक जीवकी अपेक्षा काल	१३१		
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	१४८		
नाना जीवकी अपेक्षा भगवित्त्व	१४७		
भागाभागानुगम	१४९		
परिमाणानुगम	१४९		
क्षेत्रानुगम	१५०		
स्पर्शानुगम	१५०		
कालानुगम	१५३		
अन्तरानुगम	१५३		
भावानुगम	१५८		
अल्पबहुत्व	१५८		
<b>भुज्जगार</b>	<b>१६४</b>		
इसके १३ अनुयोगद्वार	१६४		
ममुक्तीर्तनानुगम	१६४		
स्वामित्वानुगम	१६५		
कालानुगम	१६५		
अन्तरानुगम	१६८		
नाना जीवकी अपेक्षा भगवित्त्व	१७१		
भागाभागानुगम	१७१		
परिमाणानुगम	१७१		
क्षेत्रानुगम	१७१		
स्पर्शानुगम	१७२		
कालानुगम	१७४		
अन्तरानुगम	१७५		
भावानुगम	१७६		
अल्पबहुत्व	१७६		
<b>पदनिक्षेप</b>	<b>१७७</b>		
इसके तीन अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१७७		
ममुक्तीर्तनाके दो भेद	१७७		
		<b>५ वृद्धिप्रवेशक</b>	
		इसके १३ अनुयोगद्वार	१८०
		ममुक्तीर्तनानुगम	१८०
		स्वामित्वानुगम	१८०
		कालानुगम	१८१
		अन्तरानुगम	१८२
		नाना जीवकी अपेक्षा भगवित्त्व	१८२
		भागाभागानुगम	१८२
		परिमाणानुगम	१८२
		क्षेत्रानुगम	१८२
		स्पर्शानुगम	१८४
		कालानुगम	१८४
		अन्तरानुगम	१८५
		भावानुगम	१८५
		अल्पबहुत्वानुगम	१८५
		'सुत्त भव काल' इत्यादि गाद्याशना	
		विशेष व्याख्यान	१८७
		कर्मादय और उमक बाह्य निमित्ताना निर्देश	१८७
		कर्मादय चार प्रकारका है इसका निर्देश	१८७
		उदय और उदीरणामे अन्तरका निर्देश	१८८
		उदीरणके कथनसे ही उदयका कथन हा जाता है इसका निर्देश	१८८
		<b>६ स्थितिउदीरणा</b>	
		स्थितिउदीरणके दो भेदोंका निर्देश	१८८
		स्थितिउदीरणके अनुयोगद्वाराका निर्देश	१८९
		<b>७ मूलप्रकृतिस्थितिउदीरणा</b>	
		मूलप्रकृति स्थितिउदीरणामे २३ तथा उत्तर	

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकृति स्थितिउदीरणामे २४ अनुयोगद्वार होते		जघन्य अन्तरानुगम	२०६
है इसका निर्देश	१८६	दोना प्रकारके भावका निर्देश	२१०
स्थितिउदीरणके २ भेदाका निर्देश	१६०	अल्पबहुत्वके दो भेद	२१०
प्रमाणानुगम दो प्रकारका है इसका निर्देश	१६०	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	२१०
सर्व नोमर्व स्थितिउदीरणा	१६१	जघन्य अल्पबहुत्व	२१०
उत्कृष्ट अनुकृष्ट स्थितिउदीरणा	१६१	<b>भुजगारस्थितिउदीरणा</b>	२१
जघन्य अल्पबहुत्व स्थितिउदीरणा	१६२	उसके १३ अनुयोगद्वारोकी सूचना	२११
मादिआदि स्थितिउदीरणा	१६२	समुत्कीर्तनानुगम	२११
स्वामित्वानुगमके दो भेद	१६२	स्वामित्वानुगम	२११
उत्कृष्ट स्वामित्वानुगम	१६२	कालानुगम	२१२
जघन्य स्वामित्वानुगम	१६३	अंतरानुगम	२१४
कालानुगमके दो भेद	१६४	नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचयानुगम	२१५
उत्कृष्ट कालानुगम	१६४	भागाभागानुगम	२१६
जघन्य कालानुगम	१६६	परिमाणानुगम	२१६
अन्तरानुगमके दो भेद	१६८	क्षेत्रानुगम	२१७
उत्कृष्ट अन्तरानुगम	१६८	स्पर्शनानुगम	२१७
जघन्य अन्तरानुगम	१६९	कालानुगम	२१८
नाना जीवोकी अपेक्षा भगविचयानुगमके दो भेद	२००	अन्तरानुगम	२१९
उत्कृष्ट भगविचयानुगम	२००	भावानुगम	२१९
जघन्य भगविचयानुगम	२०१	अल्पबहुत्वानुगम	२१९
भागाभागानुगमके दो भेद	२०१	<b>पदनिक्षेप</b>	२२०
उत्कृष्ट भागाभागानुगम	२०१	इसके तीन अनुयोगद्वार	२२०
जघन्य भागाभागानुगम	२०१	समुत्कीर्तनानुगमके दो भेद	२२०
परिमाणानुगमके दो भेद	२०२	उत्कृष्ट समुत्कीर्तनानुगम	२२०
उत्कृष्ट परिमाणानुगम	२०२	जघन्य समुत्कीर्तनानुगम	२२०
जघन्य परिमाणानुगम	२०२	स्वामित्वानुगमके दो भेद	२२०
क्षेत्रानुगमके दो भेद	२०३	उत्कृष्ट स्वामित्वानुगम	२२०
उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम	२०३	जघन्य स्वामित्वानुगम	२२१
जघन्य क्षेत्रानुगम	२०३	अल्पबहुत्वके दो भेद	२२२
स्पर्शनानुगमके दो भेद	२०४	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	२२२
उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम	२०४	जघन्य अल्पबहुत्व	२२२
जघन्य स्पर्शनानुगम	२०५	<b>वृद्धिउदीरणा</b>	२२२
कालानुगमके दो भेद	२०६	उसके तेरह अनुयोगद्वार	२२२
उत्कृष्ट कालानुगम	२०६	समुत्कीर्तनानुगम	२२२
जघन्य कालानुगम	२०८	स्वामित्वानुगम	२२३
अन्तरानुगमके दो भेद	२०९	कालानुगम	२२३
उत्कृष्ट अन्तरानुगम	२०९		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अन्तरानुगम	२२६	जघन्य परिमाणानुगम	२६१
नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचयानुगम	२२८	क्षेत्रानुगमके दो भेद	२६३
भागाभागानुगम	२२८	उत्कृष्ट क्षेत्रानुगम	२६३
परिमाणानुगम	२२९	जघन्य क्षेत्रानुगम	२६३
क्षेत्रानुगम	२२९	स्पर्शानुगमके दो भेद	२६५
स्पर्शानुगम	२२९	उत्कृष्ट स्पर्शानुगम	२६५
कालानुगम	२३०	जघन्य स्पर्शानुगम	२६८
अन्तरानुगम	२३०	कालानुगमके दो भेद	३०२
भावानुगम	२३०	उत्कृष्ट कालानुगम	३०२
अल्पबहुत्वानुगम	२३०	जघन्य कालानुगम	३०४
		अन्तरानुगमके दो भेद	३०८
		उत्कृष्ट अन्तरानुगम	३०८
		जघन्य अन्तरानुगम	३०८
		दो प्रकारका भाव	३११
		अल्पबहुत्वके दो भेद	३११
		उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३११
		जघन्य अल्पबहुत्व	३१२
		स्थिति अल्पबहुत्वके दो भेद	३१३
		उत्कृष्ट स्थिति अल्पबहुत्व	३१३
		जघन्य स्थिति अल्पबहुत्व	३१४
		<b>भुजगार</b>	३१८
		समुत्कीर्तनानुगम	३१८
		स्वामित्वानुगम	३१९
		कालानुगम	३२१
		अन्तरानुगम	३२८
		नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचयानुगम	३३५
		भागाभागानुगम	३३७
		परिमाणानुगम	३३९
		क्षेत्रानुगम	३३९
		स्पर्शानुगम	३४०
		कालानुगम	३४३
		अन्तरानुगम	३४६
		भावानुगम	३४८
		अल्पबहुत्वानुगम	३४८
		<b>पदनिक्षेप</b>	३५
		इसके ३ अनुयोगद्वार	३५१
		समुत्कीर्तनानुगमके २ भेद	३५१

### ८ उत्तरप्रकृतिस्थिति उदीरण

२४ अनुयोगद्वारो तथा भुजगार आदिकी सूचना	२३१
अद्वाच्छेदके दो भेद	२३१
उत्कृष्ट अद्वाच्छेद	२३१
जघन्य अद्वाच्छेद	२३२
मर्वादि ४ अनुयोगद्वार	२३४
सादिआदि ४ अनुयोगद्वार	२३४
स्वामित्वानुगमके दो भेद	२३५
उत्कृष्ट स्वामित्वानुगम	२३५
जघन्य स्वामित्वानुगम	२३६
कालानुगमके दो भेद	२४०
उत्कृष्ट कालानुगम	२४०
जघन्य कालानुगम	२४६
अन्तरानुगमके दो भेद	२५४
उत्कृष्ट अन्तरानुगम	२५४
जघन्य अन्तरानुगम	२५९
मन्निर्कर्षके दो भेद	२६७
उत्कृष्ट सन्निर्कर्ष	२६७
जघन्य सन्निर्कर्ष	२७५
नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचयके दो भेद	२८८
उत्कृष्ट भंगविचय	२८८
जघन्य भंगविचय	२८८
भागाभागानुगमके दो भेद	२८८
उत्कृष्ट भागाभागानुगम	२८८
जघन्य भागाभागानुगम	२८९
परिमाणानुगमके दो भेद	२९०
उत्कृष्ट परिमाणानुगम	२९०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
उत्कृष्ट समुत्कीर्तनानुगम	३५१	स्वामिस्वानुगम	३५८
जघन्य समुत्कीर्तनानुगम	३५१	कालानुगम	३६०
स्वामित्वानुगमके दो भेद	३५१	अन्तरानुगम	३६६
उत्कृष्ट स्वामित्वानुगम	३५१	नानाजीवोकी अपेक्षा भंगत्रिचयानुगम	३७४
जघन्य स्वामित्वानुगम	३५४	भागभागानुगम	३७५
अल्पबहुत्व के दो भेद	३५५	परिमाणानुगम	३७७
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३५५	क्षेत्रानुगम	३७८
जघन्य अल्पबहुत्व	३५६	स्पर्शनानुगम	३७८
वृद्धि स्थितिउदीरणा	३५६	कालानुगम	३८२
उमके १३ अनुयोगद्वार	३५६	अन्तरानुगम	३८५
समुत्कीर्तनानुगम	३५६	भावानुगम	३८८
		असाबहुत्वानुगम	३८८
		स्थान	३९३





सिरि-जइवसहाइरियविरइय-बुण्णिमुत्तसमण्णिदं

सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइट्ठं

**क सा य पा हु डं**


तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

**जयधवला**

तत्थ

वेदगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो



वेदगवेदगवेदगमवेदगं वेदगंथसंसिद्धं ।

सिद्धं पणमिय सिरसा वोच्छं वेदगमहाहियारमहं ॥ १ ॥

---

जो सब वेदकोंमें अतिशय वेदक हैं अर्थात् चराचर विश्वके ज्ञाता हैं, जो शुभाशुभ कर्मफलके वेदनसे मुक्त हैं और वेदग्रन्थों ( जिनागम ) से जिनके अस्तित्वकी सिद्धि होती है उन सिद्ध परमेष्ठीको सिरसे प्रणाम करके मैं ( वीरसेन आचार्य ) वेदक नामक महाधिकारका व्याख्यान करता हूँ ॥ १ ॥

❀ वेदगे त्ति अणियोगद्वारे दोणिए अणियोगद्वाराणि । तं जहा—  
उदयो च उदीरणा च ।

§ १. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—वेदगे त्ति अणियोगद्वारं कसायपाहुडस्स पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्जे छट्ठं । तत्थेमाणि दोणिए अणियोगद्वाराणि भवन्ति । काणि ताणि त्ति सिस्साहिप्पायमासंक्रिय उदयो च उदीरणा चैव तेसिं णामणिएसेो कञ्चो । तत्थोदयो णाम कम्माणं जहाकालजण्हिदो फलविवागो । कम्मोदयो उदयो त्ति भण्हिदं होइ । उदीरणा पुण अपरिपत्तकालाणं चैव कम्माणमुवायविसेसेण परिपाचनं 'अपक्वपरिपाचनमुदीरणा' इति वचनात् । वुत्तं च—

कालेण उवायेण य पच्चन्ति जहा वणप्फइफलाइं ।

तह कालेण तवेण य पच्चन्ति कयाइं कम्माइं ॥ १ ॥ इदि

§ २. एवंविहउदयोदीरणाओ जत्थ परूविज्जन्ति ताणि वि अणियोगद्वाराणि तएणामधेयाणि । कधं पुण उदयोदीरणाणं वेदगववएसो ? ए, वेदिज्जमाणत्तसामएणावेक्खाए दोण्हमेदेसिं तव्ववएससिद्धीए विरोहाभावादो ।

❀ तत्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ ।

§ ३. तम्मि वेदगसण्हिदे महाहियारे उदयोदीरणवियप्पिदे चत्तारि सुत्त-

\* वेदक इस अनुयोगद्वारके दो अनुयोगद्वार हैं । यथा—उदय और उदीरणा ।

§ १. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—जो यह कषायप्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकारों में वेदक नामका छटा अनुयोगद्वार है उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं । वे कौन हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायके अनुरूप आशंका करके उदय और उदीरणा इस प्रकार उनका नामनिर्देश किया । प्रकृतमें कर्मोंके यथाकाल उत्पन्न हुए फलके विपाकका नाम उदय है । कर्मोंके उदयका नाम उदय है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु जिन कर्मोंके उदयका काल प्राप्त नहीं हुआ उनका उपाय विशेषसे पचना उदीरणा है, क्योंकि अपक्वका परिपाचन करना उदीरणा है ऐसा वचन है । कहा भी है—

जिस प्रकार वनस्पतिके फल परिपाककालके द्वारा या उपायके द्वारा परिपाकको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार किये गये कर्म परिपाककालके द्वारा या तपके द्वारा पचते हैं ॥ ॥

§ २. इस प्रकार उदय और उदीरणाका जिन अनुयोगद्वारोंमें कथन किया जाता है वे अनुयोगद्वार भी उन्हीं नामवाले होते हैं ।

शंका—उदय और उदीरणाकी वेदक संज्ञा कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उदय और उदीरणा दोनों ही सामान्यसे वेद्यमान हैं इस अपेक्षा उन दोनोंकी उक्त संज्ञाके सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

\* वेदक नामके इस अनुयोगद्वारमें चार सूत्रगाथाएँ हैं ।

§ ३. उदय और उदीरणा इन भेदोंसे युक्त वेदक संज्ञावाले इस महाधिकारमें गुणधर

गाहाओ गुणहराहरियमुहकमलविणिरगयाओ अत्थि ति भणिदं होइ । एदेण 'चत्तारि वेदगम्मि दु' इच्चेदस्स संबंघगाहावयवस्स परामरसो कओ ति दट्ठव्वो । संपहि संखाविसेसेणावहारिदाणं गाहाणं सरूवाणुवादमुहेण तदट्ठविवरणं कुणमाणो पुच्छावकमाह—

❀ तं जहा ।

§ ४. सुगमं ।

कदि आवलियं पवेसेइ कदि च पविस्संति कस्स आवलियं ।  
स्वेत्त-भव-काल-पोग्गल-ट्टिदिविवागोदयखयो दु ॥५९॥

§ ५. एसा पढमगाहा । एदीए पयडिउदीरणा पयडिउदयो तदुभयकारण-दव्वादिपरूवणा च कया । संपहि एदिस्से गाहाए अवयवत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—'कदि आवलियं पवेसेदि' ति एदेण पढमावयवेण पयडिउदीरणा परूविदा, कदि पयडीओ उदयावलिभंभंतरं पओगविसेसेण पवेसेदि ति सुत्तथावलंवरणादो । सा बुण पयडिउदीरणा दुविहा—मूलपयडिउदीरणा च उत्तरपयडिउदीरणा च । उत्तरपयडिउदीरणा दुविहा—एगेगुत्तरपयडिउदीरणा पयडिहाणउदीरणा चेदि । एत्थ सेसाणं देसामासयभावेण पयडिहाणउदीरणा चेव मुत्तकंठमेदेण सुत्तावयवेण णिदिट्ठा । तदो पयडिउदीरणा सव्वा चेव एदम्मि बीजपदे णिलीणा ति दट्ठव्वं ।

आचार्यके मुख कमलसे निकली हुई चार सूत्र गाथाएँ हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस वचन द्वारा सम्बन्ध गाथाके 'चत्तारि वेदगम्मि' इस अवयववचनका परामर्श किया है ऐसा जानना चाहिए । अब संख्याविशेषके द्वारा अवधारण का प्राप्त गाथाओंके स्वरूपके अनुवाद द्वारा उनके अर्थका विवरण करते हुए पृच्छावाक्यको कहते हैं—

\* यथा ।

§ ४. यह सूत्र सुगम है ।

कितनी प्रकृतियोंको उदयावलिमें प्रवेश कराता है और किस जीवके कितनी प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रविष्ट होती हैं, क्योंकि क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलको निमित्त-कर कर्मोंका स्थितिविपाक और उदयक्षय होता है ॥५९॥

§ ५. यह प्रथम गाथा है । इस द्वारा प्रकृति उदीरणा, प्रकृतिउदय और इन दोनों के कारणभूत द्रव्यादिका कथन किया गया है । अब इस गाथाके अवयवोंका अर्थविवरण करते हैं । यथा—'कदि आवलियं पवेसेदि' इस प्रथम अवयवके द्वारा प्रकृतिउदीरणा कही गई है, क्योंकि कितनी प्रकृतियोंको उदयावलिके भीतर प्रयोग-विशेषके द्वारा प्रवेश कराता है इस प्रकार यहाँ उक्त गाथासूत्रके अर्थका अवलम्बन लिया गया है । वह प्रकृतिउदीरणा दो प्रकार की है—मूलप्रकृतिउदीरणा और उत्तरप्रकृतिउदीरणा । उत्तरप्रकृतिउदीरणा दो प्रकार की है—एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणा और प्रकृतिस्थानउदीरणा । यहाँ पर शेष उदीरणाओंके देशामर्षक-भावसे इस सूत्रावयवके द्वारा प्रकृतिस्थानउदीरणा ही मुत्तकण्ठ हांकर निर्दिष्ट की गई है ।



§ ६. 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इच्चेदेण वि विदियसुत्तावयवेण पयडिउदयो सप्पभेदो समुद्दिट्ठो । किं कारणं ? कदि च केत्तियाञ्चो खलु पयडीञ्चो कस्स जीवस्स आवलियमुदयावलयिभन्तरमुदीरणाए विणा ट्ठिदिक्खएण पविसंति ति पुच्छावलंबणादो । अथवा उदयावलयिपविट्ठोदयाणुदयपयडीञ्चो घेत्तूण पवेससएिणदो अत्थाहियारो एदेण सुत्तावयवेण सूचिदो ति दट्ठव्वो; चुएिणसुत्तएिणवद्धत्तपरूवणाए सवित्थरमुवरि समुवलंभादो । जइ एवं; वेदगे ति अणियोगद्वारे उदयो च उदीरणा चेदि दोएहमत्थाहियाराणं पुच्चमब्भुवगमं कादूण संपहि तदुभयवदिरित्तपवेसपरूवणावलंबणे सुत्तयारस्स पइएणादत्थपरिच्चागदोसो पसज्जइ ति ? ए एस दोसो, केण वि पयारेखा तस्स वि उदयंतम्भावदंसणादो । तदो पयडिउदयो पयडिपवेसो चेदि एदे दोएिण अणियोगा 'कदि च पविस्संति कस्स आवलियं' इच्चेदेण सुत्तावयवेण संगहिदा ति दट्ठव्वं ।

§ ७. एवं गाहापुच्चद्वे पडिचद्वाराणं पयडिउदयोदीरणाणं एिणहेउत्त-एिरायरणमुहेण सहेउत्तपदुप्पायणद्वं गाहापच्छिमद्वस्सावयारो—'खेत्त-भव-काल-पोग्गल-ट्ठिदि-विवागोदयखओ दु ।' एतदुक्कं भवति—खेत्त-भव-काल-पोग्गले समस्सिउएण जो ट्ठिदिविवागो उदयक्खयो च सो जहाकममुदीरणा उदयो च भण्णइ इसएिण प्रकृतिउदीरणा समस्त ही इस बीजपदमे अन्तर्निहितं हे एसा जानना चाहिए ।

§ ६. 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इस दूसरे सूत्रावयवके द्वारा भी अपने उत्तर भेदोंके साथ प्रकृतिउदयका कथन किया गया है, क्योंकि इसमें 'कदि च' अर्थात् कितनी प्रकृतियों किस जीवके 'आवलियं' अर्थात् उदयावलिके भीतर उदीरणाके बिना स्थितिका क्षय होनेसे प्रवेश करती है इसप्रकार पृच्छाका अवलम्बन लिया है । अथवा उदयावलिके भीतर प्रावृष्ट हुई उदयप्रकृतियों और अनुदयप्रकृतियोंको ग्रहण कर प्रवेश संज्ञावाला अर्थाधिकार इस सूत्रावयवके द्वारा सूचित किया गया है ऐसा प्रकृतमें जानना चाहिए, क्योंकि चूर्णिसूत्रमें निबद्ध होकर उक्त परूपणा विस्तारके साथ आगे उपलब्ध होती है ।

शंका—यदि ऐसा है तो वेदक इस अनुयोगद्वारमें उदय और उदीरणा इन दो अनुयोगद्वारोंको पहले स्वीकार करके अब इन दोनों अर्थाधिकारोंसे भिन्न प्रवेशपरूपणावाले अर्थाधिकारके कथनका अवलम्बन लेने पर सूत्रकारको प्रतिज्ञात अर्थका त्याग करनेका दोष लगता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकारसे उसका भी उदयके भीतर अन्तर्भाव देखा जाता है । इसलिए प्रकृतिउदय और प्रकृतिप्रवेश ये दो अनुयोगद्वार 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इस सूत्रावयवके द्वारा संग्रहीत किये गये हैं ऐसा यहाँ जानना चाहिए ।

§ ७. इसप्रकार गाथाके पूर्वार्धमें जो प्रकृतिउदय और प्रकृतिउदीरणा प्रतिबद्ध है उनके निरहेतुकपनेके निराकरणद्वारा सहेतुकपनेका कथन करनेके लिए गाथाके 'खेत्त-भव-काल-पोग्गल-ट्ठिदिविवागोदयखओ दु' इस परिचमार्थका अवतार हुआ है । उक्त कथनका यह तात्पर्य है कि क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलका आश्रय लेकर जो स्थितिविपाक और उदयक्षय होता है उसे

त्ति । संपहि खेत्तादीणमत्थो वुच्चदे । तं जहा—खेत्तमिदि भणिदे णिरयादिखेत्तस्स गहणं कायव्वं । भव इदि भणिदे एइंदियादिभवस्स गहणं कायव्वं । काल इदि भणिदे सिसिर-वसंतादिकालविसेसस्स गहणं कायव्वं । वाल-जोव्वण-थविरादिकाल-जणिदपज्जायस्स वा । पोग्गल इदि भणिदे गंध-तंबूल-वत्थाभरणविसेसत्थकंदयादि-दव्वाणमिट्ठाणिट्ठसरूवाणं [ गहणं ] कायव्वं । एवमेदे खेत्त-भव-काल-पोग्गले पडुच्च कम्माणमुदयोदीरणसरूवो फलविवागो होदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।

§ ८. अथवा 'कदि आवलियं पवेसेदि' त्ति पयडिउदीरणा 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इदि उदयोदीरणावदिरत्तो पयडिपवेसो त्ति विदियो अत्थाहियारो । एवं गाहा-पुव्वद्धे दो चेव अत्थाहियारा पडिबद्धा । पुणो 'खेत्त-भव-काल-पोग्गल ट्ठिदिविवागोदयखयो दु' त्ति एदम्मि गाहापच्छद्धे कम्मोदयो सकारणो पडिबद्धो त्ति वेत्तव्वो, चुणिएणसुत्तयारेण मुत्तकंठमुवरि तथा परूविस्समाणत्तादो । कथं पुण कम्मोदयस्स एसो गाहावयवो वाचओ त्ति वुत्ते वुच्चदे—खेत्त-भव-काल-पोग्गले अस्सिऊण जो ट्ठिदिक्खयलक्खणो कम्मस्स विवागो सो उदयो त्ति ववहिदसंबंधवसेण सुत्तत्थवक्खाणादो, एसो गाहापच्छिमद्धो कम्मोदयस्स वाचओ त्ति वेत्तव्वं ।

कर्मसे उदारणा और उदय कहत हैं । अब क्षेत्रादिकका अर्थ कहने हैं । यथा - क्षेत्र ऐसा कहने पर नरकादि क्षेत्रका ग्रहण करना चाहिए । भव ऐसा कहने पर एकेन्द्रियादिरूप भवका ग्रहण करना चाहिए । काल ऐसा कहने पर शिपिर और वसन्त आदि काल विशेषका ग्रहण करना चाहिए अथवा बालकाल, यौवनकाल और स्थविर आदि कालके आलम्बनसे उत्पन्न हुई पर्याय का ग्रहण करना चाहिए । तथा पुद्गल ऐसा कहने पर इष्टानिष्टरूप गन्ध, ताम्बूल, वस्त्र और आभरणविशेषरूप स्कन्ध आदि द्रव्योंका ग्रहण करना चाहिए । इसप्रकार इन क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंका आलम्बन लेकर कर्मोंका उदय और उदीरणरूप फलविपाक होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

§ ८. अथवा 'कदि आवलियं पवेसेदि' इस द्वारा प्रकृतिउदीरणा नामवाला पहला अर्थाधिकार तथा 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' इस द्वारा उदय और उदीरणके सिवा प्रकृति-प्रवेश नामवाला यह दूसरा अधिकार कहा गया है । इसप्रकार गाथाके पूर्वार्थमे दो ही अर्थाधिकार प्रतिबद्ध हैं । पुनः गाथाके 'खेत्त-भव-काल-पोग्गलट्ठिदिविवागोदयखयो दु' इस परिच-मार्थमे कारण सहित कर्मोदय नामक अधिकार प्रतिबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चूर्णिसूत्रकार मुक्तकण्ठ होकर आगे इसीप्रकार कथन करनेवाले है ।

**शंका—**यह गाथाका परिचमार्थ कर्मोदयका वाचक कैसे है ?

**समाधान—**क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलोंका आश्रय लेकर जो स्थितित्तयलक्षण कर्मका विपाक होता है वह उदय है इसप्रकार व्यवहित सम्बन्धवशा सूत्रके अर्थका व्याख्यान करनेमे यह गाथाका परिचमार्थ कर्मोदयका वाचक है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

## को कदमाए ट्टिदीए पवेसगो को व के य अणुभागे । सांतर-णिरंतरं वा कदि वा समया दु बोद्धव्वा ॥६०॥

§ ९. एसा विदियगाहा ट्टिदि-अणुभाग-पदेसुदीरणासु पडिबद्धा । तं जहा—  
'को कदमाए ट्टिदीए पवेसगो' इच्चेदेण पढमावयवेण ट्टिदिउदीरणा सूचिदा । 'को व  
के य अणुभागे इच्चेदेण वि विदियावयवेण अणुभागुदीरणा परूविदा । एत्थेव पदे  
पदेसउदीरणा वि णिहिट्ठा त्ति दडुच्चा; ट्टिदि-अणुभागाणं पदेसाविणाभावित्तादो ।  
देसामासयणाएण तस्सेह गहणं काव्यव्वं । एवमेदेण गाहापुच्चद्वेण ट्टिदि-अणुभाग-  
पदेसुदीरणाओ मामित्तमुहेण पुच्छिदाओ । एदेणेव ट्टिदि-अणुभाग-पदेसुदयो तेसिं पवेसो  
च सूचिदो; देसामासयभावेणेदस्म पयट्टत्तादो । 'सांतरणिरंतरं वा० बोद्धव्वा' त्ति  
उदयोदीरणाणं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसविसेसिदाणं सांतरकालो णिरंतरकालो वा  
केत्तिया समयया त्ति एदेण पुच्छावकेण णाणेगजीवसबंधिकालंतराणं परूवणा सूचिदा ।  
एत्थतणविदिय'वा'-सदेण अणुत्तसमुच्चयद्वेण समुक्कित्तादिसेसाणियोगद्दाराणं  
परूवणा सूचिदा । तदो समुक्कित्तादि जाव अप्पावहुए त्ति चउवीसमणि श्रोमद्दाराणं  
जहासंभवमुदयोदीरणाविमयाणं सूचणमेदेण कदमिदि धेतव्वं ।

कौन जीव किस स्थितिमें और कौन जीव किस अनुभागमें कर्मोंका प्रवेश  
करानेवाला है तथा इनका सान्तर और निरन्तर काल और अन्तर कितने समय तक  
होता है यह जानने योग्य है ॥६०॥

§ ९. यह दूसरी गाथा स्थितिउदीरणा, अनुभागउदीरणा और प्रदेशउदीरणाके विषयमें  
प्रतिबद्ध है । यथा—'का कदमाए ट्टिदीए पवेसगा' इसप्रकार इस प्रथम अवयवके द्वारा स्थिति-  
उदीरणा सूचित की गई है । 'को वा के य अणुभागे' इसप्रकार इस द्वितीय अवयवके द्वारा भी  
अनुभागउदीरणा कही गई है । तथा इसी पदमें प्रदेशउदीरणा भी निर्दिष्ट की गई है ऐसा जानना  
चाहिए, क्योंकि स्थिति और अनुभाग प्रदेशोंके अविनाभावी होते हैं । अथवा देशामर्षक न्यायसे  
उसका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । इसप्रकार इस गाथाके पूर्वार्धद्वारा स्थितिउदीरणा, अनु-  
भागउदीरणा और प्रदेशउदीरणाके स्वामित्वकी प्रमुखता द्वारा पृच्छा की गई है । तथा इसी  
द्वारा स्थितिउदय, अनुभागउदय और प्रदेश उदय तथा उनका प्रवेश सूचित किया गया है,  
क्योंकि देशामर्षकभावसे यह वचन ( गाथाका पूर्वार्ध ) प्रवृत्त हुआ है । 'सातर-णिरंतरं वा०  
बोद्धव्वा ।' अर्थात् प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसे विशेषताको प्राप्त हुए उदय और  
उदीरणाका सान्तर और निरन्तर काल कितना है इसप्रकार इस पृच्छावाक्यके द्वारा नाना जीव  
और एक जीवसम्बन्धी काल और अन्तरपरूपणा सूचित की गई है । तथा यहाँ आये हुए  
अनुक्तका समुच्चय करनेवाले दूसरे 'वा' शब्दके द्वारा समुत्कीर्तना आदि शेष अनुयोगद्दारोकी  
परूपणा सूचित की गई है । इसलिए यथासम्भव उदय और उदीरणाको विषय करनेवाले  
समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक चौबीस अनुयोगद्दारोका सूचन इस वचनके द्वारा किया  
गया है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए ।

बहुगदरं बहुगदरं से काले को णु थोवदरगं वा ।

अणुसमयमुदीरेतो कदि वा समयं उदीरेदि ॥६१॥

§ १०. एसा तदियगाहा । एदीए पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसविसयस्स भुजगाराणियोगो सप्पभेदो णिदिट्ठो । तं जहा—णिरुद्धसमयादो 'से काले' समणंतर-समए 'बहुगदरं० को उदीरेदि' ति एदेण पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसविसयस्स भुजगार-पदस्स णिहेसो कओ । 'को णु थोवदरगं वा' ति एदेण वि तच्चिसयअप्पदरपदं जाणाविदं । एत्थतण- 'वा'-सहेणाणुत्तसमुच्चयट्ठेणावट्ठिदावत्तव्वपदाणं गहणं कायव्वं । तदो एदेण गाहाणुव्वट्ठेण पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसुदीरणाविसयो भुजगाराणियोगो परुविदो ति सिद्धं । 'अणुसमयमुदीरेतो' अणुसमयं समयं पडि भुजगारादिसरूवेणुदी-रेमाणो 'कदि वा समए' केचिए वा समए णिरंतरमुदीरेदि ति एदेण भुजगार-विसयकालाणियोगहारं सूचिदं । एदेणैव देसामासयवयणेण सेसाणियोगहारणं पि संगहो कायव्वो । एदेणैव पदणिकखेवो वड्डी च परुविदा; भुजगारविसेसो पदणिकखेवो, पदणिकखेवविसेसो वड्ढि ति णायादो ।

\* विवक्षित समयसे तदनन्तर समयमें कौन जीव बहुतर बहुतर कर्मोंकी उदीरणा करता है और कौन जीव अल्पतर अल्पतर कर्मोंकी उदीरणा करता है तथा प्रति समय उदीरणा करता हुआ यह जीव कितने समय तक निरन्तर उदीरणा करता है ॥६१॥

§ १०. यह तीसरी गाथा है । इत द्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक अपने भेदोंके साथ भुजगारअनुयोगद्वारा निर्दिष्ट किया गया है । यथा—विवक्षित समयसे 'से काले' अर्थात् तदनन्तर समयमें बहुतर बहुतर कर्मोंकी कौन उदीरणा करता है इसप्रकार इस वचनद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक भुजगारपदका निर्देश किया गया है । 'को णु थोवदरगं वा' इसप्रकार इम वचन द्वारा भी तद्विषयक अल्पतरपदका ज्ञान कराया गया है । यहाँ पर अनुक्तका समुच्चय करनेके लिए आये हुए 'वा' शब्दके द्वारा अवस्थित और अवक्तव्य पदोंका ग्रहण करना चाहिए । इसलिए गाथाके पूर्वार्धद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश-विषयक भुजगार अनुयोगद्वाराकी प्ररूपणा की गई है यह सिद्ध होता है । 'अणुसमयमुदीरेतो' अर्थात् प्रत्येक समयमें भुजगारादि रूपसे उदीरणा करता हुआ यह जीव 'कदि वा समए' अर्थात् कितने समय तक निरन्तर उदीरणा करता है इसप्रकार इस वचनके द्वारा भुजगार विषयक कालानुयोगद्वारा सूचित किया गया है । तथा इसी देशामर्षक वचनके द्वारा शेष अनुयोगद्वारोंका भी संग्रह किया गया है । तथा इसी वचन द्वारा पदनिक्षेप और वृद्धि अनुयोगद्वारा की प्ररूपणा की गई है, क्योंकि भुजगार विशेषका नाम पदनिक्षेप है और पदनिक्षेपविशेषका नाम वृद्धि है ऐसा न्याय है ।

जो जं संकामेदि य जं बंधदि जं च जो उदीरेदि ।

तं केण होइ अहियं ट्टिदि अणुभागे पदेसग्गे ॥६२॥

॥ ११. एसा चउत्थी मूलगाहा । एदिस्से वत्तव्वं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेस-विसयाणं बंध-संक्रमोदयोदीरणा-संतकम्माणं जहण्णुकस्स-पदविसेसियाणमप्पाबहुअ-गवेमणं । तं जहा—‘जो जं संकामेदि’ त्ति वुत्ते संक्रमो गहेयव्वो । सो च पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसभेयभिण्णो जहण्णुकस्सपदविसेसियो वेत्तव्वो । ‘ट्टिदि अणुभागे पदेसग्गे’ त्ति वयणादो पयडीए गहणमेत्थ ण पावदि त्ति णासंक्रियव्वं; पयडिवदि-रित्ताणं ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणमभावेण पयडीए अणुत्तसिद्धत्तादो । ‘जो जं बंधदि’ त्ति एदेण बंधो पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसभेयभिण्णो वेत्तव्वो । एत्थेव संतकम्मस्स वि अंतव्भावो वक्खाणोयव्वो । ‘जं च जो उदीरेदि’ त्ति एदेण वि पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसभेयभिण्णाए उदीरणाए उदयसहगदाए गहणं कायव्वं । ‘तं केण होइ अहियं’ इदि वुत्ते बंधसंक्रमोदयोदीरणासंतकम्मवियप्पाणं मज्जे कत्तो कदमं केत्तिएणाहियं होइ त्ति पुच्छा कया होइ । ‘ट्टिदि अणुभागे पदेसग्गे’ इदि सुत्तावयवो बंधसंक्रमोदीरणाणं संतकम्मोदयमहगयाणां विसयपदमण्डो दट्ठव्वो । ण च पयडीए एत्थामंभवो आगं कणिज्जो; दत्तुत्तरत्तरादो । तम्हा बंधो संक्रमो उदयो उदीरणा

\* जो जीव स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंमें से जिसे संक्रमित करता है, जिसे बाँधता है और जिसे उदीरित करता है वह किससे अधिक होता है ॥६२॥

॥ ११. यह चौथी मूलगाथा है । जघन्य और उल्कृष्ट पदोंसे विशेषताको प्राप्त हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशविषयक बन्ध, संक्रम, उदय, उदीरणा और सत्कर्मके अल्पबहुत्वकी गवेषणा करना इसका वक्तव्य है । यथा—‘जो जं संकामेदि’ ऐसा कहने पर संक्रमका ग्रहण करना चाहिए । और वह जघन्य और उल्कृष्ट पदसे विरोधताको प्राप्त होकर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशभेदसे अनेक प्रकारका ग्रहण करना चाहिए । ‘ट्टिदि अणुभागे पदेसग्गे’ इस वचन द्वारा यहाँ पर प्रकृतिका ग्रहण नहीं प्राप्त होता ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृतिके बिना स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंका अभाव होनेसे प्रकृति अनुक्तसिद्ध है । ‘जो जं बंधदि’ इसप्रकार इस वचनद्वारा प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे अनेक प्रकारके बन्धका ग्रहण करना चाहिए । तथा यहाँ पर सत्कर्मके अन्तर्भावका भी व्याख्यान करना चाहिए । तथा ‘जं च जो उदीरेदि’ इसप्रकार इस वचनके द्वारा भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे अनेक प्रकारकी उदयके साथ उदीरणाका ग्रहण करना चाहिए । ‘तं केण होइ अहियं’ ऐसा करने पर बन्ध, संक्रम, उदय, उदीरणा और सत्कर्मरूप विकल्पोंके मध्य किससे कौन कितना अधिक होता है यह पृच्छा की गई है । ‘ट्टिदि अणुभागे पदेसग्गे’ यह सूत्रावयव सत्कर्म और उदय सहित बन्ध, संक्रम और उदीरणाके विषयको दिखलानेके लिये आया है ऐसा जानना चाहिए । यहाँ पर प्रकृतिका कथन असम्भव है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर पूर्वमें ही दे आये हैं । इसलिए बन्ध, संक्रम, उदय, उदी-

संतकम्ममिदि एदेसिं पंचएहं वियप्पायां जहएणस्स जहएणएण, उकस्सस्स उकस्सएण पयडीहिं द्विदीहिं अणुभागेहिं पदेसेहिं य थोवबहुत्तपरूवणा । एदिस्से चउत्थसुत्तगाहाए अत्थो त्ति सिद्धं ।

§ १२. एवमेदासिं सुत्तगाहाणमवयारं कादूण संपहि एत्थ पढमगाहाए वक्खाणां कुणमाणो चुएणिसुत्तयारो एसा गाहा एदम्मि अत्थविसेसे पडिबद्धा त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तमाह—

❀ तत्थ पढमिल्लगाहा पयडिउदीरणाए पयडिउदए च बद्धा ।

§ १३ गयत्थमेदं सुत्तं, गाहाणमुत्थाणत्थपरूवणाए चेव पयदत्थस्स समत्थियत्तादो । एवमेदेण सुत्तेण पयडिउदीरणाए पयडिउदए च पढमगाहाए पडिबद्धत्तं सामएणेण जाणाविय संपहि पदच्छेदमुहेण पढमगाहाए कदमम्मि पदे पयडिउदीरणा पडिबद्धा, कदमम्मि वा पयडिउदयो त्ति एदस्स विसेसस्स जाणावणट्टमुत्तरं सुत्तमाह—

❀ कदि आवलियं पवेसेदि त्ति एस गाहाए पढमपादो पयडिउदीरणाए ।

§ १४. एत्थ पडिबद्धो त्ति अहियारसंबंधो कायव्वो । सेसं सुगमं । एवं ताव गाहापढमावयवे पयडिउदीरणाए पडिबद्धत्तं परूविय पुणो वि तत्थेव विसेसणिद्धारणट्टमिदमाह—

रण्णा और सत्कर्म इसप्रकार इन पाँच भेदोंके जघन्यका जघन्यके साथ और उत्कृष्टका उत्कृष्टके साथ प्रकृतियों, स्थितियों, अनुभागों और प्रदेशोंका अवलम्बन लेकर अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा की गई है। इसप्रकार यह चौथी सूत्रगाथाका अर्थ है यह सिद्ध हुआ।

§ १२. इस प्रकार इन सूत्रगाथाओंका अवतार करके अब यहाँ पर प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हुए चूर्णिसूत्रकार यह गाथा इस अर्थविशेषमें प्रतिबद्ध है ऐसा जतलानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

\* उनमेंसे प्रथम गाथा प्रकृति उदीरणा और प्रकृति उदयमें प्रतिबद्ध है ।

§ १३. यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि उक्त गाथाओंके उत्थानिकारूप अर्थ की प्ररूपणाके द्वारा ही प्रकृत अर्थका समर्थन कर आये है। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा प्रथम गाथा प्रकृति उदीरणा और प्रकृति उदयमें प्रतिबद्ध है इस बातका सामान्यसे ज्ञान कराके अब पदच्छेदकी प्रमुखतासे प्रथम गाथाके किस पदमें प्रकृतिउदीरणा प्रतिबद्ध है तथा किस पदमें प्रकृतिउदय प्रतिबद्ध है इस प्रकार इस विशेषज्ञ ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

\* 'कदि आवलियं पवेसेदि' यह गाथाका प्रथम पाद प्रकृतिउदीरणामें प्रतिबद्ध है ।

§ १४. यहाँ प्रतिबद्ध है इस पदका अधिकारके साथ सम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार गाथाके प्रथम अवयवमें प्रकृतिउदीरणाकी प्रतिबद्धताका कथन करके फिर भी उसीमें विशेष अर्थका निर्धारण करनेके लिए यह बचन कहा है—

❀ एवं पुण सुत्तं पयडिङ्गाणउदीरणाए बद्धं ।

§ १५. कुदो ? कदिसदस्स भेदगणणप्पयस्स अरणत्थासंभवादो । एतहुत्तं भवति—पयडिउदीरणा दुविहा—मूलपयडिउदीरणा उत्तरपयडिउदीरणा च । उत्तर-पयडिउदीरणा दुविहा—एगेगुत्तरपयडिउदीरणा पयडिङ्गाणउदीरणा चेदि । एत्थ पयडि-ङ्गाणउदीरणाए पडिबद्धमेदं सुत्तं; णाण्णत्थेत्ति । जइ एवं; मूलपयडिउदीरणाए एगेगुत्तर-पयडिउदीरणाए च एत्थ परूवणा ण जुज्जदे; गाहासुत्तेण तासिमसंगहियत्तादो ? ण एस दोसो; देसामासयण्णाएण तेसिं पि तत्थ संगहियत्तादो ।

❀ एवं ताव डुवणीयं ।

§ १६. एदं पयडिङ्गाणुदीरणापडिबद्धं सुत्तपदं ताव डुवणीयं । किं कारणं ? एगेगपयडिउदीरणाए अपरूविदाए तप्परूवणासंभवादो ।

❀ एगेगपयडिउदीरणा दुविहा—एगेगमूलपयडिउदीरणा च एगेगु-त्तरपयडिउदीरणा च ।

§ १७. एगेगपयडिउदीरणा ताव मूलुत्तरपयडिभेयभिरणा विहासियव्वा त्ति वुत्तं होइ ।

❀ एदाणि वे वि पत्तेगं चउवांसमणियोगहारेहिं मग्गिऊण ।

\* परन्तु यह सूत्र प्रकृतिस्थानउदीरणामें प्रतिबद्ध है ।

§ १५. क्योंकि भेदोंकी गणना करनेवाला 'कति' शब्द अनर्थक नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है—प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी हैं—मूल प्रकृति उदीरणा और उत्तर प्रकृति उदीरणा । उत्तर प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है—एकैकप्रकृतिउदीरणा और प्रकृतिस्थान-उदीरणा । इनमेंसे यहाँ पर प्रकृतिस्थानउदीरणामे यह सूत्र प्रतिबद्ध है, अन्यत्र नहीं ।

शंका—यदि ऐसा है तो मूलप्रकृतिउदीरणा और एकैकप्रकृतिउदीरणा इनकी प्ररूपणा यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि गाथा सूत्र द्वारा उनका संग्रह नहीं किया गया है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि देशामर्षक न्यायसे उनका भी उसमें संग्रह हुआ है ।

\* परन्तु इसे स्थगित करना चाहिए ।

§ १६. प्रकृतिस्थान उदीरणासे सम्बन्ध रखनेवाले इस सूत्र पदको स्थगित करना चाहिए, क्योंकि एकैकप्रकृतिउदीरणाकी प्ररूपणा किये बिना उसकी प्ररूपणा नहीं हो सकती ।

\* एकैकप्रकृतिउदीरणा दो प्रकारकी है—एकैकमूलप्रकृतिउदीरणा और एकैक उत्तरप्रकृतिउदीरणा ।

§ १७. मूलप्रकृतियों और उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे भेदको प्राप्त हुई एकैकप्रकृतिउदीरणा सर्व प्रथम व्याख्यान करने योग्य है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* इन दोनों ही प्रकारकी उदीरणाओंको पृथक् पृथक् चौबीस अनुयोगद्वारोंके-आश्रयसे अनुमार्गण करके..... ।

§ १८. एदाणि वे वि अहियारवत्थूणि एगेगपयडिपडिबद्धाणि पादेक्कं चउ-  
वीसमणियोगहारोहिं अणुमग्गिऊण तदो पच्छा 'कदि आवलियं पवेसेदि' ति एदस्स  
सुत्तावयवस्स अत्थविहासा कायन्वा, तेसु अविहासिदेसु तस्सावसराभावादो ति एसो  
एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । काणि ताणि चउवीसमणियोगहारणि ति वुत्ते समुक्कित्तणा-  
दीणि अप्पाबहुअपजंताणि ।

§ १९. संपहि जहासंभवमेदेहिं अणियोगहारोहिं मूलपयडिउदीरणा एगेगुत्तर-  
पयडिउदीरणा च परूवणमेदेण सुत्तेण समप्पिदमुच्चारणाबलेण वत्तइस्सामो । तं  
जहा—उदीरणा चउच्चिहा—पयडिउदीरणा द्विदिउदीरणा अणुभागुदीरणा पदेसुदीरणा  
चेदि । पयडिउदीरणा दुविहा—मूलपयडिउदीरणा च उत्तरपयडिउदीरणा च ।  
मूलपयडिउदीरणाए तत्थेमाणि सत्तारस अणियोगहारणि—समुक्कित्तणा सादि०  
अणादि० धुव० अद्दुव० सामित्तं जाव अप्पावहुगे ति ।

§ २०. समुक्कित्तणाणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
मोह० अत्थि उदीरणा च अणुदीरणा च । एवं मणुसतिए । आदेसेण एरइय०  
मोह० अत्थि उदीरणा । एवं सन्वणेरइय-सन्वतिरिक्खमणुस्सअपज०-सन्वदेवा ति ।  
एवं जाव० ।

§ २१. सादि०-अणादि०-धुव०-अद्दुवाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० ।

§ १८. एकैक प्रकृतिसं सम्बन्ध रखनेवाले इन दोनों ही अधिकारवस्तुओंका पृथक् पृथक्  
चौबीस अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे अनुमार्गण करके इसके बाद 'कदि आवलियं पवेसेदि' इस  
सूत्रायवके अर्थका व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान  
किये बिना उक्त सूत्रवचनके व्याख्यानका अवसर नहीं है । इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ  
है । वे चौबीस अनुयोगद्वार कौनसे हैं ऐसा पूछने पर समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व पर्यन्त  
य चौबीस अनुयोगद्वार हैं ऐसा कहा है ।

§ १९. अब यथासम्भव इन अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर मूलप्रकृतिउदीरणा और  
एकैकउत्तरप्रकृतिउदीरणाका कथन इस सूत्रसे प्राप्त हुए उच्चारणके बलसे बतलाते हैं ।  
यथा—उदीरणा चार प्रकारकी हैं—प्रकृतिउदीरणा, स्थितिउदीरणा, अनुभागउदीरणा और  
प्रदेशउदीरणा । प्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है—मूलप्रकृति उदीरणा और उत्तरप्रकृति  
उदीरणा । मूलप्रकृति उदीरणाके ये सत्रह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना, सादि, अनादि, ध्रुव,  
अध्रुव, और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक ।

§ २०. समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीयके उदीरक और अनुदीरक जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेशसे  
नारकियोंमें मोहनीयके उदीरक जीव हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त  
और सब देवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

२१. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ



ओघेण मोह० उदीरणा किं सादि० ४ ? सादि० अणादि० ध्रुव० अद्भुवा वा ।  
आदे० षेष्ठ मोह० उदीर० किं० सादि० ४ ? सादि० अद्भुवा वा । एवं चदुगदीसु ।  
एवं जाव० ।

§ २२. सामित्ताणु० दुविहो णिदे० । ओघे० मोह० उदीरणा कस्स ?  
अण्णदरस्स सम्माइडि० मिच्छाइडिस्स वा । एवं चदुगदीसु । पंचिदियतिरिक्ख-  
अपज्ज-मणुसअपज्ज०-अणुहिसादि । सव्वड्ढा त्ति मोह० उदीरणा कस्स० ? अण्णद० ।  
एवं जाव० ।

§ २३. कालाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उदीरणा  
केवचिरं कालादो ? तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादि-सपज्जवसिदो तस्स जह०  
अंतोमुहुत्तं, उक्क० उवड्ढपोग्गलपरियट्ठं । आदेसेण एरइय० मोह० उदीर० केव० ?  
जहण्णकुस्सट्ठिदीओ । एवं सव्वएरइय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज०-सव्वदेवा  
त्ति । मणुसति ए मोह० उदीर० जह० एयसमओ, उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि  
पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । एवं जाव० ।

और आदेश । ओघसे मोहनीय कर्मके उदीरक जीव क्या सादि हैं, अनादि हैं, ध्रुव है या अध्रुव  
हैं ? सादि हैं, अनादि हैं, ध्रुव हैं और अध्रुव हैं । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकर्मके उदीरक  
जीव क्या सादि हैं, अनादि हैं, ध्रुव हैं या अध्रुव हैं ? सादि और अध्रुव हैं । इसी प्रकार चारों  
गतियोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक यथायोग्य जान लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान तक मोहनीयकर्मकी उदीरणा अनादि है और  
सम्यग्दृष्टि जीवके उपशमश्रेणिसे उतरने पर उसकी उदीरणा सादि है । तथा वह अभव्योंकी अपेक्षा  
ध्रुव और भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव है, इसलिए यहाँ पर मोहनीयके उदीरक जीव ओघसे अनादि,  
सादि, ध्रुव और अध्रुव कहे गये हैं । किन्तु नरकगति आदि चारों गति मार्गणों सादि और  
सान्त हैं, इसलिए इनमें मोहनीय कर्मके उदीरकोंको सादि और सान्त कहा है । शेष कथन  
सुगम है ।

§ २२. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीय कर्मकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं ।  
इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और  
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीय कर्मकी उदीरणा किसके होती है ? अन्य-  
तरके होती है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीयकी उदीरणाका कितना काल है ? तीन भंग हैं । उनसे जो सादि-सान्त भंग है उसकी  
अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । आदेशसे  
नारकियोंमें मोहनीयकी उदीरणाका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।  
इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य-  
त्रिकमें मोहनीयकी उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व  
अधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ २४. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उदीर० जह० एयसमओ, उक० अंतोमु० । मणुसतिए मोह० उदी० जहणुणुक० अंतोमु० । सेसगइमग्गणासु णत्थि अंतरं, णिरंतरं । एवं जाव० ।

§ २५. णाणाजीवभंगविचयाणु० दुविहो० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० सिया सव्वे जीवा उदीरया, सिया उदीरया च अणुदीरगो च । सिया उदीरगा च अणुदीरगा च ३ । एवं मणुसतिए । आदेसेण णेरइय० मोह० अत्थि

**विशेषार्थ**—ओघसे मोहनीय कर्मकी उदीरणाके कालके तीन भंग हैं—अनादि-अनन्त अनादि-सान्त और सादि-सान्त । अभव्योंके और अभव्यसमान भव्योंके अनादि-अनन्त भंग होता है । जो भव्य जीव उपशमश्रेणि पर प्रथमवार चढ़ कर उसके अनुदीरक होते हैं उनके अनादि-सान्त भंग होता है । और जो जीव उपशमश्रेणिसं उतर कर पुनः उसकी उदीरणा करने लगते हैं उनके सादि-सान्त भंग होता है । यतः ऐसा जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक इसका उदीरक हो सकता है, अतः इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । आदेशसे चारों गतियोंमें जो काल कहा है वह स्पष्ट ही है । मात्र मनुष्यत्रिकमें जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणिमें उतरते समय एक समय उदीरक होकर जो मर कर देव हो जाता है उसकी अपेक्षा कहा है ।

§ २४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीय कर्मकी उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकमें मोहनीयकी उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष मार्गणाओं में मोहनीयकी उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है, वह निरन्तर है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़ कर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे एक आवली कालके शेष रहने पर एक समयके लिए अनुदीरक होकर तथा मरकर देव हो जाता है उसके मोहनीयकी उदीरणाका अन्तरकाल एक समय देखा जाता है और जो जीव उपशम-श्रेणि पर चढ़ कर सूक्ष्मसाम्परायमें चढ़ते समय एक आवली काल तक तथा उपशान्तगुण-स्थानमें चढ़ते और उतरते समय अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका अनुदीरक रह कर पुनः उसकी उदीरणा करने लगता है उसके उसकी उदीरणाका अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त देखा जाता है । यही कारण है कि यहाँ पर ओघसे मोहनीयकी उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यतः ओघसे जघन्य अन्तर दो गतियोंके आश्रयसे कहा है जो मनुष्यत्रिकमें नहीं बनता, इसलिए उनमें मोहनीयकी उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । गतिमार्गणाके शेष भेदोंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । इसलिए उनमें मोहनीयकी उदीरणाके अन्तरकालका निषेध किया है । अन्य मार्गणाओंमें इस व्याख्यान को ध्यानमें रखकर जहाँ अन्तरकाल सम्भव हो उसे उस प्रकारसे और जहाँ सम्भव न हो उसे उस प्रकारसे षटित कर लेना चाहिए ।

§ २५. नाना जीवों की अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकर्मके कदाचित् सब जीव उदीरक हैं । कदाचित् नाना जीव उदीरक हैं और एक जाव अनुदीरक है । कदाचित् नाना जीव उदीरक हैं और नाना जीव अनुदीरक

उदीरगा, अणुदीरगा णत्थि । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेवा त्ति । मणुस-अपज्ज० मोह० सिया उदीरगो सिया उदीरगा । एवं जाव० ।

॥ २६. भागाभागणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उदी० सव्वजी० केवडिओ भागो ? अणंता भागा । अणुदीर० अणंतभागो । मणुसेसु उदीरगा असंखेज्जा भागा । अणुदीर० असंखे०भागो । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० मोह० उदी० केवडि० ? संखेज्जा भागा । अणुदी० संखेज्जदिभागो । सेसगइमग्गणासु णत्थि भागाभागो । एवं जाव० ।

है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके सब जीव उदीरक हैं, अनुदीरक नहीं हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च और सब देवोंमें जानना चाहिये । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयका कदाचित् एक जीव उदीरक है । कदाचित् नाना जीव उदीरक हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—जितने काल तक एक भी जीव श्रेणी पर आरोहण कर एक आवलि प्रविष्ट सूक्ष्मसाम्पराय नहीं होता उतने काल तक सब संसारी लुब्धस्थ जीव मोहनीयके उदीरक ही होते हैं, इसलिए तो कदाचित् सब जीव मोहनीयके उदीरक होते हैं यह वचन कहा है । तथा जब नाना जीव श्रेणी पर आरोहण नहीं करने, किन्तु एक जीव उस पर आरोहण कर एक आवलि प्रविष्ट सूक्ष्मसाम्पराय या उपशान्तकषाय हो जाता है, तब नाना जीव मोहनीयके उदीरक और एक जीव अनुदीरक होता है, इसलिए कदाचित् नाना जीव मोहनीयके उदीरक और एक जीव अनुदीरक होता है यह वचन कहा है । तथा जब नाना जीव श्रेणी पर आरोहण कर एक आवलि प्रविष्ट सूक्ष्मसाम्पराय और उपशान्तकषाय हो जाते है तब नाना जीव मोहनीयके उदीरक और अनुदीरक दोनों प्रकारके पाये जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कदाचित् नाना जीव मोहनीयके उदीरक और नाना जीव मोहनीयके अनुदीरक होते हैं यह वचन कहा है । यह आघप्ररूपणा है जो मनुष्यत्रिकमें भी बन जाती है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें आघके समान जाननेकी सूचना की है । इनके सिवा गतिमार्गणाके अन्य जितने भेद हैं उनमें सब जीव मोहनीयके उदीरक ही होते है, इसलिए मोहनीयके सब जीव उदीरक होते हैं, अनुदीरक नहीं होते यह वचन कहा है । मात्र मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है । इसमें कदाचित् एक जीव होता है और कदाचित् नाना जीव होते हैं, इसलिए मनुष्य अपर्याप्तकोंमें कदाचित् एक जीव उदीरक होता है और कदाचित् नाना जीव उदीरक होते हैं यह वचन कहा है ।

॥ २६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण है । अनुदीरक जीव अनन्तमे भागप्रमाण है । मनुष्योंमें उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है और अनुदीरक जीव असंख्यातबे भागप्रमाण हैं ? मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मोहनीयके उदीरक जीव कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा अनुदीरक जीव संख्यातबे भागप्रमाण हैं । शेष गति मार्गणाके भेदोंमें भागाभाग नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—आगे आघसे और गति मार्गणाके अवान्तर भेदोंमें मोहनीयके उदीरको और अनुदीरकोके परिमाणका विचार किया है, उससे भागाभागका ज्ञान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अलगसे खुलासा नहीं किया है ।

§ २७. परिमाणानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उदी० केत्ति० ? अणंता । अणुदी० केत्ति० ? संखेजा । आदेसेण एरइय० मोह० उदीर० केत्ति० ? असंखेजा । एवं सव्वएरइय०-सव्वर्पाचिंदियतिरिक्ख०-मणुस०-अपज्ज०-देवगइदेवा भवणादि जाव अवरइदा त्ति । मणुसेसु मोह० उदी० केत्ति० ? असंखेजा । अणुदी० केत्ति० ? संखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० मोह० उदी० अणुदी० केत्ति० ? संखेजा । सव्वट्टे मोह० उदीर० केत्ति० ? संखेजा । तिरिक्खेसु मोह० उदीरगा केत्तिया ? अणंता । एवं जाव० ।

§ २८. खेत्ताण० दुविहो सि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उदी० केव० ? सव्वलोगे । अणुदी० लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्ख्वा० । एवरि अणुदीरगा णत्थि । सेसगइमग्गाणासु मोह० उदीर० लोगस्स असंखे०भागे । मणुसत्तिए अणुदी० ओघभंगो । एवं जाव० ।

§ २९. पोसणाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उदी० सव्वलोगो । अणुदी० लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्खेसु । एवरि अणुदी०

§ २७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अनुदी क जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और देवगतिमें देव तथा भवनवासियोंसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मोहनीयके उदीरक और अनुदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धिमें मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तिर्यञ्चोंमें मोहनीयके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २८. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अनुदीरक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अनुदीरणा नहीं है । गतिमार्गणाके शेष भेदोंमें मोहनीयके उदीरकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । मनुष्यत्रिकमें अनुदीरकोंके क्षेत्रका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे जो क्षेत्र बतलाया है और गतिमार्गणाके अवान्तर भेदोंका जो क्षेत्र है उसे जानकर यहाँ पर मोहनीयके उदीरकोंका क्षेत्र जान लेना चाहिए । अनुदीरक श्रेणियोंमें होते हैं और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर वह ओघसे तत्प्रमाण कहा है । किन्तु ये अनुदीरक जीव मनुष्यत्रिकमें ही होते हैं, इसलिए इनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ २९. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उदीरक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण है । तथा अनुदीरक जीवोंका स्पर्शन लोकके

एत्थि । आदेसेण गेरइय० मोह० उदीर० केव० पोसिदं ? लोगस्स असंखे० भागो  
 छचोइसभागा वा देसुणा । एवं सव्वणोरइय० । एवरि सगफोसणं । पढमाए खेत्तं ।  
 सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस० मोह० उदीर० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो  
 वा । एवरि मणुसतिए अणुदी० ओघभंगो । सव्वदेवेषु उदीर० अप्पणो पोसणं  
 एदव्वं । एवं जाव० ।

§ ३०. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उदीर०  
 केवचिरं ? सव्वद्धा । अणुदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोसु० । एवं चटुसु गदीसु ।  
 एवरि मणुसतियं मोत्तूणएणत्थाणुदीरगा एत्थि । मणुसअपज्ज० मोह० उदी० जह०  
 सुद्धाभवग्गहणं, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं जाव० ।

असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अनुदीरक जीव नहीं हैं। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। प्रथम पृथ्वीमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें मोहनीयके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोकका स्पर्शन किया है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें अनुदीरकोंका स्पर्शन ओघके समान है। सब देवोंमें उदीरकोंका स्पर्शन अपने अपने स्पर्शनके समान ले जाना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा-तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मोहनीयके अनुदीरक श्रेणिगत जीव होते हैं और उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर ओघसे अनुदीरकोंका स्पर्शन तत्प्रमाण बतला कर मनुष्यत्रिकमें भी इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। ओघसे और गति-मार्गणाके अवान्तर भेदोंमें जहाँ जो स्पर्शन है उसे ध्यानमें रख कर सर्वत्र उदीरकोंका स्पर्शन बतलाया है यह स्पष्ट ही है।

§ ३०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयके उदीरकोंका कितना काल है? सर्वदा है। अनुदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकको छोड़कर अन्यत्र अनुदीरणा नहीं है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयके उदीरकोंका जघन्य काल लल्लकभवमहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नाना जीवोंकी अपेक्षा भी मोहनीयकी अनुदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है, क्योंकि बहुतसे नाना जीव एक साथ उपशम-श्रेणि पर आरोहण करके एक समयके लिए अनुदीरक होकर उदीरक हो जाय यह भी सम्भव है और लगातार सख्यात समय तक उपशमश्रेणि पर आरोहण करके मरणके बिना वे उपशम-श्रेणिमें अन्तर्मुहूर्त काल तक उसके अनुदीरक बने रहें यह भी सम्भव है। यही कारण है कि यहाँ पर ओघ तथा मनुष्यत्रिककी अपेक्षा मोहनीयके अनुदीरकोंका जघन्य काल एक समय

§ ३१. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उदी० एत्थि अंतरं । अणुदी० जह० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवं चदुसु गदीसु । णवरि मणुसतियं मोत्तूणएणत्थ अणुदीरगा एत्थि । मणुसअपज्ज० मोह० उदी० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ३२. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ३३. अप्पावहुगाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० सव्वत्थोवा अणुदी० । उदीरगा अणंतगुणा । मणुसेसु सव्वत्थो० मोह० अणुदी० । उदीरगा असंखे०गुणा । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । एवरि संखेजगुणा कायव्वा । सेसगदीसु एत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव ।

और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा मनुष्य अपर्याप्त यह अन्तर मार्गणा है और उसका जघन्य काल क्षुल्लकभवप्रमाण तथा उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण होनेसे इस मार्गणामें उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल क्रमसे उक्त प्रमाण कहा है । शेष गतिमार्गणाके भेदोंमें उदीरकोंका काल जो सर्वदा कहा है सो वह उन मार्गणाओंके निरन्तर होनेसे ही कहा है ।

§ ३१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ओघसे मोहनीयके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । अनुदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकको छोड़कर अन्यत्र अनुदीरणा नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—उपशमश्रेणिमें मोहनीयके अनुदीरक जीव होकर तथा एक समयका अन्तर देकर पुनः दूसरे जीव अनुदीरक हो जावें यह भी सम्भव है और वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे अनुदीरक हों यह भी सम्भव है । यही कारण है कि यहाँ ओघ और मनुष्यत्रिककी अपेक्षा अनुदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है । मनुष्य अपर्याप्तक सान्तर मार्गणा होनेसे उनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण है, इसलिए इनमें मोहनीयके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है । गतिमार्गणाके शेष भेदोंमें अनुदीरक न होकर उदीरक ही होते हैं, इसलिए उनमें उदीरकोंके अन्तरकालका निषेध किया है । ओघसे भी सब या नाना जीव मोहनीयके उदीरक पाये जाते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे भी उदीरकोंके अन्तरका निषेध किया है ।

§ ३२. भाव सर्वत्र औदयिक होता है ।

§ ३३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके अनुदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । मनुष्योंमें मोहनीयके अनुदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनिर्यातियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करने चाहिए । शेष गतियोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३४. उत्तरपयडिउदीरणा दुविहा—एगेगउत्तरपयडिउदीरणा पयडिड्वाण-उदीरणा च । एगेगउत्तरपयडिउदीरणाए तत्थ इमाणि चउवीसमणिओगहाराणि—समुक्कित्तणा जाव अप्पाबहुए त्ति । समुक्कित्तणाणुं दुविहो णिं—ओघे० आदेसे० । ओघेण अट्ठावीसपयडीणमत्थि उदीरगा अणुदीरगा च । आदेसेण शेरइय० इत्थिवे०-पुरिसवे० अणुदीरगा, सेसाणमुदीरगाणुदीरगा अत्थि । एवरि एणुंसय० अणुदी० णत्थि । एवं सव्वशेरइय० । तिरिक्खाणमोघभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । एवरि पंचि०तिरि०पज्ज० इत्थिवे० अणुदी० । जोणिणी० पुरिस०-एणुंस० अणुदी० । इत्थिवे० अणुदी० णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-पुरिसवे० अणुदी० । मिच्छ०-एणुंस० अत्थि उदीरगा, अणुदीरगा णत्थि । सोलसक०-इरणोक्क० अत्थि उदीर० अणुदीर० । मणुसतिए ओघं । एवरि मणुसपज्ज० इत्थिवे० अणुदी० । मणुसिणी० पुरिस०-एणुंसयवे० अणुदीर० । देवेसु ओघं । एवरि एणुंस० अणुदी० । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसिय-सोहम्मिसाणदेवाणं । सणकुमारादि जाव एवगेवज्जा त्ति एवं चेव । एवरि इत्थिवे० अणुदी० । पुरिसवे० अणुदी० णत्थि । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-अणुंताणु०४-इत्थिवे०-एणुंस० अणुदी० । सेसाणमत्थि उदीर० अणुदी० । एवरि पुरिसवे० अणुदी० णत्थि ।

§ ३४. उत्तरप्रकृति उदीरणा दो प्रकारकी है—एकैकप्रकृति उदीरणा और प्रकृतिस्थान उदीरणा । एकैकप्रकृति उदीरणाके विषयमें ये चौबीस अनुयोगद्वारा होते हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके उदीरक और अनुदीरक जीव हैं । आदेशसे नारकियोंमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदके अनुदीरक जीव हैं । शेष प्रकृतियोंके उदीरक और अनुदीरक जीव हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अनुदीरणा नहीं है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भंग है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तक स्त्रीवेदके अनुदीरक होते हैं तथा योनिनी जीव पुरुषवेद और नपुंसकवेदके अनुदीरक होते हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीव सायक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके अनुदीरक होते हैं । मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरक होते हैं, अनुदीरक नहीं होते । सोलह कपाय और छह नोकषायोंके उदीरक और अनुदीरक दोनों प्रकारके होते हैं । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्त स्त्रीवेदके अनुदीरक होते हैं तथा मनुष्यिनी पुरुषवेद और नपुंसकवेदके अनुदीरक होते हैं । देवोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि ये नपुंसकवेदके अनुदीरक होते हैं । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, तथा सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर नौप्रैवेयकतकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि ये स्त्रीवेदके अनुदीरक होते हैं । इनमें पुरुषवेदकी अनुदीरणा नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अनुदीरक होते हैं । शेष प्रकृतियोंके उदीरक भी होते हैं और अनुदीरक भी होते हैं । इतनी विशेषता है कि ये पुरुषवेदके अनुदीरक नहीं होते ।

एवं जाव० ।

§ ३५. सव्वउदीर०-णोसव्वउदीरणाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण सव्वाओ पयडीओ उदीरंतस्स सव्वुदीरणा । तदूणं णोसव्वुदीर० । एवं जाव० ।

§ ३६. उक्कस्साणुक०उदीरणाणु० दुवि० णिहे० । ओघेण सव्वुकस्सियाओ पयडीओ उदीरयंतस्स उक्क० उदीरणा । तदूणमणुक० उदीरणा । एवं० जाव० ।

§ ३७. जह०उदी०-अज०उदीरणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण एगं पयडिमुदीरयंतस्स जहएणउदीरणा । तदो उवरिमजह०उदीर० । एवं मणुसतिए । आदेसेण एोरइय० छप्पयडीओ उदीरेमाण० जह० उदी० । तदो उवरि अजह०उदीर० । एवं सव्वएोरइय०-सव्वदेवा० । सव्वतिरिक्खेसु पंचपयडीओ उदीरेमाणयस्स जहण्णउदी० । तदो उवरिमजह०उदीर० । णवरि पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज०-मणुसअपज्ज० अट्टपयडीओ उदीरेमाण० जह० उदीर० । तदो उवरि

इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—कुञ्ज अपवादोंको छोड़कर साधारण नियम यह है कि जब जिस प्रकृतिका उदय होता है तब उसकी उदीरणा भी होती है । इस नियमको ध्यानमें रखकर सर्वत्र समुत्कीर्तनाका विचार कर लेना चाहिए ।

§ ३५. सर्व और नोसर्व उदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके सर्व उदीरणा होती है तथा उससे कमकी उदीरणा करनेवाले जीवके नासर्व उदीरणा होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३६. उत्कृष्ट और अनुकृष्ट उदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सबसे उत्कृष्ट प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके उत्कृष्ट उदीरणा होती है और उससे कम प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके अनुकृष्ट उदीरणा होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३७. जघन्य उदीरणा और अजघन्य उदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे एक प्रकृतिकी उदीरणा करनेवाले जीवके जघन्य उदीरणा होती है । तथा इससे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके जघन्य उदीरणा होती है और उनसे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है । इसीप्रकार सब नारकी और सब देवोंमें जानना चाहिए । सब तिर्यञ्चोंमें पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके जघन्य उदीरणा होती है और इनसे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है । किन्तु इतनी विरोधता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके जघन्य उदीरणा होती है और इनसे अधिक प्रकृतियोंकी



अजह०उदीर० । एवं जाव० ।

§ ३८. सादि०-अणादि०-ध्रुव०-अद्भुवाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसेण । ओघेण मिच्छ० उदीर० किं सादि० ४ ? सादिया वा अणादिया वा ध्रुवा वा अद्भुवा वा । सेसाणं पयडीणं सादि-अद्भुवा उदीरणा । आदेसेण एरइय० सव्वपयडीणं सादि० अद्भुवा वा । एवं चहुगदीसु । एवं जाव० ।

उदीरणा करनेवाले जीवके अजघन्य उदीरणा होती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

**विशेषार्थ**—ओघसे कमसे कम एक लोभ प्रकृतिकी उदीरणा होती है। यह जघन्य उदीरणा है। अधिकसे अधिक एक मिथ्यात्व, सोलह कषायोंमेंसे क्रोध, मान, माया और लोभ जातिकी कोई चार कषाय, हास्य और शोकमेंसे कोई एक, रति और अरतिमेंसे कोई एक, तीनों वेदोंमेंसे कोई एक तथा भय और जुगुप्सा इन दस प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। यह अजघन्य उदीरणा है। मनुष्यत्रिकमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। नारकियोंमें कमसे कम बारह कषायोंमेंसे क्रोध, मान, माया और लोभ जातिकी कोई तीन कषाय, हास्य और शोकमेंसे कोई एक, रति और अरतिमेंसे कोई एक तथा एक नपुंसकवेद इन छह प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। यह जघन्य प्रकृति उदीरणा है। अधिकसे अधिक ओघके समान दस प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। मात्र इनमें तीनों वेदोंमेंसे एक नपुंसक वेदकी ही उदीरणा होती है। यह अजघन्य प्रकृति उदीरणा है। नारकियोंके समान सामान्य देवोंमें और ऐशान कल्प तकके देवोंमें व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेद इनमेंसे कोई एक वेदकी उदीरणा कहनी चाहिए, क्योंकि देवोंमें नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती। आगे नौ त्रैवेयकतकके देवोंमें अन्य सब कथन पूर्वोक्त प्रमाण है। मात्र इनमें एक पुरुषवेदकी ही उदीरणा कहनी चाहिए। तथा नौ अनुदिशादिकमें कमसे कम छह और अधिकसे अधिक नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है। तिर्यञ्चोंमें पञ्चम गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव होनेसे कमसे कम पाँच और अधिकसे अधिक दस प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है। तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान सम्भव होनेसे कमसे कम आठ और अधिकसे अधिक दस प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है। सर्वत्र अजघन्य उदीरणाके जो अन्य विकल्प सम्भव हैं वे यथायोग्य लगा लेना चाहिए। यह जघन्य और अजघन्यकी अपेक्षा व्याख्यान है। यही व्याख्यान उत्कृष्ट अनुत्कृष्टकी अपेक्षासे भी जान लेना चाहिए। मात्र सर्वत्र सबसे अधिक प्रकृतियोंकी उदीरणा उत्कृष्ट प्रकृति उदीरणा है और उनसे कम प्रकृतियोंकी उदीरणा अनुत्कृष्ट प्रकृति उदीरणा है इस व्याख्यानके अनुसार यह कथन करना चाहिए। सर्वप्रकृति उदीरणा और नोसर्वप्रकृति उदीरणाका खुलासा भी इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए।

§ ३८. सादि, अनादि, ध्रुव और अद्भुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्वके उदीरक क्या सादि, अनादि, ध्रुव या अद्भुव हैं ? सादि, अनादि, ध्रुव और अद्भुव हं। शेष प्रकृतियोंकी सादि और अद्भुव उदीरणा है। आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंकी सादि और अद्भुव उदीरणा है। इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ३९. सामिचाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० उदीर० कस्स ? अणणद० मिच्छाइट्टिस्स सम्माइट्टिस्स सम्मा-मिच्छाइट्टिस्स । अणंताणु०४ उदीर० कस्स ? अणणद० मिच्छाइट्टि० सासणसम्मा-इट्टिस्स वा । बारसक०-णवणोक्क० उदीरणा कस्स ? अणणद० मिच्छाइट्टि० सम्माइट्टिस्स वा । आदेसेण णेरइय० ओघं । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० णत्थि उदीर० । एवं सव्वणेरइय० । तिरिक्खेसु ओघं । एवं पंचिदियतिरिक्खत्तिए । णवरि पंचिदिय-तिरिक्खपज्ज० इत्थिवेद० उदीरणा णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवंसय० उदीरणा णत्थि । पंचि० तिरि० अणपज्ज०-मणुसअणपज्ज० चउवीसंपयडीणां उदीर० कस्स ? अणणद० । मणुसत्तिए पंचि० तिरिक्खतियभंगो । देवेसु ओघं । णवरि णवंस० उदीर० णत्थि । एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण० । सणक्कुमारदि जाव णवगेवज्जा त्ति एवं चेव । णवरि इत्थिवे० उदीरणा णत्थि । अणुहिसादि सव्वट्ठा त्ति वीसएहं पयडीणमुदीरणा कस्स ? अणणद० । एवं जाव० ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व प्रकृतिकी उदीरणा मिथ्यात्व गुणस्थानमे निरन्तर होती रहती है, इसलिए ओघसे भव्य और अभव्य दोनोंकी अपेक्षा इसकी उदीरणाके सादि आदि चारों भंग बन जाते हैं । किन्तु अन्य प्रकृतियोंकी उदीरणा अपने अपने उद्यानुसार कादाचित्क है, इसलिए उनकी उदीरणाके सादि और अध्रुव ये दो ही भंग बनते हैं । यह ओघप्ररूपणा है । गति आदि मार्गणाएँ प्रत्येक जीवकी अपेक्षा कादाचित्क है, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंकी उदीरणा सादि और अध्रुव ही है ।

§ ३९. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । बारह कपाय और नौ नोक-षायोंकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके होती है । आदेशसे नारकियोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा नहीं होती । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच पर्याप्तकोमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा योनिनी तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतरके होती है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यचत्रिकके समान भङ्ग है । देवोंमें ओघके समान भङ्ग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी सौधर्म और ऐशान-देवोंमें जानना चाहिए । तथा सनत्कुमारसे लेकर नौ भ्रवेयक तकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बीस प्रकृतियोंकी उदीरणा किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ४०. कालाणु० दुविहो णि०—ओषेण आदेसे० । ओषेण मिच्छ० उदीर० केवचिरं ? तिण्ण भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो०—जह० अंतोमु०, उक्क० अद्दपोग्गल० देसु० । सम्म० उदीर० जह० अंतोमु०, उक्क० छावट्टिसागरोवमाणि आवलिऊणाणि । सम्मामि० जह० उक्क० अंतोमु० । सोलसक०-भय-दुगुंझ० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रदि० जह० एयसमओ, उक्क० छम्मासा । अरदि-सोग० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । इत्थिवे० जह० एयस०, उक्क० पलिदोवमसदपुधत्तं । पुरिसवे० जह० अंतोमु०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । एवुंस० जह० एयस०, उक्क० अणंतकाल-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ४१. आदेसेण एरइय० मिच्छ० उदी० जह० अंतोमु०, एवुंस० जह० दसवस्ससहस्साणि, अरदि०-सोग० जह० एयस०, उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरोवमं । सम्म० जह० एय०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसुणाणि । सम्माम्मि० ओघं ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों सम्यक्त्व, सम्य-गिमध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बिना चौबीस प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है। तथा अनु-दिशादिकमें मिध्यात्व, सम्यगिमध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क नपुंसकवेद और स्त्रीवेदके बिना बीस प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है। शेष कथन सुगम है।

§ ४०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्वके उदीरकका कितना काल है ? तीन भङ्ग हैं। उनमेंसे जो सादि-सान्त भंग है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल एक आवलि कम छथासठ सागर है। सम्यगिमध्यात्वके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। हास्य और रतिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है। अरति और शोकके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पृथक्त्व सौ पत्य प्रमाण है। पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पृथक्त्व सौ सागर प्रमाण है। नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है।

विशेषार्थ—प्रत्येक प्रकृतिका जो जघन्य और उत्कृष्ट उदय काल है वही यहाँ लिया गया है। अरति-शोकके उदीरकका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक समय काल उपशम श्रेणिसे गिरकर मरनेकी अपेक्षा है। अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें भय जुगुप्साका एक समयके लिये वेदक होकर अनन्तर समयमें अनिष्टकारण गुण-स्थानके प्राप्त होनेपर उक्त प्रकृतियोंकी उदीरणा व्युच्छित्ति देखी जाती है।

§ ४१. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, नपुंसक-वेदके उदीरकका जघन्य काल दश हजार वर्ष है, अरति और शोकके उदीरकका ज न्य काल एक समय है तथा सबका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल

सोलसक०-हस्स-रदि०-भय-दुगुंढा० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तमाए । एवरि एवुंस० जह० वावीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि । सम्म० जह० अंतोमु० । पढमाए जाव छट्टि ति णारयभंगो । एवरि सगट्टिदी । अरदि-सोग० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवुंस० जहण्णुक्कस्सट्टिदी । बिदियादि जाव छट्टि ति सम्म० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देखणा ।

§ ४२. तिरिक्खेसु मिच्छ०-एवंसयवे० जह० खुद्दाभव०, उक्क० अणंतकाल-मसखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्म० उदीर० जह० एगस०, उक्क० तिण्णिण पलिदोवमाणि देखणाणि । सम्मामि० ओघं । सोलसक०-द्वण्णोक्क० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० पुव्वकोडिपुषत्तेण०महियाणि । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । एवरि मिच्छ० जह०

एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है । सोलह कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य काल साधिक बाईस सागर है तथा सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । पहिली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोमे सामान्य नारकियोके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा अरति और शोकके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोमे सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—चायिक सम्यक्त्वके सन्मुख वेदक सम्यग्दृष्टि जीव भी मर कर प्रथम नरकमे उत्पन्न होता है इसलिए इसमे सम्यक्त्वकी उदीरणाका एक समय काल बन जाता है और इसी अपेक्षासे सामान्य नारकियोमे सम्यक्त्वकी उदीरणाका एक समय काल कहा है । नारकियोमे हास्य और रतिकी उदीरणाका उत्कृष्ट काल छह महीना देवोंमें ही घटित होता है । अन्यत्र वह अन्तर्मुहूर्त ही बनता है, इसलिए नारकियोमे भी वह अन्तर्मुहूर्त ही कहा है । अरति और शोककी उदीरणाका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर सातवें नरकमे ही बनता है । अन्यत्र वह अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है । यही कारण है कि सामान्य नारकियोमे और सातवें नरकमे तेतीस सागर कहा है तथा शेष नरकोंमे अन्तर्मुहूर्त बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४२. तिर्यचोमे मिध्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य काल लुल्लकभवग्रहण-प्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त कालप्रमाण है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । सम्यक्त्वकी उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है । सोलह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें मिध्यात्वके

खुदाभव० अंतोमु०, उक्क० सगाट्टिदी । एवुंस० जह० खुदाभव० अंतोमु०, उक्क० पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । एवरि पंचि०तिरि०पज्ज० इत्थिवेद० एत्थि । जोणियाणी० पुरिस०-एवुंस० एत्थि । सम्म० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देस्सणाणि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-एवुंस० जह० खुदाभव०, उक्क० अंतोमु० । सोलसक०-द्धएणोक० तिरिक्खोघं ।

§ ४३. मणुसेसु पंचि०तिरिक्खभंगो । णवरि सम्म० जह० अंतोमु० । तिण्णिवे० जह० एयस० । एवं मणुसपज्ज० । एवरि सम्म० जह० एयस० । इत्थिवे० एत्थि । मिच्छ० जह० अंतोमु० । मणुसियाणी० मणुसोघं । णवरि मिच्छ० जह० अंतोमु० । पुरिस-एवुंस० एत्थि ।

उदीरकका जघन्य काल सामान्य पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें जुल्लकभवग्रहणप्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें जुल्लकभवग्रहणप्रमाण और शेषमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्त्व है। किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकों में स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनी तिर्यञ्चोमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य काल जुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सोलह कपाय और छह नोकपायोंका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है।

**विशेषार्थ**—ज्ञायिकसम्यक्त्वके सन्मुख ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव मर कर योनिनी तिर्यञ्चोमें नही उत्पन्न होते, इसलिए उनमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। तथा नपुंसकवेदकी उदीरणा और उदय भोगभूमिमें नहीं होता, इसलिए इसके उदीरक तिर्यञ्चोका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ४३. मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा तीनों वेदोंके उदीरकका जघन्य काल एक समय है। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय है। इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है। तथा मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्यनियोंमें सामान्य मनुष्योंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। तथा इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती।

**विशेषार्थ**—पहले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय कह आये हैं, इसलिए यहाँ सामान्य मनुष्योंमें उसका निषेध करके वह अन्तर्मुहूर्त बतलाया है। वैसे मनुष्य पर्याप्तकोंमें यह काल एक समय बन जाता है, क्योंकि जिसने पहले मनुष्यायुका बन्ध किया है ऐसा मनुष्यनी जीव यदि ज्ञायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करता हुआ सम्यक्त्वकी उदीरणा में एक समय शेष रहने पर मर कर यदि पर्याप्त मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तो उसके सम्यक्त्वकी

§ ४४. देवेषु मिच्छ० जह० अंतोमु०, उक्क० एक्कत्तीसं सागरोवमं । सम्म० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमं । सम्मामि०-सोलसक०-अरदि-सोग-भय-दुगुंछ० तिरिक्खोघं । हस्स-रइ० ओघं । इत्थिवे० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० पणवणपलिदो० । पुरिस० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । भवणादि जाव णवगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्म० जह० अंतोमु० एयस०, उक्क० सगट्टिदी । पुरिस० जहण्णु० जह०-उक्क०ठिदी । सम्मामि०-सोलसक०-अण्णोक्क० तिरिक्खोघं । णवरि भवण०वाणवें-जोदिसि० सम्म० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देवणा । इत्थिवे० जह० दसवस्ससहस्साणि दसवस्ससह० पलिदो० अट्टमभागो, उक्क० त्तिण्ण पलिदो० पलिदोव० सादिरेयाणि पलिदोव० सादिरे० । सोहम्मीसाण० इत्थिवे० जह० पलिदो० सादिरे०, उक्क० पणवण्णं पलिदोवमाणि । सदर-सहस्सार० हस्स-रइ० देवोघं । अणुद्दिसादि सव्वट्टा त्ति सम्म० जह० एयस०, उक्क० सगट्टिदी । बारसक०-

उदीरणाका जघन्य काल एक समय बन जाता है । परन्तु ऐसा होने पर भी सामान्य मनुष्योंमें इसकी उदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त ही बनता है । यही कारण है कि यहाँ पर सामान्य मनुष्योंमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बतलाया है । सामान्य मनुष्योंमें तानों वेदोंके उदीरकका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणिमें एक समय तक उस उस वेदकी उदीरणा करा कर मरणकी अपेक्षा कहा है । पर्याप्त मनुष्योंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदीरकका तथा मनुष्यनिर्घोमें स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य काल एक समय इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

§ ४४. देवोंमें मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । हास्य और रतिका भंग ओघके समान है । स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है । पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । भवनवासियोंसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है । तथा उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका भंग सामान्य तिर्यचोंके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य काल क्रमसे दस हजार वर्ष, दस हजार वर्ष और पल्यके आठवें भागप्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल तीन पल्य, साधिक एक पल्य और साधिक एक पल्य है । सौधर्म और ऐशान कल्पमें स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य काल साधिक एक पल्य और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है । शतार और सहस्रार कल्पमें हास्य और रतिके उदीरकका काल सामान्य देवोंके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है ।

द्वरणोक० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । पुरिसवेद० जहरणुकस्सट्ठिदी । एवं जाव० ।

§ ४५. अंतराणु० दुविहो णि०—ओधेण आदेसे० । ओधेण मिच्छ० उदीर० अंतरं जह० अंतोमु०, उक० बेद्धावट्ठिसागरो० देसूणाणि । सम्म०-सम्माभि० जह० अंतोमु०, उक० अद्भपोग्गल० देसूणाणि । अणंताणु०चउक० जह० एयस०, उक० बेद्धावट्ठिसागरो० देसूणाणि । अट्ठक० जह० एयसमओ, उक० पुव्वकोडी देसूणा । चदुसंज०-भय-दुगुञ्ज० जह० एयस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रदि० जह० एयस०, उक० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । अरदि-सोग० जह० एयस०, उक० छम्मासा । इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अंतोमु० एगस०, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । णवुंस० जह० अंतोमु०, उक० सागरोवमसदपुधत्तं ।

बारह कषाय और छह नोकपायोंके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—भवनत्रिकमें ज्ञायिक सम्यक्त्वके सन्मुख वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । किन्तु अन्यत्र ऐसे जीवकी उत्पत्ति होती है, इसलिए सामान्य देवोंमें और सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्वके उदीरकका जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह तत्प्रमाण कहा है । हास्य और रतिके उदीरकका ओधसे जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह महीना पहले बतला आये हैं । यह काल सामान्यसे देवोंमें प्राप्त होकर भी वह शतार और सहस्रार कल्पमें ही प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं । इसलिए यहाँ पर सामान्य देवोंमें वह काल ओधके समान बतला कर शतार और सहस्रार कल्पमें उक्त अर्थको फलित करनेके लिए उसे सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४५. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओध और आदेश । ओधसे मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । आठ कषायोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । चार संज्वलन, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य और रतिके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । अरति और शोकके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्व-प्रमाण है ।

§ ४६. आदेसेण एरइय० मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि-अणंताणु०४-हस्स-रदि० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । बारसक०-अरदि-सोग०-भय-दुग्गुं० जह० उक्क० अंतोमु० । एवुंस० जत्थि अंतरं । एवं सत्तमाए । एवं पढमाए जाव वट्ठि त्ति । णवरि सगट्ठिदी देसूणा । हस्स-रदि० जहएणुक्क० अंतोमु० ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल बतलाया है वही यहाँ मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल लिया गया है। तथा सम्यग्दर्शनका जघन्य और उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है वही यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल लिया गया है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क आदि कषायोंके उदीरकका यथायोग्य उत्कृष्ट अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय इसलिए बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक कषायकी तदनुगत उदीरणा कारणविशेषसे कमसे कम एक समय तक देखी जाती है। किसी जीवके भय और जुगुप्साकी उदीरणा कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आगे जो हास्य, रति, अरति और शोकके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय कहा है वह अपनी सप्रतिपन्न प्रकृतिकी उदीरणा कमसे कम एक समय तक सम्भव होनेसे कहा है। मात्र सातवें नरकमें निरन्तर अरति और शोकका उदय रहता है। तथा वहाँ जानेके पूर्व भी अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका उदय रहता है, इसलिए तो हास्य और रतिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है और शतार-सहस्रार कल्पमें हास्य और रतिका उत्कृष्ट उदय छह महीना तक सम्भव है, इसलिए अरति और शोकके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर छह माह कहा है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदका उदय तिर्यञ्चोंमें अनन्तकाल तक न हो यह सम्भव है। तथा इसीप्रकार जो जीव सौ सागर पृथक्त्व कालतक पुरुषवेदी है उसके उतने कालतक नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती यह भी सम्भव है, इसलिए तो स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल और नपुंसकवेदके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अनुदीरणा कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक न हो यह भी सम्भव है, क्योंकि एक तो प्रतिपन्न वेदका वेदन करनेवाले जीवके इन वेदोंकी उदीरणा नहीं होती। दूसरे उपशमश्रेणिमें भी इनकी उदीरणाका अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं बनता, क्योंकि जो इन वेदोंके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ता है उसके इनकी अनुदीरणा होकर पुनः उदीरणा होनेमें अन्तर्मुहूर्तसे कम काल नहीं लगता, इसलिए इनके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। किन्तु पुरुषवेदके विषयमें यह बात नहीं है, क्योंकि उपशमश्रेणिमें इसकी अनुदीरणा होनेपर एक समय तक ही वह इसका अनुदीरक रहे और दूसरे समयमें मर कर उसके देव हो जानेपर पुनः पुरुषवेदका उदीरक हो जाय यह सम्भव है, इसलिए इसके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय कहा है।

§ ४६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य और रतिके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। बारह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। नपुंसकवेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। इसीप्रकार पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक जानना चाहिए।



§ ४७. तिरिक्खेसु मिच्छ०-अणंताणु०४ जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिण पल्लिदोवमाणि देसूणाणि । सम्म०-सम्मामि० ओधं । अपच्चक्खाणचउक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० पुच्चकोडी देसूणा । अट्टक०-अणोक्क० जह० उक्क० अंतोमु० । इत्थिवे०-पुरिस० जह० खुदाभव०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । एवुंस० जह० अंतोमु०, उक्क० पुच्चकोडिषुधत्तं । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं० । एवरि सम्म०-सम्मामि० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिण पल्लिदोवमाणि पुच्चकोडि-पुधत्तेण्णभहियाणि । इत्थिवेद-पुरिस० जह० खुदाभव०, उक्क० पुच्चकोडिषुधत्तं । एवं पंचि०तिरि०पज्ज० । एवरि इत्थिवे० एत्थि । पुरिस० जह० अंतोमु० । जोण्णिणी० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि एवुंस०-पुरिस० एत्थि । इत्थिवे० एत्थि अंतरं । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ-एवुंस० एत्थि अंतरं । सोलसक०-अणोक्क० जह० उक्क० अंतोमु० । मणुसतिण्णि पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । एवरि

किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा इन नरकोंमें हास्य और रतिके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—नरकोंमें अरति, शोक, भय और जुगुप्साका वेदक जीव अवेदक होकर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालके पहले उनका वेदक नहीं होता, इसलिए इनके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि अरति और शोकका अवेदक होनेपर ऐसा जीव हास्य और रतिका अन्तर्मुहूर्त कालतक नियमसे वेदन करता है ।

§ ४७. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओषके समान है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आठ कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर लुल्लक भव ग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन-प्रमाण है । नपुंसकवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-पृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर लुल्लक-भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्तकोंके जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा पुरुषवेदके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । योनिनी तिर्यञ्चोंमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा स्त्रीवेदकी उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है । सोलह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकमें

पञ्चक्लाण०४ अपञ्चक्लाण०४भंगो । मणुसिणी० इत्थिवे० जह० उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

§ ४८. देवेषु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसुणाणि । बारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ० जह० उक्क० अंतोमु० । अरदि-सोग० जह० अंतोमु०, उक्क० छम्मासा । इत्थिवे०-पुरिस० एत्थि अंतरं । भवणादि जाव एवगेवजा ति एवं चेव । एवारि सगट्टिदी देसुणा । अरदि-सोग० जह० उक्क० अंतोमु० । सदर-सहस्सार० अरदि-सोग० देवोषं । सणक्कुमारदि जाव एवगेवजा ति इत्थिवेदो एत्थि । अणुदिसादि जाव सव्वट्टा ति सम्म०-पुरिस० एत्थि अंतरं । बारसक०-अणुणोक० जह० उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवं जाव० ।

§ ४९. सणियासाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छत्त-मुदीरंतो सोलसक०-एवणोक० सिया उदीर० सिया अणुदीर० । सम्मत्तमुदीरंतो बारसक०-एवणोक० सिया उदीर० सिया अणुदीर० । एवं सम्मामि० । अणंताणु०-कोधमुदीरंतो ति एहं कोधाणं णिय० उदीर० । मिच्छ०-एवणोक० सिया उदीर० । एवं ति एहं कसायाणं । अपञ्चक्लाणकोहमुदीरंतो दो एहं कोहाणं णिय० उदीर० ।

पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें प्रत्याख्यानावरण-चतुष्कका भंग अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके समान है । तथा मनुष्यिनियोंमें स्त्रीवेदके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४८. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । बारह कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अरति और शोकके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा इनमें अरति और शोकके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शतर और सहस्वारमें अरति और शोकके उदीरकका अन्तरकाल सामान्य देवोंके समान है । सनत्कुमारसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्व और पुरुषवेदके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है । बारह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४९. सन्निकर्षानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है और कदाचित् अनुदीरक होता है । सम्यक्त्वकी उदीरणा करनेवाला जीव बारह कषाय और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है और कदाचित् अनुदीरक होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए । अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । मिथ्यात्व और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार तीन अनन्तानुबन्धी कषायोंकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव दो क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । अनन्ता-

अणंताणु०कोह०-मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-एवणोक० सिया उदीर० । एवं माण-  
माय-लोभाणं । पच्चक्खाणकोधमुदीरेंतो क्रोधसंजलण० णिय० उदीर० । दोण्णि  
कोध०-मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-एवणोक० सिया उदीर० । एवं पच्चक्खाणमाण-  
माया-लोहाणं । कोहसंजलणमुदीरेंतो मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-तिण्णिकोध०-एव-  
णोक० सिया उदीर० । एवं तिएहं संजलणाणं । इत्थिवे० उदीरेंतो मिच्छ०-सम्म०-  
सम्मामि०-सोलसक०-इएणोक० सिया उदीर० । एवं पुरिसवे०-एवुंस० । हस्समुदीरेंतो  
मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-तिण्णिवे०-भय-दुगुंछ० सिया उदीर० । रदीए  
णिय० उदीर० । एवं रदीए । एवमरदि-सोगाणं । भयमुदीरेंतो दंसणतिय-सोलसक०-  
तिण्णिवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दुगुंछ० सिया उदीर० । एवं दुगुंछा० ।

§ ५०. आदेसेण एरइय० मिच्छत्तमुदीरेंतो० सोलसक०-इएणोक० सिया  
उदीर० । एवुंस० णिय० उदीर० । सम्मत्तमुदीरेंतो० बारसक०-इएणोक० सिया  
उदीर० । एवुंस० णियमा उदीर० । एवं सम्मामि० । अणंताणु०कोधमुदीरेंतो  
तिएहं कोधाणं एवुंस० णिय० उदीर० । मिच्छ०-इएणोक० सिया उदीर० । एवं

नुबन्धी क्रोध, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और नौ नोकषायोंका कदाचिन् उदीरक  
होता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान, माया और लोभकी मुख्यतासे जान लेना  
चाहिए । प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव क्रोधसंज्वलनका नियमसे उदीरक  
होता है । दो क्रोध, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक  
होता है । इसीप्रकार प्रत्याख्यानावरण मान, माया और लोभकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए ।  
क्रोधसंज्वलनकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व तीन क्रोध  
और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार तीन संज्वलनोंकी मुख्यतासे  
जानना चाहिये । स्त्रीवेदकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,  
सोलह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार पुरुषवेद और  
नपुंसकवेदकी मुख्यतासे जानना चाहिए । हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व,  
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, तीन वेद, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता  
है । रतिका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे जानना चाहिए । तथा  
इसोप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी जानना चाहिए । भयकी उदीरणा करनेवाला  
जीव तीन दर्शनमोहनीय, सोलह कषाय, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोक और जुगुप्साका  
कदाचिन् उदीरक होता है । इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे जानना चाहिए ।

§ ५०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कषाय और  
छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है । सम्यक्त्व  
की उदीरणा करनेवाला जीव बारह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । नपुं-  
सकवेदका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जानना चाहिए । अन-  
न्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन क्रोध और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता  
है । मिथ्यात्व और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान

तिण्हं कसायाणं । अपच्चक्खाणकोधमुदीरंतो मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०  
 क्रोध०-द्वणोको० सिया उदीर० । दोण्हं कोधाणं णवुंस० णिय० उदीर० । एवमेका-  
 रसक० । हस्समुदीरंतो० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० सिया  
 उदीर० । णवुंस०-रदि० णिय० उदीर० । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० । भयमुदी-  
 रंतो० दंसणतिय-सोलसक०-हस्स-रदि-अरदि-सोग०-दुगुंछा० सिया उदीर० । णवुंस०  
 णिय० उदीर० । एवं दुगुंछा० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

§ ५१. तिरिक्खेसु दंसणतिय-अणंताणु०-अपच्चक्खाणचउक०-णवणोकसाय०  
 ओधं । पच्चक्खाणकोधमुदीरंतो मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-अपच्चक्खाण-  
 क्रोध०-णवणोको० सिया उदीर० । कोहसंज० णिय० उदीर० । एवं सत्तकसा० ।  
 एवं पंचिदियतिरिक्ख३ । णवरि पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु इत्थिवेदो एत्थि ।  
 जोण्णिणी० पुरिस०-णवुंस० एत्थि । इत्थिवे० धुवं कायच्चं ।

§ ५२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छत्तमुदीरं० सोलसक०-  
 द्वणोको० सिया उदीर० । णवुंस० णियमा उदीर० । एवं णवुंस० । अणंताणु०-

आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध इन दो क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषायोंकी मुख्यतासे जानना चाहिए । हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । नपुंसकवेद और रतिका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । भयकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन दर्शन-मोहनीय, सोलह कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५१. तिर्यञ्चोमें दर्शनमोहनीय तीन, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यावरणचतुष्क और नौ नोकषायोंका भंग ओषके समान है । प्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । क्रोधसंज्वलनका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार प्रत्याख्यानावरण मान आदि सात कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किंतु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा योनिनी तिर्यञ्चोमें पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । योनिनी तिर्यञ्चोमें स्त्रीवेदकी उदीरणाको ध्रुव करना चाहिए ।

§ ५२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

कोधमुदीरंतो मिच्छ०-णवुंस० तिहं कोधायं णिय० उदीर० । षण्णोक० सिया उदीर० । एवं पण्णारसकसाय० । हस्समुदीरंतो मिच्छ०-णवुंस०-रदि० णिय० उदी० । सोलसक०-भय-दुगुंछ० सिया उदीर० । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० । भयमुदीरंतो मिच्छ०-णवुंस० णिय० उदीर० । सेसाणं सिया उदीर० । एवं दुगुंछ० ।

§ ५३. मणुसतिए ओधं । एवरि पञ्जत्तएसु इत्थिवेदो एत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० एत्थि । इत्थिवे० धुवं कादच्चं । एवरि चदुसंजलणमुदीरंतो इत्थिवेद० सिया उदीरंतो० ।

§ ५४. देवेषु मिच्छ० उदीरंतो सोलसक०-अट्टणोक० सिया उदीर० । सम्म० उदीरंतो बारसक०-अट्टणोक० सिया उदीर० । एवं सम्मामि० । अणंताणु०कोहमुदिरंतो मिच्छ-अट्टणोक० सिया उदीर० । तिण्हं कोहायं णिय० । एवं तिण्हं कसायाणं । अपच्चक्खाणकोहमुदीरंतो दोण्हं कोहायं णियमा उदीर० । अणंताणु०कोह-दंसणतिय-अट्टणोक० सिया उदीर० । एवमेकारसकसाय० । इत्थिवेदमुदीरंतो दंसणतिय-सोलस-

अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और तीन क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार शेष पन्द्रह कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और रतिकी नियमसे उदीरक होता है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । भयकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है । शेषका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५३. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती । इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा ध्रुव करनी चाहिए । किंतु इनकी विशेषता है कि चार संज्वलनकी उदीरणा करनेवाला जीव स्त्रीवेदका कदाचित् उदीरक होता है ।

§ ५४. देवोंमें मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाला जीव सोलह कषाय और आठ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । सम्यक्त्वकी उदीरणा करनेवाला जीव बारह कषाय और आठ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव मिथ्यात्व और आठ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । शेष तीन क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभ कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जान लेना चाहिए । अप्रत्याख्यानानावरण क्रोधकी उदीरणा करनेवाला जीव प्रत्याख्यानानावरण और संज्वलन इन दो क्रोधोंका नियमसे उदीरक होता है । अनन्तानुबन्धी क्रोध, तीन दर्शनमोहनीय और आठ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानानावरण मान आदि ग्यारह कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । स्त्रीवेदकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन दर्शनमोहनीय,

क०-छण्णोक० सिया उदीर० । एवं पुरिसवे० । हस्समुदीरेंतो दंसणतिय-सोलसक०-  
इत्थिवे०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० सिया उदीर० । रदि० णियमा उदीर० । एवं रदीए । एव-  
मरदि-सोग० । भयमुदीरेंतो सेसं सिया उदीरेंतो । एवं दुगुंछा० । एवं भवण०-  
वाणवें०-जोइसि०-सोहम्मीसाण० । एवं चेव सणकुमारादि जाव णववगेजा त्ति  
एवरि इत्थिवेदो णत्थि । पुरिस० धुवं कायव्वं । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति सम्म०  
उदीरेंतो बारसक०-छण्णोक० सिया उदीर० । पुरिस० णिय० उदीर० । अपच्चक्खाण-  
कोहमुदीरेंतो दोण्हं कोहाणं पुरिसवे० णिय० उदीर० । सम्म०-छण्णोक० सिया ।  
उदीर० । एवमेकारसक० । पुरिस० उदीरेंतो सम्म०-बारसक०-छण्णोक० सिया  
उदीर० । हस्समुदीरेंतो सम्म०-बारसक०-भय-दुगुंछ० सिया उदीर० । पुरिस०-रदि०  
णिय० उदीर० । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० । भयमुदीरेंतो सम्म०-बारसक०-  
पंचणोक० सिया उदीर० । पुरिसवे० णिय० उदीर० । एवं दुगुंछ० । एवं जाव० ।

§ ५५. णाणाजीवेहं भंगविचयाणुं दुविहो णि०—ओषेण आदेसेण य ।

सोलह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है। इसीप्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव तीन दर्शनमोहनीय, सोलह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है। रतिका नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी-प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भयकी उदीरणा करने-वाला जीव शेष प्रकृतियोंका कदाचित् उदीरक होता है। इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और पेशानमें जानना चाहिए। सनत्कुमारसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें भी इसीप्रकार जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती। पुरुषवेदकी उदीरणा ध्रुव करनी चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वकी उदीरणा करनेवाला जीव बारह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है। पुरुषवेदका नियमसे उदीरक होता है। अप्रत्याख्यानावरण क्रांधकी उदीरणा करनेवाला जीव प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन इन दो क्रोधों और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक होता है। सम्यक्त्व और छह नोक-षायोंका कदाचित् उदीरक होता है। इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरण मान आदि ग्यारह कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषवेदकी उदीरणा करनेवाला जीव सम्यक्त्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है। हास्यकी उदीरणा करनेवाला जीव सम्यक्त्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है। पुरुषवेद और रतिका नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसीप्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। भयकी उदीरणा करनेवाला जीव सम्यक्त्व, बारह कषाय और पाँच नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है। पुरुषवेदका नियमसे उदीरक होता है। इसीप्रकार जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ५५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमके आश्रयसे निर्देश दो प्रकारका है—ओष

ओषेण मिच्छ०-सम्म-सोलसक०-एवणोक० उदीर अणुदीर० णिय० अत्थि । सम्मामि० सिया सव्वे अणुदीर०, सिया अणुदीरगा च उदीरगो च, सिया अणुदीरगा च उदीरगा च ३ ।

§ ५६. आदेशेण एोरइय० ओघं । णवरि इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० णत्थि । णवुंस० उदीर० णियमा अत्थि । एवं सव्वएोरइय० । तिरिक्खेसु ओघं । पंचिदिय-तिक्खितिए ओघं । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो एत्थि । जोण्णिणी० पुरिस०-एवुंस० णत्थि । इत्थिवे० उदीर० णिय० अत्थि, अणुदीरगा एत्थि । पंचिदियतिक्ख-अपज्ज० मिच्छ०-एवुंस० सव्वे उदरिया, अणुदीरया णत्थि । सोलसक०-इण्णोक० उदीर० अणुदीर० णिय० अत्थि । मणुसतिए ओघं । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवे० एत्थि० । मणुसिणी० पुरिस०-एवुंस० एत्थि । इत्थिवे० सिया सव्वे जीवा उदीरगा । एवं तिण्ण भंगा । मणुसअपज्ज० मिच्छ०-एवुंस० सिया उदीरगो, सिया उदीरगा । सोलसक०-इण्णोक० अट्ट भंगा । देवेसु ओघं । एवरि एवुंस० अणुदी० । एवं भवण०-वारणवें०-जोदिसि०-सोहम्मिसाण० । एवं सणकुमारादि जाव एवगेवज्जा चि । णवरि इत्थिवे० उदीरगा णत्थि । पुरिस० णिय० उदीर०, अणुदीर० णत्थि ।

और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सन्यक्त्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके उदीरक और अनुदीरक जीव नियमसे हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके कदाचित् सब जीव अनुदीरक होते हैं । कदाचित् नाना जीव अनुदीरक होते हैं और एक जीव उदीरक होता है । कदाचित् नाना जीव अनुदीरक होते हैं और नाना जीव उदीरक होते हैं ३ ।

§ ५६. आदेशसे नारकियोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीव नहीं हैं । नपुंसकवेदके उदीरक जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोमें ओघके समान भंग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । योनिनी तिर्यञ्चोमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती । इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नियमसे होती है । इसके अनुदीरक नहीं हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके सब जीव उदीरक होते हैं । इनके अनुदीरक नहीं हैं । सोलह कपाय और छह नोकपायोंके उदीरक और अनुदीरक नाना जीव नियमसे होते हैं । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती । स्त्रीवेदके कदाचित् सब जीव उदीरक होते हैं । कदाचित् नाना जीव उदीरक और एक जीव अनुदीरक होता है । कदाचित् नाना जीव उदीरक और नाना जीव अनुदीरक होते हैं । इस प्रकार तीन भंग होते हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका कदाचिन् एक जीव उदीरक होता है । कदाचित् नाना जीव उदीरक होते हैं । सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी अपेक्षा आठ भंग हैं । देवोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती । इसीप्रकार भवनवासी, ध्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें भी इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । इनमें पुरुषवेदके उदीरक नियमसे होते

अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति सम्मत्त० सिया सव्वे उदीर०, सिया उदीरगा च अणुदीरगो च, सिया उदीरगा च अणुदीरगा च । बारसक०-उण्णोको० उदीर० अणुदीर० णिय० अत्थि । पुरिसवे० उदीर० णिय० अत्थि । अणुदीरगा णत्थि । एवं जाव० ।

§ ५७. भागाभागाणु० दुविहो० णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-णवुंस० उदीर० अणंतं भागा । अणुदी० अणंतभागो । सम्म० उदीर० असंखेजा भागा । अणुदी० असंखे०भागो । सम्मामि० उदीर० असंखे०भागो । अणुदी० असंखेजा भागा । चउएहं लोभाणमुदीर० चउभागो सादिरे० । अणुदी० संखे०-भागा । बारसक० उदीर० चउभागो देवणा । अणुदी० संखेजा भागा । इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० अणंतभागो । अणुदीर० अणंतं भागा । हस्स-रदि-भय-दुगुञ्जा० उदीर० संखे०भागो । अणुदीर० संखेजा भागा । अरदि-सोग० उदीर० संखेजा भागा । अणुदी० संखे०भागो ।

§ ५८. आदेसेण एरइय० मिच्छ०-सम्म० उदीर० असंखे० भागा । अणुदीर० असंखे०भागो । सम्मामि० ओघं । चउएहं कोध० अरदि-सोग० उदीर० संखे०

हैं । अनुदीरक नहीं होते । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्वके कदाचित् सब जीव उदीरक होते हैं । कदाचिन् नाना जीव उदीरक होते हैं और एक जीव अनुदीरक होता है । कदाचित् नाना जीव उदीरक होते हैं और नाना जीव अनुदीरक होते हैं । बारह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरक और अनुदीरक नाना जीव नियमसे हैं । पुरुषवेदके सब जीव नियमसे उदीरक होते हैं । अनुदीरक नहीं होते । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५७. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । तथा अनुदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । चार लोभोंके उदीरक जीव कुछ अधिक चतुर्थ भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । बारह कषायोंके उदीरक जीव कुछ कम चतुर्थ भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । हास्य, रति, भय और जुगुप्साके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अरति और शोकके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ५८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । चार क्रोध, अरति और शोकके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।



भाग। अणुदीर० संखे०भागो। बारसक०-हस्स-रइ-भय-दुगुंछ० उदीर० संखेज्जादि-  
भागो। अणुदी० संखेज्जा भागा। एवं सव्वणेरइय०। तिरिक्खणमोघं। एवं  
पंचिदियतिरिक्खतिय३। णवरि मिच्छ०-णवुंस० उदीर० असंखेज्जा भागा। अणुदी०  
असंखे०भागो। इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० असंखे०भागो। अणुदी० असंखे० भागा।  
णवरि पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि। णवुंस० उदीर० संखेज्जा भागा। अणुदी० संखे०-  
भागो। पुरिसवे० उदीर० संखे०भागो। अणुदी० संखेज्जा भागा। जोणिणी०  
पुरिस०-णवुंस० णत्थि। इत्थिवेद० णत्थि भागाभागो। पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-  
मणुसअपज्ज० मिच्छ०-णवुंस० णत्थि भागाभागो। सोलसक०-छणोक्क० पंचि०-  
तिरिक्खभंगो। मणुसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो। णवरि सम्म० उदीर० असंखे०-  
भागो। अणुदी० असंखेज्जा भागा। एवं पज्जत्त०। णवरि संखेज्जं कायव्वं। इत्थिवे०  
णत्थि। एवं मणुसिणी०। णवरि पुरिस०-णवुंस णत्थि। इत्थिवे० उदीरगा संखेज्जा  
भाग। अणुदी० संखे०भागो।

§ ५९. देवेषु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० णिरयोघं। चउएहं लोभ० इत्थिवे०-  
हस्स-रदि० उदीर० संखेज्जा भागा। अणुदी० संखे०भागो। बारसक०-अरदि-सोग-

और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। बारह कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भंग हैं। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदके उदीरक जीव नहीं है। तथा नपुंसकवेदके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। पुरुषवेदके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। योनिनी तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदीरक जीव नहीं हैं। तथा इनमें स्त्रीवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। सोलह कषाय और छह नोकषायोंके उदीरक जीवोंका भंग पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोंके समान है। मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए। इनमें स्त्रीवेदके उदीरक नहीं होते। इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदीरक नहीं होते। तथा स्त्रीवेदके उदीरक संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ५९. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग नारकियोंके समान है। चार लोभ, स्त्रीवेद, हास्य और रतिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और अनुदीरक

भय-दुग्ध्वा०-पुरिसवे० उदीर० संखेज्जदिभा०, अणुदीर० संखेज्जा भागा । एवं भवण०-बाणवें०-जोदिसि०-सोहम्मीसा० । सणकुमारादि सहस्सारा त्ति एवं चैव । णवरि इत्थिवे० णत्थि । पुरिसवे० णत्थि भागा० । आणदादि णव गेवज्जा त्ति मिच्छ०-तेरसकसाय०-अरदि०-सोग-भय-दुग्ध्वा० उदीर० संखे०भागो । अणुदी० संखेज्जा भागा । सम्म०-हस्स-रइ० तिण्हं लोभाणमुदीरगा संखेज्जा भागा । अणुदी० संखे०-भागो । पुरिसवे० णत्थि भागाभागो । सम्मामि० ओधं । अणुदिसादि अवराजिदा त्ति सम्म० उदीर० असंखेज्जा भागा । अणुदीर० असंखे०भागो । तिण्हं लोभाणं हस्स-रदि० उदीर० संखेज्जा भागा । अणुदीर० संखे०भागो । णवकसा०-अरदि-सोग-भय-दुग्ध्वा० उदीर० संखे०भागो । अणुदीर० संखेज्जा भागा । पुरिसवे० णत्थि भागा० । एवं सच्चट्ठे । णवरि संखेज्जं कायच्चं । एवं जाव० ।

§ ६०. परिमाणानुगमकी दुविहो णि—ओघे० आदेशे० । ओघेण मिच्छ०-जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । बारह कषाय, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुषवेदके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । इसी-प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदके उदीरक देव नहीं हैं । पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । आनतसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, तेरह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । सम्यक्त्व, हास्य, रति और तीन लोभके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यातवें भाग-प्रमाण है । पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । अनु-दिशासे लेकर अपराजित तकके देवोंमें सम्यक्त्वके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है और अनुदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन लोभ, हास्य और रतिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है और अनुदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । नौ कषाय अरति, शोक भय और जुगुप्साके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है अनुदीरक जीव संख्यात बहुभाग-प्रमाण है । पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघ और आदेशसे जहाँ जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उसे ध्यानमें रखकर भागाभागका विचार किया है । इतना अवश्य है कि जहाँ सप्रतिपत्त प्रकृतियोंकी उदीरणा न होकर मात्र एक प्रकृतिकी उदीरणा होती है वहाँ उसकी अपेक्षा भागाभाग सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । इतना अवश्य है कि अनुदिशादिकमें मात्र सम्यग्दृष्टि जीव होते हैं और वहाँ मात्र सम्यक्त्व प्रकृतिकी उदीरणा सम्भव है फिर भी वहाँ सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा भागाभाग बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुतसे वेदक सम्यग्दृष्टि जीव उसकी उदीरणा करनेवाले होते हैं और अल्प उपशमसम्यग्दृष्टि तथा ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव उसकी उदीरणा नहीं करते । शेष कथन सुगम है ।

§ ६०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० केत्तिया ? अणंता । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-  
पुरिस० उदीर० केत्तिया ? असंखेजा । आदेसे० एोरइय० सव्वपयडी० उदीर०  
केत्ति० ? असंखेजा । एवं सव्वएोरइय०-सव्वपंचिदिय०तिरिक्ख-मणुसअपज०-  
देवा भवणादि जाव अवरजिदा त्ति । तिरिक्खेसु ओघं । मणुसेसु मिच्छ०-सोलसक०-  
सत्तणोक० उदीर० असंखेजा । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० केत्तिया ?  
संखेजा । मणुसपज०-मणुसिणी०-सव्वट्टुदेवा जाओ पयडीओ उदी० तत्थ संखेजा ।  
एवं जाव० ।

§ ६१. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-  
सत्तणोक० उदीर० केव० ? सव्वलोगे । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिस० उदीर०  
लोग० असंखे०भागे । एवं तिरिक्खाणं । सेसगइमग्गणासु सव्वपदा० लोगस्स  
असंखे०भागे । एवं जाव० ।

§ ६२. पोसणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-  
मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायके उदीरक जीव कितने है ? अनन्त है । सम्यक्त्व,  
सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । आदेशसे  
नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी,  
सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर अपराजित  
तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भंग है । मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह  
कपाय और सात नोकपायोंके उदीरक जीव असंख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद  
और पुरुषवेदके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ-  
सिद्धिके देवोंमें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनके उदीरक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ६१. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोक  
क्षेत्र है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । शेष गति मार्गणाओंमें  
सब पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा  
तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंकी उदीरणा एकेन्द्रियादि  
जीव भी करते हैं, इसलिए इनका क्षेत्र सब लोकबन जानेसे वह ओघसे तथा सामान्य  
तिर्यञ्चोंमें सर्व लोकप्रमाण कहा है । परन्तु शेष प्रकृतियोंकी उदीरणा पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें ही  
सम्भव है और ऐसे जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसलिए सर्वत्र  
इन प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र उक्त प्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोंको छोड़ कर गति  
मार्गणाके अन्य जितने भेद है उन सबका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे उनमें  
सम्भव सब प्रकृतियोंके उदीरकोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है ।

§ ६२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० उदीर० लोग० असंखे०-  
भागो अट्टचोइस भागा० देखणा । इत्थिवे०-पुरिस० उदीर० लोग० असंखे०भागो  
अट्टचोइस० देखणा सव्वलोगो वा ।

§ ६३. आदेसेण गेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० लोग०  
असंखे०भागो अट्टचोइस० देखणा । सम्म०-सम्मामि० खेतं । एवं विदियादि० जाव  
सत्तमा त्ति । णवरि सगपोसणं । पढमाणे खेतं ।

§ ६४. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० सव्वलोगो ।  
सम्मामि० खेतं । सम्म० उदीर० लोगस्स असंखे० अट्टचोइ० । इत्थिवे०-पुरिस०

मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकपायोंके उदीरकोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और चौदह राजुमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, चौदह राजुमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व आदि चौबीस प्रकृतियोंकी उदीरणा एकेन्द्रिय जीवोंमें भी होती है और उनका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ पर उक्त चौबीस प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण बतलाया है। इसी बातको ध्यानमें रख कर यहाँ पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्रीवेदकी उदीरणा नारकियों और पञ्चेन्द्रिय लब्धपर्याप्तकोंको छोड़कर अन्य पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें यथायोग्य होती है और उनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहार आदिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्घात या उपपाद पदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण बतलाया है। इसीसे यहाँ पर इन दो प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है।

§ ६३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकपायोंके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—नरक और प्रत्येक पृथिवीका जो स्पर्शन है वही यहाँ पर साधारणतः जानना चाहिए। मात्र सम्यक्त्वकी उदीरणा सम्यग्दृष्टि जीवोंमें और सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें होती है, इसलिए इन दो प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन उक्त गुणस्थानवाले नारकियोंके स्पर्शनको ध्यानमें रखकर क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

§ ६४. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकपायोंके उदीरक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सम्यक्त्वके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमें

लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ६५. पंचिंदियतिरिक्खतिय३ मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० उदीर० लोगस्स असंखे०भागो सव्वलोगो० । सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोघं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । जोणिणी० पुरिस०-णवुंस० णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । मणुसतिए पंचि०तिरिक्खतियभंगो । णवरि सम्मत्तं खेत्तं ।

§ ६६. देवेषु मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक० उदीर० लोगस्स असंखे०भागो अट्ट-णवचोदस० । सम्म०-सम्मामि० लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० । एवं सव्व-देवाणं । णवरि अप्पण्यो पयडीओ णादूण सगपोसणं णेदव्वं । एवं जाव० ।

से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

**विशेषार्थ**—सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च सोलहवें कल्प तक मारणान्तिक समुद्रात करते हैं, इसीलिए तिर्यञ्चोंमें सम्यक्त्वके उदीरक जीवोंका अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ६५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं होती। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य-त्रिकमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग क्षेत्रके समान है।

**विशेषार्थ**—मनुष्यत्रिकमें संख्यात मनुष्य ही सम्यक्त्वके उदीरक होते हैं और ऐसे मनुष्योंका अतीत स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए यहाँ पर इसके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरकोंका स्पर्शन भी इसीप्रकार प्रकृतमें क्षेत्रके समान जान लेना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोंमें स्पर्शनका कथन करते समय कर ही आये हैं। शेष कथन सुगम है।

§ ६६. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियोंको जानकर अपना अपना स्पर्शन जातना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक

§ ६७. कालाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण अट्टावीसंपयडीयां उदीर० सव्वद्धा । णवरि सम्मामि० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०-भागो । एवं सव्वयेरइय० । एवरि इत्थिवे०-पुरिस० एत्थि । तिरिक्खेसु ओघं । एवं पंचि०तिरिक्खतिए । एवरि पञ्ज० इत्थिवेदो एत्थि । जोणिया० पुरिस०-एवुंस० णत्थि । पंचि०तिरिक्खअपञ्ज० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उदीर० सव्वद्धा । मणुसतिए पंचि०तिरिक्खतियभंगो । एवरि सम्मामि० उदीर० जह० उक्क० अंतोमु० । मणुसअपञ्ज० मिच्छ०-एवुंसय० जह० खुद्दाभव० । सोलसक०-अण्योक० जह० एयसमओ, उक्क० दो वि पलिदो० असंखे०-भागो । देवेसु ओघं । एवरि एवुंस० एत्थि । एवं भवण०-वाण०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण० । एवं चेव सणकुमारदि जाव एवगेवजा त्ति । णवरि इत्थिवे० णत्थि । अणुदिसादि सव्वद्धा त्ति सम्म०-वारसक०-सत्तणोक० सव्वद्धा । एवं जाव० ।

मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—यहाँ इतना ही बक्तव्य है कि सम्यक्त्वके उदीरक जीव एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते, इसलिए इसके उदीरक जीवोंका अतीत स्पर्शन मात्र त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा नहीं है । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान कालका भंग है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यग्मिध्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व और नपुंसकवेदके उदीरक जीवोंका जघन्य काल लुल्लकभवप्रदणप्रमाण है, सोलह कषाय और छह नोकषायोंका जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल दोनों प्रकारकी प्रकृतियोंके उदीरकोंका पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण है । देवोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, सौधर्म और ऐशान देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थान सान्तर मार्गणा है । उसे ध्यानमें रखकर यहाँ ओघसे सम्यग्मिध्यात्वके उदीरक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्थके

§ ६८. अंतराणुं दु विहो णि०— ओघेण आदेसे० । ओघेण अट्टावीसपयडीणं उदीरणा णत्थि अंतरं । णवरि सम्मामि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०-भागो । सव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख०-सव्वमणुस्स०-सव्वदेवेसु जाओ पयडीओ उदीरिज्जति तासिमोघभंगो । णवरि मणुसअपज्ज० सव्वपयडी० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ६९. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ७०. अप्पावहुअं भागाभागादो साहेदूण एदव्वं ।

एवमेगेगउत्तरपयडिउदीरणा समत्ता ।

❀ तदो पयडिद्विणउदीरणा कायव्वा ।

§ ७१. तदो एगेगपयडिउदीरणादो अणंतरमिदाणि पयडिद्विणउदीरणा विहासियव्वा त्ति अहियारपरामरसवक्कमेदं काऊण पयडिद्विणउदीरणा णाम बुच्चदे-

असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे मनुष्य संख्यात ही होते हैं जो इसकी उदीरणा करते हैं। अतः इनमें इसके उदीरक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त बन सकनेसे उतना ही कहा है। मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है अतः इस विशेषताको ध्यानमें रखकर इनमें जिनकी उदीरणा सम्भव है उनका काल कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ६८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जो प्रकृतियाँ उदीरित होती हैं उनका भंग ओघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थात सान्तर मार्गणा होनेसे उसका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर है उसे ध्यानमें रखकर ही यहाँ ओघ और आदेशसे सम्यग्मिध्यात्वके उदीरकोंका अन्तरकाल कहा है। तथा लब्धपर्याप्त मनुष्योंमें सब प्रकृतियोंके उदीरकोंके अन्तर काल कथनमें यही दृष्टि मुख्य है। शेष कथन सुगम है।

§ ६९. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है।

§ ७०. अल्पबहुत्वको भागाभागसे साधकर ले जाना चाहिए।

इसप्रकार एकैक-उत्तरप्रकृति-उदीरणा समाप्त हुई।

\* तदनन्तर प्रकृतिस्थान उदीरणा करनी चाहिए।

§ ७१. ततः अर्थात् एकैकप्रकृतिउदीरणाके बाद इस समय प्रकृतिस्थान उदीरणाका व्याख्यान करना चाहिए इसप्रकार अधिकारका परामर्श करनेवाले इस वाक्यको करके प्रकृति-

पयडीणं द्वाणं पयडिद्वाणं । पयडि-समूहो ति भणिदं होइ । तस्स उदीरणा पयडि-  
द्वाणउदीरणा । पयडीणं एककालम्मि जेत्तियाणमुदीरेदुं संभवो तेत्तियमेत्तीणं  
समुदायो पयडिद्वाणउदीरणा ति वुत्तं भवदि । तत्थ इमाणि सत्तारस अणियोगहाराणि  
णादच्चाणि भवंति—समुक्कित्ता जाव अप्पाबहुए ति । भुजगार-पदणिक्खेव-  
वड्ढीओ च । एत्थ समुक्कित्ता दुविहा—द्वाणसमुक्कित्ता पयडिसमुक्कित्ता चेदि ।  
तत्थ ताव द्वाणसमुक्कित्ता भणामि ति आह—

❀ तत्थ द्वाणसमुक्कित्ता ।

§ ७२. तम्मि पयडिद्वाणउदीरणाए द्वाणसमुक्कित्ता ताव अहिकीरदे ति  
वुत्तं होइ ।

❀ अत्थि एकस्से पयडीए पवेसगो ।

§ ७३. तं जहा—अएणदरवेद-संजलणाणमुदएण खवगसेदिमुवसमसेदि वा  
समारूढस्स वेदपढमड्ढिदि आवलियमेत्तसेसाए वेदोदीरणा फिड्ढिदि ति तदो प्पहुडि  
एकस्से संजलणपयडीए पवेसगो होइ ।

❀ दोएहं पयडीणं पवेसगो ।

§ ७४. तं जहा—उवसम-खवगसेदीसु अणियड्ढिपढसमयप्पहुडि जाव  
समयाहियावलियमेत्तो वेदपढमड्ढिदि ति ताव दोएहं पयडीणमुदीरगो होदि, तत्थ  
पयारंतरासंभवादो ।

स्थान उदीरणाका कथन करते हैं—प्रकृतियोंका स्थान प्रकृतिस्थान कहलाता है । प्रकृतिस्थान  
अर्थात् प्रकृतिसमूह यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसकी उदीरणा प्रकृतिस्थान उदीरणा है । एक  
कालमें जितनी प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव है उतनी प्रकृतियोंका समुदाय प्रकृतिस्थानउदीरणा  
है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसके विषयमें ये सत्रह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं—समुत्कीर्तना-  
से लेकर अल्पबहुत्व तक तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि । यहाँ पर समुत्कीर्तना दो  
प्रकारकी है—स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिसमुत्कीर्तना । उनमेंसे सर्वप्रथम स्थानसमुत्कीर्तनाका  
कथन करते हैं, इसलिए कहते हैं—

\* प्रकृतमें स्थानसमुत्कीर्तनाका अधिकार है ।

§ ७२. उस प्रकृतिस्थानउदीरणामें सर्वप्रथम स्थानसमुत्कीर्तनाका अधिकार है यह उक्त  
कथनका तात्पर्य है ।

\* एक प्रकृतिका प्रवेशक जीव है ।

§ ७३. यथा—अन्यतर वेद और अन्यतर संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणि या उपशमश्रेणि  
पर चढ़े हुए जीवके वेदकी प्रथम स्थितिके एक आवलिमात्र शेष रहने पर वेदकी उदीरणा  
होना रुक जाता है, इसलिए वहाँसे लेकर यह जीव एक संज्वलन प्रकृतिका प्रवेशक होता है ।

\* दो प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव है ।

§ ७४. यथा—उपशम और क्षपकश्रेणियोंमें अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर एक  
समय अधिक आवलिमात्र वेदकी प्रथम स्थिति शेष रहने तक दो प्रकृतियोंका उदीरक होता है,  
क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है ।



❀ तिपहं पयडीणं पवेसगो णत्थि ।

§ ७५. कुदो पुव्वुत्तदोपयडीणमुवरि अपुव्वकरणपविट्ठम्मि हस्सरदि-अरदि-सोगाणमएणदरजुगलस्स अकमप्पवेसणेण तिएणमुदीरणट्ठाणस्साणुप्पत्तीदो ।

❀ चउएहं पयडीणं पवेसगो ।

§ ७६. अत्थि त्ति एत्थाहियारसंबंधो कायव्वो । तदो उवसम-खइयसम्माइट्ठि-पमत्तापमत्तसंजदेसु अपुव्वकरणे च हस्सरदि-अरदिसोगाणमएणदरजुगलेण सह अरणदरवेद-संजलणपयडीओ धेत्तुण चउएहं पवेसगस्स अत्थित्तं सिद्धं ।

❀ एत्तो पाए णिरंतरमत्थि जाव दसएहं पयडीणं पवेसगो ।

§ ७७. चउएहं पवेसगमादिं कादूण जाव दसणहं पयडीणं पवेसगो त्ति ताव एदेसिं ठायाणं पवेसगो णिरंतरमत्थि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । एत्तो उवरि णत्थि मोहणीयस्स, उक्कस्सेणुदीरिज्जमाणपयडीणं दससंखाणइकमादो । एवं समुक्कित्तिदाण-मुदीरणाट्ठाणाणमेसा संदिट्ठी १, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ।

एवमोघेण समुक्कित्तणा गया ।

\* तीन प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव नहीं है ।

§ ७५. क्योंकि पूर्वोक्त दो प्रकृतियोंके ऊपर अपूर्वकरणमें प्रवेश करते समय हास्य-रति और अरति-शोक इनमेंसे अन्यतर युगलके युगपत् प्रवेश करनेपर तीन प्रकृतिकस्थानकी उत्पत्ति नहीं होती है ।

\* चार प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव है ।

§ ७६. यहाँ पर 'अस्ति' इस पदका अधिकारवश सम्बन्ध कर लेना चाहिए । तदनुसार उपशमसम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत तथा अपूर्वकरण जीवके हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंमेंसे अन्यतर युगलके साथ अन्यतर एक वेद और अन्यतर एक संज्वलन प्रकृतिको लेकर चार प्रकृतियोंका प्रवेशकरूपसे अस्तित्व सिद्ध होता है ।

\* इससे आगे दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके प्राप्त होने तक इन स्थानोंका प्रवेशक जीव निरन्तर है ।

§ ७७. चार प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवसे लेकर दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके प्राप्त होने तक इन स्थानोंका प्रवेशक जीव है इस प्रकार यह सूत्रार्थसम्बन्ध है । इसके ऊपर मोहनीय कर्मके उदीरणास्थान नहीं हैं, क्योंकि उत्कृष्टरूपसे उदीरणाको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियाँ दस संख्याको उल्लंघन नहीं करती हैं । इसप्रकार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारके आश्रयसे कहे गये उदीरणास्थानोंकी यह संदृष्टि है—१, २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ।

इस प्रकार ओघसे समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ७८. संपहि आदेसेण मणुसतिए ओघभंगो । एणइएसु अत्थि दसएहं एवण्हं अट्टएहं सत्तण्हं छण्हं षवेसगा १०, ९, ८, ७, ६, । एवं सन्वणेरइय० देवा भवणादि जाव णवगेवजा ति । एवं तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि पंचएहं पि पवेसगा अत्थि ५ । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-मणुस०अप्प० अत्थि दसएहं णवएहमट्टएहं पवे० १०, ९, ८ । अणुदिसादि जाव सन्वट्टा ति अत्थि णवण्हमट्टण्हं सत्तण्हं छण्हं पवेसगा ९, ८, ७, ६ । एवं जाव० ।

§ ७९. एवं ट्ठाणसमुत्तित्तणं समाणिय संपहि एदेसु ट्ठाणेषु पपडिसमुत्तित्तणं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

⊗ एदेसु ट्ठाणेषु पयडिणिहेसो कायव्वो भवदि ।

§ ८०. एदेसु अणंतरणिदिट्टउदीरणाट्ठाणेषु काओ पयडीओ षेत्तूण कदमं ट्ठाणमुप्पज्जदि ति जाणावणट्टमेत्थ पयडिणिहेसो कायव्वो, अणणहा तच्चिसय-सम्मणणाणाणुप्पत्तीदो ।

⊗ एयपयडि पवेसेदि सिया कोहसंजलणं वा सिया माणसंजलणं वा सिया मायासंजलणं वा सिया लोभसंजलणं वा ।

§ ८१. एदस्सत्थो वुच्चदे—अत्थि एकस्से पयडीए पवेसगो ति समुत्तिदि ।

§ ७८. अब आदेश पररुपणा करते हैं । उसकी अपेक्षा मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । नारकियोंमें दस, नौ, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव हैं—१०, ९, ८, ७, ६ । इस प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भी जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच प्रकृतियोंके भी प्रवेशक जीव हैं ५ । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव हैं—१०, ९, ८ । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें नौ, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव हैं—९, ८, ७, ६ । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ७९. इसप्रकार स्थानसमुत्कीर्तनाको समाप्त करके अब इन स्थानोंमें प्रकृतियोंकी समुत्कीर्तना करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* इन स्थानोंमें प्रकृतियोंका निर्देश करना योग्य है ।

§ ८०. पूर्वमें कहे गये इन उदीरणास्थानोंमें किन प्रकृतियोंको लेकर कौनसा स्थान उत्पन्न होता है यह जतलानेके लिए यहाँ पर प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिए, अन्यथा तद्विषयक सम्यग्ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ।

\* एक प्रकृतिका प्रवेश करनेवाला जीव कदाचित् क्रोधसंज्वलनको, कदाचित् मानसंज्वलनको, कदाचित् मायासंज्वलनको और कदाचित् लोभसंज्वलनको प्रविष्ट करता है ।

§ ८१. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—एक प्रकृतिका प्रवेशक जीव है यह पहले समु-

तत्थेगपयडिं पवेसमाणो कदमं पयडिं पवेसेदि त्ति आसंक्रिय 'सिया कोहसंजलणं वा' इचादि वुत्तं । कोहोदएण सेटिमारूढस्स वेदपढमट्टिदीए आवलियं पविट्ठाए तदो पहुडि कोधसंजलणमेकं चैव पवेसेदि तेणेव कोहपढमट्टिदीए आवलियं पवेसिदाए तदो प्पहुडि माणसंजलणं पवेसेदि । तस्सेव माणपढमट्टिदीए आवलियपविट्ठाए तदो पहुडि मायासंजलणं पवेसेदि । तदो मायासंजलणपढमट्टिदीए आवलिय-पविट्ठाए तदो पहुडि लोभसंजलणस्सेव पवेसगो होइ । अहवा अप्पप्पणो उदएण चडिदस्स वेदपढमट्टिदीए आवलियपविट्ठाए कोहसंजलणादीणं पवेसगो होदि त्ति वत्तव्वं । एत्थ सव्वत्थ 'सिया' सद्दो एयंतावहारणपडिसेहफलो । 'वा' सद्दो 'च' वियप्पवाचओ त्ति घेत्तव्वं । एवमेदे चत्तारि भंगा एयपयडिपवेसगस्स होइ त्ति उवसंहारवक्कमाह—

❀ एवं चत्तारि भंगा ।

§ ८२. सुगमं ।

❀ दोएहं पयडीणं पवेसगस्स बारस भंगा ।

§ ८३. कुदो ? तिएहं वेदाणमेकेकसंजलणेण सह अक्खपरावत्तेण तेत्तियमेत्त-भंगुप्पत्तीए णिग्वाहमुवलंभादो । तं कथं ? सिया पुरिसवेदं कोहसंजलणं च पवेसेदि ।

त्कीर्तना अनुयोगद्वारमें कह आये हैं सो उस विषयमें एक प्रकृतिका प्रवेश करनेवाला जीव किस प्रकृतिका प्रवेशक होता है ऐसी आशंका करके 'सिया कोहसंजलणं वा' इत्यादि वचन कहा है । क्रोधके उदयसे श्रेणि पर चढ़े हुए जीवके वेदकी प्रथम स्थितिके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर वहाँसे लेकर वह जीव एक क्रोध संज्वलनको ही उदीरणामें प्रवेश कराता है । उसी जीवके द्वारा क्रोधकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमें प्रवेशित करने पर वहाँसे लेकर वह जीव मानसंज्वलनको उदीरणारूपसे प्रवेश कराता है । उसी जीवके मानकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमें प्रवेश करने पर वहाँसे लेकर मायासंज्वलनको उदीरणारूपसे प्रवेश कराता है । इसके बाद मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमें प्रविष्ट होने पर उससे आगे एकमात्र लोभका प्रवेशक होता है । अथवा अपने अपने उदयसे चढ़े हुए जीवके वेदकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमें प्रविष्ट होने पर क्रोधसंज्वलन आदिका प्रवेशक होता है ऐसा कहना चाहिए । यहाँ पर सर्वत्र 'सिया' शब्दका फल एकान्तरूप अवधारणका निषेध करना है और 'वा' शब्द 'च' रूप विकल्पका वाचक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इसप्रकार ये चार भंग एक प्रकृतिके प्रवेशकके होते हैं इसप्रकार इस अर्थके सूचक उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

\* इसप्रकार चार भंग होते हैं ।

§ ८२. यह सूत्र सुगम है ।

\* दो प्रकृतियोंके प्रवेशकके बारह भंग होते हैं ।

§ ८३. क्योंकि तीन वेदोंका एक एक संज्वलनके साथ अक्षरावर्तन होकर उतने भंग निर्वाधरूपसे उपलब्ध होते हैं । यथा—कदाचित् पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनको प्रवेशित करता

सिया पुरिस० माणसं० च पवे० । सिया पुरिस० मायासंज० च पवे० । सिया पुरिस० लोहसंज० च पवे० । एवं पुरिसवेदेण चत्तारि भंगा । एवमित्थि-णवुंसयवेदेहिं मि पादेकं चत्तारि भंगा उच्चारिय घेतन्वा । तदो दोण्हं पयडीणं पवेसगाणं बारस भंगा चि सिद्धं १२ ।

❀ चउण्हं पयडीणं पवेसगस्स चउवीसं भंगा ।

§ ८४. किं कारणं ? हस्सरदि-अरदिसोगसण्णिदाणं दोएहं जुगलाणं तिण्णिवेद-चदुसंजलणेहि सह संजोगे कीरमाणे तत्तियमेत्तभंगाणमुत्पत्तिदंसणादो । तं जहा—सिया हस्स-रदीओ पुरिसवेद-कोहसंजलणे च पवेसेदि । सिया हस्स-रदीओ पुरिस-माणसंज० पवे० । सिया हस्स-रदीओ पुरिस०-मायासंज० पवे० । सिया हस्स-रदीओ पुरिस०-लोहसंज० पवे० । एवं हस्स-रदीणं पुरिसवेदेण सह चदुसु संजलणेसु संचारिदाणि चत्तारि भंगा । एवमित्थि०-णवुंस०वेदेहिं मि पादेकं चउण्हं भंगाणमुच्चारणा कायन्वा । तदो हस्स-रदीणं बारस भंगा । अरदि-सोगाणं पि एवमेव बारस भंगा १२ समुत्पजंति चि चउण्हं पवेसगस्स चउवीस भंगाणमुत्पत्ती सिद्धा २४ ।

❀ पंचण्हं पयडीणं पवेसगस्सचत्तारि चउवीसं भंगा ।

§ ८५. तं जहा—हस्सरदि-अरदिसोगाणं दोएहं जुगलाणं चउण्हं संजलणाणं

है । कदाचित् पुरुषवेद और मानसंज्वलनको प्रवेशित करता है । कदाचित् पुरुषवेद और माया-संज्वलनको प्रवेशित करता है तथा कदाचित् पुरुषवेद और लोभसंज्वलनको प्रवेशित करता है । इसप्रकार पुरुषवेदके साथ चार भंग प्राप्त होते हैं । इसीप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके साथ भी प्रत्येकके चार भंगोंका उच्चारण कर ग्रहण करना चाहिए । इसलिए दो प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके बारह १२ भंग होते हैं यह सिद्ध हुआ ।

❀ चार प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८४. क्योंकि हास्य-रति और अरति-शोक इस संज्ञावाले दो युगलोंके तीन वेद और चार संज्वलनके साथ संयोग करने पर उतने भंगोंकी उत्पत्ति देखी जाती है । यथा—कदाचित् हास्य-रति, पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनको प्रवेशित करता है । कदाचित् हास्य-रति पुरुषवेद और मानसंज्वलनको प्रवेशित करता है । कदाचित् हास्य-रति, पुरुषवेद और मायासंज्वलनको प्रवेशित करता है तथा कदाचित् हास्य-रति, पुरुषवेद और लोभसंज्वलनको प्रवेशित करता है । इस प्रकार हास्य और रतिका पुरुषवेदके साथ चार संज्वलनोंमें संचार करने पर चार भंग होते हैं । इसीप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके आश्रयसे भी प्रत्येकके चार भंगोंकी उच्चारणा करनी चाहिए । इसलिए हास्य-रतिकी अपेक्षा बारह भंग होते हैं । तथा इसीप्रकार अरति-शोककी अपेक्षा बारह १२ भंग उत्पन्न होते हैं । इसप्रकार चार प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके चौबीस २४ भंगोंकी उत्पत्ति सिद्ध हुई ।

❀ पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके चार चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८५. यथा—हास्य-रति और अरति-शोक इन दो युगलोंका, चार संज्वलनोंका, तीन

तिरहं वेदाणं भय-दुगुंछाणं च जहाकमं पत्थारं कादूणेत्थ भएण सह एका चउवीस-भंगाणं सलागा १ । दुगुंछाए सह अएणा २ । अण्णेगा भय-दुगुंछाहि विणा सम्मचोदयावलंबणेण ३ । एवं संजदेसु तिण्णि चउवीसभंगा लब्भंति । पुणो खइगसम्माइट्ठिमि उवसमसम्माइट्ठिमि वा संजदासंजदम्मि भय-दुगुंछाहिं विणा पच्चक्खाणकसायप्पवेसणेण अएणेगा चउवीसभंगसलागा लब्भइ ४ । एवमेदे चत्तारि चउवीस भंगा पंचएहं पवेसगस्स लद्धा भवंति । एत्थ सन्वभंगसमासो एत्तिओ होइ ९६ ।

❁ छएहं पयडोणं पवेसगस्स सत्त चउवीस भंगा ।

§ ८६. तं जहा—उवसमसम्माइट्ठिस्स खइयसम्माइट्ठिस्स वा संजदस्स भय-दुगुंछाहि सह एगा चउवीस भंगसलागा १ । संजदस्सेव वेदयसम्माइट्ठिस्स भएण विणा दुगुंछाए सह विदिया २ । तस्सेव दुगुंछाए विणा भएण सह तदिया ३ । एवं संजदमस्सिऊण तिण्ण चउवीसभंगा लद्धा । पुणो उवसमसम्माइट्ठिस्स खइय-सम्माइट्ठिस्स वा संजदासंजदस्स दुगुंछाए विणा पच्चक्खाणकसाएण सह भयं वेदयमाणस्स चउत्थी चउवीसभंगसलागा ४ । तस्सेव भएण विणा पच्चक्खाण-दुगुंछाहिं सह पंचमी ५ । वेदगसम्माइट्ठिसंजदासंजदस्स भय-दुगुंछोदयविरहियस्स छट्ठो चउवीसभंगवियप्पो ६ । उवसंतदंसणमोहणीयस्स खीणदंसणमोहस्स वा असंजद-

वेदोंका तथा भय और जुगुप्साका क्रमसे प्रस्तार करके यहाँ पर भयके साथ चौबीस भंगोंकी एक शलाका १, जुगुप्साके साथ उससे भिन्न दूसरी २ तथा भय और जुगुप्साके बिना सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयका अवलम्बन लेकर उन दोनोंसे भिन्न एक ३ इस प्रकार संयत जीवोंमें तीन चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । पुनः क्षायिकसम्यग्दृष्टि या उपशमसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवके भय और जुगुप्सा के बिना प्रत्याख्यानावरण कषायके प्रवेश करनेसे अन्य एक चौबीस भंगरूप शलाका प्राप्त होती है ४ । इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके चार चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । यहाँ पर सब भंगोंका योग इतना होता है—९६ ।

\* छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके सात चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८६. यथा—उपशमसम्यग्दृष्टि या क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयत जीवके भय और जुगुप्साके साथ एक चौबीस भंगशलाका होती है—१ । वेदकसम्यग्दृष्टि संयत जीवके ही भयके बिना जुगुप्साके साथ दूसरी चौबीस भंगशलाका होती है २ । उसी संयत जीवके जुगुप्साके बिना भयके साथ तीसरी चौबीस भंगशलाका होती है ३ । इस प्रकार संयत जीवका आभय कर तीन चौबीस भंग प्राप्त हुए । पुनः उपशमसम्यग्दृष्टि या क्षायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवके जुगुप्साके बिना प्रत्याख्यानावरण कषायके साथ भयका वेदन करते हुए चौथी चौबीस भंगशलाका होती है ४ । उसी जीवके भयके बिना प्रत्याख्यानावरण और जुगुप्साके साथ पाँचवी चौबीस भंग-शलाका होती है—५ । भय और जुगुप्साके उदयसे रहित वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवके छठी चौबीस भंगशलाका होती है—६ । तथा जिसने दर्शनमोहनीयका उपशम किया है या दर्शन-

सम्मा इट्टिस्स भय-दुगुंझाहिं विणा अपच्चक्खाणपवेसेण सत्तमो चउवीसभंगपयारो ७ । एवमेदे सत्त चैव चउवीस भंगा लब्भंति । एत्थ सच्चभंगसमासो अट्टसट्टिसदमेत्तो १६८ ।

❀ सत्तएहं पयडोणं पवेसगस्स दस चउवीस भंगा ।

§ ८७. तं जहा—संजदस्स वेदगसमत्त-चदुसंजलण-तिण्णिवेद-दोजुगल-भय-दुगुंझाओ अस्सिऊण पढमो चउवीसभंगपयारो १ । उवसमसम्माइट्टिस्स खइयसम्मा-इट्टिस्स वा संजदासंजदस्स पच्चक्खाण-भय-दुगुंझाहिं सह बिदियो २ । संजदासंजदस्सेव वेदगसम्मत्तेण भएण च तदियो ३ । भएण विणा दुगुंझाए सह चउत्थो ४ । पुणो खीणोवसंतदंसणमोहणीयस्स असंजदसम्माइट्टिस्स भय-अपच्चक्खाणेहि सह पंचमो ५ । तस्सेव भएण विणा दुगुंझाए सह छट्ठो ६ । तस्सेव अक्खीणोवसंतदंसणमोहस्स भय-दुगुंझाहि विणा वेदगसम्मत्तोदएण सत्तमो ७ । सम्मामिच्छाइट्टिस्स भय-दुगुंझाहि विणा सम्मामिच्छत्तेण सह अट्टमो ८ । सासणसम्माइट्टिमि भय-दुगुंझाहि विणा अणंताणुबंधिपवेसेण एवमो ९ । मिच्छाइट्टिस्स अणंताणुबंधि-भय-दुगुंझाहि विणा संजुत्तपढमावलियाए वट्टमाणस्स दसमो १० । एवं दस चउवीसभंगा सत्तपयडिड्ढाण-पवेसगस्स लब्भंति । एत्थ सच्चभंगसमासो चालीसुत्तरविसदमेत्तो २४० ।

मोहका क्षय किया है ऐसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके भय और जुगुप्साके बिना अप्रत्याख्यानावरणके प्रवेशसे सातवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है—७ । इसप्रकार ये सात ही चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । यहाँ पर सब भंगोंका योग एकसौ अरसठमात्र है—१६८ ।

❀ सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके दस चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८७. यथा—संयत जीवके वेदकसम्यक्त्व, चार संज्वलन, तीन वेद, दो युगल, भय और जुगुप्साके आश्रयसे पहला चौबीस भंगोंका प्रकार होता है—१ । उपशमसम्यग्दृष्टि या ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवके प्रत्याख्यानावरण, भय और जुगुप्साके साथ दूसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है—२ । संयतासंयत जीवके ही वेदकसम्यक्त्व और भयके साथ तीसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है—३ । भयके बिना जुगुप्साके साथ चौथा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है—४ । पुनः जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम किया है ऐसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके भय और अप्रत्याख्यानावरणके साथ पाँचवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ५ । उसीके भयके बिना जुगुप्साके साथ छठा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ६ । जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम नहीं किया है ऐसे उसी जीवके भय और जुगुप्साके बिना वेदकसम्यक्त्व ( सम्यक्त्व प्रकृति ) के उदयसे सातवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके भय और जुगुप्साके बिना सम्यग्मिथ्यात्वके साथ आठवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ८ । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके भय और जुगुप्साके बिना अनन्तानुबन्धीका प्रवेश होनेसे नौवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ९ । अनन्तानुबन्धी, भय और जुगुप्साके बिना अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त प्रथम आवलिमें विद्यमान मिथ्यादृष्टि जीवके दसवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है । इस प्रकार सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके दस चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । यहाँ पर सब भंगोंका जोड़ दोसौ चालीस २४० होता है ।

❀ अट्टएहं पयडोणं पवेसगस्स एक्कारस चउवीस भंगा ।

§ ८८. तं जहा—संजदासंजदस्स वेदगसम्मत्त-पच्चक्खाण-संजलण-वेद-दो जुगल-भय-दुगुंढाहि पटमो चउवीसभंगुप्पादो १ । उवसंत-खीणदंसणमोहणीयस्स असंजद-सम्माइट्टिस्स अपच्चक्खाणकसाएण सह ताओ चैव सम्मत्तविरहिदाओ घेत्तूण विदियो २ । तस्सेव वेदयसम्माइट्टिस्स दुगुंढाए विणा भएण सह तदियो ३ । भएण विणा दुगुंढाए सह चउत्थो ४ । सम्मामिच्छाइट्टिमि दुगुंढाए विणा सम्मामि-भएहिं सह पंचमो ५ । तस्सेव भएण विणा दुगुंढाए सह छट्ठो ६ । सासणसम्मा-इट्टिस्स दुगुंढाए विणा भयमुदीरेमाणस्स अणंताणुबंधिपवेसेण सत्तमो ७ । तस्सेव भएण विणा दुगुंढं वेदेमाणस्स अट्टमो ८ । मिच्छाइट्टिस्स संजुत्तपटमावलियाए भएण सह मिच्छत्तं वेदेमाणस्स णवमो ९ । भएण विणा दुगुंढाए सह मिच्छत्तमुदीरे-माणस्स दसमो १० । भय-दुगुंढाहि विणा अणंताणुबंधिणा सह मिच्छत्तं वेदेमाणस्स एक्कारसमो ११ । एवमट्टएहं पवेसगस्स एक्कारसभेदेहिं चउवीस भंगा लब्धंति । एत्थ सच्चभंगसमासो चउसट्टि-विसदमेत्तो २६४ ।

❀ एचएहं पयडोणं पवेसगस्स छु चदुवीस भंगा ।

\* आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके ग्यारह चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८८. यथा—संयतासंयत जीवके वेदकसम्यक्त्व, प्रत्याख्यानावरण कपाय, संज्वलन कपाय, वेद, दो युगल, भय और जुगुप्साके द्वारा प्रथम चौबीस भंगोंका प्रकार उत्पन्न होता है १ । जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय और उपशम किया है ऐसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके अप्रत्याख्यानावरण कपायके साथ सम्यक्त्वप्रकृतिके विना उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियोंको ग्रहण करके दूसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है २ । वेदकसम्यग्दृष्टि उसी जीवके जुगुप्साके विना भयके साथ तीसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ३ । भयके विना जुगुप्साके साथ चौथा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ४ । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके जुगुप्साके विना सम्यग्मिथ्यात्व और भयके साथ पाँचवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ५ । उसीके भयके विना जुगुप्साके साथ छठा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ६ । जुगुप्साके विना भयकी उदीरणा करनेवाले सासादन-सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तानुबन्धीका प्रवेश होनेसे सातवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ७ । भयके विना जुगुप्साका वेदन करनेवाले उसी जीवके आठवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ८ । संयुक्त प्रथम आवलिमें भयके साथ मिथ्यात्वका वेदन करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके नौवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ९ । भयके विना जुगुप्साके साथ मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले जीवके दसवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है १० । भय और जुगुप्साके विना अनन्तानुबन्धीके साथ मिथ्यात्वका वेदन करनेवाले जीवके ग्यारहवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ११ । इस प्रकार आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके ग्यारह प्रकारके चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । यहां सब भंगोंका जोड़ दो सौ चौसठ २६४ होता है ।

\* नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके छह चौबीस भंग होते हैं ।

§ ८९. तं कथं ? असंजदस्स वेदगसम्माइट्टिस्स वेदगसम्मत्त-पच्चक्खाणापच्चक्खाण-संजलण-वेदणणदरजुगल-भय-दुगुं छाओ पवेसेमाणस्स पढमो चउवीसभंगुप्पत्तिवियप्पो १ । सम्मामिच्छाइट्टिस्स समत्तेण विणा सम्मामिच्छत्त-भय-दुगुं छाहि विदियो २ । सासणसम्माइट्टिमि सम्मामिच्छात्तेण विणा अणंताणुबंधिणा सह पुव्विल्लपयडीओ धेत्तण तदियो ३ । मिच्छाइट्टिस्स संजुत्तपढभावलियाए मिच्छत्तेण सह भय-दुगुं छा-वेदयस्स चउत्थो ४ । तस्सेवाणंताणुं वेदमाणस्स भएण विणा दुगुं छाए सह पंचमो ५ । दुगुं छाए विणा भएण सह छट्ठो ६ । एवमेदे छचदुवीसभंगा णवएहं पवेसगस्स लब्भंति । एत्थ सव्वभंगसमासो चउवेतालसदमेत्तो १४४ ।

❀ दसएहं पयडोणं पवेसगस्स एकचदुवीस भंगा ।

§ ९०. तं जहा—मिच्छत्त-अणंताणुं-पच्चक्खाणापच्चक्खाण-संजलण-वेददो-

२
२ २
१ १ १
४ ४ ४ ४
१

जुगल-भय-दुगुं छाओ एवं ठविय अक्खसंचारं कादण चउवीसभंगाण-

मुच्चारणा कायव्वा । एवं पयडिसमुक्कित्तणाए भंगपरुवणं कादूण संपहि वुत्ताणं भंगाण-

८९. सो कैसे ? वेदक सम्यक्त्व, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, वेद, अन्यतर युगल, भय और जुगुप्साका प्रवेश करनेवाले जीवके प्रथम चौबीस भंगोंकी उत्पत्तिका विकल्प होता है १ । सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवके सम्यक्त्वके विना सम्यग्मिध्यात्व, भय और जुगुप्साके साथ दूसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है २ । सासादनसम्यग्दृष्टि जीवके सम्यग्मिध्यात्वके विना अनन्तानुबन्धीके साथ पूर्वोक्त प्रकृतियोंको ग्रहण कर तीसरा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ३ । संयुक्त प्रथम आवलिमें मिध्यात्वके साथ भय और जुगुप्साका वेदन करनेवाले जीवके चौथा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ४ । अनन्तानुबन्धीका वेदन करनेवाले उसी जीवके भयके विना जुगुप्साके साथ पाँचवाँ चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ५ । जुगुप्साके विना भयके साथ छठा चौबीस भंगोंका प्रकार होता है ६ । इस प्रकार नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके छह प्रकारके चौबीस भंग प्राप्त होते हैं । यहाँ पर सब भङ्गोंका जोड़ एक सौ चवालीस १४४ है ।

\* दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके एक चौबीस भंग होते हैं ।

§ ९०. यथा—मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण, संज्व-

२
- २ २
१ १ १
४ ४ ४ ४
१

लन, वेद, दो युगलमें अन्यतर युगल, भय और जुगुप्सा इस प्रकार १ १ १ स्थापित कर

अक्षसंचार करके चौबीस भंगोंकी उच्चारणा करनी चाहिए । इस प्रकार प्रकृति समुत्कीर्तनामें



सुवसंहारगाहं परूवेमाणो इदमाह—

❁ एदेसिं भंगाणं गाहा दसरहमुदीरणट्टाणमादिं कादूण ।

§ ९१. सुगमं । णवरि दसरहमुदीरणट्टाणमादिं कादूणेत्ति वयणं पच्छाणुपुव्वीए गाहा वुच्चिहिदि त्ति जाणावण्डं ।

❁ तं जहा ।

§ ९२. सुगमं ।

एकगळ्वकेकारस दस सत्त चउक्क एकगं जेव ।

दोसु च बारस भंगा एकम्हि य होंति चत्तारि ॥१॥

§ ९३. सुगमं चेदं, अणंतरादीदपबंधेण गयत्थत्तादो । णवरि एत्थ गाहासुत्त-पुव्वद्धे चउवीसं भंगा त्ति पयरणवसेणाहिसंबंधो कायव्वो । एदेसिं च भंगाणमप्पप्पणो

उदीरणट्टाणपडिवट्टाणमेसो अंकविण्णासो

१०,	९,	८,	७,	६,	५,	४,	३,	१,
१,	६,	११,	१०,	७,	४,	१,	१२,	४,

भंगोंका कथन करके अब उक्त भंगोंकी उपसंहार गाथाका कथन करते हुए यह कहते हैं—

\* दस प्रकृतियोंके उदीरणास्थानसे लेकर इन पूर्वोक्त भंगोंकी गाथा इस प्रकार है ।

§ ९१. यह सूत्र सुगम है । किन्तु इतनी विशेषता है कि 'दस प्रकृतियोंके उदीरणा-स्थानसे लेकर' यह वचन परचादानुपूर्वीसे गाथा कहेगी यह बतलानेके लिए आया है ।

\* यथा—

§ ९२. यह सूत्र सुगम है ।

\* दस प्रकृतिक स्थानके एक चौबीस, नौ प्रकृतिक स्थानके छह चौबीस, आठ प्रकृतिक स्थानके ग्यारह चौबीस, सात प्रकृतिक स्थानके दस चौबीस, छह प्रकृतिक स्थानके सात चौबीस, पाँच प्रकृतिक स्थानके चार चौबीस और चार प्रकृतिक स्थानके एक चौबीस तथा दो प्रकृतिक स्थानके बारह और एक प्रकृतिक स्थानके चार भंग होते हैं ।

§ ९३. यह गाथासूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर अतीत प्रबन्धके द्वारा इसका अर्थ कह दिया गया है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इस गाथासूत्रके पूर्वार्धमें 'चौबीस भङ्ग' इस पदका प्रकरणवशा सम्बन्ध कर लेना चाहिए । अपने अपने उदीरणस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले इन भङ्गोंका यह अंकविन्यास है—

१०	९	८	७	६	५	४	३	१
१ चौ०	६ चौ०	११ चौ०	१० चौ०	७ चौ०	४ चौ०	१ चौ०	१२	४

एत्थ सन्वभंगसमासो एत्तियो होइ ९७६ । एवं पयडिसमुक्त्तणाए समत्ताए ट्ठाण-  
समुक्त्तणा समत्ता ।

§ ९४. एत्थ सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवाणुगमो ताव कायच्चो, तम्मि अपरुविदे  
सामित्तस्सावयाराभावादो । तं जहा—सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवाणुगमेण दुविहो णिदेसो  
ओघादेसभेएण । ओघेण सन्वपदाणि किं सादि० ४ । सादि-अध्रुवाणि । एवं जाव० ।

❀ सामित्तं ।

§ ९५. एत्तो सामित्तं वत्तइस्सामो चि पइण्णावकमेदं ।

❀ सामित्तस्स साहण्डमिमाओ दो सुत्तगाहाओ ।

§ ९६. सुगमं ।

❀ तं जहा ।

§ ९७. सुगमं ।

सत्तादि दसुकस्सा मिच्छत्ते मिस्सए णउकस्सा ।

द्धादी णव उकसा अविरदसम्मे दु आदिस्से ॥२॥

यहाँ पर सब भङ्गोंका जोड़ इतना ९७६ होता है--

$$२४ + १४४ + २६४ + २४० + १६८ + ६६ + २४ + १२ + ४ = ९७६ ।$$

इस प्रकार प्रकृतिसमुत्कीर्तनाके समाम होने पर स्थानसमुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ९४. यहाँ पर सर्व प्रथम सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगम करना चाहिए, क्योंकि इसकी पररूपणा किये बिना स्वामित्व अनुयोगद्वारका अवतार नहीं हो सकता । यथा—सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा ओघ और आदेशके भेदसे निर्देश दो प्रकारका है । आंघसे सब पद क्या सादि हैं, अनादि हैं, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पूर्वमें दस प्रकृतिकसे लेकर एक प्रकृतिक तक जितने पद बतलाये हैं उनमें प्रकृतियोंके परिवर्तनसे या अन्य कारणसे स्थायी कोई भी पद नहीं है, इसलिए इन्हें आंघसे भी सादि और अध्रुव कहा है । शेष कथन सुगम है ।

\* स्वामित्व

§ ९५. इससे आगे स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है ।

\* स्वामित्वकी सिद्धि करनेके लिए ये दो सूत्रगाथाएँ हैं ।

§ ९६. यह सूत्र सुगम है ।

\* यथा—

§ ९७. यह सूत्र सुगम है ।

\* सातसे लेकर दस तकके चार उदीरणास्थान मिथ्यात्व गुणस्थानमें होते हैं, सातसे लेकर उत्कृष्टरूपसे नौ तकके तीन उदीरणा स्थान मिश्र गुणस्थानमें होते

## पंचादि-अट्टणहणा विरदाविरदे उदीरणट्टाणा । एगादी तिगरहिदा सत्तुक्कस्सा च विरदेसु ॥३॥

१९८. एत्थ ताव पढमसुत्तगाहाए अत्थो वुच्चदे । तं कथं ? सत्त आदिं कादूण जाव दस ताव एदाणि चत्तारि उदीरणट्टाणाणि मिच्छाइट्टिगुणट्टाणे होंति । तं जहा—मिच्छत्तमणंताणुबंधीणमेकदरमपच्चक्खाणाणमेकदरं पच्चक्खाणाणमेकदरं संजलणाणमेकदरं तिण्हं वेदाणमेकदरं दोण्हं जुगलाणमेकदरं भय-दुगुंछाओ च घेत्तूण दसएह-मुदीरणट्टाणां होइ १० । एत्थ भय-दुगुंछाणमएणदरेण विणा एवण्हमुदीरणट्टाणां होइ ९ । दोहिं मि विणा अट्टणहमुदीरणा ८ । भय-दुगुंछाणंताणुबंधीहि विणा सत्तण्ह-मुदीरणट्टाणां होइ ७ । तदो एदेसिं मिच्छाइट्टी सामी होइ त्ति भावत्थो । ‘मिस्सए णवुक्कस्सा’ सत्तादिग्गहणमिहाणुवट्टदे, तेणेंवं सुत्तत्थसंबंधो कायव्वो—मिस्सए सम्मा-मिच्छाइट्टिगुणट्टाणे सत्त आदिं कादूण जाव एव ताव एदाणि तिण्णिण उदीरणा-ट्टाणाणि लब्धंति त्ति । तं जहा—सम्मामिच्छत्तमपच्चक्खाणाणमेकदरं, पच्चक्खाणाणमेकदरं, संजलणाणमेकदरं, तिण्हं वेदाणमेकदरं, दोण्हं जुगलाणमेकदरं, भय-दुगुंछाओ घेत्तूण एवमेदाओ णव ९ । एत्थ भय-दुगुंछाणमण्णदरेण विणा अट्ट ८ । दोहिं मि विणा

हैं, ब्रह्मसे लेकर उत्कृष्टरूपसे नौ तकके चार उदीरणास्थान अविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें होते हैं, पाँचसे लेकर आठ तकके चार उदीरणास्थान विरताविरत गुणस्थानमें होते हैं तथा तीनके सिवा एकसे लेकर उत्कृष्टरूपसे सात तकके उदीरणास्थान विरत गुणस्थानोंमें होता है ॥२-३॥

१९८. यहाँ पर सर्वप्रथम पहली सूत्रगाथाका अर्थ कहते हैं । यथा—सातसे लेकर दस तकके ये चार उदीरणास्थान मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें होते हैं । यथा—मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धियोमसे कोई एक, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेंसे कोई एक, तीन वेदोंमेंसे कोई एक, दो युगलोंमेंसे कोई एक युगल तथा भय और जुगुप्सा इनको लेकर दसप्रकृतिक १० उदीरणास्थान होता है । यहाँ पर भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके विना नौ प्रकृतिक ९ उदीरणास्थान होता है । इन दोनोंके विना आठ प्रकृतिक ८ उदीरणास्थान होता है । तथा भय, जुगुप्सा और अनन्तानुबन्धीके विना सात-प्रकृतिक ७ उदीरणास्थान होता है, इसलिए इनका मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है यह उक्त कथनका भावार्थ है । ‘मिस्सए णवुक्कस्सा’ इस पदका व्याख्यान करते समय ‘सत्तादि’ इस पदको ग्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए । इसलिए सूत्रका अर्थके साथ इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए—मिश्र अर्थान् सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें सातसे लेकर नौ तक ये तीन उदीरणास्थान प्राप्त होते हैं । यथा—सम्यग्मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेंसे कोई एक, तीन वेदोंमेंसे कोई एक, दो युगलोंमेंसे कोई एक युगल तथा भय और जुगुप्सा इनको ग्रहणकर इस प्रकार ये नौ ९ प्रकृतियाँ होती हैं । इनमें भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके विना आठ ८ प्रकृतियाँ होती हैं तथा दोनोंके ही विना

सत्त ७ । एवमेदेमिं द्वाणणं सम्मामिच्छाइड्डी मामिओ होइ । सासणसम्माइड्ढिमि वि एदाणि तिण्णिण उदीरणद्वाणणि होंति, सम्मामिच्छत्तेण विणा अणंताणुबंधीणमण्णदरेण सह तदुप्पत्तिदंसणादो । ए च एदम्मि सुत्तम्मि एसो अत्थो ए संगहिओ त्ति आसंक्खिजं ? देसामासयभावेण सूचिदत्तादो । 'छादी एव उक्कसा अविरदसम्मे दु आदिस्से' छ आदि कादूण जा उक्कस्सेण एव पयडीओ त्ति ताव एदाणि चत्तारि उदीरणद्वाणणि अविरदसम्मे असंजदसम्माइड्ढिमि होंति त्ति आदिस्से णिदिस्से । तं कथं ? सम्मत्त-अपच्चक्खाण-पच्चक्खाण-संजलण-वेद-अणणदरजुगल-भय-दुगुंझा त्ति एवमुक्कस्सेण एव पयडीओ असंजदसम्माइड्ढिमि उदीरिज्जमाणाओ होंति । एत्थ भय-दुगुंझाणं अण्णदरेण विणा अट्ट, दोहिं मि विणा सत्त, सम्मत्तेण विणा खीणोवसंतदंसणमोहणीयस्स जहण्णेण छप्पयडीओ होंति । तदो एदेसिं द्वाणणमसंजदसम्माइड्ढी सामिओ होदि । एवं पढमगाहाए अत्थपरूवणा समत्ता ।

९९. संपहि विदियगाहाए अत्थो वुच्चदे—'पंचादि अट्टण्हणा०' एवं वुत्ते पंच आदि कादूण जावुकस्सेण अट्टण्हणा अट्टपज्जवसाणा त्ति एवमेदे चत्तारि उदीरणद्वाणणि विरदाविरदम्मि संजदासंजदगुणद्वाणे होंति त्ति भणिदं होइ । तत्थ जहण्णेण पंच पयडीओ कदमाओ त्ति भणिदे उवममसम्माइड्ढिस्स खड्दयमम्माइड्ढिस्स वा संजदामंजदस्स पच्चक्खाण-संजलण-वेदण्णदरजुगले त्ति एदाओ पंच उदीरण-

सात ७ प्रकृतियां होती हैं । इस प्रकार इन स्थानोंका सम्यग्मिथ्यागृष्टि स्वामी होता है । सासादन सम्यग्गृष्टि गुणस्थानमें भी ये तीन उदीरणस्थान होते हैं, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके बिना अनन्तानुबन्धोचतुष्कमेंसे किसी एक प्रकृतिके साथ इन स्थानोंकी उत्पत्ति देखी जाती है । इस सूत्रमें यह अर्थ संगृहीत नहीं है ऐसी आरांका करना ठीक नहीं है, क्योंकि देशामर्पक भावसे यह अर्थ सूचित होता है । 'छादी एव उक्कसा अविरदसम्मे दु आदिस्से' छहसे लेकर उत्कृष्टरूपसे नौ प्रकृतियों तक ये चार उदीरणस्थान 'अविरदसम्मे' अर्थात् अविरतसम्यग्गृष्टि गुणस्थानमें होते हैं ऐसा निर्देश किया है । अब वे किस प्रकार होते हैं यह बतलाते हैं—सम्यक्त्व, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेंसे कोई एक, तीन वेदोंमेंसे कोई एक, अन्यतर युगल तथा भय और जुगुप्सा इस प्रकार उत्कृष्टरूपसे ये नौ प्रकृतियां असंयतसम्यग्गृष्टि गुणस्थानमें उदीर्यमाण होती हैं । यहां पर भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके बिना आठ, दोनोंके बिना सात तथा उपशान्तदर्शनमोहनीय और क्षीणदर्शनमोहनीय जीवके सम्यक्त्वके बिना जघन्यरूपसे छह प्रकृतियां उदीर्यमाण होती हैं । इसलिए इन स्थानोंका असंयतसम्यग्गृष्टि जीव स्वामी होता है । इस प्रकार प्रथम गाथाकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ६६. अब दूसरी गाथाका अर्थ कहते हैं—'पंचादि अट्टण्हणा' ऐसा कहने पर पाँचसे लेकर उत्कृष्टरूपसे आठ पर्यन्त इस प्रकार ये चार उदीरणस्थान विरताविरत अर्थात् संयतासंयत गुणस्थानमें होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उनमेंसे जघन्यरूपसे पाँच प्रकृतियां कौनसी हैं ऐसा कहनेपर उपशमसम्यग्गृष्टि या क्षायिकसम्यग्गृष्टि संयतासंयतके प्रत्याख्यानावरणचतुष्कमेंसे कोई एक, संज्वलनचतुष्कमेंसे कोई एक, तीन वेदोंमेंसे कोई एक और दो युगलोंमें

पयडीओ होंति । एत्थ भय-दुगुंझाणमण्णदरे पवेसिदे छ होंति । दोसु वि पइट्ठेसु सत्त भवंति । वेदगसम्माइट्ठिम्मि सम्मत्ते पइट्ठे अट्ठ होंति । तदो एदेसिं चउएहमुदीरण-ट्ठाणाणं संजदासंजदो सामी होइ । 'एगादी तिगरहिदा' एदस्सत्थो—जहण्णदो एय-पयडिमादिं कादृण जा उक्कस्सदो सत्त पयडीओ चि ताव एदाणि ट्ठाणाणि विरदेसु होंति । णवरि तिगरहिदा कायच्चा । कुदो ? तिहमुदीरणट्ठाणस्स अच्चंताभावेण पडिसिद्ध-त्तादो । तदो एकस्से दोएहं चदुएहं पंचण्हं छण्हं सत्तण्हं च उदीरणट्ठाणाणं संजदा सामिणो होंति चि एसो सुत्तथसंगहो । तत्थाणियट्ठिम्मि संजलणाणमेकदरं होदृणे-क्किस्से उदीरणट्ठाणं लब्भइ । तस्सेव अण्णदरवेदेण सह दोएण । अपुव्वकरण-पमत्ता-पमत्तसंजदेसु दोएहमएणदरजुगलेण सह चत्तारि, भएण सह पंच, दुगुंझाए सह छ । अक्खीणदंसणमोहस्स पमत्तापमत्तसंजदस्स सम्मत्ते पविट्ठे सत्त होंति । संपहि एदासिं गाहाणं विहामएणट्ठमुच्चारणाणुगममेत्थ वत्तइस्सामो । तं जहा—

§ १००. सामित्ताणु० दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण दसएहमुदीर० कस्म ? अएणद० मिच्छाइट्ठि० । एव अट्ठ सत्त० उदीर० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठिस्स मिच्छाइट्ठि० । छ० पंच० चत्तारि० दोएण० एकस्से उदीर०

से कोई एक युगल इम प्रकार ये पाँच उदीरणा प्रकृतियां होती हैं । तथा इनमें भय और जुगुप्सा में से किसी एक प्रकृतिका प्रवेश करने पर छह उदीरणा प्रकृतियां होती हैं और दोनों ही प्रकृतियोंका प्रवेश करनेपर सात उदीरणा प्रकृतियां होती हैं । तथा वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिका प्रवेश करने पर आठ उदीरणाप्रकृतियां होती हैं । इसलिए इन चार उदीरणास्थानोका संयतासंयत जीव स्वामी है । अब 'एगादी तिगरहिदा' इस पदका अर्थ कहते हैं—जवन्यरूपसे एक प्रकृतिसे लेकर उत्कृष्टरूपसे सात प्रकृतियों तक ये स्थान विरत जीवोके होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीनप्रकृतिक स्थानमें रहित करना चाहिए, क्योंकि तीन प्रकृतिक उदीरणास्थानका अत्यन्त अभाव होनेसे उसका निषेध किया है । इसलिए एकप्रकृतिक, दोप्रकृतिक, चारप्रकृतिक, पांचप्रकृतिक, छहप्रकृतिक और सातप्रकृतिक उदीरणास्थानोके संयत जीव स्वामी होते हैं इस प्रकार यह सूत्रार्थका संग्रह है । उनमेंसे अनिवृत्ति गुणस्थानमें चार संज्वलनोंमेंसे कोई एककी उदीरणा होकर एकप्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है । उसी जीवके अन्यतर वेदके साथ दोप्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है । अपूर्वकण्ट, प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीवोमें दो युगलोमें से किसी एकके साथ चार प्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है । भयके साथ पांचप्रकृतिक और जुगुप्साके साथ छहप्रकृतिक उदीरणास्थान प्राप्त होता है । तथा जिसने दर्शनमोहनीयका ज्ञय नहीं किया है ऐसे प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिके प्रविष्ट होने पर सातप्रकृतिक उदीरणास्थान होता है । अब इन गाथाओका विशेष व्याख्यान करनेके लिए यहां पर उच्चारणाका अनुगम करके बतलाते हैं । यथा—

§ १००. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दशप्रकृतिक उदीरणास्थान किसके होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीवके होता है । नौ, आठ और सातप्रकृतिक उदीरणास्थान किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होता ।

कस्स० ? अणणद० सम्माइडिस्स । एवं मणुसतिए । आदेसेण एोरइय० १०, ९, ८, ७, ६ ओघं । एवं सव्वएोरइय० देवा भवणादि जाव णवगेवजा ति । तिरिक्ख-  
पंचिदियतिरिक्खतिए १०, ९, ८, ७, ६, ५ ओघं । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-  
मणुमअपज्ज० १०, ९, ८ उदीर० कस्स ? अणणदरम्म । अणुहिसादि सव्वट्ठा ति  
९, ८, ७, ६ उदीर० कस्स ? अणणद० । एवं जाव० ।

❀ एदासु दोसु गाहासु विहासिदासु सामित्तं समत्तं भवदि ।

§ १०१. सुगमं ।

❀ एयजीवेण कालो ।

§ १०२. सुगममेदमहियारमंभालणसुत्तं ।

❀ एकस्से दोएहं चदुएहं पंचएहं छएहं सत्तएहं अट्टएहं णवएहं दसएहं  
पयडोणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ १०३. सुगममेदेसिं डाणाणमुदीरगस्स जहएणुकस्सकालणिहेसावेक्खं  
पुच्छावक्कं ।

❀ जहएणेण एयसमओ ।

है । छह, पांच, चार, दो और एक प्रकृतिक उदीरणास्थान किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होता है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें १०, ९, ८, ७ और ६ प्रकृतिक स्थानोंका भंग ओघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, और भवन वासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें १०, ९, ८, ७, ६ और ५ प्रकृतिक स्थानोंका भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें १०, ९ और ८ प्रकृतिक स्थान किसके होता है ? अन्यतरके होता है । अनुदिशसे लेकर सबार्थसिद्धि तकके देवोंमें ९, ८, ७ और ६ प्रकृतिक उदीरणास्थान किसके होता है ? अन्यतरके होता है । इस प्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिए ।

\* इन दो गाथाओंका व्याख्यान करने पर स्वाभित्व ममाप्त होता है ।

§ १०१. यह सूत्र सुगम है ।

\* एक जीवकी अपेक्षा काल ।

§ १०२. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

\* एक, दो, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ १०३. इन स्थानोंके उदीरक जीवके जघन्य और उत्कृष्ट कालके निर्देशकी अपेक्षा करनेवाला यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

§ १०४. एकस्से पवेसगस्स ताव उच्चदे । तं जहा—एको अण्णदरवेद-संजलणाण-मुदएण उवसमसेडिमारूढो वेदपढमड्ढिदीए आवलियपविट्ठाए एयसमयमेक्किस्से पवेसगो जादो । विदियसमए कालं कादूण देवेसुववण्णो । लद्धो एकस्से पवेसगस्स जहण्ण-कालो एयसमयमेत्तो । अधवा ओदरमाणो उवसंतकसायो सुहूमसांपरायो होदि त्ति एग-समयमेक्किस्से पवेसगो जादो । विदियसमए कालं कादूण देवेसुववण्णो, लद्धो एगसमओ ।

§ १०५. संपहि दोएहं पवेसग० उच्चदे । तं कथं ? उवसमसेटीए अणियट्ठि-करणपढमसमए दोण्हं पवेसगो होऊण विदियसमए कालं करिय देवेसुप्पएणस्स लद्धो एयसमयमेत्तो दोण्हं पवेस० जहण्णकालो । अधवा ओदरमाणगो अणियट्ठिवेदमोक्-ड्ढिऊणेगसमयं दोएहं पवेसगो जादो, विदियसमए कालं कादूण देवेसुववण्णो, तस्स लद्धो एगसमओ ।

§ १०६. संपहि चउएहं पवेसग० उच्चदे—ओदरमाणगो उवसामगो अपुव्वकरण-भावेणेगममयं चउएहं पवेसगो होदूण से काले कालगदो देवो जादो, सत्थाणे चैव वा भय-दुगुंझाणमुदीरगो जादो, लद्धो चउएहं पवेसगस्स जहण्णकालो एयसमयमेत्तो । अथवा खीणोवमंतदंसणमोहणीयस्म संजदस्स पढममए भय-दुगुंझाहि विणा चउण्हं पवेसगतं दिट्ठ । अणंतगसमए च भय-दुगुंझासु पविट्ठासु लद्धो विवक्खियपदस्स एय-

§ १०४. सर्व प्रथम एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य काल कहते हैं । यथा—कोई एक जीव अन्यतर वेद और अन्यतर संज्वलनके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ा । अनन्तर वेदकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमे प्रविष्ट होनेपर एक समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हो गया और दूसरे समयमे मरकर देवोमे उत्पन्न हुआ । उसके एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । अथवा उपशान्तकपाय जीव उतरते हुए सूक्ष्मसान्ध्याय होकर एक समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हुआ और दूसरे समयमे मर कर देवोमे उत्पन्न हुआ । उसके एक प्रकृतिके प्रवेशकका एक समय काल प्राप्त हो गया ।

§ १०५. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल कहते हैं । वह कैसे ? उपशमश्रेणिमे अनि-वृत्तिकरणके प्रथम समयमे दो प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर और दूसरे समयमे मर कर देवोमे उत्पन्न हुए जीवके दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । अथवा उप-शमश्रेणिसे उतरनेवाला जीव अनिवृत्तिकरणमे वेदका अपकर्षण कर एक समय तक दो प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ और दूसरे समयमे मर कर देवोमे उत्पन्न हुआ । उसके दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ ।

§ १०६ अब चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल कहते हैं—उपशमश्रेणिसे उतरने-वाला उपशामक जीव अपूर्वकरणभावसे एक समय तक चार प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर तद-नन्तर समयमे मर कर देव हो गया । अथवा स्वस्थानमे ही भय और जुगुप्साका उदीरक हो गया । उसके चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हुआ । अथवा जिसने दर्शनमोहनीयका ज्ञय या उपशम किया है ऐसे संयत जीवके प्रथम समयमे भय और जुगुप्साके बिना चार प्रकृतियोंका प्रवेशकपना दिखलाई दिया और तदनन्तर समयमे भय और

समयमेत्तो जहण्णकालो । एवं सेसाणं पि पदाणं जहण्णकालो अणुमग्गियव्वो, तत्थ सव्वत्थ पयडिपरावत्तीए गुणपरावत्तीए मरणेण च जहासंभवमेगसमयोवलंभस्स पडि-  
सेहाणुवलंभादो । संपहि एदेसिमुक्कस्सकालपरूवणइमुत्तरसुत्तमोइण्णां—

❀ उक्कस्सेणंतोमुहुत्तं ।

§ १०७. तं कथं ? एकस्से पवेसगस्स ताव उच्चदे—इत्थि-णवुंसयवेदोदएण खवगसेट्ठिमारूढस्स वेदपदमट्ठिदीए आवलियपविट्ठाए एकस्से पवेसगो होदि । तदो ताव एकस्से पवेसगो जाव सुहुमसांपराइयस्स समयाहियावलियचरिमसमयो ति । एसो च कालो अंतोमुहुत्तपमाणो ।

§ १०८. संपहि दोण्हं पवे० वुच्चदे—पुरिसवेदोदएण सेट्ठिमारूढो अणियट्ठिकरण-  
पढमसमयप्पहुडि दोण्हं पवेसगो हंतो गच्छइ जाव पुरिसवेदपढमट्ठिदी अणावलियपविट्ठा  
त्ति; तत्तो परमेक्किस्से पवेसगतदंसणादो । एसो च कालो [ अंतोमुहुत्तपमाणो ] ।

§ १०९. संपहि चदुएहं पवेसग० वुच्चदे—अपुव्वकरणपविट्ठम्मि खीणोवसंत  
दंसणा मोहणीयपमत्तापमत्तसंजदेसु च भय-दुगुंझाणमुदएण विणा अवट्ठाणकालो सव्वु-  
क्कस्सो चउण्हं पवेसगस्स उक्कस्सकालो होइ । सो वुण्ण अंतोमुहुत्तमेत्तो । एवं पंचएहं व्वण्हं

जुगुप्साके प्रविष्ट हो जाने पर विवक्षित पदका जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हो गया । इसी प्रकार शेष पदोंका भी जघन्य काल विचारकर जान लेना चाहिए, क्योंकि उन सब पदोंमें प्रकृतिके परावर्तन, गुणस्थानके परावर्तन और मरणके द्वारा यथासम्भव एक समय कालके उपलब्ध होनेमें प्रतिषेध नहीं है । अब इनके उत्कृष्ट कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

❀ उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १०७. वह कैसे ? सर्व प्रथम एक प्रकृतिके प्रवेशकका कहते हैं—स्त्रीवेद और नपुंसक-  
वेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके वेदकी प्रथम स्थितिके उदयावलिके भीतर प्रविष्ट  
होने पर वह एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है । उसके बाद वह सूक्ष्मसांपरायके एक समय  
अधिक आवलिके अन्तिम समयके शेष रहने तक एक प्रकृतिका प्रवेशक रहता है और यह  
काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ।

§ १०८. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका कहते हैं—पुरुषवेदके उदयसे श्रेणिपर चढ़ा हुआ  
जीव अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर दो प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर पुरुषवेदकी प्रथम  
स्थितिके उदयावलिके प्रविष्ट होनेके पूर्व तक दो प्रकृतियोंका प्रवेशक रहा, क्योंकि उसके बाद  
एक प्रकृतिका प्रवेशक देखा जाता है और यह काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ।

§ १११. अब चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल कहते हैं—जो जीव अपूर्वकरणमें प्रविष्ट  
हुआ है ऐसे जीवके तथा जिन्होंने दर्शनमोहनीयका क्षय या उपशम किया है ऐसे प्रमत्तसंयत  
और अप्रमत्तसंयत जीवोंके भय और जुगुप्साके विना जो सर्वोत्कृष्ट अवस्थानकाल है वह चार  
प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल है जो कि अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । इसीप्रकार पाँच, छह,



सत्तण्हं अट्टण्हं च पवेसगस्स उक्कस्सकालाणुगमो कायव्वो, भय-दुगुंछाणुदयकालं मोत्तणएणस्स एदेसिमुक्कस्सकालस्साणुवलंभादो । एवं चेव णवण्हं दसण्हं पि उक्कस्सकालो अणुगंतव्वो । णवरि भय-दुगुंछाणमएणदरस्साणुदयकालो णवण्हं कायव्वो । दोण्हं पि उदयकालो दसएहमणुगंतव्वो ति । एवमोघेण कालाणुगमो समत्तो । आदेसेण मणुसतिए ओधभंगो । सेससव्वगईसु अप्पध्वणो पदाणं जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव ० ।

❀ एगजीवेण अंतरं ।

§ ११०. एत्तो एगजीवविसयमंतरं वत्तइस्सामो ति अहियारपरामरसवक्कमेदं ।

❀ एकस्सिसे दोएहं चउएहं पयडाणं पवेसगंतरं केवचिरं बालादो होदि ।

§ १११. सुगमं

❀ जहएणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ११२. तं जहा—एकस्सिसे ताव उच्चदे—सुहुमसांपराइयो एकस्सिसे पवेसगो लोहसंजलणपठमट्टिदीए आवलियपविट्ठाए अपवेसगो होदुणंतरिदो तदो उवसंतद्धं बोलाविय परिवदमाणओ सुहुमसांपराइयपठमसमए एकस्सिसे पवेसगो जादो । लद्धमेकस्सिसे पवेसगस्स जहएणंतरमंतोमुहुत्तमेत्तं । एवं दोण्हं पवेसगस्स वि वत्तव्वं ।

सात और आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकके उत्कृष्ट कालका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि भय और जुगुप्साके उदयकालको छोड़कर अन्यके इनका उत्कृष्ट काल नहीं उपलब्ध होता । तथा इसीप्रकार नौ और दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि भय और जुगुप्सामेसे अन्यतरका जो अनुदयकाल है वह नौ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल करना चाहिए और दोनो प्रकृतियोंका जो उदय काल है वह दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका जानना चाहिए । इसप्रकार ओघसे कालानुगम समाप्त हुआ । आदेशसे मनुष्यत्रिकमे ओघके सामान भंग है । शेष सब मार्गणाओमे अपने-अपने पदोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

\* एक जीवकी अपेक्षा अन्तर ।

§ ११०. आगे एक जीव विषयक अन्तरका बतलाते है । इसप्रकार अधिकारका परामर्श करनेवाला यह वचन है ।

\* एक, दो और चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ?

§ १११. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ११२. यथा—सर्वप्रथम एक प्रकृतिका अन्तर कहते हैं—एक प्रकृतिका प्रवेशक एक सूक्ष्मसाम्परायिक जीव लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके उदयावलिमें प्रविष्ट होने पर उसका प्रवेशक होकर अन्तर किया । उस बाद उपशान्तकपाय गुणस्थानके कालको विता कर गिरते समय वह पुनः सूक्ष्मसाम्परायिके प्रथम समयमे एक प्रकृतिका प्रवेशक हो गया । इसप्रकार एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो गया । इसीप्रकार दो प्रकृतियोंके

णवरि एकस्से पवेसगकालो अपवेसगकालो च तदंतरं होदूण पुणो ओदरमाणेण जम्मि वेदो ओकट्टिदो तम्मि अंतरसमत्ती होदि । एवं चउएहं पवेसगस्स वि । णवरि दोएहं पवेसगकालो एकस्से पवेसगकालो अपवेसगकालो च तदंतरं होदूण पुणो ओदरमाणापुव्वकरणपढमसमए भय-दुगुंझाओ अणुदीरेमाणस्स पयदंतरपरिसमत्ती होदि त्ति वत्तव्वं । अधवा खीणोवसंतदंसणमोहपमत्तापमत्तापुव्वकरणामण्णदरगुराट्टाणे भय-दुगुंझाहि विणा चत्तारि उदीरेमाणस्स भय-दुगुंझाणमण्णदरपवेसेणंतरिदस्स पुणो तदुदयवोच्चेदेण लद्धमंतरं कायव्वं ।

❀ उक्कस्सेण उवड्हपांगगलपरियट्टं ।

§ ११३. कुदो ? अद्धपोगलपरियट्टादिममए पढममम्मत्तं घेत्तूण सव्वलहुमुव-समसेट्ठिमारुहिय हेट्टा ओदरमाणो अप्पणो ट्टाणे आदिं कादूणंतरिय देसूणद्धपोगल-परियट्टमेत्तकालं परिभमिय थोवावसेसे संमारे पुणो वि सम्मचमुप्पाइय खवगसेट्ठि-मारोहणेण पडिलद्धतब्भावम्मि तदुवलद्वीदो ।

❀ पंचएहं छुणहं सत्तएहं पयडोणं पवेसगंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ११४. सुगमं ।

प्रवेशकका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक प्रकृतिके प्रवेशकका काल और अप्रवेशकका काल उसका अन्तर होकर पुनः उतरते हुए जहाँ वेदका अपकर्षण करता है वहाँ जाकर उसके अन्तरकी समाप्ति होती है । इसीप्रकार चार प्रकृतियोंके प्रवेशकका भी जघन्य अन्तर कहना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल एक प्रकृतिके प्रवेशकका काल और अप्रवेशकका काल उसका अन्तर होकर पुनः उतरते हुए अपूर्वकरणके प्रथम समयमें भय और जुगुप्साकी उदीरणा नहीं करनेवाले जीवके प्रकृत पदके अन्तरकी परिसमाप्ति होती है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । अथवा जिसने दर्शनमांहीनीयका ज्ञय या उपशम किया है ऐसे जीवके प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानोमेसे किसी एक गुणस्थानमे भय और जुगुप्साके विना चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके भय और जुगुप्सासे किसी एक प्रकृतिके प्रवेश द्वारा अन्तर कराकर पुनः उन दानों प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्तिके द्वारा अन्तरको समाप्तकर उसका अन्तर प्राप्त करना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ ११३. क्योंकि अर्धपुद्गलपरिवर्तनकालके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण कर और अतिशीघ्र उपशमश्रेणिपर आरोहणकर नाँचे उतरते हुए अपने-अपने स्थानमें उक्त पदोंका प्रारम्भ कर तथा उसके बाद उनका अन्तरकर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण कर संसारमें रहनेका कुछ काल शेष रहने पर फिर भी सम्यक्त्वको उत्पन्न कर क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेसे उस उस पदके प्राप्त होनेपर उक्त पदोंका अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है ।

\* पाँच, छह और सात प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ११४. यह सूत्र सुगम है ।

\* जहणणेण एयसमओ ।

§ ११५. पंचएहं पवेसगस्स ताव वुच्चदे । तं जहा—खइयसम्माइट्ठी उवसम-सम्माइट्ठी वा संजदो भएण सह पंच उदीरेमाणो ट्ठिदो, तस्स भयकालो एगसमओ अत्थि त्ति दुगुंछाए पवेसगो जादो । तत्थं छएहमुदीरणट्ठाणेणेकसमयमंतरिय विदिय-समए भयवोच्छेदेण पुणो वि पंचएहं पवेसगो जादो । लद्धमंतरं जहणणदो एयसमयमेत्तं । अधवा एमो चेव पंचमे पवेसगो संजदो भयवोच्छेदेणेगसमयं चउण्हं पवेसगो होदूणंतरिय पुणो विदियसमए दुगुंछापवेसेण पंचएहं पवेसगो जादो । लद्धमेगसमयमेत्तं जहणणंतरं ।

§ ११६. संपहि छण्हं पवे० वुच्चदे—छएहमुदीरणो होदूण ट्ठिदवेदगसम्माइट्ठी संजदस्स भयवोच्छेदेणेगसमयमंतरिदस्स पुणो वि से काले दुगुंछोदएण परिणदस्स लद्धमंतरं होइ । अधवा तस्सेव छप्पवेसगस्स भयकालो एगसमयो अत्थि त्ति दुगुंछा-गमेणंतरिदस्स से काले भयवोच्छेदेण लद्धमंतरं कायव्वं । उवसम-खइयसम्माइट्ठि-संजदासंजदस्स वि एवं चेव दोहि पयारेहि जहणणंतरमेदं वत्तव्वं ।

§ ११७. संपहि सत्तण्हं पवेसग० उच्चदे—वेदगसम्माइट्ठिसंजदासंजदस्स ताव

\* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ ११५. सर्वप्रथम पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कहते हैं । यथा—ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि या उपशमसम्यग्दृष्टि जो संयत जीव भयके साथ पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करता हुआ स्थित है उसके भयकी उदीरणाका एक समय काल शेष रहा कि वह जुगुप्साका प्रवेशक हो गया । वहाँ छह प्रकृतिक उदीरणास्थानके द्वारा एक समय तक उसका अन्तर करके दूसरे समयमें भयकी उदयव्युच्छित्तिके द्वारा फिरसे पाँच प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समयमात्र प्राप्त हो गया । अथवा यही पाँच प्रकृतियोंका प्रवेशक संयत जीव भयकी उदयव्युच्छित्तद्वारा एक समय तक चार प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर उस द्वारा उसका अन्तर करके पुनः दूसरे समयमें जुगुप्साके प्रवेशद्वारा पाँच प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो गया ।

§ ११६. अब छह प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कहते हैं—छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले जिस वेदकसम्यग्दृष्टि संयत जीवने भयकी व्युच्छित्ति कर एक समयके लिए उसका अन्तर किया, उसके फिरसे तदनन्तर समयमें जुगुप्साके उदयसे परिणत होनेपर छह प्रकृतियोंके प्रवेशकका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त होता है । अथवा छह प्रकृतियोंके प्रवेशक उसी जीवके भयका एक समय काल शेष है कि उस जीवने जुगुप्साके प्रवेशद्वारा उसका अन्तर किया तथा तदनन्तर समयमें भयकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा वह पुनः छह प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार भी इसका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त करना चाहिए । उपशमसम्यग्दृष्टि या ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवके भी इसीप्रकार दो प्रकारसे इस पदका यह जघन्य अन्तर कहना चाहिए ।

§ ११७. अब सात प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कहते हैं—वेदकसम्यग्दृष्टि संयता-

झएहं भणिदविहाणेण पयदजहएणंतराणुगमो कायव्वो । अधवा स्त्रीणोवसंतदंसण-  
मोहणीयस्स असंजदसम्माइड्डिस्स सत्तण्हं जहएहंतरं भय-दुगुंळाओ अस्सिऊण पुव्वुत्तेणेव  
विहाणेणाणुगंतव्वं ।

❀ उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियट्टं ।

§ ११८. कुदो ? अद्दपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तग्गहणपुव्वं तिण्हमेदेसिं  
ठाणाणं जहासंभवमप्पणो विसए उक्कस्संतराविरोहेणादिं कादूणंतरिय मिच्छत्तं गंतूण  
किंचूणमद्दपोग्गलपरियट्टं परियट्टिट्ठण थोवावसेसे संसारे पुणो वि सम्मत्तपडिल्लंभेण  
पडिवण्णतव्भावम्मि तदुवल्लंभादो ।

❀ अद्दएहं णवएहं पयडोणं पवेसगंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ।

§ ११९. सुगमं

❀ जहएणेण एयसमओ ।

§ १२०. तं कधं ? असंजदो वेदगसम्माइड्डी अद्दएहं पवेसगो भयकालो  
एगममयो अत्थि त्ति दुगुंळोदएण परिणदो तत्थेगसमयमंतरिय पुणो वि तदणंतरसमए  
भयवोच्छेदेणद्दएहं पवेसगो जादो । लद्दमंतरं । अधवा एसो चेव भयवोच्छेदेणेगसमयं  
सत्तपवेमगो होदूणंतरिय से काले दुगुंळोदएण लद्दमंतरं करेदि त्ति वचव्वं । एवं

संयत जीवके जिमप्रकार छह प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर कहा है उसीप्रकार प्रकृत  
पदके जघन्य अन्तरका अनुगम करना चाहिए । अथवा जिसने दर्शनमोहनीय कर्मका क्षय या  
उपशम किया है ऐसे असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके सात प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर भय  
और जुगुप्साका आश्रयकर पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ ११८. क्योंकि अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहण-  
पूर्वक इन तीन स्थानोंका यथासम्भव अपने विषयमें उत्कृष्ट अन्तरके अविरोधरूपसे प्रारम्भ करके  
और अन्तर करके अनन्तर मिथ्यात्वमे जाकर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक परिवर्तन  
करके संसारके स्तांक शेष रहने पर पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ उन स्थानोंके प्राप्त होने पर  
उनका अन्तर उपलब्ध होता है ।

\* आठ और नौ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तर कितना है ।

§ ११९. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १२०. वह कैसे ? कोई एक आठ प्रकृतियोंका प्रवेशक असंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव  
भयकी उदीरणामें एक समय काल बचा है कि वह जुगुप्साके उदयसे परिणत होगया और  
वहाँ एक समय तक उसका अन्तर करके फिरसे तदन्तर समयमें भयकी उदयव्युच्छित्ति करके  
आठ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इसप्रकार आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकका एक समय अन्तर  
प्राप्त हुआ । अथवा यह जीव भयकी उदयव्युच्छित्ति करके एक समय तक सात प्रकृतियोंका

चेव सम्मामि०-सासणसम्माइट्टीसु वि अट्टण्हं जहण्णांतरं जाणिय जोजेयव्वं । संपहि णवएहं मिच्छाइट्टिम्मिह एवं चेव भय-दुगुंखावत्तं वणेण जहण्णांतरमेदमणुगंतव्वं ।

❀ उक्कस्सेण पुव्वकोडो देसूणा ।

§ १२१. तं जहा—एकौ मणुस्सो वेदगसम्माइट्टी गव्भादिअट्टवस्साणमुवरि अट्टण्हमादिं कादूण एवपवेसगो होदूणांतरिदो । तदो विसेहिं पूरिय संजमं वेत्तूण पुव्वकोडिं सव्वमंतरिय क्रमेण कालं कादूण देवेसुववण्णो तस्स अंतोमुहुत्ते बोलीणे भय-दुगुंखाणमण्णदरमुदीरमाणस्स लद्धमंतरं होइ । एवमंतोमुहुत्तव्वमहियअट्टवस्सेहिं ऊणिया पुव्वकोडी अट्टण्हं पवे० उक्कस्मंतरं होइ । संपहि एवण्हं पवेसगस्स भण्णमाणो अट्टावीमसंतकम्मियमिच्छाइट्टिस्स पुव्वकोडाउअसम्मुच्छिमतिरिक्खेसुप्पज्जिय छहिं पज्जचीहिं पज्जत्तयदभावेण विस्संतस्स तत्थेव एवण्हमादिं कादूणांतरिदस्स सव्वविसुद्धीए पडिवण्णमम्मत्तमहिदमंजमामंजमस्स देसूणपुव्वकोडिमंतरिय भवावमाणो देवेसुप्पणस्स अंतोमुहुत्ते गदे लद्धमंतरं होइ त्ति वत्तव्वं ।

❀ दसएहं पयडोणं पवेगस्स अंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

प्रवेशक होकर और उसका अन्तर करके अनन्तर समयमे जुगुप्साके उदयसे अन्तरको प्राप्त करता है ऐसा कहना चाहिए । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें भी आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर जानकर उसकी योजना करनी चाहिए । तथा नौ प्रकृतियोंके प्रवेशकका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें इसीप्रकार भय और जुगुप्साके अवलम्बनसे यह जघन्य अन्तर जान लेना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है ।

§ १२१. यथा—एक मनुष्य वेदकसम्यग्दृष्टि जीवने गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद आठ प्रकृतियोंकी उदीरणाका प्रारम्भ करके अनन्तर नौ प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर उसका अन्तर किया । अनन्तर विशुद्धिको पूर्ण करके और संयमको ग्रहण कर पूरे पूर्वकोटि कालका अन्तर देकर क्रमसे बह मरा और देव हां गया । फिर उसके अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर भय और जुगुप्सा इनमेंसे किसी एककी उदीरणा करने पर आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तर प्राप्त हो जाता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष कम एक पूर्वकोटिप्रमाण आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर होता है । अब नौ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर कहने पर जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जीव पूर्वकोटिकी आयुवाले सम्मूर्च्छिम तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हुआ और जिसने छह पर्याप्तयोसं पर्याप्त होकर उसरूपसे विश्राम किया । पुनः वहाँ पर नौ प्रकृतियोंके प्रवेशका प्रारम्भ करके अन्तर किया । फिर सर्वविशुद्धिके साथ मय्यक्त्वसहित संयमा-संयमको प्राप्त कर कुछ कम एक पूर्वकोटिकालका अन्तर देकर भवके अन्तमें देवोंमें उत्पन्न हुआ । उसके वहाँ पर अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर उक्त पदका अन्तर प्राप्त हो जाता है ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए ।

\* दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ?

§ १२२. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

जहणणेणअंतोमुहुत्तं ।

§ १२३. कुदो ? दमएहमुदीरगस्म भयवोच्छेदेण सव्वजहणणमंतोमुहुत्तमण-  
प्पिदपदेणंतरिदस्स तदुवलंभादो ।

✽ उक्कस्सेण बेद्धावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ १२४. तं जहा—एको मिच्छाइट्ठी दमण्हं पवेसगो अणप्पिदपदेणंतोमुहुत्त-  
मंतरिय तदो मम्मत्तं घेत्तूण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय पुणो मिच्छत्तं गंतूणं-  
तोमुहुत्तेण दसएहं पवेसगो जादो । तस्स लद्धमंतरं होइ । एवमोघेण सव्वेसिसुदीरणा-  
ट्टाणाणमंतरपरूवणा कया ।

§ १२५. संपहि आदेमपरूवणहुमुच्चारणाणुगममेत्थ वत्तइस्सामो । तं जहा—  
अंतराणुगमेण दुविहो णिद्वेमो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण दसएहमुदीर० जह०  
अंतोमु०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणि । एव० अट्ट० जह० एयसमओ,  
उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । सत्त-द्ध-पंच० जह० एयसमओ, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।  
चदुएहं दोण्हमेक्किस्से उदीर० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ १२६. आदेसेण एरइय० दम० लएहं जह० अंतोमुहुत्तं, सत्त० जह०

§ १२२. यह पृच्छामृत्र सुगम हे ।

\* जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १२३. क्योंकि जो दस प्रकृतियोंका उदीरक जीव भय की व्युच्छित्तिके साथ सबसे  
जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक अनर्पित पदके द्वारा उसका अन्तर करता है उसके उक्त पदका उक्त  
अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

\* उत्कृष्ट अन्तर माधिक दो द्वायामठ सागरप्रमाण है ।

§ १२४. यथा—किसी एक दस प्रकृतियोंके प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जीवने अनर्पित पदके  
द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक उसका अन्तर किया । फिर सम्यक्त्वका ग्रहण कर और दो द्वायामठ  
सागर कालतक परिभ्रमण कर पुनः मिथ्यात्वमे जाकर अन्तर्मुहूर्तमें जो दस प्रकृतियोंका प्रवेशक  
हो गया उसके उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । इसप्रकार ओघसे सब उदीरणा-  
स्थानोंके अन्तरकी प्ररूपणा की ।

§ १२५. अब आदेशका कथन करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करके बतलाते  
हैं । यथा—अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दस  
प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो द्वायामठ  
सागर है । नौ और आठ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
कुछ कम एक पूर्वकोटि है । सात, छह और पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । चार, दो और एक प्रकृतिके  
उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १२६ आदेशसे नारकियोंमे दस और छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर

एयस०, उक्क० सव्वेमिं तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । णव० अट्ठ० जह० एयस०,  
उक्क० अंतोमु० । एवं सव्वणोरइय० । एवरि सगट्ठिदी देसूणा ।

६ १२७. तिरिक्खेसु दसएहं जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाणि  
देसूणाणि । एव० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अट्ठ० जह० एयस०,

अन्तर्मुहूर्त है, सात प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए।

**विशेषार्थ**—ओघसे दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरकका जो जघन्य अन्तर-काल घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी वह घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसका अलगसे खुलासा नहीं किया है। रह गया मात्र छह प्रकृतियोंके प्रवेशकके जघन्य अन्तर कालका खुलासा, सो जो उपशमसम्यग्दृष्टि या चायिकसम्यग्दृष्टि जीव भय और जुगुप्साका अनुदीरक होकर छह प्रकृतियोंका उदीरक होता है वह भय और जुगुप्साकी उदीरणा द्वारा इसका अन्तर करके पुन कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके बाद ही उनका अनुदीरक होकर इस स्थानको प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि नारकियोंमें छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। यह तो सब पदोंके जघन्य अन्तरकालका विचार है। उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा इस प्रकार है— जो नारकी भवके प्रारम्भमें और अन्तमें दस प्रकृतियोंका उदीरक होकर मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर कालतक सम्यग्दृष्टि हो दस प्रकृतियोंका अनुदीरक बना रहता है उसके दस प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है तथा जो नारकी जीव भवके प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यग्दृष्टि होकर सात और छह प्रकृतियोंका उदीरक होता है और मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्यादृष्टि बना रहता है उसके छह और सात प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है। अब रहा नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकके उत्कृष्ट अन्तरकालका विचार या इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि जो मिथ्यादृष्टि या वेदकसम्यग्दृष्टि नारकी है उसके आठ और नौ प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं प्राप्त होता और जो उपशमसम्यग्दृष्टि है उसका उसके साथ रहनेका काल ही अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए नारकियोंमें नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यह ओघ प्ररूपणा है जो सातवें नरकमें अविकल बन जाती है, इसलिए इस प्ररूपणाको तो सातवें नरकमें इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र अन्य नरकोंमें जघन्य अन्तर तो ओघ प्ररूपणाके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं है। हाँ दस, सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान नहीं बनता। सो उसका कारण केवल उस उस नरककी भवस्थिति है जिसकी सूचना मूलमें की ही है।

६ १२७. तिर्यञ्चोमे दस प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। नौ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय

उक्त० अंतोमु० । सत्त० छएहं जह० एयस०, पंच० जह० अंतोमु०, उक्त० सन्वेसि-  
मुवड्डुपोगलपरियट्टं ।

§ १२८. पंचिदियतिरिक्खतिए दस० एव० अट्ट० तिरिक्खोष । सत्त० छ०  
जह० एयम०, उक्त० तिण्णि पल्लिदो० पुण्वकोडिपुघत्तेणभहियाणि । पंच० जह-  
ण्णुक्क० अंतोमु० ।

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय हैं, पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—तिर्यञ्चोमे सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य प्राप्त होनेसे इनमे दस प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इनमे संयमासंयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे नौ प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है, क्योंकि संयमसंयम जीवके नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा सम्भव नहीं है । किन्तु तिर्यञ्चोमे आठ प्रकृतियोंकी उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तसे अधिक नहीं बन सकता यह स्पष्ट ही है, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यह सम्भव है कि कोई तिर्यञ्च उपार्थ पुद्गलपरिवर्तन कालके प्रारम्भमें और अन्तमें सात, छह और पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करे और मध्यके कालमें मिथ्यादृष्टि बना रहकर इनका अनुदीरक रहे यह भी सम्भव है, इसलिए इनके तीन स्थानोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है । यहा पर दस आदि अन्य सब स्थानोंके उदीरकका जो जघन्य अन्तर बतलाया है वह ओषके समान होनेसे उसका ओषप्ररूपणामे मुलासा कर ही आये है, इसलिए इसे वहाँसे जान लेना चाहिए । मात्र तिर्यञ्चोमे पाँच प्रकृतियोंका उदीरक ऐसा उपशमसम्यग्दृष्टि संयमासंयम-गुणस्थानवाला जीव ही हो सकता है जो भय और जुगुप्साकी उदीरणा नहीं कर रहा है । चूँकि इस जीवको भय या जुगुप्साका उदीरक होकर तदनन्तर पुनः पाँच प्रकृतियोंका उदीरक होने के लिए कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल लगता है । यही कारण है कि यहाँ पर पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १२८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अपिक तीन पत्य बतलाई है, इसलिये यहाँ पर सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण बन जानेसे वह तत्प्रमाण कहा है । तथा उक्त तीन प्रकारके तिर्यञ्चोमें अपनी अपनी पर्यायके रहते हुए पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका अन्तर उपशमसम्यक्त्व सहित संयमासंयमके कालको ध्यानमें रखकर प्राप्त किया जा सकता है और उक्त तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोमेसे किसी एक तिर्यञ्चकी कायस्थितिके भीतर दो बार उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ पर उक्त तिर्यञ्चोमे पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।



§ १२९. पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० दस० अट्ट० जह० उक्क० अंतोमु० । णव० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ १३०. मणुस्सतिए दसण्हं जह० अंतोमु०, उक्क० तिणिए पलिदो० देसूणाणि । णव० अट्ट० जह० एयम०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । सत्त० छ० जह० एयस०, उक्क० तिणिए पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेखम्महियाणि । पंच० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० । चट्टएहं दोएहमेक्किस्से० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुध० ।

§ १२९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक और मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें दस और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जांबका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीवका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

**विशेषार्थ**—दस प्रकृतियोंके उदीरक उक्त जीवोंको उनके अनुदीरक होकर पुनः उदीरक होनेमें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है। यहाँ यही नियम आठ प्रकृतियोंके उदीरकोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए, इसलिए तो इन दोनों प्रकारके जीवोंमें दस और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। पर नौ प्रकृतियोंके उदीरकोंके लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भयके साथ जा नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा कर रहा है उसके भयकी उदयव्युच्छित्ति होने पर एक समयके अन्तरसे जुगुप्साकी उदीरणा होने लगे यह सम्भव है, इसलिए तो यहाँ पर नौ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और भयके साथ नौ प्रकृतियोंका उदीरक उक्त जीव उसकी उदयव्युच्छित्ति करके अन्तर्मुहूर्तके बाद जुगुप्साका उदीरक हां यह भी सम्भव है, इसलिए नौ प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ १३०. मनुष्यत्रिकमें दस प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व-प्रमाण है। चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है।

**विशेषार्थ**—दस आदि प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर जिस प्रकार ओघमें घटित करके बतला आये हैं उसीप्रकार यहाँ पर घटित कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट अन्तर मनुष्य-त्रिककी कायस्थिति और अन्य विशेषताओंको ध्यानमें रख कर घटित करना चाहिए। यथा—दस प्रकृतियोंका उदीरक मिथ्यादृष्टि ही होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भ और अन्तमें दस प्रकृतियोंकी उदीरणा की और मध्य में सम्यग्दृष्टि रह कर इनका अनुदीरक रहा उसके यह अन्तरकाल बन जाता है। युक्तिसे विचार करने पर इससे अधिक अन्तरकाल नहीं बनता, क्योंकि कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्यको छोड़ कर अन्य वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्यका मर कर मनुष्योंमें उत्पन्न होना सम्भव नहीं है और अन्यत्र मिथ्यादृष्टि रहते हुए इस पदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है। नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ

§ १३१. देवेषु दस० छ० जह० अंतोमु०, सत्त० जह० एयस०, उक्क० सब्वेसि-  
मेक्कीससागरो० देसूणाणि । एव० अट्ट० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं  
भवणादि जाव णवगेवजा ति । एवारि सगट्टिदी देसूणा । अणुदिसादि सब्वट्टा ति  
एव० छ० जहरणुक्क० अंतोमु० । अट्ट० सत्त० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।  
एवं जाव० ।

### ❁ एणाजीवेहि भंगविचयो ।

कम एक पूर्वकोटि ओषपरूपणामें घटित करके बतलाया ही है । उसीप्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । अन्य विशेषता नहीं होनेसे अलगसे खुलासा नहीं किया । सात और छह प्रकृतियोंका उदीरक कोई उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्य मिथ्यात्वमे गया और पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य काल तक वह उसके साथ रहा । फिर अन्तमें उसने उपशमसम्यक्त्वपूर्वक इन पदोंको पुनः प्राप्त किया यह सम्भव है, इसलिए यहाँ पर इन दो पदोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है । पाँच प्रकृतियोंका उदीरक संयमासंयमी या संयमी ही होता है, और मनुष्य पर्यायके रहते हुए संयमासंयम या संयमका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वसे अधिक नहीं प्राप्त होना । यही कारण है कि पाँच प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । पर इतनी विशेषता है कि संयमासंयममे उत्कृष्ट अन्तरके लिए प्रथम बार उपशम सम्यग्दर्शनके साथ संयमासंयम ग्रहण कराना चाहिए और दूसरी बार क्षायिक सम्यक्त्वके साथ संयमासंयम ग्रहण कराना चाहिए । चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ १३१. देवोंमें दस और छह प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सात प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिशासे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें नौ और छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ—** सामान्य देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए । मात्र देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव नौवें ग्रैवेयक तक ही पाये जाते हैं और नौवें ग्रैवेयकके देवकी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर है । इसलिए यहाँ पर कुछ कम तेतीस सागरके स्थानमें कुछ कम इकतीस सागर कहा है । इसीप्रकार नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसे सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनमें दस, सात और छह प्रकृतियोंके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी स्थितिप्रमाण ही प्राप्त होगा, इसलिए इस विशेषताकी अलगसे सूचना की है । नौ अनुदिशादिमें सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए उनमें यह जानकर वहाँ सम्भव पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कहा है । सुगम होनेसे उसका खुलासा नहीं किया है ।

\* नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय ।

§ १३२. अहियारसंभालणपरमेदं सुत्तं ।

✽ सव्वजीवा दसएहं एवएहमइएहं सत्तएहं छुण्हं पंचएहं चटुण्हं णियमा पवेसगा ।

§ १३३. एदेमिं ठाणाण पवेमगा णाणाजीवा णियमा अत्थि; ए तेसिं पवाहो वोच्छिज्जदि त्ति वुत्तं होइ ।

✽ दोएहमेक्किस्से पवेसगा भजियव्वा ।

§ १३४. किं कारणं? उवसम-खवगसेदिपडिचट्ठाणमदेसिं णिरंतरभावाणुवलंभादो ।

एवमोघेण भंगविचयो समत्तो ।

§ १३५. आदेसेण णेरइय० सव्वट्ठाणाणि णियमा अत्थि । एवं पठमाए । विदियादि जाव मत्तमा त्ति दम० णव० अट्ट० सत्त० णियमा अत्थि; मिया एदे च इएहमुदीरगो च । मिया एदे च इएहमुदीरगा च ३ । तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खतिय-दम० णव० अट्ट० सत्त० छ० णिय० अत्थि, मिया एदे च पंचउदीरगो च । मिया एदे च पंचउदीरगा च ३ । पचि०तिरि०अपज्ज० १०, ९, ८ णिय० अत्थि । मणुसतिए ओधं । मणुमअपज्ज० सव्वट्ठाणाणि भयणिज्जाणि । भंगा छवीस २६ ।

§ १३२. यह सूत्र अधिकारकी संहाल करनवाला है ।

\* दस, नौ, आठ, सात, छह, पाँच और चार प्रकृतियोंके प्रवेशक मव जीव नियमसे हैं ।

§ १३३. इन स्थानोंके प्रवेशक नाना जीव नियमसे है । उनके प्रवाहका व्युच्छेद नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* दो और एक प्रकृतिके प्रवेशक जीव भजनीय हैं ।

§ १३४. क्योंकि उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन जीवोंका निरन्तर सद्भाव नहीं पाया जाता ।

इस प्रकार ओघसे भंगविचय समाप्त हुआ ।

§ १३५. आदेशसे नारकियोंमे सब स्थान नियमसे है । इसी प्रकार पहली पृथिवीमे जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवाँ तकके नारकियोंमे दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव नियमसे है । कदाचित् ये है और छह प्रकृतियोंका उदीरक एक जीव है । कदाचित् ये है और छह प्रकृतियोंके उदीरक नाना जीव है ३ । तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे दस, नौ, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव नियमसे हैं १ । कदाचित् ये है और पाँच प्रकृतियोंका उदीरक एक जीव है २ । कदाचित् ये है और पाँच प्रकृतियोंके उदीरक नाना जीव है ३ । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे १०, ९ और ८ प्रकृतियोंके उदीरक जीव नियमसे हैं । मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भंग है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे सब स्थान भजनीय है । भग छवीस

देवाणं एारयभंगो । एवं सोहम्मादि जाव एवगेवजा त्ति । भवण०-वाणवे०-जोदिसि० विदियपुढविभंगो । अणुदिसादि सव्वड्ढा त्ति एव० अट्ट० सत्त० छ० णिय० अत्थि । एवं जाव० ।

§ १३६. एत्थुद्देसे सुगमत्तादो चुण्णिणसुत्तयारेणापरूविदाणं भागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणमुच्चारणावलेन परूवणं कस्सामो । तं जहा—भागाभागानु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण अट्टण्हमुदीर० सव्वजीवाणं केवडि० ? संखेज्जा भागा । दम० णव० उदी० संखे०भागो । ७, ६, ५, ४, २, १ उदीर० सव्वजी० केव० ? अणंतिमभागो ।

§ १३७. आदे० एोरइय० अट्ट० संखेज्जा भागा । दम० एव० संखे०भागो । सेममसंखे०भागो । एव सव्वएोर० पंचि०तिरि०तिय० देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति । तिरिक्खेसु दम० एव० अट्ट० सत्त० छ० पंच० ओघं । पंचि०तिरि०अपज्ज० मणुमअपज्ज० दम० एव० अट्ट० ओघं । मणुसेसु दम० एव० संखे०भागो । अट्ट० संखेज्जा भागा । सेममसंखे०भागो । एवं मणुमपज्ज०-मणुमिणीसु । णवग्गि संखेज्ज कायव्वं । आणदादि णवगेवजा त्ति दम० णव० अट्ट० छ० मखे०भागो । सत्त०

२६ है । देवोंमें नारकियोंके समान भंग है । इसी प्रकार मौ र्म कल्पमें लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है । अनुदिशमें लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें नौ, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके प्रवशक जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ १३६. यहाँ पर सुगम होनेसे चूर्णिसत्रकारके द्वारा नहीं कहे गये भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनका उच्चारणाके बलमें कथन करते हैं । यथा—भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश वा प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? संख्यात बहुभागप्रमाण है । दम और नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । सात, छह, पाँच, चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण है ।

§ १३७. आदेशसे नारकियोंमें आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । दस और नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक. देव और भवन-वासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोमें दस, नौ, आठ, सात, छह और पाँच प्रकृतियोंके उदीरकोका भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकोका भंग ओघके समान है । मनुष्योंमें दस और नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए । आन्त कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें दस, नौ, आठ और छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सात

संखेजा भागा । एवमणुद्दिमादि सव्वट्टा त्ति । एवरि दम० णत्थि । एवं जाव० ।

§ १३८. परिमाणानु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघे० दस० णव० अट्ट० उदीर० केत्तिया ? अणंता । सत्त० छ० पंच० के० ? अमंखेजा । चउएहं दोणहमेक्किसे उदी० के० ? मंखेजा । आदेसेण णोइय० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेजा । एवं सव्वणोइय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुमअपज्ज० देवा भवणादि जाव अवराइदा त्ति । तिरिक्खेसु मव्वपदाणमोधं । मणुसेसु दस० णव० अट्ट० के० ? असंखेजा । सेसं० के० ? संखे० । मणुसपज्ज०-मणुमिणी०-सव्वट्टुदेवा मव्वपदा० केत्ति० ? संखेजा । एवं जाव० ।

§ १३९. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण दस० णव० अट्ट० मव्वलोगे । सेमं लोण० अमंखे०भागे । एवं तिरिक्खेसु । सेममग्गणासु सव्वपदा लोण० अमंखे०भागे । एवं जाव० ।

प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । इसी प्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए । मात्र इनमें दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ १३८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है । सात, छह और पाँच प्रकृतियोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । चार, दो और एक प्रकृतिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव तथा भवनवासियोंमें लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें सब पदोंका भंग ओघके समान है । मनुष्योंमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । शेष पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ १३९. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है । शेष प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव एकेन्द्रिय भी होते हैं, इसलिए इनका सब लोक क्षेत्र बन जाता है । परन्तु शेष प्रकृतियोंके उदीरक जीव प्रायः संधी पञ्चेन्द्रिय जीव ही होते हैं और उनका वर्तमान निवास लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोंमें यह ओघप्ररूपणा अपने पदानुसार अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें सगभव पदोंका क्षेत्र ओघके समान जाननेकी

§ १४०. पोसणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण दस० णव० अट्ट० सन्वलोगो । सत्त० लोग० असंखे० भागो अट्ट-बारहचोदस० । [ छणं लोगस्स असंखे० अट्टचोदस० ] । सेसं लोग० असंखे० भागो ।

§ १४१. आदेसेण णेरहय० दस० णव० अट्ट० लोग० असंखे० भागो छ-चोदस० । सत्त० लोग० असंखे० भागो पंचचोदस० । छ० उदीर० लोग० असंखे० भागो । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । एवरि सगपोसणं । अएणं च सत्तमाए सत्त० उदीर० लोग० असंखे० भागो । पढमाए खेतं ।

सूचना की है। गतिसम्बन्धी शेष मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें सब पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आगेकी मार्गणाओंमें इसीप्रकार क्षेत्र जान लेना चाहिए।

१४०. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरकोने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात प्रकृतियोंके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव एकेन्द्रिय जीव भी होते हैं, इसलिए इन पदोंके उदीरक जीवोंका स्पर्शन सब लोकप्रमाण बतलाया है। सात प्रकृतियोंके उदीरकोंमें देवों और सासादन गुणस्थानवाले जीवोंकी मुख्यता है और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण है, इसलिए इस पदकी अपेक्षा यह स्पर्शन बतलाया है। शेष पदोंकी अपेक्षा मूलमें जो स्पर्शन बतलाया है वह सुगम है, इसलिए उसका अलगसे खुलासा नहीं किया है।

§ १४१. आदेशसे नारकियोंमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पांच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी कार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतकके नारकियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। तथा इतनी विशेषता और है कि सातवीं पृथिवीमें सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—दस, नौ और आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा सभी मिथ्मादृष्टि नारकी जीवोंके सम्भव है और सामान्यसे नारकियोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण है। यही कारण है कि यहाँ पर उक्त तीन पदवाले जीवोंका यह स्पर्शन बतलाया है। सात प्रकृतिक उदीरणास्थानकी

§ १४२. तिरिक्खेसु दस० णव० अट्ट० मव्वलोगो । सत्त० लोग० असंखे०-  
भागो सत्त० । [ छरणं ] लोग० असंखे०भागो छचोद्द० । पंच० लोग० असंखे०-  
भागो । पंचि०तिरिक्खतिण्ण दस० णव० अट्ट० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।  
सेसं तिरिक्खभंगो । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० दस० णव० अट्ट० लोग०  
असंखे०भागो सव्वलोगो वा । मणुसलिण्ण दस० णव० अट्ट० सत्त० पंचिदियतिरिक्ख-  
भंगो । सेसं लोग० असंखे०भागो ।

प्राप्ति सासादनगुणस्थानमें सम्भव है और सामान्यसे सासादन सम्यग्दृष्टि नारकियोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण है। इसीसे यहाँ पर सात प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले नारकियोंका स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण कहा है। छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले नारकी जीव या तो उपशमसम्यग्दृष्टि होते हैं या क्षायिक सम्यग्दृष्टि होते हैं और ऐसे नारकियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। यही कारण है कि इस स्थानवाले नारकियोंका स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। मात्र सातवीं पृथिवीके नारकी मिथ्यात्व गुणस्थानके साथ ही मरण करते हैं, इसलिए इनमें सात प्रकृतियोंके उदीरक नारकियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

§ १४२. तिर्यञ्चोमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पाच प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यत्रिकमें दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान है और शेष पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियादि अधिकतर तिर्यञ्च दस, नौ और आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हैं और इनका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए दस, नौ और आठ प्रकृतियोंके उदीरक तिर्यञ्चोका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। सासादन तिर्यञ्च ऊपर सात राजु क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए तिर्यञ्चोमें सात प्रकृतियोंके उदीरकोंका स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण कहा है। संयतासंयत तिर्यञ्चोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण है। यही कारण है कि यहाँ पर छह प्रकृतियोंके उदीरक तिर्यञ्चोका उक्त स्पर्शन कहा है। पांच प्रकृतियोंके उदीरक तिर्यञ्च उपशमसम्यग्दृष्टि विरताविरत होते हैं और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ १४३. देवेषु दस० एव० अद्भु० सत्त० लोग० असंखे०भागो अद्भु-णव-चोद्दस० । [ छणं लोग० असंखे० अद्भुचोद्दस० । ] एवं सोहम्मीसाण० । भवण०-वाणवें०-जोदिमि० दस० एव० अद्भु० सत्त० लोग० असंखे०भागो अद्भुद्वा वा अद्भु-णवचोद्दस० देसणा । छउदीर० लोग० असंखे०भागो अद्भुद्वा वा अद्भुचोद्दस० । सणकुमारादि जाव सहस्सारे ति दस० णव० अद्भु० सत्त० छ० लोग० असंखे०भागो अद्भुचोद्द० । आणदादि अच्चुदा ति मव्वट्टाणाणि लोग० असंखे०भागो छचोद्दस० । उवरि खेतं । एवं जाव० ।

❀ णाणाजीवेहि कालो ।

§ १४४. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❀ एकस्से दोण्हं पवेसगा केवच्चिरं कालादो हाति ?

§ १४५. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमञ्चो ।

§ १४३. देवोंमें दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सौवर्म और ऐशान कल्पमें जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और उद्योतिपी देवोंमें दस, नौ, आठ और सात प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सनत्कुमारसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें दस, नौ, आठ, सात और छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब स्थानोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आगे स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें जहां जो स्पर्शन बतलाया है उस ध्यानमें रखकर स्पर्शन ले आना चाहिए।

\* नाना जीवोंकी अपेक्षा काल ।

§ १४४. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

\* एक और दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका कितना काल है ?

§ १४५. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।



१४६. तं जहा—सत्तद् जणा बहुगा वा अणियट्टिउवसामगा एकसमयमेक्किस्से पवेसगा होदूण विदियसमए कालं करिय पज्जायंतरमुवगया, लद्धो एकिस्से पवेसगाणं जहएणोणोयसमओ । एवं दोणहं पवेसगाणं पि वत्तव्वं, विसेसाभावादो ।

✽ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

१४७. कुदो ? संखेजवारमणुसंधिदपवाहाणमुवसामग-खवगाणमेक-दोपयडि-पवेसगपज्जायपरिणदाणमुक्कस्सावट्टाणकालस्स तप्पमाणत्तदंसणादो ।

✽ सेसाणं पयडीणं पवेसगा सव्वद्धा ।

१४८. सुगममेदं । एवमोघो समत्तो । मणुसतिए एवं चैव । आदेसेण एोरइय० सव्वपदा० सव्वद्धा । एवं सव्वणोरइय० । एवरि विदियादि सत्तमा त्ति छ०-उदीर० जह० एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-तिय० सव्वपदा सव्वद्धा । एवरि पंच जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । पंचि०तिरिक्खअपज्ज० सव्वपदा सव्वद्धा । मणुसअपज्ज० सव्वट्टाणाणि जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । देवाणं णारयभंगो । एवं सोहम्मादि जाव एवगेवज्जा त्ति । भवण०-वाणव०-जोदिसि० विदियपुढविभंगो । अणुहिसादि सव्वट्टा त्ति

१४६. यथा—सात आठ अथवा बहुत अनिवृत्ति उपशामक जीव एक समय तक एक प्रकृतिके प्रवेशक होकर दूसरे समयमें मरकर दूसरी पर्यायको प्राप्त हो गये। इस प्रकार एक प्रकृतिके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दो प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका भी जघन्य काल एक समय कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है।

✽ उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

१४७. क्योंकि जिन्होंने संख्यात बार प्रवाहको मिलाया है ऐसे एक और दो प्रकृतियोंकी प्रवेशक पर्यायसे परिणत हुए उपशामक और क्षपक जीवोंका अवस्थानकाल तत्प्रमाण देखा जाता है।

✽ शेष प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका काल सर्वदा है ।

१४८. यह सूत्र सुगम है। इसप्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई। मनुष्यत्रिकमें इसीप्रकार जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें सब पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दूसरीसे लेकर सातवा तकके नारकियोंमें छह प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यक असंख्यातवें भागप्रमाण है। सामान्य तिर्यञ्चों और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। किन्तु इतनी विशेषता है कि पाँच प्रकृतियोंके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यक असंख्यातवें भागप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यक असंख्यातवें भागप्रमाण है। देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इसीप्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। भवनवामी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है। अनुदिशसे

सव्वट्टाणाणि सव्वट्ठा । एवं जाव० ।

❀ णाणाजीवेहि अंतरं ।

§ १४९. सुगममेदमहियारपरामरसवकं ।

❀ एकस्से दोणहं पवेसगंतरं केवच्चिरं कालादो होदि ?

§ १५०. सुगमं ।

❀ जहण्णेण एयसमञ्चो ।

§ १५१. एगसमयमंतरिदपवाहाणमेदेसिमणंतरसमए पुणो वि संभवे विप्पडि-  
सेहाभावादो ।

❀ उक्कस्सेण छुम्मासा ।

§ १५२. किं कारणं ? खवगसेडिसमारोहणविरहकालसस उक्कस्सेण तप्पमाण-  
त्तोवलंभादो ।

❀ सेसाणं पयडोणं पवेसगाणं एत्थि अंतरं ।

§ १५३. सुगमं । एवमोघो समत्तो । मणुसतिए एवं चेव । एवरि मणुसिणीसु

लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका काल सर्वादा है । इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—द्वितीयादि पृथिवियोंमें छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव उपशम सम्यग्दृष्टि ही  
हो सकते हैं और उपशम सम्यग्दृष्टियोंका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है,  
इसलिए इन पृथिवियोंमें छह प्रकृतियोंके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण कहा है । तथा जघन्य काल एक समय प्रकृति परिवर्तनकी अपेक्षा प्राप्त होता है ।  
तिर्यैचोंमें पाँच प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असं-  
ख्यातवें भागप्रमाण इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

\* नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल ।

§ १४ . अधिकारका परामर्श करनेवाला यह वाक्य सुगम है ।

\* एक और दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ १५०. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १५१. क्योंकि प्रवाहका एक समयके लिए अन्तर देकर प्राप्त हुए इन जीवोंका अनन्तर  
समयमें फिरसे सम्भव होनेमें कोई निषेध नहीं है ।

\* उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

§ १५२. क्योंकि क्षपकश्रेणिके आरोहणका विरहकाल उत्कृष्टरूपसे तत्प्रमाण उपलब्ध  
होता है ।

\* शेष प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है ।

§ १५३. यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । मनुष्यत्रिकमे इसी

दोणहमेकिस्से च जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्तं ।

§ १५४. आदेशेण एरइयसव्वट्टाणाणं एत्थि अंतरं । एवं सव्वएरइय० । णवरि विदियादि सत्तमा त्ति छ० जह० एयस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । तिरिक्ख-पंचि०-तिरिक्खतिय० सव्वट्टाणाणं एत्थि अंतरं । एवरि पंच०उदीर० जह० एयसमओ, उक्क० चोहम रादिदियाणि । पंचि०तिरि०अपज्ज० सव्वट्टाणाणं एत्थि अंतरं । मणुसअपज्ज० सव्वट्टाणा० जह० एयम०, उक्क० पत्तिदो० असंखे०भागो । देवाणं एारयभंगो । एवं सोहम्मादि एवगेवज्जा त्ति । भवण०-वाण०-जोदिसि० विदियपुढवि-भंगो । अणुदिमादि जाव सव्वट्टा त्ति सव्वट्टाणाणं एत्थि अंतरं । एवं जाव० ।

✽ सण्णयासो ।

§ १५५. एत्तो सण्णयामो कायव्वो त्ति अहियारमंभालणवक्कमेदं ।

✽ एक्किस्से पवेसगो दोणहमपवेसगो ।

प्रकार है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियामें दो और एक प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रत्यक्त्व है ।

§ १५४. आदेशसे नारकियोंमें सब स्थानोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि दूसरीसे लेकर सातवां पृथिवी तकके नारकियोंमें छह प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सब स्थानोंका अन्तरकाल नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि पांच प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सब स्थानोंका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें सब स्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । देवोंमें नारकियोंके समान भंग है । इसीप्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सब स्थानोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्यनियामें क्षपकश्रेणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाज वर्ष प्रत्यक्त्व प्रमाण है, इसीसे इनमें एक और दो प्रकृतियोंके उदीरकोंका उक्त कालप्रमाण अन्तरकाल कहा है । उपशमसम्यक्त्व और उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम ये सान्तर मार्गणाए हैं । इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः सात और चौदह दिन-रात है । यही कारण है कि यहा पर द्वितीयादि पृथिवियोंके नारकियोंमें छह प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । तथा सामान्य तिर्यञ्चोंमें और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पांच प्रकृतियोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कहा है । शेष कथन सुगम है ।

✽ सन्निकर्ष ।

§ १५५. आगे सन्निकर्ष करना चाहिए इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह वाक्य है ।

✽ जो एक प्रकृतिका प्रवेशक है वह दो प्रकृतियोंका अप्रवेशक है ।

§ १५६. कुदो ? परोपरविरुद्धसहावत्तादो । चउण्हं पंचण्हं ळण्हं सत्तण्हं अट्टण्हं णवण्हं दसण्हं च अपवेसगो त्ति एदमत्थदो लब्भदो, एकस्से पवेसगस्स सेसासेस-ट्टाणाणमपवेमयभावस्म देमामासयभावेणेदस्स पयट्टत्तादो ।

❀ एवं सेसाणं ।

§ १५७. सुगमं । उच्चारणाहिप्पाणण पुण सण्णियासो णत्थि, तत्थ सत्तार-सण्हमेवाणिओगद्वाराणं परूवणादो ।

§ १५८. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

❀ अप्पावहुअं ।

§ १५९. एत्तो अप्पावहुअमहिकयं दट्टव्वामिदि भणिदं होइ ।

❀ सव्वत्थोवा एकस्से पवेसगा ।

§ १६०. कुदो ? सुहुमसांपराइयद्वाए अणियट्टियद्दामंखेज्जदिभागे च मंचिद-खवगोवमामगजीवाणमिह ग्गहणादो ।

❀ दोएहं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १६१. कुदो ? अणियट्टिपढममयप्पहुडि तदद्वाए संखेज्जेसु भागेषु मंचिद-ख खवगोवमामगजीवाणमिहावलंबणादो ।

❀ चउएहं पयडीणं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १५८. क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध स्वभाववाले हैं । जो एक प्रकृतिका प्रवेशक है वह चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ और दस प्रकृतियोंका अप्रवेशक है यह प्रवर्तक कथनसे ही फलित हो जाता है, क्योंकि जो एक प्रकृतिका प्रवेशक है वह शेष समस्त स्थानोंका अप्रवेशक है इस प्रकार देशामर्पक भावसे इस अर्थको सूचित करनेमें इस सूत्रका प्रवृत्ति हुई है ।

\* इमी प्रकार शेष स्थानोंके विषयमें जानना चाहिए ।

§ १५७. यह सूत्र सुगम है । किन्तु उच्चारणके अभिप्रायसे सन्निकर्ष अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें सत्रह अनुयोगद्वारोंकी ही पररूपणा की है ।

§ १५८. भाव सर्वत्र औदधिक है ।

\* अल्पबहुत्व ।

§ १५९. आगे अल्पबहुत्व अधिकतरूपसे जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* एक प्रकृतिके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ १६०. क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायके कालमें और अनिवृत्तिकरणके संख्यातवें भागप्रमाण कालमें सञ्चित हुए क्षपक और उपशामक जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है ।

\* उनसे दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १६१. क्योंकि अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर उसके कालके संख्यात बहुभाग प्रमाण कालमें सञ्चित हुए क्षपक और उपशामक जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है ।

\* उनसे चार प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १६२. किं कारणं ? उवमम-खइयसम्माइट्टिस्स पमत्तापमत्तसंजदाणमपुव्व-करणखवगोवसामगाणं च भय-दुगुंळोदयविरहिदाणमेत्थ गहणादो ।

❀ पंचण्हं पयडोणं पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ १६३. कुदो ? उवसम-खइयसम्माइट्टिसंजदासंजदरासिस्स संखेज्जाणं भागाण-मेत्थ पहाणभावेणावलंबियत्तादो ।

❀ छण्हं पयडोणं पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ १६४. कुदो ? वेदगसम्माइट्टिसंजदासंजदाणं संखेज्जेहिं भागेहिं सह उवसम-खइयसम्माइट्टिअसंजदराभिस्स संखेज्जाणं भागाणमिह पहाणभावदंसणादो । एदमसिद्धं, भय-दुगुंळ्याणुदयकालमाहप्पावलंबणेण सिद्धसरूवत्तादो ।

❀ सत्तण्हं पयडोणं पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ १६५. कुदो ? खइयसम्माइट्टीणं संखेज्जदिभागेण सह वेदगसम्माइट्टिअसंजद-रासिस्स संखेज्जाणं भागाणमिह पहाणत्तदंसणादो ।

❀ दसण्हं पयडोणं पवेसगा अणंतगुणा ।

§ १६६. कुदो ? मिच्छाइट्टिरासिस्स संखेज्जदिभागपमाणत्तादो ।

❀ एवण्हं पयडोणं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १६२. क्योंकि भय और जुगुप्साके उदयसे रहित जो उपशमसम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीव हैं तथा अपूर्वकरण उपशामक और तपक जीव हैं उनका यहाँ पर ग्रहण किया है ।

\* उनसे पाँच प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ १६३. क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवराशिके संख्यात बहुभागप्रमाण जीव राशिका यहाँ प्रधानभावसे अवलम्बन लिया है ।

\* उनसे छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ १६४. क्योंकि वेदकसम्यग्दृष्टि संयतासंयत जीवोंके संख्यात बहुभागके साथ उपशम सम्यग्दृष्टि और ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि असंयत जीवराशिके संख्यात बहुभागकी प्रधानता यहाँ पर देखी जाती है । और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि भय और जुगुप्साके अनुदय कालके माहात्म्यका अवलम्बन लेनेसे यह सिद्धस्वरूप है ।

\* उनसे सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ १६५. क्योंकि ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंके संख्यातवें भागके साथ वेदकसम्यग्दृष्टि असंयत-राशिके संख्यात बहुभागप्रमाण जीवोंकी यहाँ पर प्रधानता देखी जाती है ।

\* उनसे दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ १६६. क्योंकि ये मिच्छादृष्टि राशिके संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

\* उनसे नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १६७. कुदो ? भय-दुगुञ्जाणं दोणहं पि समुदिदानमुदयकालादो अण्णदरविरहिद-  
कालस्स संखेज्जगुणत्तोवएसदो ।

❀ अट्टणहं पयडोणं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १६८. किं कारणं ? अण्णदरविरहकालादो दोणहं पि विरहिदकालस्स संखेज्ज-  
गुणत्तावलंबणादो । एदममिद्धं, एदम्हादो चेव सुत्तादो सिद्धसरूवत्तादो । एवमोषेण  
अण्णाबहुगाणुगमो समत्तो ।

§ १६९. संपहि आदेसपरूवणट्टमुवरिमं पवधमाह—

❀ णिरयगदीए सव्वत्थोवा ल्लुणहं पयडोणं पवेसगा ।

§ १७०. किं कारणं ? उवसम-खइयसम्माइट्टिजीवाणं पलिदोवमासंखेज्ज०भाग-  
पमाणाणमिह ग्गहणादो ।

❀ सत्तएहं पयडोणं पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ १७१. कुदो ? वेदयसम्माइट्टिरासिस्स पहाणभावेणेत्थ विवक्खियत्तादो ।

❀ दसएहं पयडोणं पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ १७२. किं कारणं ? भय-दुगुञ्जोदयसहिदमिच्छाइट्टिरासिस्स विवक्खियत्तादो ।

❀ णवएहं पयडोणं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १६७. क्योंकि भय और जुगुप्सा इन दोनोंके मिले हुए उदयकालसे अन्यतर विरहित  
काल संख्यातगुणा है ऐसा उपदेश है ।

\* उनसे आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १६८. क्योंकि अन्यतर विरहित कालसे दोनोंके ही उदयसे रहित काल संख्यातगुणा  
है ऐसा अवलम्बन किया गया है । और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे वह  
सिद्धस्वरूप है ।

इस प्रकार ओघसे अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ ।

§ १६९. अब आदेशका कथन करनेके लिए आगेका प्रबन्ध कहते हैं—

\* नरकगतिमें छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ १७०. क्योंकि पल्यके असंख्यानवें भागप्रमाण उपशमसम्यग्दृष्टि और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि  
जीवोंका यहां पर ग्रहण किया है ।

\* उनसे सात प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ १७१. क्योंकि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवराशि प्रधानभावसे यहां पर विवक्षित है ।

\* उनसे दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ १७२. क्योंकि भय और जुगुप्साके उदयवाली सिध्यादृष्टि जीवराशि यहां पर  
विवक्षित है ।

\* उनसे नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १७३. कुदो ? भय-दुगुञ्जाणमणदरोदयविरहिदकालम्मि दोण्हमुदयकालादो संखेज्जगुणम्मि संचिदत्तादो ।

❀ अट्टण्हं पयडोणं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ १७४. कुदो ? अण्णदरविरहिदकालादो संखेज्जगुणम्मि दोण्हं विरहिदकालम्मि संचिदत्तादो । एवं गिरओघो समत्तो । एवं सव्वणोरइय-देवा भवणादि जाव सहस्सारा त्ति । तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा पंच० उदीर० । छ० उदीर० असंखे०गुणा । सत्त० उदीर० असंखे०गुणा । दस० उदीर० अणंतगुणा । णव०उदीर० संखे०गुणा । अट्ट० उदीर० संखे०गुणा । एवं पंचि०तिरिक्खितिए । णवरि दस० उदी० असंखे०गुणा । पंचि०तिरि०अप०-मणुसअप० सव्वत्थो० दस० उदी० । णव० उदी० संखेज्ज०गु० । अट्ट० उदी० संखे०गु० । मणुसेसु सव्वत्थोवा एक्खिसे उदी० । दोएह-मुदी० संखेज्जगुणा । चट्टण्हं संखे०गुणा । पंचण्हं संखे०गुणा । छ० उदी० संखे०-गुणा । सत्त० उदी० संखे०गुणा । दस० उदी० असंखे०गुणा । णव० उदी० संखे०गुणा । अट्ट० उदी० संखे०गुणा । एवं मणुसपज्ज०-मणुमिणी० । एवरि संखे०गुणं कायव्वं । आणदादि जाव एवगेवज्जा त्ति सव्वत्थो० दस० उदीर० । छ० उदी० संखे०-

§ १७३. क्योंकि दोनोंके उदयकालसे संख्यातगुणे भय और जुगुप्सामेंसे किसी एकके उदयसे रहित कालमें उक्त जीवोंका सञ्चय हुआ है ।

❀ उनसे आठ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ १७४. क्योंकि अन्यतरके उदयसे रहित कालसे दोनोंके उदयसे रहित संख्यातगुणे कालमें उक्त जीवोंका सञ्चय हुआ है । इसप्रकार सामान्यसे नारकियोंमें अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें पाँच प्रकृतियोंके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे सात प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्योंमें एक प्रकृतिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे दो प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे चार प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे पाँच प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे छह प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे सात प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । आनत कल्पसे लेकर नौ प्रवेशक तकके देवोंमें दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे छह

गुणा । णव० उदी० संखे०गुणा । अट्ट० उदी० संखे०गुणा । सत्त० उदी० संखे०-  
गुणा । एवमणुदिसादि मच्चट्टा त्ति । णवरि दस० उदीरणा णत्थि । एवं जाव० ।

एवमणुदिसादि समत्ते पयडिउदीरणाए सत्तारस  
अणिओगदाराणि समत्ताणि ।

❀ एत्तो भुजगारपवेसगो ।

§ १७५. एत्तो उवरि पयडिउदीरणाए भुजगारपवेसगो कायव्वो त्ति  
वत्तव्वं पइएणावक्कमेदं—

❀ तत्थ अट्टपदं कायव्वं ।

§ १७६. तस्मि भुजगारपवेसगपरूवणाए पुव्वमेव ताव अट्टपदपरूवणा कायव्वं,  
अएणहा भुजगारादिपदविसेसविसयणिएणयाणुप्पीदो । तं जहा—अणंतरादिकंत-  
समए थोवयरपयडिपवेसादो एण्हि बहुदरियाओ पयडीओ पवेसेदि त्ति एसो भुजगार-  
पवेसगो । अणंतरविदिकंतसमए बहुदरपयडिपवेसादो एण्हि थोवयरपयडीओ पवेसेदि  
त्ति एसो अप्पदरपवेसगो । अणंतरविदिकंतममए एण्हि च तत्तियाओ चैव पयडीओ  
पवेसेदि त्ति एसो अव्विदपवेसगो । अणंतरविदिकंतसमए अपवेसगो होदूण एण्हि  
पवेसेदि त्ति एस अव्वत्तव्वपवेसगो । एवमट्टपदपरूवणा गया ।

प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे नौ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
उनसे आठ प्रकृतियोंके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे सात प्रकृतियोंके उदीरक जीव  
संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु  
इतनी विशेषता है कि इनमें दस प्रकृतियोंके उदीरक जीव नहीं हैं । इसीप्रकार अनाहारक  
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होने पर प्रकृतिस्थानउदीरणामें  
सत्रह अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

\* आगे भुजगारप्रवेशकका अधिकार है ।

§ १७७. इससे आगे प्रकृतिस्थान उदीरणामें भुजगारप्रवेशक करना चाहिए इस प्रकार  
यह प्रतिज्ञावचन कहने योग्य है ।

\* उसके विषयमें अर्थपद करना चाहिए ।

§ १७८. उव भुजगारप्रवेशकपरूपणामें सर्वप्रथम अर्थपदकी परूपणा करनी चाहिए,  
अन्यथा भुजगार आदि पदविशेषविषयक निर्णय नहीं हो सकता । यथा—अनन्तर अतिक्रान्त  
समयमें हुए स्तोत्रतर प्रकृतियोंके प्रवेशसे वर्तमान समयमें बहुत प्रकृतियोंको प्रवेश कराता है  
यह भुजगारप्रवेशक है । अनन्तर अतिक्रान्त समयमें हुए बहुत प्रकृतियोंके प्रवेशसे वर्तमान  
समयमें स्तोत्रतर प्रकृतियोंको प्रवेश कराता है यह अल्पतरप्रवेशक है । अनन्तर अतिक्रान्त  
समयमें और वर्तमान समयमें उतनी ही प्रकृतियोंको प्रवेश कराता है यह अवस्थितप्रवेशक  
है । अनन्तर अतिक्रान्त समयमें अप्रवेशक होकर वर्तमान समयमें प्रवेश कराता है यह  
अवक्तव्यप्रवेशक है । इस प्रकार अर्थपद परूपणा समाप्त हुई ।



१७७. संपहि एत्थ तेरस अणियोगदाराणि णादव्वाणि भवन्ति—समुक्कित्ताणां जाव अप्पावहुए त्ति । तत्थ ताव ममुक्कित्ताणां वत्तइस्सामो । तं जहा—समुक्कित्ताणाणुं दुविहो णिहेमो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त०-उदीर० । एवं मणुमतिए । आदेसेण गेरइय० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-उदीर० । एवं सव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्वदेवा त्ति । एवं जाव० । एव सुगम-त्तादो अप्पवएणणीयत्तादो च समुक्कित्ताणाणुममुल्लंघिय सामित्तविहामणट्ठमिदमाह—

❀ तदो सामित्तं ।

§ १७८. सुगमं ।

❀ भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदपवेसगो को होइ ?

§ १७९. सुगमं ।

❀ अणणदरो ।

§ १८०. मिच्छाइड्डी सम्माइड्डी वा सामिओ होदि त्ति भणिदं होइ ।

❀ अवत्तव्वपवेसगो को होइ ।

§ १८१. सुगममेदं पुच्छावकं ।

❀ अणणदरो उवसामणादो परिवदमाणगा ।

§ १७७. अब यहा पर समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक तरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य है । उनमेसे मर्व प्रथम समुत्कीर्तनाका बतलाते है । यथा—समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके उदीरक जीव है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आवेशसे नारकियमे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीव है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोमे जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इस प्रकार सुगम होनेसे और अल्प वर्णनीय होनेसे समुत्कीर्तनानुगमको उल्लघन कर स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र कहत है—

\* उसके बाद स्वामित्वका अधिकार है ।

§ १७८. यह सूत्र सुगम है ।

\* भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका प्रवेशक कौन जीव है ?

§ १७९. यह सूत्र सुगम है ।

\* अन्यतर उक्त पदोंका प्रवेशक है ।

§ १८०. मिच्छादृष्टि और सन्न्यदृष्टि जीव स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* अवक्तव्यपदका प्रवेशक कौन जीव है ?

§ १८१. यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

\* उपशमनासे गिरनेवाला अन्यतर जीव अवक्तव्यपदका प्रवेशक है ।

§ १८२. सव्वोवसमं कादूण परिवदमाणगो पढमसमयसुहुमसांपराइयो पढम-समयदेवो वा अवत्तव्वपवेसगो होइ ति भणिदं होइ । एवमोघो ममत्तो । एवं मणुस-तिण्ण । णवरि अवत्तव्व०पवे० पढमसमयदेवो ति ण वत्तव्वं । आदेसेण एरइय० ओधं । णवरि अवत्त० एत्थि । एवं सव्वणो० मव्वतिरिक्ख-मव्वदेवा ति । णवरि पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-अणुहिमादि सव्वट्ठा ति भुज०-अप-अवट्ठि० कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव० ।

❀ एगजीवेण कालो ।

• १८३. मार्गत्तारंतरमेगजीवविसयो कालो विहासियव्वो ति भणिदं होइ । तस्म दुविहो णिद्वेमो—ओघादेमभेदेण । तत्थोघपरूवणट्ठमाह—

❀ भुजगारपवेसगो केवच्चिरं कालादो होदि ?

• १८४. सुगमं ।

❀ जहण्णेण एयसमओ ।

• १८५. तं कथं ? मत्तण्हं पवेमगो होदूण ट्ठिदो सम्माइट्ठी मिच्छाइट्ठी वा भय-दुगुंझाणमरणदरं पवेमिय भुजगारपवेमगो जादो । पुणो विदियसमए तत्तियं चे उदीरे-माणस्स तस्म लद्धो एयसमयमेत्तो भुजगारपवेसगजहण्णकालो । एवमण्णत्थ वि जहासंभवमेयसमयो अणुगंतव्वो ।

§ १८२. सर्वापशम करके गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मूर्खमसांपरायिक जीव अथवा प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यपदका प्रवेशक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार आघपरूवणा समाप्त हुई । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपदका प्रवेशक प्रथम समयवर्ती देव है यह नहीं कहना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यपद नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च और सब देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद किसके हांते है ? अन्यतरके हांते है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

\* एक जीवकी अपेक्षा काल ।

§ १८३. स्वामित्वके बाद एक जीवविषयक कालका व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसका ओघ और आदेशके भेदसे दो प्रकारका निर्देश है । उनमेंसे आघका कथन करनेके लिए कहते है—

\* भुजगारप्रवेशकका कितना काल है ?

§ १८४. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

• १८५. वह कैसे ? सात प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर स्थित कोई एक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव भय और जुगुप्सामेसे किसी एकका प्रवेश करा कर भुजगारप्रवेशक हो गया । पुनः दूसरे समयमे उतनी प्रकृतियोंकी ही उदीरणा करनेवाले उसके भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । इसीप्रकार अन्यत्र भी यथासम्भव एक समय काल जान लेना चाहिए ।

❊ उक्तस्सेण चत्तारि समयया ।

§ १८६. तं जहा—उवसमसम्माइट्टिणो पमचसंजदा संजदासंजदा असंजद-सम्माइट्टिणो च जहाकमं चत्तारि पंच छ पयडीओ उदीरेमाणा ट्टिदा । पुणो तेसु उवसमसम्मचकालो एयसमयमेत्तो अत्थि ति सासणगुणं पडिवण्णोसु एक्को भुजगार-समओ लद्धो । से काले मिच्छत्तं पडिवण्णोसु विदिओ भुजगारसमओ लब्भदे । से काले भये पवेसिदे तदियो भुजगारसमयो । तदणंतरममए दुगुंद्धाए पवेसिदाए चउत्थो भुजगारसमयो ति एवमुक्तस्सेण चत्तारि समयया भुजगारपवेसगस्स लद्धा भवन्ति । अथवा ओदरमाणगो अणियट्टिउवसामगो अण्णदरसंजलणमुदीरेमाणो पुरिसवेदमोकड्डिय एयसमयं भुजगारपवेसगो जादो । तदणंतरसमए कालं कादूण देवेसुप्पणपढममए विदियो भुजगारसमयो । पुणो तत्तो अणंतरसमए भयमुदीरे-माणस्स तदियो भुजगारसमयो । से काले दुगुंद्धोदएणा परिणदस्स चउत्थो भुजगार-समयो ति एवं चत्तारि समयया ।

❊ अप्पदरपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ १८७. सुगममेदं पुच्छावक्कं ।

❊ जहणेण एयसमओ ।

१८८. कुदो ? एयसमयमप्पयरं कादूण तदणंतरसमए भुजगारमवट्टिदं वा गदस्स तदुवल्लंभादो ।

\* उत्कृष्ट काल चार समय है ।

§ १८६. यथा—उपशमसम्यग्दृष्टि प्रमत्तसंयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव क्रमसे चार, पाँच और छह प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हुए स्थित हैं । पुनः उपशमसम्यक्त्वका काल एक समयमात्र शेष है कि उनके सासादन गुणस्थानको प्राप्त होनेपर एक भुजगारसमय प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर दूसरा भुजगार समय प्राप्त होता है । तदनन्तर समयमें भयके प्रवेश कराने पर तीसरा भुजगार समय प्राप्त होता है और तदनन्तर समयमें जुगुप्साके प्रवेश कराने पर चौथा भुजगार समय प्राप्त होता है । इस प्रकार भुजगार-प्रवेशकके उत्कृष्टरूपसे चार समय प्राप्त होते हैं । अथवा उतरनेवाला तथा अन्यतर संज्वलनकी उदीरणा करनेवाला अन्यतर अनिवृत्तिउपशामक जीव पुरुपवेदका अपकर्षण करके एक समय तक भुजगार प्रवेशक हो गया । पुनः तदनन्तर समयमें मरकर देवोंमें उ पन्न होनेके प्रथम समयमें दूसरा भुजगारसमय प्राप्त हुआ । पुनः उसके बाद अनन्तर समयमें भयकी उदीरणा करनेवाले उसके तीसरा भुजगारसमय प्राप्त हुआ । तथा तदनन्तर समयमें जुगुप्साके उदयसे परिणत हुए उसके चौथा भुजगारसमय प्राप्त हुआ । इस प्रकार भुजगारप्रवेशकके चार समय प्राप्त हुए ।

\* अल्पतरप्रवेशकका कितना काल है ?

§ १८७. यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

§ १८८. क्योंकि एक समय तक अल्पतरपद करके तदनन्तर समयमें भुजगार या अवस्थितपदको प्राप्त हुए जीवके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

### ❀ उक्कस्सेण तिण्णिण समया ।

§ १८९. तं जहा—मिच्छाइडिस्स दस पयडीओ उदीरेमाणस्स भयवोच्छेदेण णवणहमुदीरणा होदूरोको अप्पदरसमयो । से काले दुगुंळोदयवोच्छेदेणहं होदूण विदियो अप्पयरसमयो । तदणंतरसमए सम्मत्तं पडिवण्णास्स मिच्छत्ताणंताणुबंधि-  
वोच्छेदेण तदियो अप्पदरसमयो चि । एवं अप्पदरपवेसगस्स उक्कस्सकालो तिसमय-  
मेत्तो । एवं चेत्तासंजदमम्माइडिस्स संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स संजदासंजदस्स वा  
संजमं पडिवज्जमाणस्स तिसमयमेत्तापदरुक्कस्सकालपरूवणा कायव्वा ।

### ❀ अवट्ठिदपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ १९०. सुगमं ।

### ❀ जहणणेण एगसमओ ।

§ १९१. तं कथं ? एवपयडीओ पवेसमाणस्स दुगुंळामेरोयसमयं भुजगार-  
पज्जाएण परिणमिय से काले तच्चियमेत्तावट्ठिदस्स तदणंतरसमए भयवोच्छेदेण-  
प्पदरपज्जायमुवगयस्स लद्धो एयसमयमेत्तो अवट्ठिदज्जण्णकालो । एवमण्णत्थ वि-  
वत्ताव्वं ।

### ❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

### \* उत्कृष्ट काल तीन समय है ।

§ १८९. यथा—दस प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीवके भयकी व्युच्छित्ति हो जानेसे नौकी उदीरणा होकर एक अल्पतर समय प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमें जुगुप्साकी उदयव्युच्छित्ति हो जानेसे आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा होकर दूसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ । तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुए उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी व्युच्छित्ति हो जानेसे तीसरा अल्पतर समय प्राप्त हुआ । इसप्रकार अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट काल तीन समय होना है । इसीप्रकार संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके तथा संयमको प्राप्त होनेवाले संयतसंयत जीवके अल्पतर प्रवेशक सम्बन्धी तीन समयमात्र उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

### \* अवस्थितप्रवेशकका कितना काल है ?

§ १८०. यह सूत्र सुगम है ।

### \* जघन्य काल एक समय है ।

§ १९१. वह कैसे ? जो नौ प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव जुगुप्साके आनेसे एक समय तक भुजगार पर्यायसे परिणत हुआ । पुनः तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणाके साथ अवस्थित रहा । फिर तदनन्तर समयमें भयकी व्युच्छित्तिके द्वारा अल्पतरपर्यायको प्राप्त हो गया उसके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हुआ । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए ।

### \* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १९२. तं जहा—दमपयडीओ उदीरेमाणस्स भय-दुगुंञ्जाणमुदयवोच्चेदेण-  
पपरं कादूणावड्ढिदस्स जाव पुणो भय-दुगुंञ्जाणमणुदयो ताव अंतोमुहुचामेचो अवड्ढिद-  
पवेसगस्म उकस्सकाओ होइ ।

✽ अवत्तव्वपवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ १९३. सुगमं ।

✽ जहणुक्कस्सेण एयसमयो ।

§ १९४. कुदो ? सव्वोत्रसामणादो परिवदिदपढममयं मोतूणणत्थ तदसंभ-  
वादा । एवमोघेण कालाणुगमो समचो ।

§ १९५. एवं मणुसतिए । आदेसेण णेरइय० भुज०-अप्प०-अवड्ढि० ओघं ।  
एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिग्गिक्खतिय-देवा भवणादि जाव एवमेवज्जा ति ।  
पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० भुज० जह० एगस०, उक० वेसमया ।  
एवमपपर० । अवड्ढि० ओघं । अणुदिसादि सव्वपट्टा ति भुज०-अप्प० जह० एयस०,  
उक० तिणेण ममया । अवड्ढि० ओघं । एवं जाव० ।

§ १९६. यथा—इस प्रकृतियोंकी उद्धारणा करनेवाला जो जाव भय और जुगुप्साकी  
उदयव्युच्छित्तिके द्वारा अल्पतरपद करके अवस्थित है । पुनः जबतक उसके भय और जुगुप्साका  
अनुदय बना रहता है तबतक उसके अवस्थित प्रवेशरुसम्बन्धी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कृष्ट काल  
प्राप्त हो जाता है ।

\* अवत्तव्यप्रवेशकका कितना काल है ?

§ १९३. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ १९४. क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरते हुए प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र अवत्तव्यरुद  
असंभव है ।

इस प्रकार आघसे कालानुगम समाप्त हुआ ।

१९५. इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें भुजगार,  
अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकका काल आघके समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य  
तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें  
जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भुजगार प्रवेशकका  
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार अल्पतरप्रवेशकका  
काल है । अवस्थितप्रवेशकका काल आघके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके  
देवोंमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन  
समय है । अवस्थितप्रवेशकका काल आघके समान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक  
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें प्रथमादि सर्वोपशामना तकके सब गुणस्थान सम्भव हैं,  
इसलिए उनमें आघप्ररूपणा अचिकल बन जानेसे वह आघके समान जाननेकी सूचना की  
है । परन्तु सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवन-

❀ एयजीवेण अंतरं ।

§ १९६. सुगममेदमहियारपगमरसवकं ।

❀ भुजगार-अप्पदर-अवट्टिदपदेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १९७. सुगमं ।

❀ जङ्घणेण एयसमओ ।

§ १९८. तं जहा—भुजगारस्स ताव उच्चदे । एको ओदरमाणउवसामगो संजलणमुदीरेमाणो पुरिसवेदमोकड्डिय भुजगारपवेमगो जादो । तदो से काले तत्तिय-मेतेणावट्टिदो होदूणंतग्गिदो । तदणंतरसमए कालं कादूण देवेसुप्पणणो भुजगारपवेसगो जादो । लद्धमंतरं । हेट्टिमगुणट्ठाणेषु वि लब्भदे । तं कथं ? भय-दुग्गुञ्जाविरहिदमप्पणणो उदीरणट्ठाणमुदीरेमाणो अण्णदरगुणट्ठाणजीवो भयागमेणेगममयं भुजगारं कादू-

वासियोंसे लेकर नौ प्रैवयक तकके देवोंमें सर्वोपशामनाकी प्राप्ति सम्भव नहीं होनेसे उनमें तीन पदोंकी अपेक्षा कालका निर्देश किया । ये तीन पद पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे भी सम्भव हैं । पान्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान होनसे वहाँ भुजगार और अल्पतर प्रवेशकका उत्कृष्ट काल दो समय ही बनता है तथा अनुदिशादिकमें जो उपशमसम्यग्दृष्टि और कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होता है उसके यह काल तीन समय भी बन जाता है । उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमे सम्यक्त्व प्रकृतिकी, दूसरे समयमे भयकी और तीसरे समयमे जुगुप्साकी उदीरणा करनेसे भुजगार प्रवेशकका तीन समय उत्कृष्ट काल बन जाता है । तथा कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें सम्यक्त्व प्रकृतिको, दूसरे समयमे भयको और तीसरे समयमें जुगुप्साको अनुदीरणरूपसे परिणत करने पर अल्पतर प्रवेशकका तीन समय उत्कृष्ट काल बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

❀ एक जीवकी अपेक्षा अन्तर ।

§ १९६. अधिकारका परामर्श करनेवाला यह वाक्य सुगम है ।

❀ भुजगार, अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ?

§ १९७. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ १९८. यथा—सर्वप्रथम भुजगारका कहते हैं, संज्वलनकी उदीरणा करनेवाला उतरता हुआ एक उपशामक जीव पुरुषवेदका अपकर्षण करके भुजगारप्रवेशक हुआ । इसके बाद तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणाके साथ अवस्थितप्रवेशक होकर उसने भुजगार-पदका अन्तर किया । पुनः तदनन्तर समयमें मरकर और देवोंमे उत्पन्न होकर वह भुजगार-प्रवेशक हो गया । इसप्रकार भुजगारप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो गया । यह अन्तर नीचेके गुणस्थानोंमें भी प्राप्त होता है ।

शंका—वह कैमे ?

समाधान—भय और जुगुप्साकी उदीरणासे रहित अपने उदीरणास्थानकी उदीरणा करनेवाला अन्यतर गुणस्थानवर्ती जीव भयके आगमन द्वारा एक समय तक भुजगारपद

णखंतरसमए तत्तियमेत्तावट्टाणोणंतरिदो, से काले दुगुंछोदएण परिणदो, पुणो वि भुजगारपवेसगो जादो । लद्धमंतरं होइ ।

९१९. संपहि अप्प०पवे० उच्चदे । तं जहा— भय-दुगुंछाहि सह अप्पिद-मुदीरणट्टाणमुदीरेमाणस्स अण्णदरगुणट्टाणजीवस्स भयवोच्चेदेणोसमयमप्पदरपञ्जएण परिणदस्स तदणंतरसमए तत्तियमेत्तेणंतरं होदूण से काले दुगुंछोदयवोच्चेदेण अप्प-दरभावमुवगयस्स लद्धमंतरं होइ । अधवा मिच्छाइट्टिणा सम्मत्ते गहिदे तप्पटमसमयम्मि मिच्छत्ताणंताणुबंधिवोच्चेदेणप्पदरं कादूणाणंतरसमए तत्तियमेत्तेणावट्टिदस्स एगसमय-मंतरं होदूण तदियसमयम्मि भय-दुगुंछाणमण्णदरवोच्चेदेणुभयवोच्चेदेण वा लद्धमंतरं होइ । एवमसंजदसम्माइट्टिणा संजमासंजमे गहिदे संजदासंजदेण वा संजमे गहिदे अप्पदरस्स एगसमयमेत्तजहणणंतरोवलंभो वत्तव्वो । संपहि अवट्टि०पवे० जहएणंतरं उच्चदे । तं जहा—सत्त वा अट्ट वा पयडीओ पवेसेमाणगस्स भयागमेणोगममयं भुजगारेणंतरं होदूण तदुवग्गिममयम्मि तत्तियमेत्तेणावट्टिदस्स लद्धमंतरं होइ । एवमप्पदरेण वि अवट्टिदस्स जहएणंतरं गाहेयव्वं ।

### ❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

करके पुनः तदनन्तर समयमे उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणारूप अवस्थित पद द्वारा भुजगार-पदको अन्तरित करके तदनन्तर समयमे जुगुप्साके उदयरूपसे परिणत होकर पुनः भुजगार-प्रवेशक हो गया । इसप्रकार भुजगारप्रवेशकका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त होता है ।

११८६. अब अल्पतरप्रवेशकका कहते हैं । यथा—भय और जुगुप्साके साथ विवक्षित उदीरणस्थानकी उदीरण करनेवाला अन्यतर गुणस्थानवाला जां जीव भयकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा एक समय तक अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ, पुनः तदनन्तर समयमे उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरण द्वारा अल्पतर पदका अन्तर करके तदनन्तर समयमे जुगुप्साकी उदय-व्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको प्राप्त हुआ, उसके अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । अथवा जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहणकर उसके प्रथम समयमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको करता है, पुनः तदनन्तर समयमे उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरण द्वारा अल्पतरपदका अन्तर करता है और तीसरे समयमे भय और जुगुप्सामेसे किसी एक प्रकृतिकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा या दोनोंकी उदयव्युच्छित्तिद्वारा अल्पतरपद करता है उसके अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । इसीप्रकार असंयतसम्यग्दृष्टिके द्वारा संयमासंयमके ग्रहण करने पर या संयतासंयतके द्वारा संयमके ग्रहण करने पर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समयमात्र प्राप्त होता है ऐसा कथन करना चाहिए । अब अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर कहते हैं । यथा सात या आठ प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला जो जीव भयके आगमन द्वारा एक समय तक भुजगारपद करता हुआ उस द्वारा अवस्थित पदका अन्तर करके पुनः तदनन्तर समयमे उतनी प्रकृतियोंके उदय द्वारा अवस्थित पद करता है उसके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । इसी प्रकार अल्पतरपदका आश्रय लेकर भी अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर साध लेना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

॥ २००. तत्थ ताव भुज०पवे० वुच्चदे । तं जहा—एको संजदासंजदो पंचउदीरेमाणगो असंजमं षड्विण्णो, पढमसमए भुजगारस्सादिं कादूणंतरिदो । सव्वुकस्समंतोमुहुत्तमच्चिय भय-दुगुंछोदयवसेण पुणो वि भुजगारपवेसगो जादो । लद्धमंतरं होइ । अहवा एको उवसमसम्माइट्टी पमचापमत्तसंजदो चदुएहमुदीरगो भय-दुगुंछागमेण भुजगारस्सादि कादूण पुणो सत्थाणे चेव अंतोमुहुत्तमन्निवक्खिय-पजाएणंतरिदो उवसमसेट्ठिमारुहिय सव्वोवसमं कादूणोदरमाणगो लोभसंजलणमुदीरेदूण हेट्टा णिवदिय जम्मि इत्थिवेदमुदीरेमाणगो भुजगारपवेसगो जादो तम्मि लद्धमंतरं होइ ।

॥ २०१. संपहि अप्पदर०पवेस० वुच्चदे—णव वा दस वा पयङ्घीओ उदीरेमाणस्स भय-दुगुंछोदयवोच्चेदेणप्पदरपजायपरिणदस्साणंतरसमए अंतरं होदूणंतोमुहुत्तेण भय-दुगुंछासु उदयमागदासु पुणो वि अंतोमुहुत्तमंतरिदस्स तदुदयवोच्चेदसमकालमप्पदर-भावेण लद्धमंतरं होइ । अधवा उवसमसेट्ठिमारुहिय इत्थिवेदोदयवोच्चेदेणप्पदरस्सादिं कादूणंतरिय उवरि चट्ठिय हेट्टा ओदियणस्स भय-दुगुंछाणमुदीरणा होदूणंतोमुहुत्तेण जत्थ तदुदयवोच्चेदो जादो तत्थ लद्धमंतरं कायव्वं ।

॥ २०२. संपहि अवट्ठिदपवे० उच्चदे—उवसामगो लोहसंजलणमुदीरेमाणो अवट्ठिदस्सादिं कादूणाणुदीरगो होदूणंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो ओदरमाणो सुहुमसांपरायो

§ २००. उसमें सर्वप्रथम भुजगारप्रवेशकका कहते हैं । यथा—पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले एक संयतासंयत जीवने असंयमको प्राप्त होकर प्रथम समयमें भुजगारपदका आरम्भ कर उसका अन्तर किया । पुनः सबसे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक रहकर अन्तमें भय और जुगुप्साके उदय द्वारा फिरसे जो भुजगारप्रवेशक हो गया उसके भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । अथवा चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला एक उपशमसंयगृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव भय और जुगुप्साके आगमन द्वारा भुजगारपदका प्रारम्भ करके पुनः स्वस्थानमें ही अन्तर्मुहूर्त कालतक अविबक्षित पर्यायके द्वारा उसका अन्तर करके उपशम-श्रेणि पर चढ़ा और वहाँ सर्वोपशम करके उतरने हुए लोभसंज्वलनकी उदीरणा करके तथा नीचे गिरकर जहाँ जाकर स्त्रीवेदकी उदीरणा करता हुआ भुजगारप्रवेशक हुआ वहाँ उस जीवके भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है ।

§ २०१. अब अल्पतरप्रवेशकका कहते हैं—नौ या दस प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला कोई एक जीव भय और जुगुप्साकी उदयव्युच्छित्तिद्वारा अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ । पुनः अनन्तर समयमें उसका अन्तर होकर अन्तर्मुहूर्त कालके बाद भय और जुगुप्साके उदयमें आने पर फिरसे अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका अन्तर किया । फिर उन दोनों प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्तिके कालमें ही अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ उसके अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । अथवा उपशमश्रेणि पर चढ़कर स्त्रीवेदकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदका प्रारम्भकर और अविबक्षित पदद्वारा उसका अन्तर कर ऊपर चढ़ा । फिर नीचे उतरते हुए उसके भय और जुगुप्साकी उदीरणा होकर अन्तर्मुहूर्त काल बाद जहाँ उन दोनोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है वहाँ अल्पतर पदका प्राप्त हुआ उत्कृष्ट अन्तर करना चाहिए ।

§ २०२. अब अवस्थितप्रवेशकका कहते हैं—लोभसंज्वलनकी उदीरणा करनेवाला उपशामक जीव अवस्थित पदका प्रारम्भ करके बादमें उसका अनुदीरक होकर अन्तर्मुहूर्त काल



णणंतरसमए तत्तियमेत्तावट्टाणेणंतरिदो, से काले दुगुंछोदएण परिणदो, पुणो वि भुजगारपवेसगो जादो । लद्धमंतरं होइ ।

§ १९९. संपहि अप्पे०पवे० उच्चदे । तं जहा— भय-दुगुंछाहि सह अप्पिद-मुदीरणट्टाणमुदीरेमाणस्स अप्पणदरगुणट्टाणजीवस्स भयवोच्चेदेणोणसमयमप्पदरपज्जएण परिणदस्स तदणंतरसमए तत्तियमेत्तेणंतरं होदूण से काले दुगुंछोदयवोच्चेदेण अप्प-दरभावमुवगयस्स लद्धमंतरं होइ । अथवा मिच्छाइट्टिणा सम्मत्ते गहिदे तप्पठमसमयम्मि मिच्छत्ताणंताणुबंधिवोच्चेदेणप्पदरं कादूणाणंतरसमए तत्तियमेत्तेणावट्टिदस्स एगसमय-मंतरं होदूण तदियसमयम्मि भय-दुगुंछाणमण्णदरवोच्चेदेणुभयवोच्चेदेण वा लद्धमंतरं होइ । एवमसंजदसम्माइट्टिणा संजमासंजमे गहिदे संजदासंजदेण वा संजमे गहिदे अप्पदरस्स एगसमयमेत्तजहणणंतरोवलंभो वत्तव्वो । संपहि अवट्टि०पवे० जहएणंतरं उच्चदे । तं जहा—सत्त वा अट्ट वा पयडीओ पवेसेमाणगस्स भयागमेणोणसमयं भुजगारेणंतरं होदूण तदुवरिमसमयम्मि तत्तियमेत्तेणावट्टिदस्स लद्धमंतरं होइ । एवमप्पदरेण वि अवट्टिदस्स जहएणंतरं साहेयव्वं ।

❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

करके पुनः तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरणारूप अवस्थित पद द्वारा भुजगार-पदको अन्तरित करके तदनन्तर समयमें जुगुप्साके उदयरूपसे परिणत होकर पुनः भुजगार-प्रवेशक हो गया । इसप्रकार भुजगारप्रवेशकका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त होता है ।

§ १९८. अब अल्पतरप्रवेशकका कहते हैं । यथा—भय और जुगुप्साके साथ विवक्षित उदीरणस्थानकी उदीरण करनेवाला अन्यतर गुणस्थानवाला जो जीव भयकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा एक समय तक अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ, पुनः तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरण द्वारा अल्पतर पदका अन्तर करके तदनन्तर समयमें जुगुप्साकी उदय-व्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको प्राप्त हुआ, उसके अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । अथवा जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको ग्रहणकर उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदको करता है, पुनः तदनन्तर समयमें उतनी ही प्रकृतियोंकी उदीरण द्वारा अल्पतरपदका अन्तर करता है और तीसरे समयमें भय और जुगुप्सामेंसे किसी एक प्रकृतिकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा या दोनोंकी उदयव्युच्छित्तिद्वारा अल्पतरपद करता है उसके अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । इसीप्रकार असंयतसम्यग्दृष्टिके द्वारा संयमासंयमके ग्रहण करने पर या संयतासंयतके द्वारा संयमके ग्रहण करने पर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समयमात्र प्राप्त होता है ऐसा कथन करना चाहिए । अब अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर कहते हैं । यथा सात या आठ प्रकृतियोंका प्रवेश करनेवाला जो जीव भयके आगमन द्वारा एक समय तक भुजगारपद करता हुआ उस द्वारा अवस्थित पदका अन्तर करके पुनः तदनन्तर समयमें उतनी प्रकृतियोंके उदय द्वारा अवस्थित पद करता है उसके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । इसी प्रकार अल्पतरपदका आश्रय लेकर भी अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर साध लेना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २००. तत्थ ताब भुज०पवे० वुचदे । तं जहा—एको संजदासंजदो पंचउदीरेमाणगो असंजमं षड्विण्णो, पढमसमए भुजगारस्सादिं कादूणंतरिदो । सच्चुक्कस्समंतोमुहुत्तमच्छिय भय-दुगुंछोदयवसेण पुणो वि भुजगारपवेसगो जादो । लद्धमंतरं होइ । अहवा एको उवसमसम्माइट्टी पमचापमत्तसंजदो चदुएहमुदीरगो भय-दुगुंछागमेण भुजगारस्सादि कादूण पुणो सत्थाणे चेव अंतोमुहुत्तमविवक्खिय-पजाएणंतरिदो उवसमसेट्टिमरुहिय सच्चोवसमं कादूणोदरमाणगो लोभसंजलणमुदीरेदूण हेट्टा णिवदिय जम्मि इत्थिवेदमुदीरेमाणगो भुजगारपवेसगो जादो तम्मि लद्धमंतरं होइ ।

§ २०१. संपहि अप्पदर०पवेस० वुचदे—णव वा दस वा पयडीओ उदीरेमाणस्स भय-दुगुंछोदयवोच्छेदेणप्पदरपजायपरिणदस्साणंतरसमए अंतरं होदूणंतोमुहुत्तेण भय-दुगुंछासु उदयमागदासु पुणो वि अंतोमुहुत्तमंतरिदस्स तदुदयवोच्छेदसमकालमप्पदर-भावेण लद्धमंतरं होइ । अधवा उवसमसेट्टिमरुहिय इत्थिवेदोदयवोच्छेदेणप्पदरस्सादिं कादूणंतरिय उवरि चट्टिय हेट्टा ओदिएणस्स भय-दुगुंछाणमुदीरणा होदूणंतोमुहुत्तेण जत्थ तदुदयवोच्छेदो जादो तत्थ लद्धमंतरं कायव्वं ।

§ २०२. संपहि अवट्ठिदपवे० उचदे—उवसामगो लोहसंजलणमुदीरेमाणो अवट्ठिदस्सादिं कादूणाणुदीरगो होदूणंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो ओदरमाणो सुहुमसांषरायो

§ २००. उसमे सर्वप्रथम भुजगारप्रवेशकका कहते हैं । यथा—पाँच प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाले एक संयतासंयत जीवने असंयमको प्राप्त होकर प्रथम समयमें भुजगारपदका प्रारम्भ कर उसका अन्तर किया । पुनः सबसे उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक रहकर अन्तमें भय और जुगुप्साके उदय द्वारा फिरसे जो भुजगारप्रवेशक हो गया उसके भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । अथवा चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला एक उपशमसंभयदृष्टि प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव भय और जुगुप्साके आगमन द्वारा भुजगारपदका प्रारम्भ करके पुनः स्वस्थानमें ही अन्तर्मुहूर्त कालतक अविवक्षित पर्यायके द्वारा उसका अन्तर करके उपशम-श्रेणि पर चढ़ा और वहाँ सर्वोपशम करके उतरते हुए लोभसंजलनकी उदीरणा करके तथा नीचे गिरकर जहाँ जाकर स्त्रीवेदकी उदीरणा करता हुआ भुजगारप्रवेशक हुआ वहाँ उस जीवके भुजगारपदका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है ।

§ २०१. अब अल्पतरप्रवेशकका कहते हैं—नौ या दस प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला कोई एक जीव भय और जुगुप्साकी उदयव्युच्छित्तिद्वारा अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ । पुनः अनन्तर समयमें उसका अन्तर होकर अन्तर्मुहूर्त कालके बाद भय और जुगुप्साके उदयमें आने पर फिरसे अन्तर्मुहूर्त काल तक उसका अन्तर किया । फिर उन दोनों प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्तिके कालमें ही अल्पतर पर्यायसे परिणत हुआ उसके अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । अथवा उपशमश्रेणि पर चढ़कर स्त्रीवेदकी उदयव्युच्छित्ति द्वारा अल्पतरपदका प्रारम्भकर और अविवक्षित पदद्वारा उसका अन्तर कर ऊपर चढ़ा । फिर नीचे उतरते हुए उसके भय और जुगुप्साकी उदीरणा होकर अन्तर्मुहूर्त काल बाद जहाँ उन दोनोंकी उदयव्युच्छित्ति होती है वहाँ अल्पतर पदका प्राप्त हुआ उत्कृष्ट अन्तर करना चाहिए ।

§ २०२. अब अवस्थितप्रवेशकका कहते हैं—लोभसंजलनकी उदीरणा करनेवाला उपशामक जीव अवस्थित पदका प्रारम्भ करके बादमें उसका अनुदीरक होकर अन्तर्मुहूर्त काल

होदूण बिदियसमए कालं कादूण देवेसुप्पज्जिय जहाकममण्णेसु दोसु समएसु भय-  
दुगुंछाओ उदीरिय तदो अबद्धिदपवेसगो जादो, लद्धमंतरं होइ ।

❀ अबन्तव्वपवेसगंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २०३. सुगमं ।

❀ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २०४. तं जहा—उवसमसेटिमारुहिय सव्वोवसामणापडिवादपठमसमए  
अवन्तव्वस्सादिं कादूण हेट्ठा णिवदिय अंतरिदो । पुणो वि सव्वलहुमंतोमुहुत्तेण  
उवसमसेटिमारोहणं कादूण सुहुमसांपराइयचरिमावलयपठमसमए अपवेसगभावमुवण-  
मिय तत्थेव कालं कादूण देवेसुप्पणपठममए लद्धमंतरं करेदि, पयारंतरेण जहण्णं-  
तराणुप्पत्तीदो ।

❀ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ २०५. तं कधं ? अड्डुपोग्गलपरियट्टपठममए सम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहुमुवसम-  
सेटिसमारोहणपुस्सरपडिवादेणादिं कादूणंतरिदो किंचूणमड्डुपोग्गलपरियट्टं परियट्टिदूण  
थोवावसेसे संसारे पुणो वि मव्वविमुद्धो होदूण उवसमसेटिमारूढो पडिवादपठमसमए  
लद्धमंतरं करेदि ति वत्तव्वं । एवमोघपरूवणा समत्ता ।

तक अवस्थितपदका अन्तर करके पुनः उतरना हुआ सूक्ष्मसाम्परायिक होकर तथा दूरसे समयमें  
मरकर और देवोंमें उत्पन्न होकर कमसे अन्य दो समयोंमें भय और जुगुप्साकी उद्दीरणा करके  
अनन्तर अवस्थितप्रवेशक हो गया। इसप्रकार अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है ।

\* अवक्तव्यप्रवेशकका अन्तरकाल कितना है ?

§ २०३. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २०४. यथा—उपशमश्रेणिपर आरोहण करके तथा सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम  
समयमें अवक्तव्यपदका प्रारम्भ करके पुनः नीचे गिरकर उसका अन्तर किया । पुनः सबसे  
लघु अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा उपशमश्रेणिपर आरोहण करके सूक्ष्मसाम्परायकी अन्तिम  
आवलिके प्रथम समयमें अप्रवेशकभावको प्राप्त होकर और वहीं पर मरकर जो देवोंमें उत्पन्न  
हुआ वह वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अवक्तव्यप्रवेशकसम्बन्धी अन्तरको प्राप्त करता है,  
क्योंकि प्रकारान्तरसे जघन्य अन्तरकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

\* उत्कृष्ट अन्तर उषार्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ २०५. शंका—वह कैसे ?

समाधान—अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न करके अतिशीघ्र  
उपशमश्रेणिपर आरोहण पूर्वक गिरते समय अवक्तव्यपदका प्रारम्भ करके जो उसका अन्तर  
करता है । पुनः कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक परिभ्रमणकर संसारमें रहनेका थोड़ा  
काल शेष रह जाने पर फिरसे जो सर्व विशुद्ध होकर उपशमश्रेणि पर आरोहण करता है वह  
गिरनेके प्रथम समयमें उसका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए ।

इस प्रकार ओघपरूपणा समाप्त हुई ।

२०६. आदेशेण गोरइय० भुज०—अप्प० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० चचारि समया । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचिंदिय-तिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव एवगेवज्जा ति । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुमअपज्ज० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० वेसमया । मणुसतिए भुज०-अप्प०-अवट्टि० ओघं । अवच० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त । अणुहिसादि सव्वट्ठा ति भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० तिण्णिण समया । एवं जाव० ।

❀ एाणाजीवेहि भंगविचयादिआणयोगद्वाराणि अप्पाबहुअवज्जाणि कायच्चाणि ।

२०७. एाणाजीवेहि भंगविचय-भागाभाग-परिमाण-खेत्त-पोसण-कालंतर-भाव-मण्णिणदाणमणिणयोगद्वाराणमेदेण सुत्तेण समप्पिदाणमुच्चारणावलेण परूवणमिह वचइस्सामो । तं जहा—

§ २०६. आदेशसे नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इसी प्रकार सव नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवाभियोंसे लेकर नौ भेदके तर्कके देवोंमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तोंमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका अन्तर-काल ओघके समान है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । मनुष्यत्रिकमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकका अन्तरकाल ओघके समान है । अवक्तव्यप्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-पृथक्त्वप्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सवार्थसिद्धितर्कके देवोंमें भुजगार और अल्पतर प्रवेशकका अन्तरकाल ओघके समान है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

त्रिशेषार्थ—मनुष्यत्रिकको छोड़कर अन्य सब गतियोंमें और उनके अन्तर भेदोंमें जहाँ जो भुजगारपदका उत्कृष्ट काल बतलाया है वही वह अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तरकाल जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकका कर्मभूमिमें रहनेका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । यह सम्भव है कि कोई जीव पूर्वकोटिपृथक्त्व कालके प्रारम्भमें और अन्तमें अवक्तव्यपद करे और मध्यमें उसका अन्तरकाल रहा आवे । इसीसे इनमें अवक्तव्यप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अतिशीघ्र दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर ले आना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

\* अल्पबहुत्वके सिवा नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय आदि अनुयोगद्वार करने चाहिए ।

§ २०७. इस सूत्रके द्वारा मुख्यभावको प्राप्त हुए नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर और भाव संज्ञावाले अनुयोगद्वारोंकी प्ररूपणा उच्चारणके बलसे यहाँ पर बतलाते हैं । यथा—नाना जीवोंका आश्रय लेकर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और

§ २०८. एाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भुज०-अप्प०-अवट्ठि०उदीर० णिय० अत्थि, सिया एदे च अवचव्वओ च, सिया एदे च अवचव्वगा च । भंगा तिरिण ३ । आदेसेण एोरइय० अवट्ठि० णियमा अत्थि, सेसपदा भयणिजा । भंगा ९ । एवं मव्वएोरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस०-सव्वदेवा चि । एवरि मणुस०अपज्ज० सव्वपदा भयणिजा । भंगा २६ । मणुसतिए भंगा २७ । तिरिक्खेसु भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णिय० । एवं जाव० ।

§ २०९. भागाभागानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भुज०-अप्प० मव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । अवट्ठि० असंखेज्जा भागा । अवच०

अवस्थित पदके उदीरक जीव नियमसे हैं । कदाचिन् ये नाना जीव है और एक अवक्तव्यपदका उदीरक जीव है । कदाचित् ये नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नाना हैं । भंग तीन है ३ । आदेशसे नारकियोमे अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे है । शेषपद भजनीय है । भंग ९ है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सक देवोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशंपता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद भजनीय है । भंग २६ है । मनुष्यत्रिकमे भंग २७ है । तिर्यञ्चोमे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब देवोंमें एक ध्रुव पद है और दो अध्रुव पद हैं, इसलिए एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा इन पदोंके ध्रुव भंग सहित नौ भंग होते हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें तीन अध्रुव पद है, इसलिए इनके एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा छःषीस भंग होते हैं । मनुष्यत्रिकमे एक ध्रुव पद और तीन अध्रुव पद हैं, इसलिए इनमें ध्रुव भंगके साथ एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा सत्ताईस भंग होते हैं ।

§ २०८ भागाभागानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार और अल्पतरपदके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितपदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा अवक्तव्य पदके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । आदेशसे नारकियोंमें ओघके समान भंग है । किन्तु अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमे संख्यात करना चाहिए । इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ २०९. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके उदीरक जीव कितने है ? संख्यात हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी

अणंतभागो । आदेसेण णोरइय० ओघं । णवरि अवच० णत्थि । एवं सव्वणोरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव अवराजिदा चि । मणुसेसु भुज०-अप्य०-अवच० सव्वजी० केवडि० ? असंखे०भागो । अवट्ठि० असंखेजा भागा । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । णवरि संखेजं कायव्वं । एवं चेव सव्वट्ठे । णवरि अवच०उदीर० णत्थि । एवं जाव० ।

§ २१०. परिमाणणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्य०-अवट्ठि०उदीर० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्ति० ? संखेजा । एवं तिरिक्खेसु । णवरि अवत्त० णत्थि । आदेसेण णोरइय० भुज०-अप्य०-अवट्ठि०उदीर० केत्ति० ? असंखेजा । एवं सव्वणोरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव अवराइदा चि । मणुसेसु भुज०-अप्य०-अवट्ठि० के० ? असंखेज्जा । अवत्त० के० ? संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी-सव्वट्ठदेवेसु सव्वपदा संखेज्जा । एवं जाव० ।

: २११. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भुज०-अप्य०-विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नहीं हैं । आदेशसे नारकियोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । अवत्तव्यपदके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब पदोंके उदीरक जीव संख्यात है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २१०. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोक क्षेत्र है । अवक्तव्यपदके उदीरक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरक जीव नहीं हैं । शेष मार्गणाओंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंमें भी होते हैं और उनका क्षेत्र सर्व लोक है, इसलिए यहाँ पर ओघसे इन तीन पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक कहा है । परन्तु अवक्तव्य पद उपशमश्रेणिसे गिरते समय ही होता है और ऐसे जवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए ओघसे अवक्तव्य पदके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । यह व्यवस्था सामान्य तिर्यञ्चोंमें बन जाती है, इसलिए सम्भव पदोंका भंग ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र तिर्यञ्चोंमें उपशम-श्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है । गतिमार्गणाके शेष भेदोंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सम्भव सब पदोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

§ २११. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व

अवट्टि० केवडि खेत्ते ? मव्वलोगे । अवत्त० उदीर० लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खा० । एव्वरि अवत्त० एत्थि । सेमगइमग्गणासु मव्वपदा० लोग० असंखे० भागे । एवं जाव० ।

२१२. पोसणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०-अण्ण०-अवट्टि० केव० पोसिदं ? मव्वलोगे । अवत्त० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खा० । एव्वरि अवत्त० एत्थि । आदेसेण एरइयसव्व-पदेहि लोग० असंखे० भागे छ चोदस० देसणा । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । एव्वरि मगपोमणं । पढमाण खेत्तं । मव्वपंचिंदियतिरिक्ख-माणुसअपज्ज० भुज०-अण्ण०-अवट्टि० लोग० असंखे० भागे मव्वलोगे वा । एवं मणुमतिए । एव्वरि अवत्त० लोग० असंखे० भागे । देवेषु मव्वपद० लोग० असंखे० भागे अट्टु एव्वचोदम० । भवणादि जाव मव्वट्टा त्ति मव्वपदाणं मगपोमणं कायव्वं । एवं जाव० ।

लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य पदके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है । आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छद् भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार दमरी पृथिवीसे लेकर छटी पृथिवी तकके नारकियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भंग है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और मनुष्य अपर्याप्रकोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार मनुष्यात्रकमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें अपना अपना स्पर्शन करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—ओघसे और आदेशसे गतिमार्गणाके सब भदोंमें जहाँ जो स्पर्शन है वह वहाँ भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदके उदीरकोंका होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । मात्र अवक्तव्यपदके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । कारणका निर्देश हम पूर्वमें कर आये हैं, इसलिए ओघसे और मनुष्यात्रकमें इस पदके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

२१०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है । अवक्तव्य-पदके उदीरक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है ।

§ २१३. कालाणुगमेण दुविहो णि० — ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केवचिरं? सव्वद्वा । अवत्त० जह० एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । एवं तिरिक्ख्वा० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

§ २१४. आदेसेण एरइय० भुज०-अप्प० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अवट्ठि० सव्वद्वा । एवं सव्वणेरइय०-सव्वणंपिचिदियतिरिक्ख-देवा भवणादि जाव अवराजिदा त्ति ।

§ २१५. मणुसेसु णारयमंगो । णवरि अवत्त० ओघं । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एयस० उक्क० संखेज्जा समया । अवट्ठि० सव्वद्वा । एवं मव्वट्ठे० । णवरि अवत्त० णत्थि । मणुसअपज्ज० भुज०-अप्प० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० पत्तिदो० असंखे०-

**विशेषार्थ**—अवक्तव्यपदकी उदीरणा उपशमश्रेणिसे उतरते समय ही होती है। और उपशमश्रेणि पर आरोहणका काल कमसे कम एक समय और लगातार संख्यात समय है, इसलिए अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है।

§ २१४. आदेशसे नारकियोंमें भुजगार और अल्पतर पदके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितपदके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए।

**विशेषार्थ**—पहले नारकियोंमें एक जीवकी अपेक्षा भुजगारपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय तथा अल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय बतला आये हैं। इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर यहाँ पर नाना जीवोंकी अपेक्षा भुजगार और अल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि अनेक नारकी जीव भी उक्त दोनों पद एक समय तक करके दूसरे समयमें न करें यह भी सम्भव है और नारकियोंकी संख्या असंख्यात होनेसे लगातार असंख्यात जीव भी क्रमसे यदि उक्त दोनों पद करें तो भी सब कालका योग आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। पहले एक जीवकी अपेक्षा अवस्थित पदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बतला आये हैं, इसलिए यहाँ पर नाना जीवोंकी अपेक्षा इस पदके उदीरकोंका सब काल बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ २१५. मनुष्योंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदके उदीरकोंका भंग ओघके समान है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अवस्थितपदके उदीरकोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भुजगार और अल्पतर-पदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। अवस्थितपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके



भागो । एवं जाव० ।

§ २१६. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । एवं तिरि-क्खेसु । णवरि अवत्त० णत्थि । आदेसेण एरइय० भुज०-अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वदेवा त्ति । मणुसतिण्णारयभंगो । णवरि अवत्त० ओघं । मणुसअपज्ज० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ २१७. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो । एवमेदेसिमुच्चारणावत्तेण परूवणं कादूण संपहि अप्पावहुअपरूवणड्डमुत्तरं पवंधमीदारइस्सामो—

असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियंकी संख्या संख्यात है, इसलिए इनमें भुजगार, अल्पतर और अवत्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है और इनकी संख्या असंख्यात है, इसलिए इनमें भुजगार और अल्पतर पदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा अवस्थितपदके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ २१६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । अवत्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवत्तव्यपद नहीं है । आदेशसे नारकियोंमें भुजगार और अल्पतरपदके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित पदके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें नारकियोंके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवत्तव्यपदके उदीरकोंका भंग ओघके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—ओघप्ररूपणामें और मनुष्यत्रिकमें अवत्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उपशामकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको ध्यानमें रखकर कहा है । सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब देवोंमें भुजगार और अल्पतरपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे नियमसे होते हैं । इसीसे इनमें इन पदोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है । इसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीसे इसमें सब पदोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ २१७. भाव सर्वत्र औदधिक है । इसप्रकार इनका उच्चारणके बलसे कथन करके अब

❀ अप्पाबहुअं ।

§ २१८. सुगममेदमहियारपरामरसवक्कं ।

❀ सव्वत्थोवा अवत्तव्वपवेसगा ।

§ २१९. किं कारणं ? उवसमसेहीए सव्वोयसमं कादूण परिवदमाणजीवेसु चेतदुवलंभादो ।

❀ भुजगारपवेसगा अणंतगुणा ।

§ २२०. किं कारणं ? दुसमयसचिदेइंदियजीवाणमेत्थ पहाणभावेणावलंबणादो ।

❀ अप्पदरपवेसगा विसेसाहिया ।

§ २२१. किं कारणं ? मिच्छत्तं पडिवज्जमाणसम्माइट्ठीणं समत्तं पडिवज्जमाण-मिच्छाइट्ठीणं च जहाकमं भुजगारप्पदरपरिणदाणं सत्थाणमिच्छाइट्ठीणं च सव्वत्थ भुजगारप्पदरपवेमगाण समाणत्तं सते वि मम्मत्तमुप्पाण्माणणादियमिच्छाइट्ठीहि सह दंसण-चारित्तमोहक्खवयजीवाणं भुजगारेण विणा अप्पदरमेव कुणमाण्णमेत्थाहि-यचदंसणादो ।

❀ अच्चट्ठिदपवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ २२२. किं कारणं ? अंतोमुहुत्तसंचिदेइंदियरासिस्स पहाणत्तादो ।

एवमोघो समत्तो ।

अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका प्रबन्ध लिखते हैं—

\* अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ २१८. अधिकारका परामर्श करानेवाला यह वचन सुगम है ।

\* अवक्तव्यप्रवेशक जीव सबसे स्तीक हैं ।

§ २१९. क्योंकि उपशमश्रेणिये सर्वोपशम करके गिरनेवाले जीवोमे ही यह पद पाया जाता है ।

\* उनसे भुजगारप्रवेशक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ २२०. क्योंकि दो समयके भीतर सञ्चित हुए एकेन्द्रिय जीवोका यहाँ पर प्रधानभावसे अवलम्बन लिया है ।

\* उनसे अल्पतरप्रवेशक जीव विशेष अधिक है ।

§ २२१. क्योंकि क्रमसे भुजगार और अल्पतरपदसे परिणत हुए मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले सम्यग्दृष्टि और सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि तथा भुजगार और अल्पतरपदमे प्रवेश करनेवाले स्वस्थान मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि सर्वत्र समान हैं तो भी सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले अनादि मिथ्यादृष्टि जीवोंके साथ भुजगारके बिना केवल अल्पतरपदको ही प्राप्त ऐसे दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनिय कर्मकी लपणा करनेवाले जीवोंकी यहाँ पर अधिकता देखी जाती है ।

\* उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ २२२. क्योंकि अन्तर्मुहूर्तके भीतर सञ्चित हुई एकेन्द्रिय जीवराशिकी प्रधानता है ।

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

१ २२३. आदेसेण एोरइय० सव्वत्थोवा भुज०पवे० । अप्प० विसेसा० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । एवं सव्वएोरइय०-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव अवराजिदा त्ति । पंचि०तिरिक्खअपज्ज० सव्वत्थोवा भुज०-अप्प०-पवे० । अवट्ठि० असंखेज्जगुणा । मणुसेसु सव्वत्थोवा अवत्त०उदीर० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० विसेसा० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । एवं मणुमपज्ज०-मणुमिणी० । एवरि संखेज्जगुणा कायव्वा । एवं सव्वट्ठे । एवगि अवत्त० उदीर० एत्थि । एवं जाव० ।

एवं भुजगारो समत्तो ।

❀ पदणिकखेव-वड्डीओ कादव्वाओ ।

१ २२४. एदेण मुत्तेण ममप्पियाणं पदणिकखेव-वड्डीणमुच्चारणावलंबणेण परूवणं कस्सामो । तं जहा—पदणिकखेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओग-दाराणि—समुक्कित्तणा मामित्तमप्पावहुए त्ति । समुक्कित्तणा दुविहा—जहएणा उक्कस्सा च । उक्कस्से पयद । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण अत्थि उक्क० वड्डी उक्क० हाणी उक्क० अवट्ठाणं । एवं चदुसु गदीसु । एव जाव० । एवं जहणगयं पि एदेव्वं ।

§ २-३ आदेशमे नारकियोमे भुजगारप्रवेशक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अल्पतर-प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित तकके देवोमे जानना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमे भुजगार और अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । मनुष्योमे अवक्तव्यउदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे भुजगारउदीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरउदीरक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थितउदीरक जीव असंख्यातगुणे है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणेके स्थानमे संख्यातगुणे करने चाहिए । इसीप्रकार सर्वार्थ-सिद्धिमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यउदीरक जीव नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भुजगार समाप्त हुआ ।

\* पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

१ २२४. इस सूत्रके आश्रयसे मुख्यताको प्राप्त हुए पदनिक्षेप और वृद्धिका उच्चारणाके अवलम्बन द्वारा प्ररूपण करते हैं । यथा—पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमे ये तीन अनुयांगद्वारा हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जधन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । ओघसे उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसीप्रकार चारो गतियोंमें जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इसीप्रकार जधन्य भी ले जाना चाहिए ।

§ २२५. सामित्तं दुहिहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण उक्क० वड्डी कस्स ? अणणदरस्स जो एगमुदीरेमाणो मदो देवो जादो तदो अट्ट उदीरेदि तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० जो णव उदीरेमाणो संजमं पडिवण्णो तदो चत्तारि उदीरेदि तस्स उक्कस्सिया हाणी ।

• २२६. आदेसेण एोरइय० उक्क० वड्डी कस्स ? अणणद० छ उदीरेमाणो जो दस उदीरेदि तस्म उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० जो णव उदीरेमाणो छ उदीरेदि तस्स उक्क० हाणी । एवं सव्व-एोरइय०-देवा० जाव० णवगेवज्जा त्ति । तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिए उक्क० वड्डी कस्स ? अणणद० जो पंच उदीरेमाणो दस उदीरेदि तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्समवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० णव उदीरे० पंच उदीरेदि तस्स उक्क० हाणी । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० उक्क० वड्डी कस्स ? अणणद० अट्ट उदीरे० दम उदीरेदि तस्स उक्कस्सिया वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० दस उदीरे० अट्ट उदीरेदि तस्स उक्क० हाणी । एगदरत्थ अवट्टाणं ।

• २२७. मणुसतिए उक्क० वड्डी कस्स ? अणणद० जो चत्तारि उदीरे० दस

§ २२५ स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? एक प्रकृतिकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव मरकर देव हुआ और आठ प्रकृतियोंकी उदीरणा करने लगा उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नौ प्रकृतियोंकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव संयमको प्राप्त हो चार प्रकृतियोंकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ २२६. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है । छहकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव छहकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य देव और नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? पाँचकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव पाँचकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होता है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? आठकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? दसकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव आठकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

§ २२७. मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? चारकी उदीरणा करनेवाला जो

उदीरेदि तस्म उक्० वड्डी । तस्सेव से काले उक्० अवट्टाणं । उक्० हाणी कस्स ? अण्णद० णव उदीरे० चत्तारि उदीरेदि तस्म उक्० हाणी । अणुहिसादि मव्वट्टात्ति उक्० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो ङ्ग उदीरे० णव उदीरेदि तस्म उक्० वड्डी । उक्० हाणी कस्स ? अण्णद० णव उदीरे० ङ्ग उदीरेदि तस्म उक्० हाणी । एगदरत्थमवट्टाणं । एवं जाव० ।

१२२८. जहणणे पयदं । दुविहो णि० — ओघे० आदेसे० । ओघेण जह० वड्डी कस्म ? अण्णद० णव उदीरे० दम उदीरेदि तस्म जह० वड्डी । जह० हाणी कस्म ? अण्णद० दस उदीरे० णव उदीरेदि तस्म जह० हाणी । एगदरत्थ अवट्टाणं । एवं चदुसु गदीसु । णवग्गि अणुहिसादि मव्वट्टात्ति जह० वड्डी कस्स० ? अण्णद० अट्ट उदीरे० णव उदीरेदि तस्म जह० वड्डी । जह० हाणी कस्म ? अण्णद० णव उदीरे० अट्ट उदीरेदि तस्म जह० हाणी । एगदरत्थ अवट्टाणं । एवं जाव० ।

२२९. अण्णवहुअं दुविहं—जह० उक्० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मव्वत्थोवा उक्० हाणी । वड्डी अवट्टाणं च दो वि सरिसाणि त्रिसोसा० । एवं चदुसु गदीसु । णवग्गि पंचि० निग्गिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव चारकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किरुके होती है । छहकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जाव नौकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव छहकी उदीरणा करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । किसी एक जगह उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ २२८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जघन्य वृद्धि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव दसकी उदीरणा करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? दसकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव नौकी उदीरणा करता है उसके जघन्य हानि होती है । किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य वृद्धि किसके होती है ? आठकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव नौकी उदीरणा करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि किसके होती है ? नौकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर जीव आठकी उदीरणा करता है उसके जघन्य हानि होती है । किसी एक जगह जघन्य अवस्थान होता है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ २२८. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उत्कृष्ट हानि सबसे शोक है । उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान दोनों समान होकर विशेष अधिक हैं । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना

अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति उक्क० वड्डी हाणी अवट्ठाणं च तिण्णि वि सरिसाणि । एवं जाव० ।

§ २२०. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण जह० वड्डी हाणी अवट्ठाणं च तिण्णि वि सरिसाणि । एवं चदुसु गदीसु । एवं जाव० ।

एवं पदणिकखेवो समत्तो ।

§ २२१. वड्डिउदीरणाए तत्थ इमाणि तेरम अणियोगद्वाराणि—समुक्कित्तणा जाव अण्णावट्ठुए त्ति । समुक्कित्तणाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण अत्थि संखेज्जभागवड्डी हाणी संखेज्जगुणवड्डी हाणी अवट्ठि० अवत्त० । एवं मणुसत्तिए । आदेसेण गोरइय० अत्थि संखेज्जभागवड्डी-हाणि-अवट्ठा० । एयं मव्वणेइय०-पंचित्तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज०-मव्वदेवा त्ति । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतियम्मि अत्थि संखे०भागवड्डी-हाणी संखे०गुणवड्डी हाणी अवट्ठाणं० । एवं जाव० ।

§ २२२. सामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण संखे०भाग-वड्डी हाणी संखे०गुणवड्डी अवट्ठा० कस्स ? अण्णद० सम्माइ० मिच्छाइ० । संखे०-गुणहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइ० । अवत्त० भुजगारभंगो । एवं मणुसत्तिए ।

चाहिण । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २२०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों ही समान हैं । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

§ २२१. वृद्धि उदीरणाका प्रकरण है । उसमें समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार हैं । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्य उदीरणा है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित उदीरणा है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात-गुणवृद्धि और अवस्थान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २२२. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थान किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होते हैं । संख्यातगुणहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । अवक्तव्य उदीरणाका भंग भुजगारके समान है । इसी प्रकार मनुष्य-

सव्वणिरय०-पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-सव्वदेवा त्ति भुजगारभंगो ।  
तिरि०-पंचि०तिरिक्खतिए भुजगारभंगो । एवरि संखेज्जगुणवट्ठी कस्म ? अएणद०  
मिच्छाइट्ठि० । एवं जाव० ।

§ २३३. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखे०भागवट्ठी  
जह० एयस० । उक्क० चत्तारि समया । संखे०भागहाणी जह० एयस०, उक्क०  
तिएण समया । अबट्ठि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । संखे०गुणवट्ठी जह०  
एयस०, उक्क० वे समया । संखे०गुणहाणि-अबत्त० जहएणुक्क० एयसमओ । एवं  
मणुसतिए । एवरि संखे०गुणवट्ठि० जहएणु० एयस० । सव्वणोरइय०—पंचितिरि०-  
अपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वदेवा त्ति भुजगारभंगो । तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिए  
भुजगारभंगो । एवरि संखे०गुणवट्ठि० जहएणु० एयसमओ । एवं जाव० ।

त्रिकमें जानना चाहिए। सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब  
देवोंमें भुजगारके समान भंग है। सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भुजगारके  
समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि किसके होती है? अन्यतर  
मिध्यादृष्टिके होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

§ २३३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघमे  
संख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। संख्यात  
भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अवस्थित उदीरणाका  
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है। संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल  
एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यउदीरणाका  
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी  
विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सब नारकी,  
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें भुजगारके समान भंग है।  
सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भुजगारके समान भंग है। किन्तु इतनी  
विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले भुजगारानुगममें भुजगार उदीरणाका जघन्य काल एक समय और  
उत्कृष्ट काल चार समय, अन्तरउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन  
समय तथा अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त घटित करके  
बतला आये हैं। वही यहाँपर क्रमसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितउदीरणा  
का जघन्य और उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। जो उपशामक उतरते समय अन्यतम  
संज्वलनकी उदीरणा करता हुआ मर कर देव होने पर आठकी उदीरणा करने लगता है उसके  
संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और जो उपशामक उतरते समय  
अन्यतम संज्वलनकी उदीरणा करता हुआ अन्यतम वेदके साथ दोकी उदीरणा करता है और  
तदनन्तर समयमें मरकर देव होनेपर आठकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यात गुण-  
वृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ पर संख्यात गुणवृद्धिका  
जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। जो मिध्यादृष्टि जीव नौ की

§ २३४. अंतराणु० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखे० भाग-  
वड्डि-हाणि-अवड्डि०-अवत्त० उदीर० भुजगारभंगो । संखेज्जगुणवड्डि-हाणी० जह०  
एग० अंतो०, उक्क० उवड्डुपोगगल० । सव्वणेर०-पंचि०तिरिक्खअप०-मणुसअप०-  
सव्वदेवा त्ति भुजगारभंगो । तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिए भुज०भंगो । एवरि तिरि-  
क्खेसु संखेज्जगुणवड्डि० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवड्डुपोगगलपरियट्टं ।  
पंचिंदियतिरिक्खतिए संखेज्जगुणवड्डि० एत्थि अंतरं । मणुसतिए भुज०भंगो । एवरि  
संखे०गुणवड्डि-हाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुव्वं । एवं जाव० ।

उदीरणा करना हुआ अनन्तर समयमें संयत होकर चारकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुणहानिका काल एक समय प्राप्त होनेसे यहाँ इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जो किसी भी प्रकृतिकी उदीरणा नहीं करनेवाला उपशान्तमोह जीव गिर कर दसवें गुणस्थानमें एककी उदीरणा करने लगता है उसके अवक्तव्य उदीरणाका काल एक समय मात्र प्राप्त होनेसे इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मनुष्यत्रिकमें यह ओघ-प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र संख्यातगुण वृद्धि उदीरणाका उत्कृष्ट काल ओघप्ररूपणामें दो गतियोंकी अपेक्षा घटित करके बनलाया गया है जो मनुष्यत्रिकमें सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें उक्त पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पांचकी उदीरणा करनेवाला जो संयतासंयत जीव मिथ्यात्वमें जाकर दसकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुणवृद्धिका काल मात्र एक समय प्राप्त होनेसे यहां पर इन तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोंमें इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। शेष कथन भुजगार उदीरणाके समान होनेसे उसे दृष्टिपथमें लाकर यहां घटित कर लेना चाहिए। पुनरुक्त दोषके भयसे यहां पर हमने उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है।

§ २३४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, अवस्थित और अवक्तव्यउदीरणाका भंग भुजगारउदीरणा के समान है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें भुजगारउदीरणाके समान भंग है। सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भुजगारउदीरणाके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि सामान्य तिर्यञ्चोंमें संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातबै भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। मनुष्यत्रिकमें भुजगारउदीरणाके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व-कोटिपृथक्त्वप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक यार्गणातक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—जो उपशान्तमोह जीव गिरते समय एककी उदीरणा करता हुआ अनन्तर समयमें दोकी उदीरणा एक समयके अन्तरसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हो आठकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय बन जाता है। तथा जो मिथ्या-



§ २३५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण संखे० भागवड्ढि-हाण-अवड्ढि० णिय० अत्थि, सेसपदाणि भयणिजाणि । भंगा २७ । आदेसेण णेरइय० अवड्ढि० णिय० अत्थि, सेसपदा भयणिजा । भंगा ९ । एवं सव्वणेरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवा त्ति । एवरि भंगविसेसो जाणियव्वो । तिरिक्खेसु संखे० भागवड्ढी हाणी अवड्ढि० णिय० अत्थि, सिया एदे च संखे० गुणवड्ढिउदीरगो च, मिया एदे च संखेजगुणवड्ढिउदीरगा च ३ । मणुस-

दृष्टि जीव नौकी उदीरणा करता हुआ संयत हो चारकी उदीरणा करके संख्यातगुणहानि करता है। पुनः वह अन्तर्मुहूर्त बाद मिथ्यात्वमे जाकर और अन्तर्मुहूर्तके भीतर संयत हो नौकी उदीरणाके बाद चारकी उदीरणा करने लगता है उसके संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त बन जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर ओघसे संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। संख्यातगुणहानिका यह जघन्य अन्तर दो बार उपशमश्रेणीपर चढ़ानेसे भी प्राप्त किया जा सकता है। यथा कोई उपशमक अप्रवृत्तकण जो चारकी उदीरणा करता हुआ अनिवृत्तिकरण हो दोकी उदीरणा द्वारा संख्यातगुणहानि करता है। पुनः वह अन्तर्मुहूर्तके भीतर संवेदभागमें दोकी उदीरणा करता हुआ अवेदभागमें नपुंसकवेदकी उदयव्युच्छित्तिकर एककी उदीरणा द्वारा संख्यातगुणहानि करता है उसके संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। पूर्वमें दिये गये उदाहरणकी अपेक्षा इस दूसरे प्रकारमें अन्तर कालका समय कम है, इसलिए यहाँ इसकी प्रधानता है। पिछला उदाहरण केवल अन्तरका प्रकार बतलानेके लिए दिया है। इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सामान्य तिर्यञ्चोंमें पौचकी उदीरणा करनेवाला जो जीव दसकी उदीरणा करता है वह उपशमसम्यग्दृष्टि संयता-संयतसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जीव ही हो सकता है। और ऐसे जीवकी यह अवस्था पुनः कमसे कम पल्यका असंख्यातवाँ भाग काल जाने पर और अधिकसे अधिक उपार्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण काल जानेपर ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए यहाँपर उक्त जीवोंमें संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण बतलाया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकों कर्मभूमिकी अपेक्षा उत्कृष्ट कार्यास्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण ही है, अतः इनमें दो बार संख्यातगुणवृद्धिका प्राप्त होना सम्भव न होनेसे इनमें उक्त पदके अन्तरकालका निषेध किया है। मनुष्यत्रिकमें अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणीपर चढ़ना और उतरना सम्भव है तथा पूर्वकोटिपृथक्त्वके अन्तर से भी यह सम्भव है इसलिए इनमें संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ २३५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमका आश्रय लेकर निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। भंग २७ होते हैं। आदेशसे नारकियोंमें अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। भंग नौ होते हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि भंगविशेष जानने चाहिए। तिर्यञ्चोंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितपदके उदीरक जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये हैं और एक संख्यातगुणवृद्धिका उदीरक

अपज्ज० सव्वपदा भयणिज्जा । भंगा २६ । एवं जाव० ।

§ २३६. भागाभागानु० दुविहो णि०-ओघे० आदेसे० । ओघेण संखे०भाग-  
वड्डि-हाणि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । अवड्डि० असंखेज्जा भागा । सेसमणंत-  
भंगो । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण एगइय० अवड्डि० अमंखेज्जा भागा । सेसमसंखे०-  
भागो । एवं मव्वएगइय०-सव्वपंचि०तिरिक्ख-मणुम-मणुमअपज्ज०-देवा जाव अव-  
राजिदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुमिणी-सव्वट्टदेवा० अवड्डि० संखेज्जा भागा । सेसपदा  
संखे०भागो । एवं जाव० ।

२३७. परिमाणानु० दुविहो णि०-ओघेण आदेसेण । ओघेण संखे०भागवड्डि-  
हाणि अवड्डि० केत्तिया ? अणंता । संखे०गुणवड्डि के० ? असंखेज्जा । संखे०गुणहाणि-  
अवत्त० के० ? संखेज्जा । आदेसेण मव्वएगइय०-पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज०-  
मव्वदेवा भुजगारभंगो । तिरिक्खेसु सव्वपदा ओघं । पंचि०तिरिक्खतिए सव्वपदा  
केत्तिया ? असंखेज्जा । मणुसेसु संखे०भागवड्डि-हाणि-अवड्डि० केत्ति० ? असंखेज्जा ।

है । कदाचित् यें हैं और नाना संख्यातगुणवृद्धिके उदीरक हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद  
भजनीय है । भंग २६ हांत है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें तीन पद भजनीय है, इसलिए ध्रुव भंगके साथ  
२७ भंग होते हैं । तथा मनुष्यत्रिकमें पाँच पद भजनीय है, इसलिए ध्रुव भंगके साथ २४३ भंग  
होते हैं । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २३६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ?  
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितपदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है । तथा  
शेष पदोंके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार तिर्यञ्चामे जानना चाहिए ।  
आदेशसे नारकियोंमें अवस्थित पदके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है । शेष पदोंके  
उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च,  
सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और अपराजित विमानतकके देवोंमें जानना  
चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें अवस्थितपदके उदीरक जीव  
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ २३७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित पदके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।  
संख्यातगुणवृद्धिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य  
पदके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । आदेशसे सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च  
अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें भुजगारके समान भंग है । तिर्यञ्चोंमें सब पदोंके  
उदीरकोंका भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सब पदोंके उदीरक जीव कितने  
हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्योंमें संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित पदके उदीरक

संखे० समया । एवं जाव० ।

§ २४१. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण संखेज्जभाग-  
वड्ढिहा०-अवड्ढि० णत्थि अंतरं । संखे०गुणवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० चोइस  
रादिदियाणि । संखे०गुणहाणि० जह० एयस०, उक्क० पण्णारम रादिदियाणि । अवत्त०  
जह० एयस०, उक्क० वामपुधत्तं । आदेसेण मव्वणंगइय-पंचि०तिरि०अपज्ज०मणुस-  
अपज्ज०-मव्वदेवा त्ति भुज०भंगो । तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खति० भुजगारभंगो । णवरि  
संखेज्जगुणवड्ढि० ओघं । मणुस३ भुज०भंगो । एवरि संखे०गुणवड्ढिहाणि-अवत्त०  
ओघं । एवं जाव० ।

जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें आवलिके असंख्यातवें भागके स्थानमें संख्यात समय करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—सामान्यसे अनन्त जीव संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अव-  
स्थितपदकी उदीरणा करते हैं, इसलिए ओघसे इनका काल सर्वदा बन जानेसे वह उक्तप्रमाण  
कहा है । संख्यातगुणवृद्धि अधिकसे अधिक असंख्यात जीव करते हैं, इसलिए इस पदकी  
अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे  
वह तत्प्रमाण कहा है । संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदकी उदीरणा अधिकसे अधिक  
संख्यात जीव करते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात  
समय कहा है । यह सामान्य न्याय है इसी प्रकार गतिमार्गणाके सब भेदोंमें उनका परिमाण  
और पद जानकर काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र अर्वास्थित पदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त  
होनेसे उसका काल सर्वत्र सर्वदा बन जाता है इतना विशेष जानना चाहिए ।

§ २४१. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थितपदके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है ।  
संख्यातगुणवृद्धिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात  
है । संख्यातगुणहानिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह  
दिन-रात है । अवक्तव्यपदके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष  
पृथक्त्व है । आदेशसे सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब  
देवोंमें भुजगार उदीरणाके समान भंग है । सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें भुज-  
गार उदीरणाके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणवृद्धिके उदीरकों-  
का अन्तर ओघके समान है । मनुष्यत्रिकमें भुजगार उदीरणाके समान भंग है । किन्तु इतनी  
विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके उदीरकोंका  
अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—उपशम सम्यक्त्वके साथ जो संयतासंयत मिथ्यात्वमें आते हैं उनका  
जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात है, क्योंकि आयके अनुसार हानि  
होती है । और ऐसे जीवोंके संख्यातगुणवृद्धि उदीरणा सम्भव है, इसलिए यहाँ संख्यातगुणवृद्धि  
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कहा है । तथा जो  
मिथ्यादृष्टि उपशम सम्यक्त्वके साथ संयमका स्वीकार करते हैं उनका जघन्य अन्तर एक  
समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात होता है और ऐसे जीवोंके संख्यातगुणहानि उदीरणा

१ २४२. भावाणुगमेण मव्वत्थ ओदइओ भावो ।

१ २४३. अप्पावहुआणुं दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण सव्वत्थोवा अवत्त०उदीर० । संखे०गुणहाणिउदीर० संखे०गुणा । संखे०गुणवड्डिउदी० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डिउदीर० अणंतगुणा । संखे०भागहाणिउदीर० विसेसाहिया । अवट्टि०उदी० असंखे०गुणा । आदेसेण णेरइय० सव्वत्थोवा संखे०भागवड्डिउदीर० । संखे०भागहा०उदीर० विसेमा० । अवट्टि०उदीर० अमंखे०गुणा । एवं मव्वणेरइय०-सव्वदेवा ति । णवरि मव्वट्टे मंखेज्जगुणं कायव्वं । तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा संखे०गुणवड्डिउदीर० । संखे०भागवड्डिउदी० अणंतगुणा । हाणि० विसेमा० । अवट्टि० अमंखे०गुणा । एवं पंचि०तिरिक्खतिण् । णवरि जम्मि अणंतगुणा तम्मि अमंखे०गुणा । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुमअपज्ज० सव्वत्थोवा संखे०भागवड्डि० हाणि० दो वि मरिसा । अवट्टि०उदीर० असंखे०गुणा । मणुसेसु सव्वत्थोवा अवत्त०उदी० । संखे०गुणहाणिउदीर० संखे०गुणा । संखेज्जगुणवड्डिउदी० संखे०गुणा । संखे०भागवड्डिउदीर० असंखे०गुणा । हाणिउदी० विसेमा० । अवट्टि०उदी० अमंखे०गुणा । एवं मणुसपज्ज०-

होती है, इगलिण यहाँ पर संख्यातगुणहानि उदारणाका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा है। शप कथन सुगम है, क्योंकि उसका अनेक बार रपटीकरण कर आये है।

१ २४०. भाव सर्वत्र ओदयिक होता है।

१ २४३. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे अवत्तक्यउदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यातगुणहानिउदीरक जीव संख्यातगुणे है। उनसे संख्यातगुणवृद्धिउदीरक जीव असंख्यातगुणे है। उनसे संख्यातभागवृद्धि उदीरक जीव अनन्तगुणे है उनसे संख्यातभागहानिउदीरक जीव विशेष अधिक है। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुणे है। आदेशसे नारकियोमे संख्यातभागवृद्धिउदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यातभागहानिउदीरक जीव विशेष अधिक है। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी और सब देवोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि सर्वासिद्धिमे असंख्यातगुणेके स्यानमे संख्यातगुणे करने चाहिए। तिर्यओमे संख्यातगुणवृद्धिउदीरक जीव सबसे स्तोक है। उनसे संख्यातभागवृद्धि उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे संख्यातभागहानिउदीरक जीव विशेष अधिक है। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुणे है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिकमे जानना चाहिए। किन्तु जहाँ पर अनन्तगुणे कहे हैं वहाँ असंख्यातगुणे करने चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके उदीरक दोनो प्रकारके जीव समान हैं। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्योमे अवत्तक्यउदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यातगुणहानिउदीरक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धिउदीरक जीव संख्यातगुणे है। उनसे संख्यातभागवृद्धि उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागहानि उदीरक जीव विशेष अधिक है। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यातगुणे है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोमे जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें

मणुसिणी० । एवरि संखेज्जगुणं कायन्वं । एवं जाव० ।

एवं वड्डी समत्ता । एवं पयडिड्ढाणउदीरणा ममत्ता ।

तदो 'कदि आवलियं पवेसेदि' ति पदं समत्तं ।

एवं पयडिउदीरणा समत्ता ।

❀ कदि च पविसंति कस्स आवलियं ति ।

§ २४४. अहियारसंभालणसुत्तमेदं । एत्तो उवरि 'कदि च पविसंति कस्स आवलियमिदि विदियो गाहासुत्तावयवो विहासियन्वो ति पयड्ढत्तादो । णवरि एदम्मि सुत्तावयवे पयडिपवेसो पडिबद्धो; उदयाणुदयसरूवेणुदयावलियंभंतं पविसमाण-पयडिमेत्तेणोत्थाहियारादो । सो बुण पयडिपवेसो दुविहो—मूलपयडिपवेसो उत्तरपयडि-पवेसो चेदि । उत्तरपयडिपवेसो च दुविहो—एगेगुत्तरपयडिपवेसो पयडिड्ढाणपवेसो चेदि । तत्थ मूलपयडिपवेसो एगेगुत्तरपयडिपवेसो च सुगमो ति योह सुत्ते विहासिदो । तदो पादेकं चउव्वीममणिओगदारेहिं तेसिमेत्थ विहामा जाणिय कायव्वा । तदो पयडिड्ढाण-पवेसे पयदं । तत्थ इमाणि मत्तारस अणियोगदाराणि—समुक्कित्तणा सादि० अणादि० जाव अण्पाबहुए ति भुज० पदणि० वड्डीओ च ।

§ २४५. तत्थ समुक्कित्तणा दुविहा—ठाणसमुक्कित्तणा पयडिममुक्कित्तणा चेदि ।

असंख्यातगुणोके स्थानमें संख्यातगुणो करने चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार वृद्धि समाप्त हुई ।

इसप्रकार प्रकृतिस्थान उदीरणा समाप्त हुई ।

इसलिए 'कदि आवलियं पवेसेदि' इस पदका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

इसप्रकार प्रकृतिउदीरणा समाप्त हुई ।

❀ किम जीवके कितनी प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं ।

§ २४४. अधिकारकी सभ्हाल करनेवाला यह सूत्र है । अब पूर्वोक्त कथनके आगे गाथा मत्रका 'कदि च पविसंति कस्स आवलियं' यह दूसरा पद प्रकृतमें प्रवृत्त होनेसे व्याख्यान करने योग्य है । इतनी विशेषता है कि इस सूत्रपदमें प्रकृतिप्रवेश अनुयोगद्वार प्रतिबद्ध है, क्योंकि उदय और अनुदयरूपसे उदयावलिमें प्रवेश करनेवाली प्रकृतिमात्रका यहाँ अधिकार है । वह प्रकृति-प्रवेश दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिप्रवेश और उत्तर प्रकृतिप्रवेश । उत्तर प्रकृतिप्रवेश दो प्रकारका है—एकैक उत्तरप्रकृतिप्रवेश और प्रकृतिस्थानप्रवेश । उनमें मूलप्रकृतिप्रवेश और एकैक उत्तर-प्रकृतिप्रवेश सुगम हैं, इसलिए इस सूत्रमें उनका व्याख्यान नहीं किया । इसलिए अलग अलग चौबीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर यहाँ पर उनका व्याख्यान जानकर कर लेना चाहिए । अतएव प्रकृतिस्थानप्रवेश प्रकृत है । उसमें समुत्कीर्तना, सादि, और अनादिसे लेकर अल्पबहुत्व तक ये सत्रह अनुयोगद्वार तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि ये तीन अनुयोगद्वार हैं ।

§ २४५. उनमें समुत्कीर्तना दो प्रकारको है—स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिसमुत्कीर्तना ।

संपर्ह तदुभयपरुवणडुमुवरिमसुत्तेणावमरो कीरदे—

❀ एत्थ पुव्वं गमणिज्जा ठाणसमुक्त्तिणा पयडिणिहेसो च ।

§ २४६. एत्थ एदम्मि पयडिड्ढाणपवेसे पुव्वं पढममेव गमणिज्जा अणुमग्गियव्वा ठाणसमुक्त्तिणा पयडिणिहेसो च । तत्थ ड्ढाणममुक्त्तिणा णाम अट्टवीसाए पयडि-  
ड्ढाणमादिं कादूण ओघादेसेहिं एत्तियाणि पयडिड्ढाणाणि उदयावलियं पविसमाणाणि  
अत्थि ति परूवणा । पयडिणिहेसो णाम एदाओ पयडोओ घेतूणेदं पवेसड्ढाणमुप्पज्जइ  
त्ति णिरूवणा । एदेसिं च दोएहमेयपघट्टएण परूवणं कस्सामो ति जाणावणडुमुत्तरं  
पइएणावक्कमाह—

❀ ताणि एकदो भणिस्सन्ति ।

§ २४७. सुगमं ।

❀ अट्टावीसं पयडोओ उदयावलियं पविसन्ति ।

§ २४८. अट्टावीस-पयडिसमुदायप्पयमेगं पयडिड्ढाणमुदयावलियं पविसमाण-  
मत्थि ति समुक्त्तिदं होइ । एत्थ पयडिणिहेसो जइ वि मुत्तकंठं ण परूविदो तो वि  
तण्णिहेसो कओ चेवे ति दट्टव्वो; अट्टावीससंखाणिहेसेणेव मोहपयडोणं णामणिहे-  
सस्स जाणाविदत्तादो ।

❀ सत्तावीसं पयडोओ उदयावलियं पविसन्ति सम्मत्ते उव्वेल्लिदे ।

§ २४९. अट्टावीससंतकम्मियमिच्छाइट्टिणा पुव्वुत्तट्टाणादो सम्मत्ते उव्वेल्लिदे

अब इन दोनोंका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रद्वारा अवसर करते हैं—

\* यहाँ पर सर्व प्रथम स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिनिर्देश ज्ञातव्य है ।

§ २४६. यहाँ पर अर्थात् इस प्रकृतिस्थानप्रवेश अनुश्रोगद्वारमें 'पुव्वं' अर्थात् प्रथम ही  
स्थानसमुत्कीर्तना और प्रकृतिनिर्देश 'गमणिज्जा' अर्थात् अनुमार्गण करने योग्य है । उनमेंसे  
अट्टाईसप्रकृतिक स्थानसे लेकर ओघ और आदेशसे इतने प्रकृतिस्थान उदयावलिमें प्रविशमान  
है ऐसी प्ररूपणा करना स्थानसमुत्कीर्तना है । तथा इन प्रकृतियोंको ग्रहण कर यह प्रवेशस्थान  
उत्पन्न होता है ऐसी प्ररूपणा करना प्रकृतिनिर्देश है । इन दोनोंका एक प्रबन्धके द्वारा कथन  
करेंगे ऐसा ज्ञान करानेके लिए आगेका प्रतिज्ञावाक्य करते हैं—

\* उन दोनोंको एक साथ कहेंगे ।

§ २४७. यह सूत्र सुगम है ।

\* अट्टाईस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं ।

§ २४८. अट्टाईस प्रकृतिसमुदायका एक प्रकृतिस्थान उदयावलिमें प्रविशमान है यह इस  
सूत्र द्वारा कहा गया है । इस सूत्रमें यद्यपि मुत्तकण्ठ होकर प्रकृतियोंका निर्देश नहीं किया गया  
है तो भी उनका निर्देश किया ही है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अट्टाईस संख्याका निर्देश  
करनेसे ही मोहनीयकी प्रकृतियोंका नामनिर्देश जता दिया है ।

\* सम्यक्त्वकी उद्वेलना करने पर सत्ताईस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं ।

§ २४९. अट्टाईस सत्कर्मिक मिथ्यादृष्टिके द्वारा पूर्वोक्त स्थानमेंसे सम्यक्त्वकी उद्वेलना  
१५

सत्तावीसपयडिसमुदायप्यमरणं पवेसट्टाणमुप्पज्जदि त्ति समुक्कित्तिदं होइ । एत्थ वि  
वदिरेगमुहेण पयडिणिहेसो कश्चो त्ति दट्ठव्वो ।

❀ छव्वीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंति सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेसु  
उव्वेत्थिदेसु ।

§ २५०. पुव्वुत्तअट्टावीसपवेसट्टाणादो सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेसु जहाकममुव्वेत्थि-  
देसु छव्वीसाए पवेसट्टाणमुप्पज्जदि त्ति भणिदं होइ । ए केवलमुव्वेत्थिदसम्मत्त-  
सम्माभिच्छत्तस्सेव, किंतु अणादियमिच्छाइट्ठिणो वि छव्वीसाए पवेसट्टाणमत्थि त्ति  
घेत्तव्वं । अट्टावीस-सत्तावीसाणमरणदरसंतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा वा उवसमसम्मत्ताहि-  
मुहेणंतं कादूण सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमावलियमेत्तपटमट्ठिदीए गळिदाए छव्वीम-  
पवेसट्टाणमुवल्लभइ । उवसमसम्माइट्ठिणा पणुवीसपवेसगेण मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मा-  
भिच्छत्ताणमण्णदरे ओकट्ठिदे मासणसम्माइट्ठिणा वा मिच्छत्ते पट्टिवण्णे एयसमयं  
छव्वीसाए पवेसट्टाणमुवल्लभइ । णवरि सुत्ते सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेसु उव्वेत्थिदेसु त्ति  
णिहेसो उदाहरणमेत्तो, तेणेदेसिं पि पयाराण संगहो कायव्वो ।

❀ पणुवीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंति दंसणत्तियं मोत्तण ।

§ २५१. कमाय-णोकमायपयडीणं उदयावलियपवेसस्स कत्थ वि समुव्वलंभादो ।

कग्ने पर सत्ताईस प्रकृतिसमुदायात्मक अन्य प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है ऐसा इस सूत्रद्वारा  
कहा गया है । यहाँ पर भी व्यतिरेकमुखसे प्रकृतिनिर्देश किया है ऐसा जानना चाहिए ।

\* सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करने पर छव्वीम प्रकृतियाँ  
उदयावलियं प्रवेश करती हैं ।

§ २५०. पूर्वाक्त अट्टाईस प्रकृतिक प्रवेशस्थानमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी  
क्रमसे उद्वेलना कर देने पर छव्वीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका  
तात्पर्य है । जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना की है केवल ऐसे जीवके ही नहीं  
किन्तु अनादि मिध्यादृष्टिके भी छव्वीसप्रकृतिक प्रवेशस्थान होता है ऐसा यहाँ महण करना  
चाहिए । अथवा अट्टाईसप्रकृतिक और सत्ताईसप्रकृतिक इनमेंसे अन्यतर सत्कर्मवाले उपशम-  
सग्यक्त्वके अमिमुख हुए मिध्यादृष्टिके द्वारा अन्तरकरण करके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी  
आवलि प्रमाण प्रथम स्थितिके गला देने पर छव्वीसप्रकृतिक प्रवेशस्थान प्राप्त होता है । पच्चीस  
प्रकृतियोंके प्रवेशक उपशमसम्यग्दृष्टि द्वारा मिध्यात्व सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इनमेंसे  
किसी एक प्रकृतिका अपकर्षण करने पर अथवा सासादनसम्यग्दृष्टिके मिध्यात्वको प्राप्त  
होने पर एक समय तक छव्वीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान उपलब्ध होता है । किन्तु इतनी विशेषता  
है कि सूत्रमें 'सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करने पर' यह वचन उदाहरणमात्र है,  
इसलिए इन प्रकारोंका भी संग्रह करना चाहिए ।

\* दर्शनमोहनीयत्रिकको छोड़कर पच्चीस प्रकृतियाँ उदयावलियं प्रवेश  
करती हैं ।

§ २५१. क्योंकि कषाय और नोकपायोंकी प्रकृतियोंका उदयावलियं प्रवेश कहीं पर भी

तं कस्स होइ ति आसंकाए उत्तरसुत्तमाह—

❀ अणंताणुबंधीणमविसंजुत्तस्स उवसंतदंसणमोहणीयस्स ।

§ २५२. किं कारणं ? उवसंतदंसणमोहणीयस्मि दंसणतियं मोत्तूण पणुवीस-  
चरित्तमोहपयडीणमुदयावलियपवेसस्स णिप्पडिबंधमुवलंभादो । एत्थाणंताणुबंधीण-  
मविसंजुत्तस्से ति विसेसणं विसंजोइदाणंताणुबंधिचउकम्मि पणुवीसपवेसट्टाणासंभव-  
पट्टपायणफलं; उवसमसम्माइट्टिणा अणंताणुबंधीसु विसंजोइदेषु इगिवीसपवेसट्टाणु-  
प्पत्तिदंसणादो ।

❀ एत्थि अणणस्स कस्स वि ।

§ २५३. एत्तो अणणस्स कस्स वि एदं पवेसट्टाणं णत्थि । कुदो ? अविंसंजोइदाणं-  
ताणुबंधिचउकमुवसमसम्माइट्टि मोत्तूणएणत्थि पणुवीसपवेसट्टाणासंभवादो ।

❀ चउवीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंति अणंताणुबंधीणो वज्ज ।

§ २५४. चउवीसंतकम्मियवेदयसम्माइट्टि-सम्माभिच्छाइट्टीसु तदुवलंभादो ।  
विसंजोयणापुव्वसंजोगपढमसमए वट्टमाणभिच्छाइट्टिम्मि वि एदस्स पवेसट्टाणस्स  
संभवो दट्टव्वो ।

❀ तेवीसं पयडोओ उदयावलियं पविसंति मिच्छत्ते खविदे ।

उपलब्ध होता है। वह स्थान किसके होता है ऐसी आशंका होनेपर आगेका सूत्र कहत है—

\* यह स्थान जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है  
किन्तु दर्शनमोहनीयका उपशम किया है ऐसे उपशमसम्यग्दृष्टिके होता है ।

§ २५२ क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयकी उपशमना की है ऐसे जीवके तीन दर्शन-  
माहनीयको छोड़कर चारित्रमोहनीयकी पच्चीस प्रकृतियोंका उदयावलिमें प्रवेश विना  
रूकावटके उपलब्ध होता है। यहाँ पर 'जिसने अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना नहीं की है'  
यह विशेषण जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है उसके पच्चीस प्रकृतिक प्रवेश-  
स्थान असम्भव है यह निष्कर्ष फलित करनेके लिए दिया है, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टिके द्वारा  
अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना कर देने पर इक्कीस प्रकृतिक प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति देखी  
जाती है ।

\* यह स्थान अन्य किसीके नहीं होता ।

§ २५३. उक्त जीवको छोड़कर अन्य किसी जीवके यह प्रवेशस्थान नहीं होता, क्योंकि  
जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यग्दृष्टिका छोड़कर अन्यत्र  
पच्चीसप्रकृतिक प्रवेशस्थान असम्भव है ।

\* अनन्तानुबन्धियोंको छोड़कर चौबीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं ।

§ २५४. क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि  
जीवके यह स्थान उपलब्ध होता है। विसंयोजनापूर्वक संयोगके प्रथम समयमें विद्यमान  
मिथ्यादृष्टि जीवके भी इस प्रवेशस्थानकी सम्भावना जाननी चाहिए ।

\* मिथ्यात्वका क्षय होनेपर तेईस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं ।



१ २५५. तेणेव चउबीसपवेसगेण वेदगसम्माइट्टिणा दंमणमोहक्खवणाए अब्भु-  
ट्टिय मिच्छत्ते खविदे इगिवीसकसाय-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि त्ति एदाओ तेवीमं  
पयडीओ उदयावलियं पविसंति; तत्थ पयारंतरासंभवादो ।

✽ बावीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति सम्मामिच्छत्ते खविदे ।

१ २५६. तेणेव तेवीसपवेसगेण तत्तो अंतोमुहुत्तं गंतूण मम्मामिच्छत्ते खविदे  
सम्मत्तेण सह एकवीसचरित्तमोहपयडीणमुदयावलियपवेसस्म सुव्वत्तमुवलंभादो । एमो  
एको पयारो सुत्तयारेण णिदिट्ठो त्ति पयारंतरेण वि एदस्स मंभवविमयो अणुमग्गि-  
यव्वो, अणंताणुवंधिणो विसंजोइय इगिवीमपवेसयभावेणावट्ठिदस्स उवसमसम्माइट्ठिस्म  
मिच्छत्त-वेदयसम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-मासणसम्मत्ताणमण्णदरगुणपडिवत्तिपठमसमए पय-  
दट्ठाणसंभवाणयमदंसणादो ।

२५५. चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशक उसी वेदकसम्यग्दृष्टिके द्वारा दर्शनमोहनीयकी  
क्षपणके लिए उद्यत होकर मिथ्यात्वका क्षय कर देनेपर इक्कीस कपाय, सम्यक्त्व और  
सम्यग्मिथ्यात्व ये तीर्बास प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार  
सम्भव नहीं है ।

\* सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय होने पर बाईस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश  
करती हैं ।

१ २५६. तीस प्रकृतियोंके प्रवेशक उसी जीवके द्वारा वहाँसे अन्तर्मुहूर्त वित्ताकर सम्य-  
ग्मिथ्यात्वका क्षय करने पर सम्यक्त्वके साथ चारित्रमोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंका उदयावलिमें  
प्रवेश सुस्थित उपलब्ध होता है । सूत्रकारने यह एक प्रकार निर्दिष्ट किया है, इसलिए प्रकारान्तर  
से भी २२ प्रकृतियोंका विषयभूत स्थान सम्भव है यह जान लेना चाहिए, क्योंकि अनन्तानु-  
बन्धियोंकी विमर्शयोजना कर इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकभावसे अवस्थित उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके  
मिथ्यात्व, वेदकसम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सासादनसम्यक्त्व इनमेंसे किसी एक गुणस्थान  
को प्राप्त होनेके प्रथम समयमें प्रकृत स्थानके सम्भव होनेका नियम देखा जाता है ।

विशेषार्थ—जिस उपशमसम्यग्दृष्टिने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विरयोजना की है वह  
जब मिथ्यात्वप्रकृतिका अपकर्षण द्वारा उद्धारणा करके मिथ्यात्वभावका अनुभव करता है तब  
उसके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कका बन्ध भी होता है और अप्रत्याख्यानवरण आदि  
रूप द्रव्यका अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित कर उसका उदयावलिमें बाहर निकलने भी करता है ।  
किन्तु उस समय अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उदयावलिमें प्रवेश नहीं होता, इसलिए ऐसा  
मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम समयमें बाईस प्रकृतियोंका ही उदयावलिमें प्रवेश होता है, क्योंकि  
उस समय उसके चारित्रमोहनीयकी इक्कीस और एक मिथ्यात्व ऐसी बाईस प्रकृतियोंका प्रवेश  
देखा जाता है । यही उपशमसम्यग्दृष्टि जीव यदि वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होता है तो उसके प्रथम  
समयमें चारित्रमोहनीयकी इक्कीस और एक सम्यक्त्व इसप्रकार बाईस प्रकृतियोंका उदयावलिमें  
प्रवेश देखा जाता है । यही जीव यदि सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होता है तो उसके प्रथम समयमें  
चारित्रमोहनीयकी इक्कीस और एक सम्यग्मिथ्यात्व इसप्रकार बाईस प्रकृतियोंका उदयावलिमें  
प्रवेश देखा जाता है । यही जीव यदि सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है तो उसके प्रथम समयमें  
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी किसी एक प्रकृतिके साथ चारित्रमोहनीयकी बाईस प्रकृतियोंका उदया-

✽ एकवीसं पयडीओ उदयावलियं पविसंति वंसणमोहणीए खविदे ।

§ २५७. पुवुत्तवावीसपवेसयदंसणमोहवखवएण सम्मत्ते खविदे इगिवीसचरित्त-  
मोहपयडीणं चैव तत्थ पवेसदंसणादो । एत्थ वि विसंजोइदायांताणुबंधिचउकमुवसम-  
सम्माइड्डिमस्सिऊण पयारंतरेण वि पयदट्टाणसंभवो समत्थणिज्जो ।

✽ एदाणि ट्टाणाणि असंजदपाओग्गाणि ।

§ २५८. एदाणि अणंतरणिहिट्टाणि अट्टावीसादिपवेसट्टाणाणि असंजदपाओ-  
ग्गाणि, असंजदपडिबट्टाणि ति वुत्तं होइ । ण एत्थासंजदायां चैव पाओग्गाणि असंजद-  
पाओग्गाणि ति अवहारणं कायव्वं, सत्तावीसवज्जाणमेदेसिं संजदेसु वि संभवोवलंभादो ।  
किंतु एत्तो उवरिमाणमेयंतमंजदपाओग्गतपदंसणट्टमेदेसिमसंजदपाओग्गतं परुविदं ।  
ण च उवसमसेटीए कालं कादूण देवसुप्पएणपढमसमए केसिं चि वि ट्टाणाणमुवरि-  
माणमसंजदपाओग्गतसंभवमस्सिदूण पच्चवट्टाणं कायव्वं, तेसिं सुत्ते विवक्खाभावादो,

बलिमें प्रवेश देखा जाता है, क्योंकि जिस समय ऐसा जीव सासादनसम्यग्दृष्टि हुआ है उस समय अनन्तानुबन्धीचतुष्कमेंसे जिस प्रकृतिकी उदीरणा हुई है उसके सिवा शेष तीन प्रकृतियों का संक्रम होकर उदयावालके बाहर ही निक्षेप होता है । इसप्रकार सूत्रोक्त प्रकारके सिवा अन्य कितने प्रकारसे बाईस प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्भव है इसका विचार किया ।

✽ दर्शनमोहर्मायके क्षय होने पर इकीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करनी हैं ।

§ २५७. पूर्वोक्तबाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक दर्शनमोहनीयके लपक जीवके द्वारा सम्यक्वका क्षय कर देने पर चारित्रमोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंका ही वहाँ प्रवेश देखा जाता है । यहाँ पर भी जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विभंयोजना की है ऐसे उपशमसम्यग्दृष्टिका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे भी प्रकृत स्थानकी सम्भावनाका समर्थन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—सूत्रमें जो इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका प्रकार बतलाया है वह तो स्पष्ट ही है । दूसरा प्रकार यह सम्भव है कि जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर लेता है उसक दर्शनमोहनीयकी तीन और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सात प्रकृतियोंके सिवाय इक्कीस प्रकृतियोंका उदयावलिमें प्रवेश देखा जाता है । यद्यपि यहाँ प्रकृतियोंके प्रवेशकी अपेक्षा कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि क्षयिकसम्यग्दृष्टिके जिन इक्कीस प्रकृतियोंका उदयावलिमें प्रवेश होता है उन्हीं प्रकृतियोंका पूर्वोक्त उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके भी प्रवेश होता है । परन्तु स्वामित्वभेद अवश्य है । मात्र इसलिए इसे प्रकारान्तर कहा है ।

✽ ये स्थान असंयतप्रायोग्य हैं ।

§ २५८. जो ये अट्टाईस प्रकृतिक आदि प्रवेशस्थान पूर्वमें कहे हैं वे असंयतप्रायोग्य है । वे असंयतोसे सम्बन्ध रखते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु यहाँ पर असंयतप्रायोग्य पदका अर्थ असंयतोंके ही योग्य है ऐसा अवधारणपरक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ताईस प्रकृतिक प्रवेशस्थानको छोड़कर शेष स्थान संयतोंमें भी सम्भवरूपसे उपलब्ध होते हैं । किन्तु इससे आगेके प्रवेशस्थान एकान्तसे संयतोंके योग्य ही होते हैं यह दिखलानके लिए पूर्वोक्त स्थानोंका असंयतोंके योग्य कहा है । उपशमश्रेणियोंमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीवोंके प्रथम समयमें आगेके कितने ही स्थान असंयतोंके योग्य सम्भव हैं, अतः इसका आश्रय लेकर वे भी

केण वि णएण तेसिं पि संजदपाओग्गत्तदंसणादो च । एवमसंजदपाओग्गाणं द्वाणाण-  
मेत्थेव वोच्छेदं कादूण मंपहि मंजदपाओग्गाणमेत्तो परूवरणं कुणमाणो पइएणावकमुत्तरं  
भणइ—

⊗ एत्तो उवसामगपाओग्गाणि ताणि भणिस्सामो ।

२५९. एत्तो उवरि मंजदपाओग्गाणं द्वाणाणं परूवरणे कीग्गामणे तत्थ ताव  
उवसामगपाओग्गाणि जाणि पवेसद्वाणाणि ताणि भणिस्सामो चि पइएणावकमेदं,  
उवसामग-खवगपाओग्गत्तेण दुविहा विहत्ताणं तेसिं जुगवं त्रोत्तुमत्तीए कमावलंवाणादो ।

⊗ उवसामणादो परिवदंतेण निविहा लोहो ओकड्ढिदो । तत्थ  
लोभसंजलणमुदए दिणं, दुविहो लोहो उदयावलियवाहिरे णिक्खित्तो ।  
ताथे एक्का पयडी पविसदि ।

२६०. उवसामसेटीए मव्वोवसमं कादूण तत्तो परिवदमाणएण मुहुमसांपराइय-  
पढमसमयम्मि जाधे निविहो लोहो विदियड्ढिदीदो ओकड्ढिय जहारिहं णिसित्तो ताधे  
एक्का पयडी पविमदि, तत्थ लोभसंजलणस्स एकस्सेव उदयावलियव्भंतरपवेसदंसणादो ।

⊗ से काले निणिण पयडीओ पविसन्ति ।

२६१. पुव्वमुदयावलियवाहिरे णिसित्तस्स दुविहस्स लोहस्स तदणंतरसमए

असंयतोके योग्य है ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन स्थानोंकी सूत्रमें विवक्षा नहीं  
की है और किसी नयकी अपेक्षा वे भी संयतोंके योग्य होंगे जाते हैं । इसप्रकार असंयतोंके योग्य  
स्थानोंका यही पर विच्छेद करके अब संयतोंके योग्य प्रवेशस्थानोंका आगे व्याख्यान करते हुए  
आगेका प्रतिज्ञावाक्य कहते हैं—

\* आगे उपशामकोंके योग्य जो प्रवेशस्थान हैं उनका कथन करेंगे ।

२५९. इससे आगे संयतोंके योग्य स्थानोंका कथन करते हुए उसमें सर्व प्रथम उप-  
शामकोंके योग्य जो प्रवेशस्थान हैं उनका कथन करेंगे इसप्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है, क्योंकि  
उपशामक और लपकोंके योग्यरूपसे दो भागोंमें बटे हुए उन प्रवेशस्थानोंकी एक साथ कहनेकी  
शक्ति न होनेसे यहाँ पर क्रमका अवलम्बन लिया है ।

\* उपशामनासे गिरते हुए जीवने तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण किया ।  
उनमेंसे लोभमंज्वलनको उदयमें दिया और दो प्रकारके लोभका उदयावलिके बाहर  
निक्षेप किया । तब एक प्रकृति प्रवेश करती है ।

२६०. उपशामश्रेणीमें सर्वांशम करके वहाँसे गिरनेवाले जीवने सूत्रमसाम्परायक प्रथम  
समयमें जब तीन प्रकारके लोभका द्वितीय स्थितिमेंसे अपकर्षणकर यथायोग्य निक्षेप किया तब  
एक प्रकृति प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ पर एक लोभसंज्वलनका ही उदयावलिके प्रवेश  
देखा जाता है ।

\* तदनन्तर तीन प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

२६१. क्योंकि पूर्व समयमें उदयावलिके बाहर निक्षिप्त हुए दो प्रकारके लोभका तद

उदयावलियब्भंतगपवेसेण तिण्हं पवेसस्स परिप्फुडमुवलंभादो ।

✽ तदो अंतोमुहुत्तेण निविहा माया ओकड्ढिदा । तथ मायासंजलण-मुदए दिण्णं, दुविहमाया उदयावलियबाहिरे णिक्खिस्ता । ताधे चत्तारि पयडोओ पविसंति ।

✽ से काले लुप्पयडोओ पविसंति ।

✽ तदो अंतोमुहुत्तेण निविहो माणो ओकड्ढिदो । तथ माणसंजलण-मुदए दिण्णं, दुविहो माणो उदयावलियबाहिरे णिक्खिस्ता । ताधे सत्त पयडोओ पविसंति ।

✽ से काले एव पयडोओ पविसंति ।

✽ तदो अंतोमुहुत्तेण निविहो कोहो ओकड्ढिदो । तथ कोहसंजलण-मुदए दिण्णं, दुविहो कोहो उदयावलियबाहिरे णिक्खिस्ता । ताधे दस पयडोओ पविसंति ।

✽ से काले बारस पयडोओ पविसंति ।

✽ तदो अंतोमुहुत्तेण पुरिसवेद-लुण्णोक्कसायवेदणीयाणि ओकड्ढि-दाणि । तथ पुरिसवेदा उदए दिण्णं, लुण्णोक्कसायवेदणीयाणि उदया-

नन्तर समयमें उदयावलिके भीतर प्रवेश हो जानेसे तीन प्रकृतियोंका प्रवेश स्पष्टरूपमें उपलब्ध होता है ।

✽ तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण किया । उनमेंसे मायासंज्वलनको उदयमें दिया और दो प्रकारकी मायाका उदयावलिके बाहर निक्षेप किया । तब चार प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर समयमें ऋह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद तीन प्रकारके मानका अपकर्षण किया । उनमेंसे मानसंज्वलनको उदयमें दिया और दो प्रकारके मानका उदयावलिके बाहर निक्षेप किया । तब सात प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर समयमें नौ प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद तीन प्रकारके क्रोधोंका अपकर्षण किया । उनमेंसे क्रोधसंज्वलनको उदयमें दिया और दो प्रकारके क्रोधोंका उदयावलिके बाहर निक्षेप किया । तब दस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर समयमें बारह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

✽ तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त बाद पुरुषवेद और ऋह नोकषाय वेदनीयका अपकर्षण किया । उनमेंसे पुरुषवेदको उदयमें दिया और ऋह नोकषायवेदनीयका उदयावलिके

वलियबाहिरे णिक्खित्ताणि । ताधे तेरस पयडोआ पविसंति ।

✽ से काले एगूणवीसं पयडोआ पविसंति ।

§ २६२. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

✽ तदो अंतोमुहुत्तेण इत्थिवेदमोकड्डिऊण उदयावलियबाहिरे णिक्खिवदि ।

§ २६३. कुदो ? पुरिसवेदोदण चट्टितादो । ण च मोदण विणा उदयादि-  
णिक्खेवसंभवो; विण्णडिसेहादो ।

✽ से काले वीसं पयडोआ पविसंति ।

§ २६४. कुदो ? उदयावलियबाहिरे णिक्खित्तस्स इत्थिवेदम्म ताधे उदयावलि-  
यम्भंतरपवेसदंसणादो ।

✽ नाव जाव अंतरं ण विणस्सदि त्ति ।

§ २६५. एत्तो पाए जाव अंतरं ण विणस्सदि ताव एदं चैव पवेसट्टाणमवट्टिदं  
दट्टुच्चमिदि वुत्त होइ ।

✽ अंतरे विणासिज्जमाणे एणुंसयवेदमोकड्डिदूण उदयावलियबाहिरे  
णिक्खिवदि ।

✽ से काले एकावीसं पयडोआ पविसंति ।

बाहर निक्षेप क्रिया । तब तेरह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

\* तदनन्तर समयमें उन्नीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २६२. ये सूत्र सुगम हैं ।

\* तदनन्तर अन्नमुहूर्त बाद स्त्रीवेदका अपकर्षण करके उदयावलिके बाहर  
निक्षेप करता है ।

§ २६३. क्योंकि यह पुरुषवेदके उदयसे चढ़ा है और स्वोदयके विना उदय समयसे  
लेकर निक्षेप होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका निषेध है ।

\* तदनन्तर समयमें बीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २६४. क्योंकि उदयावलिके बाहर निक्षेप हुए स्त्रीवेदका तब उदयावलिके भीतर प्रवेश  
देखा जाता है ।

\* यह स्थान तब तक रहता है जब तक अन्तरका नाश नहीं होता ।

§ २६५. इससे आगे जब तक अन्तरका नाश नहीं होता तब तक इस प्रवेशस्थानको  
अवस्थित जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* अन्तरका नाश करने पर नपुंसकवेदको अपकर्षित कर उदयावलिके बाहर  
निक्षेप करता है ।

\* तदनन्तर समयमें इकीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

॥ २६६. णवुंसयवेदे ओकड्डिदे तकाले चेवांतरविणासो होइ । तदणंतरसमए णवुंसयवेदेण सह एकवीमं पयडीओ उदयावलियं पविमंति ति भणिदं होइ ।

✽ एत्तो पाए जइ खीणदंसणमोहणीयो एदाओ एक्कवीसं पयडीओ पविसंति जाव अक्खवग-अणुवसामगो ताव ।

॥ २६७. एत्थ जइ खीणदंसणमोहणीयो ति वयणमक्खीणदंसणमोहणीयम्मि विणट्ठंतरम्मि अंतोमुहुत्तादो उवरि पयारंतरसंभवपदुप्पायणट्ठं । अक्खवगाणुवसामग-विसेसणं खवगोवसामगपज्जाएण परिणदम्मि तम्मि पुणो वि अंतरकरणादिवसेण इगिवीसपवेसट्ठाणविणासो होइ ति जाणावणट्ठं । तदो उवसामणादो परिवदिदो खइय-सम्माइट्ठी हेट्ठा णिवदिय पमत्तापमत्तसंजद-संजदासंजद-असंजदसम्माइट्ठिगुणट्ठाणेसु जेतियं कालमच्छइ तेत्तियं कालमिगिवीसपवेसट्ठाणमविणट्ठं होदण पुणो खवगोवसम-सेटिमारोहणे विणस्सदि ति एसो एदस्स भावत्थो । संपहि उवसंतदंसणमोहणीय-मस्सिउण एत्तो हेट्ठा अण्णाणि वि पवेसट्ठाणाणि समुप्पज्जंति ति जाणावेदुमुत्तरसुत्त-पबंधमाह—

✽ एदस्स चेव कसायोवसामणादो परिवदमाणयस्स ।

॥ २६८. एदस्स चेव कसायोवसामणादो परिवदमाणयस्स उवसंतदंसणमोह-णीयस्स किं चि णाणत्तमत्थि तमिदाणि वत्तइस्सामो ति एवं पदसंबंधो कायव्वो । जइ

॥ २६६. नपुंसकवेदका अपकर्षण होने पर उसी समय अन्तरका विनाश होता है । पुनः तदनन्तर समयमें नपुंसकवेदके साथ इक्कीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

\* इसके आगे यदि वह क्षीणदर्शनमोहनीय है तो ये इक्कीस प्रकृतियाँ तब तक प्रवेश करती हैं जब तक वह अक्षपक और अनुपशामक रहता है ।

॥ २६७. यहाँ पर अक्षीणदर्शनमोहनीयके अन्तरका नाश होने पर अन्तर्मुहूर्तके बाद प्रकारान्तर सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए 'यदि क्षीणदर्शनमोहनीय है' यह वचन दिया है । क्षपक और उपशामक पर्यायसे परिणत उस जीवके फिर भी अन्तरकरण आदिके वशसे इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान नष्ट होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'अक्षपक अनुपशामक' विशेषण दिया है । इसलिए उपशामनासे गिरा हुआ क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव नीचे गिर कर प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, संयतासंयत और असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंमें जितने काल रहता है उतने कालतक इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान नष्ट न होकर पुनः क्षपक-श्रेणि और उपशामश्रेणि पर आरोहण करने पर नष्ट होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है । अब उपशान्तदर्शनमोहनीय जीवका आश्रय कर इससे नीचे अन्य भी प्रवेशस्थान उत्पन्न होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

\* कषायोंकी उपशामनासे गिरनेवाले इसी जीवके ।

॥ २६८. जिसने दर्शनमोहनीयका उपशामना की है ऐसे कषायोंकी उपशामनासे गिरनेवाले इसी जीवके कुछ विभिन्नता है उसे इस समय बतलावेंगे इसप्रकार इस विधिसे पदसम्बन्ध

वि एत्थ उवसंतदंसणमोहणीयस्से त्ति मुत्ते ण वृत्तं तो षि पाग्गिसेमियण्णाएण तद्वृत्त-  
लभो दट्ठव्वो ।

✽ जाधे अंतरं विण्णुं तत्तो पाए एकवीसं पयडोओ पविसंति जाव  
सम्मत्तमुदीरंतो सम्मत्तमुदए देदि, सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तं च आवलियबाहिरे  
णिक्खिवदि । ताधे बावीसं पयडोओ पावसंति ।

§ २६९. एतदुक्तं भवति—अंतरविणासायांतरमेव समुवलद्वसरूवस्स इगिवीस-  
पवेसट्ठाणस्म ताव अवट्ठाणं होइ जाव उवसंतसम्मत्तकालचरिमसमयो त्ति । तत्तो  
परमुवसमसम्मत्तद्वाक्खएण सम्मत्तमुदीरेमाणेण सम्मत्ते उदए दिरणे मिच्छत्त-सम्मा-  
मिच्छत्तेसु च आवलियबाहिरे णिक्खित्तेसु त्काले बावीसपवेसट्ठाणमुप्पत्ती जायदि त्ति ।  
ण केवलं सम्मत्तमुदीरेमाणस्म एम क्कमो, किंतु मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं वा उदीरे-  
माणस्म वि एदेणेव कमेण वावीसपवेसट्ठाणुप्पत्ती वत्तव्वा, सुत्तस्सेदस्स देमामासयत्तादो ।

२७०. संपहि तस्सेव विदियसमए अविक्खिवदोदंदंमणमोहपयडिपवेसेण  
चदुवीमपवमट्ठाणुप्पत्ती हादि त्ति परूवणट्ठमाह—

करना चाहिए । यद्यपि यहाँ पर सूत्रमे 'उपशान्तदर्शनमोहनीयके' यह वचन नहीं कहा है तो  
भी परिशेषन्यायसे उसका सद्भाव जान लेना चाहिए ।

✽ जब अन्तर विनष्ट हो जाता है, वहाँ से लेकर इक्कीम प्रकृतियाँ तब तक  
प्रवेश करती हैं जब तक सम्यक्त्वकी उदीरणा करके सम्यक्त्वकी उदयमें देता है और  
सम्यग्मिध्यात्व तथा मिध्यात्वको उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है, तब बाईस  
प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २६८. तात्पर्य यह है कि अन्तरका विनाश होनेके बाद ही समुपलब्धस्वरूप इक्कीस  
प्रकृतिक प्रवेशस्थानका तब तक अवस्थान रहता है जब तक उपशमसम्यक्त्वके कालका अन्तिम  
समय प्राप्त होता है । आगे उपशमसम्यक्त्वके कालका नाश होनेसे सम्यक्त्वकी उदीरणा करते  
हुए सम्यक्त्वको उदयमें देनेपर तथा मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका आवलिके बाहर निक्षेप करने  
पर उस समय बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति होती है । केवल सम्यक्त्वकी उदीरणा  
करनेवालेका ही यह क्रम नहीं है किन्तु मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उदीरणा करनेवालेके  
भी इसी क्रमसे बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि यह सूत्र  
देशामर्षक है ।

विशेषार्थ—उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अपने कालको समाप्त कर वेदकसम्यग्दृष्टि,  
मिध्यादृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि इनमेंसे कोई भी हो सकता है । जब जो होगा तब उस गुण-  
स्थानके अतुरूप मिध्यात्व आदि तीनमेंसे किसी एक प्रकृतिकी उदीरणा होगी और अन्य दोका  
उदयावलिके बाहर निक्षेप होगा । यहाँ दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंमेंसे सम्यक्त्वकी अपेक्षा  
यह कथन किया है ।

२७०. अब उसी जीवके दूसरे समयमें अविक्खित दर्शनमोहनीयकी दो प्रकृतियोंका  
प्रवेश होनेसे चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति होती है इस बातका कथन करनेके  
लिए कहते हैं—

❀ से काले चउवीसं पयडोओ पविसंति ।

१२७१. सुगमं । जइ वि पुव्वमसंजदपाओग्गट्ठाणपरूवणाए इगित्रीम-चावीस-चउवीमपवेसट्ठाणाणं समुक्त्तिणा कया तेण उवसामगपडिवादसंबंधेण पुणो वि पयारंतरेणेदेसिमुवण्णासो कओ ति ण पुणरुत्तदोमो ।

❀ जइ सो कसायउवसामणादो परिवदिदो दंसणमोहणीयउवसंतट्ठाए अचरिमेसु समएसु आसाणं गच्छइ तदो आसाणगमणादो से काले पणुवीसं पयडोओ पविसंति ।

२७२. एदस्स सुत्तस्मत्थो वुच्चदे—कयायोवसामणादो पग्गिदिदस्म दंसण-मोहणीयउवसंतट्ठा अंतोमुहुत्ती सेमा अत्थि, तिस्से द्वावलियावसेसाए प्पट्ठाडि जाव तदट्ठाचरिमसमयो ति ताव मासणगुणेण परिणामेदुं मंभवो । तत्थ चरिमममए मामणभावं परिणममाणस्म अण्णा परूवणा भविस्मदि त्ति त मोत्तूण द्दुचरिमादिहेट्ठिम-ममएसु हेट्ठिमभावं पडिवज्जमाणस्म ताव पवेमट्ठाणगवेसणमेदेण मुनेण कीरदे । तं जहा—कसायोवसामणादो परिवदिदो उवसंतदंसणमोहणीयो दंसणमोहउवसंतट्ठाए द्दुचरिमादिहेट्ठिमममएसु जइ आसाणं गच्छइ तदो तस्स सासणभावं पडिवण्णस्म पढमसमए अणंताणुबंधीणमएणदरस्म पवेसेण बाधीमपवेसट्ठाणं होइ । कुदो तत्थाणं-

\* तदनन्तर समयमें चौबीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं—

२७१. यह सूत्र सुगम है । यद्यपि पहले असंयत जीवोंके याग्य स्थानोंकी प्ररूपणा करते समय इकीस, बाईस और चौबीस प्रकृतिक प्रवेशस्थानोंकी समुत्कीर्तना कर आये है तो भी उपशामक जीवोंके प्रतिपातके सम्बन्धसे फिर प्रकारान्तरसे इनका उपन्यास किया है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है ।

\* यदि वह कषायोंकी उपशामनासे गिरता हुआ दर्शनमोहनीयके उपशामना-कालके अचरम ( चरम समयसे पूर्व ) समयोंमें सासादन गुणस्थानको प्राप्त होता है तो उसके सासादन गुणस्थानमें जानके एक समय बाद पच्चीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

२७२. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—कषायोपशामनासे गिर हुए जीवके दर्शनमोहनीयके उपशामनाका काल अन्तमुहूर्त शेष बचता है । उसमेंसे जब छह आवलि काल शेष रहे वहाँसे लेकर उपशामना कालके अन्तिम समय तक सासादन गुणरूपसे परिणामन करना सम्भव है । उसमेंसे अन्तिम समयमें सासादनभावको प्राप्त होनेवाले जीवकी अन्य प्ररूपणा होगी, इसलिए उस छोड़कर द्विचरम आदि अधस्तन समयोंमें अधस्तन भावको प्राप्त होनेवाले जीवोंके सर्व प्रथम प्रवेशस्थानकी गवेपणा इस सूत्र द्वारा करने है । यथा—कषायोपशामनासे गिरता हुआ उपशान्त दर्शनमोहनीय जीव दर्शनमोहके उपशामनाके कालके अन्तर्गत द्विचरम आदि अधस्तन समयोंमें यदि सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है तो सासादनभावको प्राप्त होनेवाले उसके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिका प्रवेश होनेसे बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होता है ।



ताणुबंधीणमण्णदरपवेसणियमो ? ए, मासणगुणस्स तद्दुदयाविणाभाविचादो । कथं पुव्वमसंतस्साणंताणुबंधिकसायत्स तत्थुदयसंभवो ? ए, परिणामपाहम्मेण सेसकसाय-दव्वस्स तत्कालमेव तदायारेण परिणामिय उदयदंसणादो । तदो आसाणगमणादो से काले पणुवीसं पयडीओ पविसंति । किं कारणं ? उदयावलियवाहिरट्टिदतिविहाणं-ताणुबंधीणं तम्मि समए उदयावलियव्वंत्तंगपवेमदंसणादो ।

✽ जाधे मिच्छत्तमुदीरेदि ताधे छुव्वीसं पयडीओ पविसंति ।

§ २७३. कमेण तेणोव मिच्छत्ते उदीरिज्जमाणे मिच्छत्तेण सह छुव्वीसं पयडीणमुदयावलियपवेसस्स परिप्फुडमुवलंभादो । णवरि पढमसमयमिच्छाड्ढी मिच्छत्तामुदीरेमाणो दंसणतियमोक्खिऊण मिच्छत्तामुदयादि णिक्खिवादि । सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणि उदयावलियवाहिरे णिक्खिवादि ति वेत्तव्वं । अदो चेव से काले तेसिमुदयावलियपवेसो अवस्संभावि ति पदुप्पायणट्टुमाह—

✽ तदो से काले अट्टावीसं पयडीओ पविसंति ।

§ २७४. गयत्थमेदं सुत्तं । एवं ताव दुत्तग्गिमादिममएसु सासणभावं पडिवज्ज-माणास्स जहाकमं वावीस-पणुवीस-छुव्वीस-अट्टावीसपवेसट्टाणाणि होंति ति समुक्कित्थिय

शंका—वहाँ अनन्तानुबन्धियोंकी किसी एक प्रकृतिके प्रवेशका नियम क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सासादनगुण उसके उदयका अविनाभावी है ।

शंका—पूर्वमें सत्तासे रहित अनन्तानुबन्धोंकेपायका वहाँ पर उदय कैसे सम्भव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि परिणामोंके माहात्म्यवश शेष कपायोंका द्रव्य उसी समय उस रूपसे परिणामकर उसका उदय देखा जाता है ।

इसलिए सासादनमें जानेके बाद अनन्तर समयमें पच्चीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं, क्योंकि उदयावलिके बाहर स्थित तीन प्रकारकी अनन्तानुबन्धियोंका उस समयमें उदयावलिके भीतर प्रवेश देखा जाता है ।

✽ जिस समय मिथ्यात्वकी उदीरणा करता है उस समय छुव्वीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २७३. क्योंकि उसी जीवके द्वारा क्रमसे मिथ्यात्वकी उदीरणा करने पर मिथ्यात्वके साथ छुव्वीस प्रकृतियोंका उदयावलिमें प्रवेश स्पष्ट उपलब्ध होता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम सन्धवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वकी उदीरणा करना हुआ तीन दर्शनमोहनीयका अपकर्षण कर मिथ्यात्वका उदय समयसे लेकर निक्षेप करता है तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । और इसी लिए तदनन्तर समयमें उनका उदयावलिमें प्रवेश अवश्यभावी है इस बातका कथन करनेके लिए कहते हैं—

✽ इसके बाद तदनन्तर समयमें अट्टाईस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २७४. यह सूत्र गतार्थ है । इस प्रकार सर्व प्रथम द्विचरम आदि समयोंमें सासादन-भावका प्राप्त होनवाले जीवके क्रमसे बाईस, पच्चीस, छुव्वीस और अट्टाईस प्रकृतियोंके प्रवेश

संपहि दंसणमोहउवसंतद्वाचरिमसमए सामणगुणं पडिवज्जमाणस्म ऱिच्चि एणाएत्तमत्थि  
त्ति तप्पदुप्पायणडुमाह—

❀ अह सो कसायउवसामणादा परिवदिदां दंसणमोहणीयस्स  
उवसंतज्जाए चरिमसमए आसाणं गच्छइ से काले मिच्छत्तमांकडुमाणयस्स  
ल्लव्वीसं पयडीआं पविसन्ति ।

२७५. अह जइ मो चैव कमायउवसामणादो परिवदिदो उवसमसम्मत्तद्वा-  
चरिमसमए सासणगुणं पडिवज्जइ तो तस्स तम्मि समए पुव्वुत्तेणेव कमेण वावीस-  
पवेसट्ठाणं होदूण से काले मिच्छत्तमोक्कडुमाणस्म पणुवीमपवेमट्ठाणमहोदूण मिच्छत्तेण  
सह तिण्हमणंताणुबंधीणमक्कमपवेसेण ल्लव्वीम पयडीआं उदयावत्तियं पविसंति चि  
एसो एत्थतणो विसेसो ।

❀ तदां से काले अट्ठावांसं पयडीआं पविसन्ति ।

२७६. सुगममेदं ।

❀ एदे वियप्पा कसायउवसामणादो परिवदमाणगादो ।

२७७. एदं अणंतरणिट्ठिटा वियप्पा कसायावमामणादो परिवदमाणमस्मिऊण  
परुविदा त्ति पयदत्थोवमंहारवक्कमेदं । णवग्गि अण्णे चि वियप्पा एत्थ मंभवंति तेमिं  
स्थान हांते है ऐसी समुत्कीर्तना करक अब दर्शनमोहके उपशान्तकालके अन्तिम समयमें  
सासादन गुणको प्राप्त होनेवाले जीवके कुछ भेद है इस वाक्यका ज्ञान करानेके लिए कहते हैं—

\* यदि वह कषायोपशामनासे गिरता हुआ दर्शनमोहनीयके उपशामनके कालके  
अन्तिम समयमें सामादन गुणस्थानको प्राप्त होता है तो तदनन्तर समयमें मिथ्यात्व  
का अपकर्षण करनेवाले उमके ल्लव्वीस प्रकृतियों प्रवेश करती हैं ।

२७५ यदि वही जीव कषायोपशामनासे गिरता हुआ उपशमसम्यक्त्वके कालके  
अन्तिम समयमें सामादनगुणको प्राप्त होता है तो उसके उस समयमें पूर्वोक्त क्रमसे ही बाईस  
प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होकर अनन्तर समयमें मिथ्यात्वका अपकर्षण करते हुए पच्चीस  
प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान न होकर मिथ्यात्वके साथ तीन अनन्तानुबन्धियोंका युगपत् प्रवेश  
होनेके कारण ल्लव्वीस प्रकृतियों उदयावलिमें प्रवेश करती है यह यहाँ पर विशेष है ।

\* इसके बाद तदनन्तर समयमें अट्ठाईस प्रकृतियों प्रवेश करती हैं ।

२७६. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका  
अपकर्षण होकर उदयावलिमें बाहर निकले जाता है और दूसरे समयमें उन सहित अट्ठाईस  
प्रकृतियों उदयावलिमें प्रवेश करती है यह इस सूत्रका भाव है ।

\* ये विकल्प कषायोपशामनासे गिरनेवाले जीवकी अपेक्षा होते हैं ।

२७७. ये पूर्वमें कहे गये विकल्प कषायोपशामनासे गिरनेवाले जीवका आश्रय लेकर  
कहे गये हैं इस प्रकार यह प्रकृत अथका उपसंहार वचन है । किन्तु इतना विशेषता है कि

परूवणं कस्सामो । तं जहा—उवसामणादो परिवदमाणो तिविहं लोभमोकड्डिय तिएहं पवेसगो होदूण ड्ढिदो कालं कादूण देवेसुप्पणो तस्म पढममए पुग्गिसवेद-हस्स-रदीओ धुवा होदूण भय-दुगुब्बाहिं मह अट्ट पयडीओ पविसंति । तथा ङ्गप्पवेमगेण कालं कादूण देवेसुप्पणपढममए वट्टमाणएण पुव्वं व पुग्गिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुब्बासु अक्रमेण पवोसिदासु एक्कारमपवेमट्टाणमुप्पज्जदि । पुणो साव पवोमगस्स काल करिय देवेसुप्पणपढममए अणंतरणिदिट्टपंचपयडीसु पविट्टासु चोहस पवंसट्टाणं होइ । तथा तिविहं कोहमोकड्डियुण ड्ढिदवारसपवेमगेण कालं कादूण देवेसुप्पणपढम-समए भय-दुगुब्बाहिं विणा हस्स-रदि-पुग्गिसवेदेसु पवोसिदेसु पण्णाग्ग पवेमट्टाण होइ । तेणैव बाग्गपवेमगेण कालं करिय देवेसुप्पणपढममए हस्स-रदि-पुग्गिसवेदेसु भय-दुगु-ब्बाणमएणदरेण सह पवेमिदेसु मोलसपवेसट्टाणमुप्पज्जदि । अध तेणैव बाग्गएहमुवरि पुग्गिसवेद-हस्स-रदि-भय दुगुब्बा ति एदाओ पंच पयडीओ जुगवं पवोसिदाओ तो तस्स पढममयदेवस्स मत्तारमपवेसट्टाणं होइ । एवमेदाणि अट्टेक्कारस-चोहम-पएणारस मोलस-मत्तारमपवेसट्टाणाणि देवेसुप्पणपढमसमए चैव लब्भंति । एदाणि च मुत्तयारेण ण परूविदाणि, मत्थाणममुक्कित्तणए चैव मुत्ते त्रिविस्वियत्तादो ।

ॐ एत्तां खवगादो मग्गियच्चा कदि पवेसट्टाणाणि ति ।

यहा पर अन्य विकल्प भी सम्भव है, अतः उनका कथन करते हैं । यथा—उपशामनासं गिरन-वाला जो जीव तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण करके तीनका प्रवेशक हाकर स्थित है वह मरकर देवोमे उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम समयमें पुरुषवेद, हास्य और रति भ्रुव हाकर भय और जुगुप्साके साथ आठ प्रकृतियों प्रवेश करती है । तथा छद्म प्रकृतियोंके प्रवेशके साथ मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके द्वारा पूर्ववत् पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साका युगपत् प्रवेश कराने पर ग्यारह प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है । पुनः नौ प्रकृतियोंके प्रवेशके जीवके मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पूर्वमे कहीं गई पाँच प्रकृतियोंका प्रवेश होने पर चौदह प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होता है । तथा तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण कर बारह प्रकृतियोंके प्रवेशक हुए जीवके द्वारा मरकर देवोमे उत्पन्न होनेपर भय और जुगुप्साके बिना हास्य, रति और पुरुषवेदका प्रवेश होनेपर पन्द्रह प्रकृतियोंका प्रवेश-स्थान हाता है । उसी बारह प्रकृतियोंके प्रवेशके जीवके द्वारा मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें भय और जुगुप्सामेसे किसी एकके साथ हास्य, रति और पुरुषवेदके प्रवेश करने पर सोलह प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है । और यदि उसी जीवने बारह प्रकृतियोंके ऊपर पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन पाँच प्रकृतियोंका एकसाथ प्रवेश कराया तो उस प्रथम समयवर्ती देवके सत्रह प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होता है । इस प्रकार ये आठ, ग्यारह, चौदह, पन्द्रह, सोलह और सत्रह प्रकृतियोंके प्रवेशस्थान देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही प्राप्त होते हैं । किन्तु ये सूत्रकारने नहीं कहे हैं, क्योंकि सूत्रमे स्वस्थान समुत्कर्तनाकी ही विवक्षा रही है ।

\* आगे ज्ञापकके आश्रयसे कितने प्रवेशस्थान होते हैं इसकी मागणा करनी चाहिए ।

§ २७८. उवमामगपाओग्गपवेमट्टाणपरूवणाणंतरमेत्तो ग्वग्गादो पवेमट्टाण-समुक्कित्ता अणुमग्गियव्वा कदि तत्थ पवेमट्टाणाणि होंति ति जाणावणट्ट—

❀ तं जहा ।

❀ दंसणमोहणोए खविदे एक्कावीसं पयडोओ पविसंति ।

§ २७९. जइ वि एसो अत्थो पुव्वमसंजदपाओग्गट्टाणपरूवणावसरे परूविदो तो वि एण पुणरुत्तदोमो, पुव्वुत्तस्सेवत्थस्साणुवादं कादृण एत्तो अपुव्वत्थपरूवणं कस्सामो ति जाणावणट्टमेदस्स सुत्तस्मावयागदो ।

❀ अट्टकसाएसु खविदेसु तेरस पयडोओ पविसंति ।

§ २८०. पुव्वुत्तइगित्रीसपवेमणेण खग्गसेट्ठिमारूटेण अणियडिग्गुणट्टाणं पवि-मिय अट्टकमाएसु खविदेसु तत्तो प्पहुडि जाव अंतरकरणं एण समप्पइ ताव चदुसंज-लण-णवणोक्कसायसण्णिदाओ तेरम पयडोओ तस्स खग्गस्स उदयावलियं पविसंति ति समुक्कित्तिदं होइ ।

❀ अंतरे कदे दो पयडोओ पविसंति ।

§ २८१. तं जहा—अंतरं करेमाणो पुरिसवेद-कोहसंजलणाणमंतोमुहुत्तमेत्ति पढमट्टिदिं ठवेदि । सेमकसाय-णोक्कमायाणमुदयावलियवज्जं सव्वमंतरमागाएदि । एवमंतरं करेमाणेण जाधे अंतरं समाणिदं ताधे पुरिसवेद-कोधसंजलणाणमंतोमुहुत्तमेत्ती

§ २८८. उपशामकके योग्य प्रवेशस्थानोंकी प्ररूपणा करनेके बाद आगे क्षपकक आश्रयसं वहाँ कितने प्रवेशस्थान हांत है इसका ज्ञान करानेके लिए प्रवेशस्थान समुत्कीर्तनाका विचार करना चाहिए ।

❀ यथा—

❀ दर्शनमोहनीयका क्षय होनेपर इक्कीस प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २७६. यद्यपि यह अर्थ पहले असंयत प्रायोग्य स्थानोंके कथनके समय कह आये है तो भी पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त अर्थका ही अनुवाद करके आगे अपूर्व अर्थका कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रका अवतार हुआ है ।

❀ आठ कषायोंका क्षय होनेपर तेरह प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २८०. क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए पूर्वोक्त इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके द्वारा अनिवृत्तिगुणस्थानमें प्रवेश करके आठ कषायोंका क्षय कर देने पर वहाँसे लेकर जब तक अन्तरकरण समाप्त नहीं होना है तब तक चार संज्वलन और नौ नोकपाय संजावली तेरह प्रकृतियाँ उस क्षपकके उदयावलिमें प्रवेश करती हैं यह इस सूत्र द्वारा कहा गया है ।

❀ अन्तर करनेपर दो प्रकृतियाँ प्रवेश करती हैं ।

§ २८१. यथा—अन्तर करनेवाला क्षपक जीव पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनकी अन्न-मुहूर्तमात्र प्रथम स्थिति स्थापित करता है । शेष कषायों और नोकपायोंकी उदयावलिको छोड़कर शेष सब स्थिति अन्तरको प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार अन्तरको करनेवाला जब अन्तरको

पठमद्विदी चिद्विदि, सेमाणमेकार्गमपयडीणमुदयावलयिबभंतरे समयूणावलयिमेचगोबुच्छा सेसा । पुणो तेसु अधद्विदीए णिरवसेसं गालिदेसु ताधे दां चेव पयडीओ उदयावलयिं पविसंति, पुग्मिवेद-कोहमंजलणे मोत्तूणण्णेमिं पठमद्विदीए असंभवादो ।

❀ पुरिसवेदे खविदे एक्का पयडी पविसदि ।

§ २८२. तेणेव दोणहं पवेमगेण खवगेण जहाकमं णवुंम-इत्थिवेदे खविय तत्तो अंतोमुहुचं गंतूण पुरिसवेदपठमद्विदिचरिमसमए छण्णोकमाएहिं मह पुरिसवेद-चिगणमंतकम्मे खविदे तदो पहुडि एक्का चेव पयडी पविमदि, तत्थ कोहसंजलणं मोत्तूण अण्णेमिं पठमद्विदीए अणुवलंभादो । णवरि पठमे द्विदीए सह पुरिसवेदचिगण-मंतकम्मे खविदे पुरिमवेदो खविदो चेवे त्ति मुत्ते विवक्खियं; विदियद्विदिमवद्विदणवक-बंधस्स पहाणत्ताभावादो । एमो अत्था उवरिममुत्तेसु वि वक्खवाणेषवो ।

❀ कोधे खविदे माणो पविसदि ।

❀ माणे खविदे माया पविसदि ।

❀ मायाए खविदाए लोभो पविसदि ।

❀ लोभे खविदे अपवेशगो ।

§ २८३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । णवरि कोहपठमद्विदीए आवलयिमेत्त-

समाप्त करता है तब पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनकी अन्तर्मुहूर्त मात्र प्रथम स्थिति स्थित रहती है, शेष ग्यारह प्रकृतियोंकी एक समय कम आवलि मात्र गणुच्छा शेष रहती है । पुनः अध-स्थितिके द्वारा उनको परी तरहसे गला देनेपर तब दा प्रकृतिया ही उदयावलिमें प्रवेश करती है, क्योंकि पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति वहाँ सम्भव नहीं है ।

\* पुरुषवेदका क्षय होनेपर एक प्रकृति प्रवेश करती है ।

§ २८२. दां प्रकृतियोंके प्रवेशक उसी क्षयक जावक द्वारा क्रमसे नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका क्षय करके उसके बाद अन्तर्मुहूर्त जाकर पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें छह नाकपायोंके साथ पुरुषवेदके प्राचीन सत्कर्मका क्षय कर देने पर उनके आगे एक प्रकृति ही प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ पर क्रोधसंज्वलनको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम स्थितिके साथ पुरुषवेदके प्राचीन सत्कर्मका क्षय होनेपर पुरुषवेदका क्षय कर ही दिया यह सूत्रमें विवक्षित है, क्योंकि द्वितीय स्थितिमें अवस्थित नवकवन्धकी प्रधानता नहीं है यह अर्थ आगेके सूत्रोंमें भी कइना चाहिए ।

\* क्रोधका क्षय करने पर मान प्रवेश करता है ।

\* मानका क्षय करने पर माया प्रवेश करती है ।

\* मायाका क्षय करने पर लोभ प्रवेश करता है ।

\* लोभका क्षय करने पर अपवेशक होता है ।

§ २८३. ये सूत्र सुगम हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रोधसंज्वलनको प्रथम स्थिति

सेसाए माणसंजलणमोकड्डिय पढमड्डिदिं करेदि । तत्थुच्छिड्डावलियमेत्तकालं दोण्हं पवेसगो होदूण तदो एकस्से पवेसगो होदि त्ति घेत्तव्वं । एवं सेससंजलणेसु वि वत्तव्वं । लोभे खविदे पुण ण किंचि कम्मं पविसदि, विवक्खियमोहणीयकम्मस्म तत्तो परमसंभवादो । एवमेक्किस्से पवेसट्टाणस्स चत्तारि भंगा । दोएहं पवेसगस्स पण्णारस भंगा । सेमाणं पि पवेमट्टाणाणं जहासंभवं भंगपमाणाणुगमो कायव्वो ।

### एवमोघेण ट्टाणममुक्त्तिणा समत्ता

§ २८४. संपहि एत्थेव णिण्णयजणणट्टमादेमपरूवणट्टमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—ममुक्त्तिणाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण अत्थि २८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, २१, २०, १९, १३, १२, १०, ९, ७, ६, ४, ३, २, १ पवेमगो त्ति । एवं मणुसतिए । आदेसेण ऐरइय० अत्थि २८, २७, २६, २५, २४, २२, २१ पवेम० । एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० अत्थि २८, २७, २६ पवेमगा । अणुदिमादि सव्वट्टा त्ति अत्थि २८, २४, २२, २१ पवेसगा । एवं जाव ।

आवलिमात्र शेष रहने पर मानसंज्वलनका अपकर्षण कर प्रथम स्थिति करता है । वहाँ पर उच्छिष्टावलिमात्र काल तक दोनोंका प्रवेशक होकर अनन्तर एकका प्रवेशक होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार शेष संज्वलनोमे भी कहना चाहिए । परन्तु लोभका क्षय होने पर कोई कर्म प्रवेश नहीं करता, क्योंकि विवक्षित मोहकर्म उसके आगे नहीं है । इस प्रकार एक प्रकृतिके प्रवेशस्थानके चार भंग हैं । दो प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानके पन्द्रह भंग हैं । शेष प्रवेशस्थानोंके भी भंगोंके प्रमाणका अनुगम करना चाहिए ।

इस प्रकार ओघसे रथानसमुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ २८४. अब यहाँ पर निर्णय उत्पन्न करनेके अभिप्रायसे आदेश प्ररूपणा करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं । यथा—समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे २८, २७, २६, २५, २४, २३, २२, २१, २०, १९, १३, १२, १०, ९, ७, ६, ४, ३, २ और १ इन प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमे २८, २७, २६, २५, २४, २२ और २१ प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें २८, २७ और २६ प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमे २८, २४, २२ और २१ प्रकृतिस्थानोंके प्रवेशक जीव हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—कषायोपशामनासे च्युत होनेपर चूर्णिसूत्रोंमें जिन प्रवेशस्थानोंका निर्देश किया है अन्य स्थानोंके साथ वे ही यहाँ ओघप्ररूपणामें परिगणित किये गये हैं । कषायोपशामनासे च्युत हुए जीवकी अपेक्षा जो अन्य प्रकारसे ८, ११, १४, १५, १६ और १७ प्रकृतिक प्रवेशस्थान जयध्वला टीकामें बतलाये हैं उन्हें यहाँ परिगणित नहीं किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ २८५. सादि०-अणादि०-ध्रुव०-अद्भुवाणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे०। ओघेण छ्वीसंपवे० किं सादि० ४ ? सादि० अणादि० ध्रुव० अद्भुवा वा । सेस-ट्टाणाणि सादि-अद्भुवाणि । आदेसेण सच्चगदीसु सच्चट्टाणाणि सादि-अद्भुवाणि । एवं जाव० ।

❀ एवमणुमाणिय सामित्तं णेदव्वं ।

§ २८६. एवमणंतरपरुविदं समुक्कित्ताणुगममणुमाणिय णिवंधणं कादूण सामित्तं णेदव्वं । कुदो ? इमाणि ट्टाणाणि असंजदपाओग्गाणि इमाणि च संजदपाओग्गाणि, तत्थ वि असंजदपाओग्गेषु इमाणि सम्माइट्टिपाओग्गाणि इमाणि च मिच्छाइट्टिपाओग्गाणि, संजदपाओग्गेषु वि एदाणि उवमामगपाओग्गाणि एदाणि च खवगपाओग्गाणि ति एवविहविसेसस्स समुक्कित्ताणए सवित्थरमुवणिवद्धत्तादो । संपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदत्थस्स परुवणमुच्चारणावलेण वत्तइस्सामो । तं जहा—

§ २८७. सामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण २८, २६, २४, २२ पवेसट्टाणाणि कस्म ? अण्णद० सम्माइट्टि० मिच्छाइट्टि० सम्मामिच्छा-

§ २८५. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव क्या सादि हैं, क्या अनादि है, क्या ध्रुव हैं या क्या अध्रुव हैं ? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं । शेष स्थान सादि और अध्रुव हैं । आदेशसे सब गतियोंमें सब स्थान सादि और अध्रुव हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—२६ प्रकृतिक प्रवेशस्थान जीवोंके अनादि कालसे तब तक पाया जाता है जब तक प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए तो यह अनादि है । उसके बाद पुनः इसकी प्राप्ति सम्यक्त्वसे च्युत हुए मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होने पर ही होती है, इसलिए वह सादि है । तथा अभव्योंके वह ध्रुव है और भव्योंके अध्रुव है । इस प्रकार २६ प्रकृतिक प्रवेशस्थान सादि आदिके भेदसे चारो प्रकारका बन जाता है । किन्तु शेष स्थानोंकी प्राप्ति जीवोंके गुणस्थान प्रतिपन्न होनेके बाद ही बनती है, इसलिए वे सादि और अध्रुव हैं । गतिसम्बन्धी सब मार्गणाएँ कादाचित्क हैं, इसलिए उनमें सब स्थान सादि और अध्रुव हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ इस प्रकार अनुमान कर स्वामित्वको जान लेना चाहिए ।

§ २८६. इस प्रकार पूर्वमें कही गई समुत्कीर्तनाको अनुमान कर अर्थात् उसे हेतु बनाकर स्वामित्वको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थान असंयतप्रायोग्य हैं और ये स्थान संयतप्रायोग्य हैं । उसमें भी असंयतप्रायोग्य स्थानोंमें ये सम्यग्दृष्टिप्रायोग्य हैं और ये मिथ्यादृष्टिप्रायोग्य हैं । संयतप्रायोग्योंमें भी ये उपशामकप्रायोग्य हैं और ये क्षपकप्रायोग्य हैं इस प्रकारकी जो विशेषता है उसको विस्तारके साथ समुत्कीर्तनामें उपनिबद्ध कर दिया है । अब इस सूत्रके द्वारा सूचित होनेवाले अर्थका कथन उच्चारणाके बलसे करते हैं । यथा—

§ २८७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे २८, २६, २४ और २२ प्रकृतिक प्रवेशस्थान किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि

इट्टि० । एवरि बावीसं सासणसम्माइट्टिस्स वि अत्थि । २७ पवेस० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । २५ पवेस० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टि० सासणसम्मा० । तेवीस० इगिवीसप्पहुडि जाव एकस्से पवेस० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टि० । एवं मणुस-तिए । आदेसेण गोरइय० २८, २७, २६, २५, २४, २२, २१ ओघं । एवं मव्वगोरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-अणुहिसादि सव्वट्ठा ति सव्वट्ठाणाणि कस्स ? अण्णद० । एवं जाव० ।

✽ एयजीवेण कालो ।

२८८. अहियारसंभालणवकमेदं । तस्स दुविहो णिहेसो ओघादेसभेदेण । तत्थोघपरूवणट्टमाह—

✽ एकस्से दोएहं तिण्हं छुएहं णवण्हं बारसएहं तेरसएहं एगूणवीसएहं बीसएहं पयडोणं पवेसगो केवचिरं कालादो होइ ?

२८९. सुगमं ।

✽ जहएणेण एयसमभो ।

२९०. तं जहा—एकस्से पवे० ताव बुच्चदे । उवसमसेटीदो ओदरमाणगो

और सम्यग्मिध्याहृष्टिके होते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि चाईसप्रकृतिक प्रवेशस्थान सासादनसम्यग्मिध्याहृष्टिके भी होता है। २७ प्रकृतिक प्रवेशस्थान किसके होता है ? अन्यतर मिध्याहृष्टिके होता है। २५ प्रकृतिक प्रवेशस्थान किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्मिध्याहृष्टि और सासादनसम्यग्मिध्याहृष्टिके होता है। २३ और २१ से लेकर १ प्रकृतिक प्रवेशस्थान तक सब स्थान किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्मिध्याहृष्टिके होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें २८, २७, २६, २५, २४, २२ और २१ प्रकृतिक प्रवेशस्थानोंका स्वामित्व आंधके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें यथासम्भव सब प्रवेशस्थान किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

\* एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार है ।

§ २८८. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह वाक्य है। उसका निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश। उनमेंसे आघका कथन करनेके लिए कहते हैं—

\* एक, दो, तीन, छह, नौ, बारह, तेरह, उन्नीस और बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवका कितना काल है ।

§ २८९. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

§ २९०. यथा—सर्व प्रथम एक प्रकृतिके प्रवेशकका कहते हैं—उपशमश्रेणिसे उतरनेवाला



लोहसंजलणमोकड्डिय एगसमयमेकिस्से पवेसगो होदूण से काले तिएहं पवेसगो जादो । अथवा उवसमसेदिं चढमाणगो पुरिसवेदपढमट्टिदिं गालिय एगसमयमेकिस्से पवेसगो होदूण से काले कालं कादूण देवेसुप्पण्णो, लद्धो एयसमयमेत्तो एकिस्से पवेसगस्स जहणकालो ।

§ २९१. संपहि दोण्हं पवेस० वुच्चदे । तं कथं ? उवसमसेदिं चढमाणो अंतरकरणं समाणिय तदो समयुणावलियमेत्तकालं बोलाविय दोण्हं पवे० जादो । से काले कालगदो देवेसुप्पज्जिय पजायंतरं गदो लद्धो दोएहं पवेम० जह० एयममयो । एवं माण-माया-लोभेसु ओऋड्डिदेसु वि पयदजहणकालमंभवो ममयाविरोहेणाणुगतव्वो ।

§ २९२. तिण्हं पवेस० वुच्चदे— तिविहं लोभमोकड्डिय एयसमयं तिण्हं पवेमगो होदूण से काले कालगदो देवेसुप्पज्जिय अरणं पवेमट्टाणं पडिवरणो लद्धो एगसमयमेत्तो तिण्हं पवेसगस्स जहणकालो । एवं दएहं पवेसगस्स वि जहणकालो परूवेयव्वो । णवरि तिविहं मायमोकड्डिय एगममयं दएहं पवेमगो होदूण कालगदो त्ति वत्तव्वं । एवं चैव एवएहं बारसएहं पि जहणकालपरूवणा कायव्वा । णवरि जहाकमं तिविहं माणं तिविहं च क्रोहमोकट्टेऊण से काले कालगदो त्ति वत्तव्वं । एवं तेरमण्हं । णवरि पुरिसवेदमोकड्डिय एगममयं तेरसपवेसगो होदूण से काले एगूणवीसपवेसट्टाणं

जीव लोभसंज्वलनका अपकर्षण कर एक प्रकृतिका प्रवेशक हो तदनन्तर समयमें तीन प्रकृतियों का प्रवेशक हो गया । अथवा उपशमश्रेणि पर चढ़नेवाला जीव पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिकां गलाकर एक समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक हो तदनन्तर समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार एक प्रकृतिके प्रवेशकका जघन्य काल एक समयमात्र प्राप्त हुआ ।

२९१. अब दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल कहते हैं । वह कैसे ? उपशमश्रेणि पर चढ़नेवाला जीव अन्तरकरणको समाप्त कर अनन्तर एक समय कम एक आवलि कालका बिताकर दो प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । फिर तदनन्तर समयमें मरकर और देवोंमें उत्पन्न हो पर्यायान्तर ( स्थानान्तर ) का प्राप्त हुआ । इस प्रकार दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया । इसी प्रकार मान, माया और लोभका अपकर्षण करने पर भी प्रकृत जघन्य कालका सम्भव समयके अविरोधपूर्वक जान लेना चाहिए ।

§ २९२. अब तीन प्रकृतियोंके प्रवेशकका कहते हैं—तीन लोभोंका अपकर्षण कर एक समय तक तीन प्रकृतियोंका प्रवेशक हो तथा मर कर देवोंमें उत्पन्न हो अन्य प्रवेशस्थानको प्राप्त हो गया । इस प्रकार तीन प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया । इसी प्रकार छह प्रकृतियोंके प्रवेशकका भी जघन्य काल एक समय कहना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण कर एक समय तक छह प्रकृतियोंका प्रवेशक हो मरा ऐसा कहना चाहिए । तथा इसी प्रकार नौ और बारह प्रकृतियोंके प्रवेशकके भी जघन्य कालका कथन करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि क्रमसे तीन प्रकारके मान और तीन प्रकारके क्रोधका अपकर्षण कर तदनन्तर समयमें मरा ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार तेरह प्रकृतियोंके प्रवेशकका भी जघन्य काल कहना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अपकर्षण कर एक समय तक तेरह प्रकृतियोंका प्रवेशक हो तदनन्तर समयमें उन्नीस प्रकृतियों

पडिवएणो ति वत्तव्वं । एगूणवीस-वीसपवेसगाणं पि अप्पणो पयडीओ ओकड्डेऊण त्काले चैव कालं कादूण देवेसुप्पणो ति वत्तव्वं ।

✽ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

॥ २९३. तं जहा—एकिस्से पवे० ताव उच्चदे । इत्थिवेदलोहसंजलणाण-मुदएण खवगसेटिं चट्ठिदो अवगदवेदपठमसमयप्पहुडि जाव सुहुमसांपगइयचरिमसमयो ति ताव एकिस्से पवेसगो होइ । एसो एकिस्से पवेसगस्स उक्कस्सकालो । दोएहं पवेस-गस्म वि खवगसेटीए चैव उक्कस्सकालो घेत्तव्वो, पुरिसवेदोदएण खवगसेटिमारूठस्स अंतरकरणं कादूण समऊणावलियमेत्तकाले गदे तदो प्पहुडि जाव पुरिसवेदपठमट्टिदि-चरिमसमयो ताव दोएहं पवेसगत्तदंमणादो । निण्हं पवेमगस्म तिविहं लोभमोकट्टिय हेट्टा ओदग्माणगो उवसामगो जाव तिविहं मायं ण ओकड्डिदि ताव एमो उक्कस्सकालो घेत्तव्वो । एवं सेसाणं पि वत्तव्वं । णवरि तेरमण्हं पवे० खवगसेटीए अट्टुकमाएसु खविदेसु जाव अंतरकरणं कादूण दोएहं पवेसगो ण होइ ताव एसो कालो घेत्तव्वो ।

✽ चट्टुएहं सत्तएहं दसएहं पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होइ ?

॥ २९४. सुगमं ।

✽ जहणुक्कस्सेण एयसमओ ।

के प्रवेशस्थानको प्राप्त हुआ ऐसा कहना चाहिए। उन्नीस और बीस प्रकृतियोंके प्रवेशकोके भी अपनी अपनी प्रकृतियोंका अपकर्षण कर उसी समय मरकर देवोंमें उत्पन्न हो गया ऐसा कहना चाहिए।

✽ उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २९३. यथा—एक प्रकृतिके प्रवेशकका सर्व प्रथम कहत है—जो जीव त्रिवेद और लोभसंज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा है वह अपगतवेदके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्म-साम्यराय गुणस्थानके अन्तिम समय तक एक प्रकृतिका प्रवेशक होता है। यह एक प्रकृतिके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल है। दो प्रकृतियोंके प्रवेशकका भी उत्कृष्ट काल क्षपकश्रेणिमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़े हुए जीवके अन्तरकरण करके एक समय कम एक आवलि मात्र काल जाने पर वहाँसे लेकर पुरुषवेदकी प्रथम र्थतिके अन्तिम समय तक दो प्रकृतियोंका प्रवेश देखा जाता है। तीन प्रकारके लोभका अपकर्षण कर उतरता हुआ उपशामक जीव जब तक तीन प्रकारकी मायाका अपकर्षण नहीं करता तब तक तीन प्रकृतियोंके प्रवेशकका यह उत्कृष्ट काल होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार शेष प्रवेशस्थानोंका भी उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि तेरह प्रकृतियोंके प्रवेशकके, क्षपकश्रेणिमें आठ कषायोंका क्षय कर जब तक अन्तरकरण कर दो प्रकृतियोंका प्रवेशक नहीं होता तब तकका काल लेना चाहिए।

✽ चार, सात और दस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ २९४. यह सूत्र सुगम है ।

✽ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ २९५. तं जहा—तिणहं छणहं णवणहं पवेसणेण जहाकमं माय-माण कोह-संजलणेसु ओकड्डिदेसु पयदट्टाणाणमेयसमयमेत्तो कालो होइ, तत्तो उवरिमसमएसु जहाकमं छणहं णवणहं बारसणहं च णियमेण पवेसदंसणादो ।

✽ पंच-अट्ट-एक्कारस-चोइसादि जाव अट्टारसा त्ति एदाणि सुरण-ट्टाणाणि ।

§ २९६. कुदो ? पंचट्टारसपवेसट्टाणाणं मव्वत्थ सव्वकालमणुवलंभादो । सेसाणं च सत्थाणविवक्खाए संभवाणुवलंभादो । तदो एदेसिं जहएणुकस्सकालपरिक्खा एत्थि त्ति एसो एत्थ भावत्थो ।

✽ एकवीसाए पयडीणं पवेसगो केवच्चिरं कालादो होदि ?

§ २९७. सुगमं ।

✽ जहएणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २९८. तं कथं ? चउवीसपवेसणेण वेदगसम्माइट्टिणा दंसणमोहणीयं खविय इगिवीसपवेसगभावमुवगएण सव्वजहएणंतोमुहुत्तमेत्तकालेण खवणाए अब्भुट्टिय अट्ट-कमाणसु खविदेसु णिरुट्टपवेसट्टाणविणासेण तेरसपवेसट्टाणमुप्पज्जइ । अहवा उवसम-सम्माइट्टिणो अणंताएणुबंधिचउक्कं विसंजोइय सव्वजहणणंतोमुहुत्तमेत्तकालमिगिवीस-पवेसगभावेणच्छिय द्वावलियावसेसे सासणं पडिवज्जिय वावीसपवेसगत्तमुवगयस्स एभो

२६५. यथा--तान, छह और नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवके द्वारा क्रमसे माया, मान और क्रोधसंज्वलनोंके अपकर्षित करने पर उनके प्रकृत स्थानोंका एक समयमात्र जघन्य काल होता है, क्योंकि उनसे उपरिम समयोंमें क्रमसे छह, नौ और बारह प्रकृतियोंका नियमसे प्रवेश देखा जाता है ।

\* पाँच, आठ, ग्यारह और चौदहसे लेकर अठागह प्रकृतियों तकके ये शून्य-स्थान हैं ।

§ २९६. क्योंकि पाँच और अठारह प्रकृतियोंके प्रवेशस्थान सर्वत्र सर्वदा उपलब्ध नहीं होते । तथा शेष स्थान स्वस्थान विवक्षामे सम्भव नहीं हैं । इसलिए इन स्थानोंके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी परीक्षा नहीं है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

\* इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ २९७. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २९८. वह कैसे ? क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक कोई वेदकसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहनीयका लयकर इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकभावका प्राप्त हो सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा क्षणिके लिए उद्यत हो तथा आठ कषायोंका लयकर विवक्षित प्रवेशस्थानके विनाश द्वारा तेरहप्रकृतिक प्रवेशस्थान उत्पन्न होता है । अथवा जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्करी विसंयोजना कर और सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकभावसे रहकर छह आवलि काल शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त

जहण्णकालो वत्तञ्चो ।

⊗ उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ २९९. तं जहा—एको देवो णेरइओ वा चउवीससंतकम्मिओ पुव्वकोडा-  
उएसु मणुस्सेसु उववण्णो । गम्भादिअट्टवस्साणमंतोमुहुत्तम्भहियाणमुवारि दंसण-  
मोहणीयं खविय एकवीसपवेसगो होदूण पुव्वकोडिं जीविय कालं कादूण तेत्तीस-  
सागरोवमिएसु देवेसुववज्जिय ततो चुदो पुव्वकोडाउअमणुसेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तसेसे  
मंसारे खवगसेट्टिमारूढो अट्टकसाए खविय तेरमण्हं पवेसगो जादो । एवमंतोमुहुत्त-  
म्भहियअट्टवस्सेहिं परिहीणदोपुव्वकोडीहिं सादिरेयाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि एकवीस-  
पवेसगस्स उक्कस्सकालो होइ ।

⊗ बावीसाए पणुवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३००. सुगमं ।

⊗ जहण्णेण एयसमओ ।

§ ३०१. वावीसपवेसगम्म ताव उच्चदे । अणंताणुवंधि० विसंजोएदूण ट्टिद-  
उवसमसम्माइट्ठी इगिवीसपवेसगो सासणसम्मत्तं मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तं वेदग-  
मम्मत्ताणि वा पडिवण्णो, पटपसमए वाधीमपवेसगो होदूण पुणो विदियसमए जहा-  
कमं पणुवीसाए अट्टावीसाए चदुवीसाए पवेसगो जादो, लट्ठो बावीमपवेसगस्स  
हो बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया उसके यह जघन्य काल कहना चाहिए ।

\* उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है ।

§ २९. यथा—एक देव या नारकी चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला पूर्वकोटिकी आयु-  
वाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वह गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद दर्शनमोहनीय  
का क्षय कर इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो तथा पूर्वकोटि काल तक जीवित रहकर मरा और  
तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हो पुनः वहाँसे च्युत हो तथा पूर्वकोटिकी आयुवाले  
मनुष्योंमें उत्पन्न हो संसारमें रहनेका अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर क्षपकश्रेणि पर चढ़कर  
तथा आठ कषायोंका क्षय कर तेरह प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार सान्तर्मुहूर्त  
आठ वर्ष कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागर प्रमाण इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट  
काल होता है ।

\* बाईस और पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३००. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३०१. सर्वप्रथम बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कहते हैं—अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी  
बिसंयोजना कर इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो स्थित हुआ उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सासादन  
सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व या वेवकसम्यक्त्वको प्राप्त करके प्रथम समयमें बाईस  
प्रकृतियोंका प्रवेशक हो फिर दूसरे समयमें क्रमसे पक्कीस, अट्ठाईस और चौबीस प्रकृतियोंका  
प्रवेशक हो गया । इस प्रकार बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ ।

जहणकालो एयममयमेत्तो । मंपहि पणुवीसपवे० उच्चदे—विसंजोइदाणंताणुबंधि-  
चउक्केण उवममममाइड्डिणा उवममममत्तद्धादुचरिममए सासणभावे पडिवणो  
तस्म पढममए अणंताणुबंधीणमण्णदरपवेसेण वावीसपवेसट्टाणं होदूण से काले  
उदयावलियवाहिरड्डिसेमाणंताणुबंधितियस्म उदयावलियपवेसेण पणुवीसट्टाणं जादं ।  
एवमेगममयं पणुवीसपवेसट्टाणं होदूण तदणंतरसमए मिच्छत्तं पडिवणस्स इव्वीमं  
पवेसट्टाणुपत्तीए गिरुद्धं पवेसट्टाणं विणट्ठं होइ ।

❀ उक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३०२. तं जहा—सम्मामिच्छत्तं खविय जाव सम्मत्तं ण खवेइ ताव वावीस-  
पसेमगम्य अंतोमुहुत्तमेत्तो उक्कसकालो होइ । पणुवीसपवेसट्टाणस्म वि अणंताणुबंधीहं  
अविमंजुत्तउवममममाइड्डिकालो सव्वो चेव होइ ।

❀ तेवीसाए पयडोणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३०३. सुगमं ।

❀ जहणुक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३०४. तं जहा—सम्मामिच्छत्तन्ववणकालो सव्वो चेव तेवीसपवेसगकालो होइ ।

❀ चउवीसाए पयडोणं पवेसगो केवचिरं कालादां हादि ?

अथ पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कइते है—जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विमंयोजना की  
है ऐसा उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालके द्विचरम समयमें सासादनभावको प्राप्त  
हूया । उसके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंमेंसे किसी एक प्रकृतिका प्रवेश होनेसे बाईस  
प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होकर तदनन्तर समयमें उदयावलिके बाहर स्थित शेष अनन्तानुबन्धी-  
चतुष्कके उदयावलिके प्रवेश करनेसे पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान हो गया । इस प्रकार  
एक समय तक पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान होकर तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त  
हुए उसके इव्वीम प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति होनेसे विवक्षित प्रवेशस्थान विनष्ट  
होता है ।

\* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३०२. यथा—सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय करके जब तक सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षय नहीं  
करता है तब तक बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होता है । तथा जिसने  
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशमसम्यग्दृष्टिका सब काल पच्चीस  
प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल होता है ।

\* तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३०३. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३०४. यथा—सम्यग्मिथ्यात्वका सबका सब क्षपणाकाल तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका  
काल होता है ।

\* चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३०५. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३०६. तं कथं ? अट्टावीससंतकम्मियवेदयसम्माइट्ठी अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोइय चउवीसपवेसगो होदूण तदो सच्चजहणणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तं गदो तस्स विदियसमए चउवीसपवेसट्टाणं फिट्ठिदूणट्टावीसपवेसट्टाणं जादं, लद्धो पयदजहणणकालो ।

❀ उक्कस्सेण बेद्धावट्टिसागरोवमाणि वेसूणाणि ।

§ ३०७. तं जहा—एगो मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्तं धेत्तूण तक्कालम्भंतरे चेव चउवीमसंतकम्मिअं जादो वेदगसम्मत्तं पडिवणणविदियसमयप्पहुडि चउवीसपवेसगो होदूण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदो मिच्छत्तं खविय तेवीसपवेसगो जादो । एवं समययाहियसम्मामिच्छत्त-सम्मत्तक्खवण-कालेणणवेद्धावट्टिसागरोवममेत्तो पयदुक्कस्सकालो होदि । वेद्धावट्ठीणमवसाणे मिच्छत्तं एदूण पयदकालो किण्ण परूविदो ? ण मिच्छत्तं गच्छमाणस्स मच्चजहणणंतोमुहुत्तस्स वि सम्मामिच्छत्त-सम्मत्तक्खवणकालादो बहुत्तेण तहाकादुममचीदो ।

❀ छव्वासाए पयड्ढाणं पवेसगो केवचिरं कालादो हांदि ?

§ ३०८. सुगमं ।

§ ३०५. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३०६. वह कैसे ? क्योंकि अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विमंयांजनाकर चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो अनन्तर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा मिथ्यात्वमें गया उसके दूरमें समयमें चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान नष्ट होकर अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान उत्पन्न हो गया । इस प्रकार प्रकृत जघन्य काल उपलब्ध हुआ ।

\* उत्कृष्ट काल कुछ कम दो छयासठ सागरोंपम है ।

§ ३०७. यथा—एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण कर उसके कालके भीतर ही चौबीस कर्मोंकी सत्तावाला हो गया । पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके द्वितीय समयसे लेकर चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अन्तमें दर्शनमोहकी क्षणोंके लिए उद्यत हुआ और मिथ्यात्वका ज्ञय कर तेईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार एक समय अधिक सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके क्षणों कालसे कम दो छयासठ सागर कालप्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल होता है ।

शंका—दो छयासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यात्वमें ले जाकर प्रकृत कालका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें जानेवाले जीवका सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल भी सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके क्षणोंकालसे बहुत होनेके कारण वैसा करनेमें अशक्ति है ।

\* छब्बीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३०८. यह सूत्र सुगम है ।

❀ तिणिण भंगा ।

§ ३०९. कुदो ? अणादियअपज्जवसिदादीणं तिण्हं भंगाणमेत्थ णिग्वाह-  
मुहलंभादो ।

❀ तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहण्णेषण एयसमओ ।

§ ३१०. कुदो ? अट्ठावीससंतकम्मियउपसमसम्माइट्ठिणा मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-  
वेदगसम्मत्ताणमण्णदरगुणे पडिवरणे सासणसम्माइट्ठिणा वा मिच्छत्ते पडिवरणे  
एगसमयं तदुवलंभसंभवादो ।

❀ उक्कस्सेण उवड्ढपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ३११. कुदो ? अट्ठपोग्गलपरियट्ठादिसमए पढमसम्मत्तमुप्पाइय सव्वजह-  
एणंतोमुहुत्तकालमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण मव्वलहं मम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिय  
ख्वीसपवेसगभावेणट्ठपोग्गलपरियट्ठं परिभमिय अंतोमुहुत्ते सेसे संमारे सम्मत्तं  
पडिवण्णस्स देसूणट्ठपोग्गलपरियट्ठमेत्तपयदुक्कस्सकालोवलंभादो ।

❀ सत्तवीसाए पयडीणं पवेसगो केवचिरं कालादो हादि ?

§ ३१२. सुगमं ।

❀ जहण्णेषण एयसमओ ।

§ ३१३. तं जहा—सम्मत्तमुव्वेल्लमाणमिच्छाइट्ठी सम्मत्ताहिमुहो होदूण अंतं  
करेमाणो अंतरदुचरिमफालीए सह सम्मत्तचरिमुव्वेल्लणफालिं घत्तिय तकाले सम्मत्तस्स

\* इस कालके तीन भंग हैं ।

§ ३०९. क्योंकि अनादि-अनन्त आदि तीन भंग यहाँ पर निर्वाधरूपसे उपलब्ध होते हैं ।

\* उनमें जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल एक समय है ।

§ ३१०. क्योंकि अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले उपशमसम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्व, सम्यग्मि-  
थ्यात्व और वेदकसम्यक्त्व इनमेसे किसी एक गुणस्थानका प्राप्त होने पर अथवा सासादन-  
सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर एक समय तक उक्त कालकी उपलब्धि होती है ।

\* उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ ३११. क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन नामक कालके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वको  
उत्पन्न कर और सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालतक रहकर, मिथ्यात्वमे जाकर अति लघुकालके  
भीतर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना कर फिर छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशकभावसे कुछ  
कम अर्धपुद्गल परिवर्तन नामक कालतक परिभ्रमणकर संसारमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर  
सम्यक्त्वको प्राप्त हुए उसके कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है ।

\* सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३१२. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३१३. यथा—सम्यक्त्वकी उद्वेलना करनेवाला कोई मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वके  
अभिमुख होकर अन्तर करता हुआ अन्तरकी द्विचरम फालिके साथ सम्यक्त्वकी चरम

समयूणावलियमेत्तट्टिदीओ परिसेसिय से काले मिच्छत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमंतरचरिम-  
फालि पादिय सम्मा मिच्छत्तस्स वि समयूणावलियमेत्तट्टिदीओ ट्टिविय पुणो कमेण  
दोएहं पि समयूणावलियमेत्तगोवुच्छे गालेमाणो पुव्वमेव सम्मत्तगोवुच्छाओ णिल्लेविय  
एगसमयं सत्तावीसपवेसगो जादो । तदणंतरसमए सम्मा मिच्छत्तगोवुच्छं पि णिल्लेविय  
द्ववीसपवेसगो होदि । एवमेसो एयसमयमेत्तो सत्तावीसपवेसगस्स जहण्णकालो  
लद्धो होइ ।

❀ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ३१४. कुदो ? सम्मत्तमुव्वेल्लिय सत्तावीसपवेसस्सादिं कादूण पुणो जाव  
सम्मा मिच्छत्तमुव्वेल्लेदि ताव एदस्स कालस्स पलिदोवमसंखेज्जभागपमाणस्स पयदु-  
कस्सकालत्तेण विवक्खियत्तादो ।

❀ अट्ठावीसं पयडोणं पवेसगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३१५. सुगमं ।

❀ जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३१६. तं जहा—मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्तं घेत्तूण वेदगभावं पडिवज्जिय  
अट्ठावीसपवेसस्सादिं कादूण पुणां सव्वलहुमयांताणुबंधिचउकं विसंजोइय चउवीस-  
पवेसगो जादो, लद्धो पयदजहण्णकालो ।

उद्वेलनाफालिका घातकर उस समय सम्यक्त्वकी एक समय कम आवलिमात्र स्थितियोंको शेष  
राखकर तदनन्दर समयमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरकी अन्तिम फालिका पतन  
कर सम्यग्मिथ्यात्वकी भी एक समय कम आवलिमात्र स्थितियोंको स्थापितकर पुनः क्रमसे  
दोनोंकी ही एक समय कम आवलिमात्र गोपुच्छाओंको गलाता हुआ पहले ही सम्यक्त्वकी  
गोपुच्छाको गलाकर एक समय तक सत्ताईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । तथा तदनन्तर  
समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी गोपुच्छाको भी गलाकर छब्बीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । इस  
प्रकार यह सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है ।

\* उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३१४. क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशका प्रारम्भ कर  
पुनः जब तक सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करता है तब तकका यह पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण  
काल प्रकृत उत्कृष्ट कालरूपसे विवक्षित है ।

\* अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका कितना काल है ?

§ ३१५. यह सूत्र सुगम है ।

\* जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३१६. यथा—कोई मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर पुनः वेदकभावको  
प्राप्त हो अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेशका प्रारम्भ कर पुनः अति शीघ्र अतन्तानुबन्धीबलुत्पत्तकी  
विसंयोजना कर चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । प्रकृत जघन्य काल प्राप्त हुआ ।



❁ उक्कस्सेण बल्लावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३१७. एत्थ तीहिं पलिदोवमस्सासंखेज्जभागेहिं सादिरेयत्तं दट्ठव्वं ।

एवमोधेण कालाणुगमो समत्तो ।

§ ३१८. संपहि एदेण मूचिदादेमपरूवणट्ठमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—  
आदेसेण योगइय० २८ २६ जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि संपु-  
एणाणि । २७ २५ २२ ओघं । २४ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरो०  
देसूणाणि । २१ जह० अंतोमु०, उक्क० सागरोवमं देसूणं । एवं सत्तसु पुढवीसु ।  
णवरि सगाट्टिदी । विदियादि जाव मत्तमा त्ति २२ जहएणुक्क० एयस० । २१  
जहएणुक्क० अंतोमु० ।

\* उत्कृष्ट काल साधिक दो लघ्यासठ सागरप्रमाण है ।

§ ३१७. यहाँ पर तीन बार पल्यके असंख्यातवें भागोंसे साधिकपना जानना चाहिए ।

इस प्रकार ओघसे कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३१८. अब इससे सूचित हुए आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं ।  
यथा—आदेशसे नारकियोमे २८ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और  
उत्कृष्ट काल पूरा तर्तीस सागर है । २७, २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल ओघके  
समान है । २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम  
तर्तीस सागर है । २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ  
कम एक सागर है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है  
कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवां तक प्रत्येक पृथिवीमे २२  
प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका  
जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ—**२८ प्रकृतियोंकी सत्ताबाले जीवको नरकमे उत्पन्न करावे । फिर अन्तर्मुहूर्तमे  
उसे वेदकसम्यक्त्व ग्रहण करा कर अन्तमे अन्तर्मुहूर्त काल रहने पर मिथ्यात्वमे ले जावे ।  
ऐसा करनेसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल तर्तीस सागर बन जाता है । २८ प्रकृतियोंकी  
सत्ताबाले जीवको नरकमे उत्पन्न करावे । फिर अन्तर्मुहूर्तमे वेदकसम्यक्त्व पूर्वक अन्तानुबन्धी  
चतुष्ककी विसंयोजना करा कर जीवनके अन्तमे अन्तर्मुहूर्त काल रहने पर मिथ्यात्वमे ले जावे ।  
ऐसा करनेसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तर्तीस सागर प्राप्त होता है ।  
नरकमे उपशमसम्यक्त्वके साथ अन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करानेसे इक्कीस प्रकृतियोंके  
प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा ज्ञायिक सम्यग्दृष्टिको नरकमे उत्पन्न  
करानेसे इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर प्राप्त होता है । सामान्य  
नारकियोंकी अपेक्षा शेष कालका खुलासा सुगम है । प्रथमादि नरकोंमें अन्य सब काल इसी  
प्रकार बन जाता है । मात्र एक तो जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति है उसे जान कर २८, २६ और २४  
प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए । दूसरे २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका  
सामान्यसे नरकमे जो काल कहा है वह पहले नरकमें ही घटित होता है, इसलिए द्वितीयादि

§ ३१९. तिरिक्खेसु २८ जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि पलिदो० असंखे०भागेण । २७ २५ २२ ओघं । २६ जह० एयस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । २४ जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । २१ जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पाडिबुण्णाणि । एवं पंचिदियतिरिक्खवतिए । णवरि २८ २६ जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । जोणिणि० २२ २१ विदियपुढविभंगो । पंचि०-तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० २८ २७ २६ जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० ।

नरकोमे उसे अलगसे जान लेना चाहिए । जिमका निर्देश मूलमे किया ही है । बात यह है कि द्वितीयादि नरकोमे सम्यक्त्वकी चपणा सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही बनता है । तथा द्वितीयादि नरकोमे चायिकसम्यग्दृष्टिकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही बनता है ।

§ ३१९. तिर्यञ्चोमे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य हैं । २७, २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल ओघके समान है । २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य हैं । २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल परं तीन पत्य है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । किन्तु इतना विज्ञाना है कि इनमे २८ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटितृथक्त्व आधिक तान पत्य है । योनिनी तिर्यञ्चोमे २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूमरी पृथिवीके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे उपशमसम्यक्त्वपूर्वक सम्यक्त्व और सम्यग्मध्यात्वकी सत्ता उत्पन्न कराकर तथा तिर्यञ्च पर्यायमे रखते हुए उक्त प्रकृतियोंकी उद्वेलनाद्वारा सत्ता नाश होनेके पूर्व ही तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमे उत्पन्न कराकर तथा अतिशीघ्र वेदकसम्यक्त्वको उत्पन्न कराकर उसके साथ जीवन भर रखनेसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । तिर्यञ्च पर्यायमे रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है और इतने काल तक वह जीव २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक बना रहे यह सम्भव है, इसलिए इनमे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर वेदकसम्यक्त्वके साथ तिर्यञ्च पर्यायमे निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य ही बनता है, इसलिए इनमे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है । जो चायिकसम्यग्दृष्टि मनुष्य मरकर तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होते हैं वे उत्तम भोगभूमिमें ही उत्पन्न होते हैं और उत्तम भोगभूमिमे एक जीवकी उत्कृष्ट आयु तीन पत्य है, इसलिए यहा २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोमे यह जो काल घटित करके बतलाया है वह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे कुछ विशेषताको लिए हुए ही प्राप्त होता है । वह यह है कि पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्व

३२०. मणुसतिए २८ २७ २६ २५ २४ पंचदियतिरिखभंगो । २१ जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि । सेसमोघं । णवग्गि मणुसिणी० २१ जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा ।

§ ३२१. देवेसु २८ जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । २७ २५ २२ ओघं । २६ जह० एयस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० । २४ २१ जह० अंतोसु०, उक्क०

कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य ही है, अतः इनमें २८ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा योनिनी तिर्यञ्चोमें न तां सम्यक्त्व प्रकृतिकी क्षणणा सम्भव है और न ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव ही मरकर उत्पन्न होता है, अतः इनमें २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी पृथिवीके समान घटित होनसे इनका भंग दूसरी पृथिवीके समान जाननेकी सूचना की है । यह सम्भव है कि सम्यक्त्वकी उद्वेलना करनेवाला कोई जीव जब उसकी उद्वेलनामें एक समय बाकी रहे तब वह पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमें उत्पन्न हो । यह भी सम्भव है कि जब सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहे तब वह उक्त जीवोंमें उत्पन्न हो और यह भी सम्भव है कि जब उक्त जीवोंकी पर्यायमें एक समय बाकी रहे तभी सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना हो जावे । ऐसा करनेसे उक्त जीवोंमें २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । तथा एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त है और इतने काल तक इनमें उक्त पद बन रहे इसमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनमें उक्त पदोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट है, क्योंकि उसका गुलासा ओषपरूपणाके समय मूलमें ही कर दिया है, इसलिए वहाँ देखकर यहाँ उसकी संगति बिठा लेनी चाहिए ।

§ ३२०. मनुष्यात्रिकमें २८, २७, २६, २५ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका पञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्चोके समान भंग है । २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । शेष भंग ओषके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियामें २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—जिस पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यने त्रिभाग शेष रहने पर आयुबन्धके बाद ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न किया है और जो मरकर तीन पल्यकी आयुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ है उसके २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल प्राप्त होनेसे वह पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य कहा है । तथा जो मनुष्य उपशमश्रृण्णासे उतरते समय २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक हांकर और दूसरे समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उस मनुष्यके २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यह तो हम पहले ही बतला आये है कि ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्यनियामें नहीं उत्पन्न होता । हाँ मनुष्यनी ज्ञायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सकती है, अतः मनुष्यात्रिकमेंसे शेष दोमें २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका पूर्वोक्त काल कहा है और मनुष्यनीमें कुछ कम पूर्वकोटि कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२१. देवोंमें २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तैत्तिष सागर है । २७, २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल ओषके समान है । २६

तेत्तीसं सागरो० । एवं भवणादि त्रव णवगेत्रजा त्ति । णवरि सगट्टिदी । भवण०—  
वाणवें०-जोदिसि० २२ २१ विदियपुठविभंगो । अणुहिमादि सव्वट्टा त्ति २८ २४  
२१ जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी० । २२ जह० एयस०, उक्क० अंतोमुहुत्तं ।  
एवं जाव० ।

### ❀ अंतरमणुचिंतियूण षेदव्वं ।

§ ३२२. एदेण सूचिदत्थस्स परूवणमुच्चारणादो कस्सामो । तं जहा—अंतराणु०  
दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण २८ २५ २४ २२ २० १९ १३ १२  
१० ९ ७ ६ ४ ३ २ १ पवेसमंतं जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियड्डं । २७

प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । २४,  
और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।  
इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी  
विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें  
२२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी पृथिवीके समान है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थ-  
सिद्धि तकके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और  
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय  
है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार ग्रनाहारक मार्गगानक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना नहीं की है ऐसा वेदकसम्यग्दृष्टि  
जीव देवोंकी उत्कृष्ट आयु लेकर उत्पन्न होकर अन्त तक वह उसी प्रकार बना रहे यह सम्भव  
है, इसलिए सामान्य देवोंमें २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है ।  
मिथ्यादृष्टि देव नौवें प्रवेयक तक ही पाय जाते हैं, इसलिए इनमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका  
उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है । किन्तु ये ऐसे देव लेने चाहिए जो सम्यक्व और  
सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित होते हैं । जिसने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है  
ऐसा वेदकसम्यग्दृष्टि जीव और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीव देवोंकी उत्कृष्ट आयु लेकर उनमें  
उत्पन्न हो यह भी सम्भव है, इसलिए सामान्य देवोंमें २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक ।  
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । नौ प्रवेयक तकके देवोंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए  
उनमें सामान्य देवोंके सामान जाननेकी सूचना की है । परन्तु इसके दो अपवाद हैं । एक तो इन  
देवोंकी आयु पृथक् पृथक् है, इसलिए इस विशेषताको ध्यानमें रखकर उक्त पदोंका काल कहना  
चाहिए । दूसरे भवनत्रिकमें सम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इनमें २२ और  
२१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका काल दूसरी पृथिवीके समान प्राप्त होनेसे उसके समान घटित कर  
लेना चाहिए । तथा इतनी विशेषता और जाननी चाहिए कि इनमें २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका  
उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही बनता है । कारण स्पष्ट है ।  
अनुदिशादिकमें २८, २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए  
इनमें इन पदोंके प्रवेशकोंकी अपेक्षा काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

\* अन्तरको विचार कर जानना चाहिए ।

§ ३२२. इससे सूचित होनेवाले अर्थका कथन उच्चारणके अनुसार करते हैं । यथा—  
अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे २८, २५, २४,  
२२, २०, १९, १३, १२, १०, ९, ७, ६, ४, ३, २, और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर

जह० पलिदो० असंखे०भागो । २१ जह० बेसमया, उक्क० दोएहं पि उवड्डोग्गल० ।  
२६ जह० अंतोमु०, उक्क० वेत्तावड्डिसागरो० सादिरेयाणि । २३ एत्थि अंतरं ।

अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर दो समय है और दोनोका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है । २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । २३ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है ।

**विशेषार्थ** — कोई २८ प्रकृतियोंका प्रवेशक वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वमें जाकर पुनः २८ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । कोई जीव उपशम सम्यग्दृष्टि होकर २५ प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके द्वारा २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो अन्तरको प्राप्त होगया । उपशम सम्यक्त्वके कालमें ६ आवली शेष रहने पर सासादनको प्राप्त हो दूसरे समयमें पुनः २५ का प्रवेशक होगया, उसके २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । जो अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार वेदकसम्यग्दृष्टि हो अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है उसके २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । जो अनन्तानुबन्धीका वियोजक उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सासादनमें जाकर प्रथम समयमें २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । पुनः मिथ्यात्वमें जाकर व अतिशीघ्र वेदकसम्यक्त्व पूर्वक मिथ्यात्व व सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षणकर २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है उसके २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । आगे २०, १६, १३, १२, १०, ६, ७, ६, ५, ३, २ और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाकर और उतार कर प्राप्त होता है । यह उक्त स्थानोंके जघन्य अन्तरका विचार है । इन स्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण इन स्थानोंको अर्ध पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें प्राप्त करनेसे घटित हो जाता है । मात्र यह अन्तर प्राप्त कराने समय जहाँ जो विशेषता हो उसे जानकर कहना चाहिए । २७ प्रकृतियोंका प्रवेशस्थान सम्मगिमिथ्यात्वकी उद्वेलना करानेसे प्राप्त होता है और इसका उद्वेलनामे पल्यका असंख्यातवें भागप्रमाण काल लगता है, अतः यह क्रिया दो बार उपशमसम्यक्त्वसे गिरा कर करानी चाहिए । ऐसा करनेसे इस स्थानका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त हो जाता है । कोई द्वितीयोपशम जीव पुरुषवेदके उदयसे उपशमश्रेणि पर चढ़ा । अन्तरकरणके बाद वह नपुंसकवेदका उपशम कर २१ के स्थानमें २० प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ और उसी समय मर कर तथा देव हो देव होनेके प्रथम समयमें नपुंसकवेदका अपकर्षणकर उसका उदयावलिके बाहर निक्षेप किया तथा दूसरे समयमें पुनः वह २१ प्रकृतियों प्रवेशक हो गया । इस प्रकार २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर दो समय प्राप्त होता है । अन्य वेदोंके उदयसे भी यह अन्तर प्राप्त किया जा सकता है सो जानकर कथन कर लेना चाहिए । यह २७ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर है । इनका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण होता है जो इन स्थानोंका उक्त कालके आदिमें और अन्तमें अधिकारी बनानेसे प्राप्त होता है । जो २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर अनन्तानुबन्धी की विसंयोजना करता है । पुनः जब सम्यक्त्वके कालमें एक समय शेष रहने पर सासादनमें जाकर दूसरे समयमें मिथ्यात्वमें प्रवेश करता हुआ २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है उसके

§ ३२३. आदेशेण लोरइय० २८ २६ २५ २४ जह० अंतोमु०, २७ २२ २१ जह० पलिदो० असंखे०भागो; उक्क० सव्वेसिं षि तेत्तीसं सागरो० देसू० । एवं सव्वणोर० । णवरि सगड्ढिदी देसू० ।

§ ३२४. तिरिक्खेसु २८ २५ २४ जह० अंतोमु०, २७ २२ २१ जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० सव्वेसिमुवड्डुपोग्गल० । २६ जह० अंतोमु०, उक्क० तिरिण पलिदो० सादिरेयाणि । एवं षंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि सव्वपदाणमुक्क०

२६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त उवलब्ध होता है। तथा जो छब्बीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशम सम्यक्त्व पूर्वक वेदक सम्यग्दृष्टि हो और यथाविधि अन्तर्मुहूर्त कम दो छयासठ सागर काल तक बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हो वेदकसम्यक्त्वके साथ रह कर मिथ्यात्वमें जाकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना कर २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो जाता है उसके २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर प्राप्त होता है। तेईस प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव जपणके समय प्राप्त हांता है, इसलिए इसका अन्तरकाल नहीं बनता। इस प्रकार ओघसे किस प्रवेशस्थानका क्या अन्तर काल है इसका विचार किया।

§ ३२३. आदेशसे नारकियोंमें २८, २६, २५ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। २७, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इही प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए।

**विशेषार्थ**—२८, २६, २५ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जिस प्रकार ओघप्ररूपणामे स्पष्ट करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। जो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तरसे दो बार उपशम सम्यक्त्वके साथ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना पूर्वक सम्यक्त्वके साथ २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक और सम्यक्त्वसे च्युत हो सासादनमें आकर २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है उसके २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इन स्थानोंका जघन्य अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ओघसे नरकमें जो सब प्रवेशस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है सो यह प्रारम्भमें और अन्तमें उस उस स्थानके प्राप्त करानेसे ही प्राप्त होता है। प्रथमादि नरकोंमें उक्त सब प्रवेशस्थानोंका जघन्य अन्तर तो सामान्य नारकियोंके समान ही है। मात्र उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रख कर घटित करना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उसका अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं किया है।

§ ३२४. तिर्यञ्चोंमें २८, २५ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, २७, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा इन सब स्थानोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर उपाधं पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर

तिणिण पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणमहियाणि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज०  
२८ २७ २६ णत्थि अंतरं ।

३२५. मणुसतिण २८ २६ २५ २४ २२ २१ जह० अंतोमु०, २७ जह०  
पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० सव्वेसि तिणिण पलिदो० पुव्वकोडिपुध० । २३ णत्थि  
अंतरं । २० १९ १३ १२ १० ९ ७ ६ ४ ३ २ १ जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क०  
पुव्वकोडिपुध० ।

पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें  
२८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है ।

**विशेषार्थ**—यहाँ पर सर्वत्र जघन्य अन्तर सब पदोंके प्रवेशकका जिस प्रकार नरकमें  
घटित कर बतला आये हैं उन्नीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते  
समय अधिकसे अधिक कितने अन्तरसे ये प्रवेशस्थान सम्भव है इस विशेषता को जानकर  
उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करना चाहिए । यथा—२८, २७, २५, २४, २२ और २१ प्रकृतिक प्रवेश-  
स्थान उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण अन्तरसे प्राप्त किये जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रवेशस्थान  
सम्यक्त्व पूर्वक होने हैं और सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण  
है । मात्र २६ प्रकृतियोंके प्रवेशस्थानका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य ही बनता है,  
क्योंकि जो २६ प्रकृतियोंकी सत्तावाला तिर्यञ्च उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर क्रमसे यथायोग्य  
अविवक्षित स्थानोंका प्रवेशक हो जाता है वह अधिकसे अधिक साधिक तीन पल्य काल तक ही  
अन्य अविवक्षित पदोंके साथ तिर्यञ्च पर्यायमें रह सकता है । उसके बाद या तो तिर्यञ्च पर्याय  
बदल जाती है या वह पुनः २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो जाता है । चूं कि यहाँ २६ प्रकृतियोंके  
प्रवेशकका तिर्यञ्च पर्याय रहते हुए उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करना है, इसलिए २६ प्रकृतियोंकी  
सत्तावाला ऐसा तिर्यञ्च जीव लो जो उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर मिथ्यात्वमें जावे और वहाँ  
सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करता हुआ वेदक कालके भीतर तीन पल्यकी  
आयुवाले तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हो । फिर सम्यग्दृष्टि हो, जब इस आयुमें पल्यका असंख्यातवाँ  
भाग काल शेष रहे तब मिथ्यात्वमें जाकर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी उद्वेलना कर पुनः छब्बीस  
प्रकृतियोंका प्रवेशक हो जावे । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कार्यास्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व  
अधिक तीन पल्य है, इसलिए इनमें सब प्रवेशस्थानोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा  
है । जघन्य अन्तरका स्पष्टीकरण पूर्ववत् ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य  
अपर्याप्त जीवोंमें २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशस्थान इन पर्यायोंके रहते हुए दो बार नहीं  
प्राप्त होते, इसलिए इनमें उक्त प्रवेशस्थानोंके अन्तर कालका निषेध किया है ।

३२५. मनुष्यत्रिकमें २८, २६, २५, २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य  
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण  
है और सब स्थानोंके प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है ।  
२३ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । २० १९, १३, १२, १०, ९, ७, ६, ४, ३, २ और  
१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व  
प्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—ओघरूपणामें सब स्थानोंका जो जघन्य अन्तर घटित करके बतलाया  
है वह यहाँ पर भी उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र वहाँ २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका

० ३२६. देवेषु० २८ २६ २५ २४ जह० अंतोमु०, २७ २२ २१ जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक्० सव्वेसिमेकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवं भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । एववि सगट्टिदी देसूणा । अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति २८ २४ २२ २१ णत्थि अंतरं । एवं जाव० ।

❀ णाणाजीवेहि भंगविचयो ।

० ३२७. सुगममेदमहियारपरामरमवकं ।

❀ अट्टावीस-सत्तावीस-लुब्बीस-चदुवीस-एक्कवीसाए पयडोओ णियमा पविसंति ।

जघन्य अन्तर दो समय दो पर्यायोंकी अपेक्षा घटित होता है जो यहाँ सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इस प्रवेशस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त करनेका प्रकार यह है कि पहले उपशम सम्यक्त्व पूर्वक अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना करा कर २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक बनावे । फिर वेदकसम्यक्त्वपूर्वक ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कराके पुनः २१ प्रकृतियोंका प्रवेशक बनावे । अन्तर्मुहूर्तके भीतर यह क्रिया करानेसे इस प्रवेशस्थानका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त आ जाता है । सब प्रवेशस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते समय यह विशेषता ध्यानमे रखनी चाहिए कि भोगभूमिमे उपशमश्रेणिका प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए २० आदि जां प्रवेशस्थान उपशम-श्रेणिसं सम्बन्ध रखत है उनका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है जो अपनी कर्म-भूमिसम्बन्धी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे दो बार उपशमश्रेणि पर आराहण करानेसे प्राप्त होता है । शेष प्रवेशस्थानोका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है यह स्पष्ट ही है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है ।

§ ३२६. देवोमे २८, २६, २५ और २० प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, २७, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इक्कीस सागर है । इसी प्रकार भवनवासियोंस लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे २८, २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ** — यहाँ सामान्य देवोमे और नौ ग्रैवेयक तकके देवोमे सब प्रवेशस्थानोका यथायोग्य जघन्य अन्तर जिसप्रकार नरकमे घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेनेमे कोई बाधा नहीं है । मात्र सामान्य देवोमे उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त करते समय नौवें ग्रैवेयकका उत्कृष्ट आयु ही विवक्षित करनी चाहिए, क्योंकि गुणस्थान परिवर्तन वहाँ तक सम्भव है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

❀ नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयका अधिकार है ।

§ ३२७. अधिकारका परामर्श करनेवाला यह वाक्य सुगम है ।

❀ अट्टाईस, सत्ताईस, लुब्बीस, चौबीस और इक्कीस प्रकृतियाँ उदयावलिमें नियमसे प्रवेश करती हैं ।



§ ३२८. कुदो ? एाणाजीवावेक्खाए एदेसिं पवेसड्डाणाणं ध्रुवभावेण सव्वकाल-  
मवड्डाणादंसणादो ।

❀ सेसाणि द्वाणाणि भजियव्वाणि ।

§ ३२९. कुदो ? पणुवीसादिसेसपवेमड्डाणाणमध्रुवभावदंसणादो । एत्थ भंग-  
पमाणमेदं १४३४८९०७ । एवं मणुमतिए । आदेसेण गेरइय० २८ २७ २६ २४  
२१ णिय० अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । भंगा ९ । एवं पढमाए तिरिक्ख-  
पंचिदियतिरिक्ख० २-देवा सोहम्मादि जाव णवभेवज्जा त्ति । विदियादि सत्तमा त्ति  
२८ २७ २६ २४ णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । भंगा २७ । एवं जोणिणि०-  
भवण०-वाणवे०-जोदिसियाणं । पंचि०तिरि०अपज्ज० २८ २७ २६ णियमा अत्थि ।  
मणुसअपज्ज० सव्वपदा भयणिज्जा । भंगा २६ । अणुहिसादि सव्वद्वत्ति २८ २४ २१  
णियमा अत्थि । २२ पवे० भयणिज्जा । भंगा ३ । एवं जाव० ।

§ ३२८. क्योंकि नाना जीवोंकी अपेक्षा इन प्रवेशस्थानोंका ध्रुवरूपसं सर्वदा अवस्थान  
देखा जाता है ।

\* शेष प्रवेशस्थान भजनीय हैं ।

§ ३२९. क्योंकि पचास प्रकृतिक आदि शेष प्रवेशस्थान अध्रुवरूप देखे जाते हैं । यहाँ  
पर भंगोंका प्रमाण यह है—१४३४८९०७ । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आदेशसे  
नारकियोंमें २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय  
हैं । भंग ९ है । इसी प्रकार प्रथम पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विक  
सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रबैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । दृगरीसं  
लेकर सातवा तकके नारकियोंमें २८, २७, २६ और २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव नियमसे हैं ।  
शेष पद भजनीय हैं । भंग २७ है । इसीप्रकार यानिनी तिर्यञ्च, भवनवासी, व्यन्तर और  
ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके  
प्रवेशक जीव नियमसे हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद भजनीय हैं । भंग २६ है । अनुदिशसं  
लेकर सवार्थसिद्धि तकके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव नियमसे हैं ।  
२२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव भजनीय हैं । भंग तीन हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक  
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसं पांच प्रवेशस्थान ध्रुव है और पन्द्रह प्रवेशस्थान अध्रुव है । अत-  
एव एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा पन्द्रह बार तीन संख्या रखकर गुणा करने पर कुल  
भंग १४३४८९०७ आते हैं । इनमें एक ध्रुव भंग भी सम्मिलित है । यथा— $३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३$   
 $\times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ \times ३ = १४३४८९०७$  । इसी प्रकार आगे गति मार्गणाके  
भेदोंमें जहाँ जितने अध्रुव प्रवेशस्थान हैं उतनी बार तीन संख्या रखकर गुणा करनेसे उस उस  
मार्गणाके सब भंग प्राप्त कर लेने चाहिए । कोई विशेषता न होनेसे अलग अलग स्पष्टीकरण  
नहीं किया है । मात्र मनुष्य अपर्याप्तकोंमें २८, २७ और २६ ये तीन प्रवेशस्थान हैं जो अध्रुव  
हैं, इसलिए इनमें एक ध्रुव भंगका छोड़कर २६ भंग प्राप्त होते हैं ।

§ ३३०. संपहि एत्थुद्देसे सुगमत्तादो चुण्णिसुत्तेणापरूविदाणं भागाभाग-परिमाण-  
खेत्त-पोसणाणं परूवणमुच्चारणावलंबणेण कस्सामो । तं जहा—भागाभागानुगमेण दुविहो  
णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण ङ्खीमपवे० सव्वजी० केवडिओ भागो ? अणंता  
भागो । सेसमणंतभागो । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण गेरइय० २६ पवे० मव्वजी०  
केव० भागो ? असंखेज्जा भागा । सेसप० असंखे०भागो । एवं सव्वणेरइय०-सव्वपंचि-  
दियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव सहस्सर त्ति । मणुसपज्ज०-  
मणुसिणी० २८ पवे० के० ? संखेज्जा भागा । सेसपदपवे० संखेज्जदिभागो । आणदादि  
एवगेवज्जा त्ति २८ संखेज्जा भागा । २६ २४ २१ संखेज्जदिभागो । २७ २५ २२  
मव्वजी० असंखे०भागो । अणुद्दिसादि अवराजिदा त्ति २८ पवे० संखेज्जा भागा ।  
२४ २१ संखे०भागो । २२ अमंखे०भागो । एवं सव्वट्ठे । एवरि संखेज्जं कादव्वं ।  
एवं जाव० ।

३३१. परिमाणानु० दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण २६  
पवे० केत्ति० ? अणता । २८ २७ २४ २२ २१ पवे० केत्ति० ? असंखेज्जा ।  
सेससव्वपदा संखेज्जा । आदेसेण गेरइय० सव्वपदा केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं

§ ३३० अब इस स्थानपर सुगम होनेसे चूर्णसूत्रकारके द्वारा नहीं कहे गये भागा णग,  
परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनकी प्ररूपणा उन्चारणाका अवलम्बन लेकर करत ह । यथा—  
भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे ङ्खीस  
प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्त बहुभागप्रमाण है । शेष  
पदोंके प्रवेशक जीव अनन्तवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।  
आदेशसे नारकियोंमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असं-  
ख्यात बहुभाग प्रमाण है । शेष पदोंके प्रवेशक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है ? इसी प्रकार  
सब नारकी, सब पचेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवन-  
वासियोंसे लेकर सहस्सर कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें  
२६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव कितने है ? संख्यात बहुभागप्रमाण है । शेष पदोंके प्रवेशक जीव  
संख्यातवें भागप्रमाण है । आनत कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें २८ प्रकृतियोंके  
प्रवेशक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है । २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्या-  
तवें भागप्रमाण है । २७, २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण है । अनुद्दिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यात  
बहुभागप्रमाण है । २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है तथा  
२२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सर्वार्थभिद्धिमें जानना  
चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातवें भागोंके स्थानमें संख्यातवें भाग करना  
चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३३१. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
२६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव कितने हैं ? अनन्त है । २८, २७, २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके  
प्रवेशक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । शेष सब पदोंके प्रवेशक जीव संख्यात है । आदेशसे

सव्वणेरइय०-सव्वर्षचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा ति । तिरिक्खेसु सव्वपदानमोवं । मणुसेसु २८ २७ २६ केत्ति० ? असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुसिर्णा०-सव्वट्टदेवेसु सव्वपदा संखेज्जा । अणु-दिसादि अवरइदा ति २८ २४ २१ केत्ति० ? असंखेज्जा । २२ पवे० के० ? संखेज्जा । एवं जाव० ।

§ ३३२. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीसपवे० केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । सेमपदाणि लोग० असंखे०भागे । एवं तिरिक्खा०। सेसदीसु सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० ।

§ ३३३. पोमणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीस-पदे० मव्वलोगो । २८ २७ लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० देसणा मव्वलोगो वा । २५ पवे० लोग० असंखे०भागो अट्ट-वाग्हचोदस० । २४ २२ २१ लोग०

नारकियोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीवोंका परिमाण आंधके समान है । मनुष्योंमें २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष पदोंके प्रवेशक जीव संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीव संख्यात है । अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जाव कितने हैं ? असंख्यात है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३२२. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोक क्षेत्र है । शेष पदोंके प्रवेशक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—यद्यपि २६ प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्यग्दर्शनके होनेपर भी होता है, परन्तु सम्यग्दर्शन होनेके पूर्व सब जीव छ्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशक ही होते हैं और वे अनन्त हैं, इसलिए उनका क्षेत्र सर्व लोक कहा है । किन्तु शेष स्थानोंके प्रवेशक जीव सम्यग्दर्शन होनेके बाद यथा योग्य गुणस्थानके प्राप्त होनेपर ही होते हैं, अतः उनका सर्व लोक क्षेत्र नहीं बन सता, इसलिए उनका लोकका असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र कहा है । अपने सम्भव पदोंकी अपेक्षा यह क्षेत्र सामान्य तिर्यञ्चोंमें बन जाता है, इसलिए उनकी प्ररूपणा आंधके समान जाननेकी सूचना की है । तथा गतिमार्गणके शेष भेदोंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें सम्भव सब पदोंके प्रवेशकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

३३३. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमें सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । २८ और २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमें लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमें लोकके असंख्यातवें भाग

असंखे० भागो अट्टचोद्दस० । सेमपदे० लोग अमंखे० भागो ।

§ ३३४. आदेसेण एरइय० २८ २७ २६ पवे० लोग० असंखे० भागो छ चोद्दस० देसणा । २५ लोग० असंखे० भागो पंचचोद्दस० । सेसं खेत्तं । एवं विदियादि जाव सत्तमा त्ति । एवरि सगपोसणं । सत्तमाए २५ पवे० खेत्तं । पढमाए खेत्तं ।

और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

**विशेषार्थ**—ओघसे छब्बीस प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जब क्षेत्र ही सर्व लोक प्रमाण कहा है तब इनका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होना सुनिश्चित है । जां सम्यक्त्वसे च्युत होकर सम्यक्त्वकी उद्वेलना होनेके पूर्व तक मिथ्यात्वके साथ रहने है या अनन्तानुबन्धीके अवियोजक वेदक-सम्यग्दृष्टि होते है वे ही २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक होते है । तथा जो २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक होते है, तथा जो २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीव सम्यक्त्व प्रकृतिकी उद्वेलना कर लेते है वे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक होते है, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, विहारवत्त्व-स्थान आदिकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोमेसे आठ भागप्रमाण और मारणान्तिक समुद्घात तथा उपपादपदकी अपेक्षा अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होना सम्भव है । यही समझकर इन दो पदोके प्रवेशकोका उक्त स्पर्शन कहा है । यह सामान्य कथन है । वैसे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अविस्थाजक २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक सम्यग्दृष्टि जीवोका स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण नहीं बनता है इतना विशेष जानना चाहिए । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोमे सासादन जीवोकी मुख्यता है और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण बतलाया है, इस लिए यहाँ पर उक्त पदके प्रवेशकोका यह स्पर्शन कहा है । २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोमे सम्यग्दृष्टि जीवोकी मुख्यता है । और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । यही कारण है कि यहाँ पर उक्त पदोके प्रवेशको का यह स्पर्शन कहा है । शेष पदोके प्रवेशकोका सम्बन्ध उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणिसे है और ऐसे जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । यही कारण है कि इन पदोके प्रवेशकोका यह स्पर्शन कहा है ।

§ ३३४. आदेशसे नारकियो मे २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोके प्रवेशकोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन कहना चाहिए । सातवीं पृथिवीमे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पहली पृथिवीमें सब पदोकी अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

**विशेषार्थ**—सामान्यसे नारकियोमे २८, २७ और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जीवोके मारणान्तिक समुद्घात और उपपादके समय भी सम्भव है, इसलिए इनकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रमाण कहा है । छटवें नरक तकके सासादन जीव ही मरकर अन्य गतिमें बत्पन्न

§ ३३५. तिरिक्खेसु २८ २७ लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । २६ पवे० सव्वलोगो । २५ लोग० अमंखे०भागो सत्तचोद० दे० । २४ लो० असंखे०भागो व्वचोदस० देसुणा । सेसं लोग० अमंखे०भागो । एवं पंचि०तिरिक्खतिए । एव्वरि २६ लोग० अमंखे०भागो सव्वलोगो वा । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वपदा० लोग० असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । मणुसतिए २८ २७ २६ २५ पंचिदियतिरिक्खभंगो । सेमपद० खेतं ।

होते हैं और २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमें सासादन जीवोंकी मुख्यता है। यही कारण है कि इनकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे पाँच भागप्रमाण कहा है। यहाँ शेष पदोंके प्रवेशकोंमें सम्यग्दृष्टि जीवोंकी मुख्यता है, इसलिए इनके प्रवेशकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। दूसरीसे लेकर सानवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें अन्य सब कथन सामान्य नारकियोंके समान ही है। मात्र दो बातोंकी विशेषता है। प्रथम तो यह कि अतीत स्पर्शन कहते समय अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। दूसरे सानवीं पृथिवीके नारकी मिध्यात्वके साथ ही मरण करते हैं ऐसा एकान्त नियम है, इसलिए इनमें २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। तथा पहली पृथिवीके नारकियोंका स्पर्शन ही क्षेत्रके समान है, इसलिए इनमें सब पदोंके प्रवेशकोंके स्पर्शनको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

§ ३३५. तिर्यञ्चोमं २८ और २७ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके प्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यत्रिकमें २८, २७, २६ और २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। शेष पदोंके प्रवेशकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

**विशेषार्थ**—तिर्यचोंमें २८ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंमें २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले सादि मिध्या-दृष्टि और अनन्तानुबन्धीके अवियोजक वेदक सम्यग्दृष्टियोंकी मुख्यता है। २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर स्थित हुए मिध्यादृष्टि हैं और ऐसे तिर्यचोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन सर्व लोक प्रमाण सम्भव होनेसे उक्त पदोंके प्रवेशकोंका यह स्पर्शन कहा है। परन्तु अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवियोजक वेदक-सम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग प्रमाण ही सम्भूता चाहिए। यहाँ पर २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक कौन जीव हैं यह दिखलानेके लिए उक्त जीवोंका संग्रह किया है। २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक सामान्य तिर्यचोंका

§ ३३६. देवेषु २८ २७ २६ २५ लोगस्स असंखे०भागो अट्ट-एवचोदस० देखणा । २४ २२ २१ लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० देखणा । एवं सोहम्मि-साण० । एवं चेव सब्बदेवेषु । णवरि मगपोमणं पदविसेसो च जाणियव्वो । एवं जाव० ।

❀ एणाणाजीवेहि कालो अंतरं च अणुचिंतिऊण एदव्वं ।

§ ३३७. एदस्स दव्वट्टियणयमस्सिऊण पयट्टस्स सुत्तस्स पज्जवट्टियपरूवणा विस्थरुइसत्ताणुग्गहट्टमुच्चारणाबलेण कीरदे । तं जहा—कालाणु० दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण २८ २७ २६ २४ २१ सब्बद्धा । २५ जह० सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है । सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रमाण बतलाया है । यही कारण है कि यहाँ २४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका उक्त क्षेत्रप्रमाण स्पर्शन कहा है । इनमे शेष पदोके प्रवेशकोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे अपने सब पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है । मात्र इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोका जो स्पर्शन है वह स्पर्शन उनमे सम्भव पदोंके प्रवेशकोका बननेमे कोई प्रत्यवाय नहीं है, इसलिए उनमे सम्भव पदोके प्रवेशकोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जा स्पर्शन कहा है वह घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३३६. देवोंमें २८, २७, २६ और २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ और कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । २४, २२ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमे जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सब देवोंमे जानना चाहिए, किन्तु सर्वत्र अपना अपना स्पर्शन और पदविशेष जान कर कथन करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें २८, २७, २६ और २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव मारणान्तिक पद और उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनमे सामान्य देवोंका जो स्पर्शन सम्भव है वह बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा शेष पदोके प्रवेशकोमे सम्यग्दृष्टियोंकी मुख्यता है, इसलिए उन पदोके प्रवेशकोका स्पर्शन सम्यग्दृष्टियोंकी मुख्यतासे कहा है । सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें यह स्पर्शन बन जानेसे उसे सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । शेष देवोंमें पूर्वाक्त विशेषताके साथ अपना अपना स्पर्शन जानकर उसे घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे वह पृथक् पृथक् नहीं बतलाया है ।

❀ नाना जीवोंकी अपेक्षा काल और अन्तरका विचारकर घटितकर लेना चाहिए ।

§ ३३७. द्रव्यार्थिकनयका आश्रय कर प्रवृत्त हुए इस सूत्रकी पर्यायार्थिक प्ररूपणा बिस्तार रुचिवाले जीवोंका अनुग्रह करनेके लिए उच्चारणके बलसे करते हैं । यथा—कालानु-गमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका काल सर्वदा है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय

एयसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । २३ जहण्णु० अंतोमु० । २२ २० १९  
१३ १२ ९ ६ ३ २ १ जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । १० ७ ४ जह० एगस०,  
उक्क० संखेज्जा समया ।

§ ३३८. आदेसेण गोरइय० सव्वपदा० सव्वद्धा । णवरि २५ पवे० ओघं ।  
२२ जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं पढमाए । तिरिक्ख-पंचिं० तिरि० दुग०-  
देवा सोहम्मादि जाव णवगेवज्जा त्ति विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चैव । णवरि

है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । २३ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । २२, २०, १६, १३, १२, ९, ६, ३, २ और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । १०, ७, और ४ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—२८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा सर्वदा काल कहा है । कारण स्पष्ट है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सासादन सम्यग्दृष्टि हांते है और उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यही कारण है कि यहाँ पर इस पदके प्रदेशकोंका उक्त काल कहा है । २३ प्रकृतियोंके प्रवेशक जिन्होंने सम्यग्मथ्यात्वकी क्षणमा कर्ण ला है वे हांते हैं और ऐसे जीव लगातार अन्तर्मुहूर्त काल तक ही पाये जाते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वकी क्षणमा बाद सम्यग्मथ्यात्वकी क्षणमा अन्तर्मुहूर्त काल लगता है । अब यदि नाना जीव भी क्रमसे अत्रुटित परम्पराके साथ सम्यक्त्वकी क्षणमा करें तो वे संख्यात होनेसे उनके कालका जोड़ अन्तर्मुहूर्त ही होगा । यही कारण है कि यहापर २३ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । २२, २०, १६, १३, १२, ९, ६, ३, २ और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंकी पूर्वमें जो समुत्कीर्तना बतलाई है और उस आधारसे जो स्वामित्व कहा है उस देखते हुए इन पदोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वानेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इन पदोंके प्रवेशकोंका उक्त काल कहा है । तीन प्रकारके मानमें मायासंज्वलनका प्रवेश कराने पर चार, तीन प्रकारकी मायाके ऊपर मानसंज्वलनका प्रवेश कराने पर सात और तीन प्रकारके मानके ऊपर क्रोध संज्वलनका प्रवेश कराने पर १० प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । चूंकि इन प्रवेशस्थानोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अब यदि अत्रुटित सन्तानके साथ नाना जीव इन प्रवेशस्थानोंको प्राप्त हों तो उस सब कालका जोड़ संख्यात समय ही होगा और एक समय तक इन प्रवेशस्थानोंको प्राप्त कर दूसरे समयमें सन्तान भंग हो जाय तो इन प्रवेशस्थानोंका एक समय काल प्राप्त होगा । यही सब समझकर यहाँ पर इन पदोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है ।

§ ३३८. आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके प्रवेशकोंका काल सर्वदा है । किन्तु इतनी विशेषता है कि २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका काल ओषके समान है । तथा २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव और मौधर्मकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका

२२ जह० एयस०, उक० आवलि० असखे०भागो । २१ जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० असखे०भागो । एवं जोणियाणी०-भवण०-वाण०-जोदिसियाणां । पंचि०-तिरिक्खअपज्ज० सव्वपदा सव्वद्धा । मणुसतिए ओघं । णवरि २५ जह० एयसमओ, उक० अंतोमु० । मणुमअपज्ज० २८ २७ २६ जह० एयस०, उक० पलिदो० असखे०भागो । अणुहिसादि सव्वद्धा ति २८ २४ २१ सव्वद्धा । २२ जह० एगम०, उक० अंतोमु० । एवं जाव० ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलि के असंख्यातवें भागप्रमाण है । २१ प्रकृतियों के प्रवेशकोक जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । इर्मा प्रकार योनिनी तिर्यञ्च, भवनवामा, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें जानना चाहिण । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके प्रवेशकोका काल सर्वदा है । मनुष्यत्रिकमें आंधके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें २८, २७, और २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितरुके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका काल सर्वदा है । २० प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इर्मा प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिण ।

**विशेषार्थ** — अनन्तानुबन्धाका वियोजक जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव सासादनमें जाता है वह प्रथम भयमें २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है और यदि वह द्वितीयादि समयमें सासादनमें रहता है तो २५ प्रकृतियोंका प्रवेशक हा जाता है । तथा जो उपशमसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना किये विना सासादनमें जाता है वह जितने काल तक सासादनमें रहता है उतने काल तक पच्चास प्रकृतियोंका ही प्रवेशक होता है । एक समय तक रहता है तो उतने काल तक २५ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है और छह आवलिकाल तक रहता है तो उतने काल तक पच्चास प्रकृतियोंका प्रवेशक हाता है । अब यदि त्रुटित सन्तानकी अपेक्षा इस कालका विचार करते हैं तो वह कमसे कम एक समय प्राप्त होता है और अत्रुटित सन्तानकी अपेक्षा इसका विचार करते हैं तो वह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । यही कारण है कि यहाँ पर नारकियोंमें इस पदके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय है यह तो हमने पूर्वमें बतलाया ही है । किन्तु इस पदके प्रवेशकोका उत्कृष्ट काल उन जीवोंके होता है जो सम्यक्त्वकी क्षपणा कर रहे हैं । अन्यथा यह काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । यही कारण है कि सामान्य नारकियोंमें और प्रथम पृथिवीके नारकियोंमें २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा द्वितीयादि पृथिवियोंके नारकियोंमें इस पदके प्रवेशकोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तिर्यञ्चद्विक और सौधर्म कल्पसे लेकर नौ भ्रैवेयक तमके देवोंमें तो सामान्य नारकियोंके समान ही काल बन जाता है, क्योंकि इनमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंकी उत्पत्ति सम्भव है । किन्तु योनिनी तिर्यञ्च और भवनत्रिकमें दूसरी पृथिवीके समान काल बनता है, क्योंकि इनमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टियोंकी उत्पत्ति नहीं होती । उक्त सब मार्गणाओंमें कालका शेष कथन समान है । मनुष्यत्रिकमें संख्यात जीव ही पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक होते हैं । इसलिए इनमें इस पदके प्रवेशकोका जघन्य काल एक



§ ३३९. अंतराणु० दुविहो णि० --ओषेण आदेसेण य । ओषेण २८ २७ २६ २४ २१ णत्थि अंतरं । २५ जह० एगस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । २२ पवे० जह० एयसमओ, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । २३ १३ २ १ जह० एगस०, उक्क० छमासा । २० १९ १२ १० ९ ७ ६ ४ ३ जह० एगसमओ, उक्क० वासपुधत्तं ।

§ ३४०. आदेसेण एग्इय० २८ २७ २६ २४ २१ णत्थि अंतरं । २५ २२ ओघं । एवं पढमाए तिग्गिख-पंचि०तिरि० २-देवा सोहम्मादि एवगेवज्जा त्ति ।

समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । मनुष्य अपर्याप्त सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें सब पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह तत्प्रमाण कहा है । नौअनुदिश आदिमें जिस कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिको २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक हानेमें एक समय काल शेष है ऐसे एक जीव तथा नाना जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं और कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव लगातार भी उत्पन्न होते हैं जो अत्रुटित सन्नान रूपसे अन्तर्मुहूर्त काल तक बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक बने रहने हैं । यही कारण है कि इनमें इस पदके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३३९. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । २३, १३, २ और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । २०, १९, १२, १०, ९, ७, ६, ४ और ३ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—२८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव निरन्तर उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवियोजक उपशमसम्यग्दृष्टि जीव भी होते हैं और इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका वियोजक जो उपशम सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वमें जाता है वह प्रथम समयमें २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है, यतः ऐसे जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात होता है, इसलिए यहाँ पर इस पदके प्रवेशकोंका उक्त अन्तरकाल कहा है । दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, इसलिए यहाँ पर २३, १३, २ और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है, क्योंकि २३ प्रकृतिक प्रवेशस्थान दर्शनमोहनीयकी क्षणिकाके समय ही होता है और शेष तीन स्थान चारित्रमोहनीयकी क्षणिकाके समय नियमसे पाये जाते हैं । शेष प्रवेशस्थान उपशमश्रेणिमें होते हैं, इसलिए उसके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका ध्यानमें रख कर उन प्रवेशस्थानोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है ।

§ ३४०. आदेशसे नारकियोंमें २८, २७, २६, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं है । २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव

एवं चैव विद्यादि सत्तमा त्ति । एवरि २१ जह० एयस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । एवं जोणिणी-भरण०-वाण०-जोदिसि० । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्व-पदाणं णत्थि अंतरं णिरंतरं । मणुमतिए ओघं । णवरि मणुसिणी०जम्मि छम्मासं, तम्मि वासपुधत्तं । मणुसअपज्ज० सव्वपदवे० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति २८ २४ २१ णत्थि अंतरं । २२ जह० एयम०, उक्क० वासपुधत्तं । सव्वट्टे पलिदो० संखे०भागो । एवं जाव० ।

और सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । इसी प्रकार योनिनी तिर्यञ्च, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके प्रवेशकोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर है । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें जहां छह माह कहा है वहां वर्षपृथक्त्व कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तर काल नहीं है । २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है तथा सर्वार्थसिद्धिमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मागणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें २८, २, २६, २४ और इक्कीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिये उनके अन्तर का तका निषेध किया है । २५ और २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तरकाल जैसा आद्यप्ररूपणामें घटित करके बतलाया है वैसे यहाँ भी बन जाता है । पहली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च द्विक, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, इसलिये उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । द्वितीयादि पृथिवियोंके नारकी, योनिनी तिर्यञ्च और भवनत्रिकमें और सब प्ररूपणा तो सामान्य नारकियोंके समान बन जाती है । मात्र इनमें त्रायिक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिये अनन्तानुबन्धीचतुष्कके वियोजक उपशान्तस्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षा २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके अन्तरकालका कथन किया है जो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट २४ दिन-रात प्राप्त होता है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सम्भव सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान है यह भी स्पष्ट है । मनुष्यिनियोंमें क्षणका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिये इनमें २३, १३, ० और १ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका उक्त अन्तर बतलानेके लिए यह सूचना की है कि इनमें जहां छह माह अन्तर कहा है वहां वर्षपृथक्त्व जानना चाहिए । मनुष्यअपर्याप्त सान्तर मार्गणा है । इसका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिये यहाँ सब पदोंके प्रवेशकोंका उक्त अन्तर कहा है । नौ अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट है । साथ ही इनमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये इनमें २२ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है । मात्र सर्वार्थसिद्धिमें उत्कृष्ट अन्तर पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

६ ३४१. भावो सञ्चत्य ओदइओ भावो ।

❁ अप्पाबहुअं ।

६ ३४२. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❁ चउण्हं सत्तण्हं दसण्हं पयडीणं पवेसगा तुल्ला थोवा ।

§ ३४३. कुदो ? एयसमयसंचिदत्तादो । तं जहा—तिण्हं लोभाणमुवरि माया-संजलणे पवेसिदे एयसमयं चदुण्हं पवेसगो होइ । तिण्हं मायाणमुवरि माणसंजलणं पवेसिय एगसमयं सत्तएहं पवेसगो होइ । तिण्हं माणाणमुवरि कोहसंजलणं पवेसय-माणो एयसमयं चैव दसण्हं पवेसगो होदि त्ति एदेण कारणेण एदेसिं तिण्हं पि पवेसट्टाणाणं सामिणो जीवा अण्णोण्णेण सरिसा होदूण उवरि भणिस्समाणासेसपदे-सेहितो थोवा जादा ।

❁ तिण्हं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ ३४४. किं कारणं ? संचयकालबहुत्तादो । तं जहा—तिविहं लोभमोक्खि-ऊण द्विदसुहुमसांपराइयकाले पुणो अणियद्विअट्टाए संखे०भागे च मांचदो जीवरासी तिण्हं पवेसगो होइ । तेण पुत्विह्लादो एगसमयसंचयादो एसो अतोमुहुत्तसंचओ संखेज्जगुणो त्ति णत्थि संदेहो ।

❁ छुण्हं पवेसगा विसेसाहिया ।

§ ३४१. भाव सर्वत्र औदयिक है ।

\* अल्पवहुत्वका अधिकार है ।

§ ३४२. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

\* चार, सात और दस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव परस्पर तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं ।

§ ३४३. क्योंकि इनका एक समयमें संचय होता है । यथा—तीन लोभोके ऊपर माया-संज्वलनका प्रवेश होने पर एक समय तक चार प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । तीन प्रकारकी मायाके ऊपर मान संज्वलनका प्रवेश कर एक समय तक सात प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । तीन मानोंके ऊपर क्रोधसंज्वलनका प्रवेश करता हुआ एक समय तक ही दस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । इस कारणसे इन तीनों ही प्रवेशस्थानोंके स्वामी जीव परस्पर समान होते हुए आगे कहे जानेवाले समस्त प्रवेशस्थानोंके स्वामियोंकी अपेक्षा स्तोक हुए ।

\* उनसे तीन प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३४४ क्योंकि इनका सञ्चयकाल बहुत है । यथा—तीन लोभोंका अपकर्षण कर सूक्ष्मसांपरायके कालमें स्थित होकर पुनः अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण कालमें सञ्चित हुई जीव राशि तीन प्रकृतियोंकी प्रवेशक होती है । इसलिए पूर्वके प्रवेशस्थानोंमें एक समयमें हुए सञ्चयसे यह अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर हुआ सञ्चय संख्यातगुणा है इसमें सन्देह नहीं है ।

\* उनसे छह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं ।

§ ३४५. केण कारणेण ? विसेसाहियकालभंतरसंचिदत्तादो । एदमसिद्धं, ओदरमाणयस्स लोभवेदगकालादो तस्सेव मायावेदगकालो विसेसाहियो ति परमाणम-चक्खूणं सुप्पसिद्धत्तादो ।

❀ एवएहं पवेसगा विसेसाहिया ।

§ ६४६. कुदो ? मायावेदगकालादो विसेसाहियमाणवेदगकालम्मि संचिदजीव-रासिस्स गहणादो ।

❀ बारसएहं पवेसगा विसेसाहिया ।

§ ३४७. किं कारणं ? पुव्विल्लसंचयकालादो विसेसाहियकोहवेदगकालम्मि अवगदवेदपडिवद्धम्मि संचिदजीवरासिस्स गहणादो ।

❀ एगूणवीसाए पवेसगा विसेसाहिया ।

§ ३४८. किं कारणं ? पुरिसवेद-छण्णोकसाए ओकड्डिय पुणो जाव इत्थिवेदं ण ओकड्डिदि ताव एदम्मि काले पुव्विल्लसंचयकालादो विसेसाहियम्मि संचिदजीवरासिस्स विवक्खियत्तादो ।

❀ वीसाए पवेसगा विसेसाहिया ।

§ ३४९. कुदो ? इत्थिवेदमोक्कड्डिय पुणो जाव णनुंसयवेदं ण ओकड्डिदि ताव एदम्मि काले पुव्विल्लसंचयकालादो विसेसाहियम्मि संचिदजीवाणमिह गहणादो ।

§ ३४५. क्योंकि, ये विशेष अधिक कालके भीतर सञ्चित हुए हैं। यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उत्तरनेवाले जावके लोभवेदक कालसे उसीका मायावेदक काल विशेष अधिक है यह बात परमाणमरूप चक्षुवालोंके लिए सुप्रसिद्ध हैं।

\* उनसे नौ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं।

§ ३४६. क्योंकि यहाँ पर मायावेदक कालसे विशेष अधिक मानवेदक कालमें सञ्चित हुई ज वराशिका ग्रहण किया है।

\* उनसे बारह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं।

§ ३४७. क्योंकि पूर्वके सञ्चयकालसे विशेष अधिक अपगतवेदसे सम्बन्धित क्रोधवेदक कालमें सञ्चित हुई जीवराशिका ग्रहण किया है।

\* उनसे उन्नीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं।

§ ३४८. क्योंकि पुरुषवेद और छह नोकषायोंका अपकर्षण कर पुनः जब तक स्त्रीवेदका अपकर्षण नहीं करता तब तक, जो कि पूर्वके सञ्चय कालसे विशेष अधिक है ऐसे इस कालमें सञ्चित हुई जीवराशि यहाँ पर विवक्षित है।

\* उनसे बीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं।

§ ३४९. क्योंकि स्त्रीवेदका अपकर्षण कर जब तक नपुंसकवेदका अपकर्षण नहीं करता है तब तक पूर्वके सञ्चयकालसे विशेष अधिक इस सञ्चयकालमें सञ्चित हुए जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है।

❀ दोएहं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ ३५०. केण कारणेण ? पुरिसवेदोदएण खवगसेटिमारूढस्स अंतरकरणादो समयूणावलिआए गदाए तदो प्पहुडि जाव पुरिसवेदपढमट्टिदिचरिममयो त्ति ताव एदस्मि कालविसेसे पयदसंचयावत्तंवाणादो । जइ वि उवसमसेठीए चैव पयदसंचयो अवत्तंविज्जदे तो वि पुव्विज्जादो एदस्स संचयकालमाहप्पेण संखेज्जगुणत्तं ण विरुज्जभदे ।

❀ एकस्से पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ ३५१. कुदो ? पुव्विल्लादो एदस्स संचयकालमाहप्पदंमणादो । तं जहा— दोएहं पवेसगकालो णाम पुरिसवेदपढमट्टिदीए णवुंमवेद-इत्थिवेद-इत्थिणाकमायकखव-णद्धामेत्तो । एकस्से पवेसगकालो पुण पुरिसवेदपढमट्टिदीए गालिदाए तत्तो प्पहुडि अस्सकएणकरणकालो किट्टीकरणकालो कोधतिण्णिसंगहकिट्टिवेदगकाला माणवेदग-कालो मायावेदगकालो लोभवेदकालो त्ति एदासिं छएहमद्वाणं समुदायमेत्तो । एमो च पुव्विल्लसंचयकालादो किंचूणदुगुणमेत्तो । तदो किंचूणदुगुणकालब्भंनरमंचिदत्तादो एमो रासी पुव्विज्जादो संखेज्जगुणो त्ति मिद्धं । इत्थिणवुंमयवेदाणमण्णदोदएण खवगसेटिमारूढस्स मादिरेयतिगुणमेत्तो पयदसंचयकालो किण्णावत्तंविज्जदे ? पुरिस-वेदोदयं मोत्तएण सेमवेदोदएण चटमाण जीवाणं बहुत्तासंभवादो ।

\* उनमे दो प्रकृतियोंके प्रवेशक जाव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३५०. क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर आरूढ हुए जीवके अन्तरकरणसे लेकर एक समय कम एक अवलिकाल जानेपर वहांसे लेकर पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समके प्राप्त होने तक इस कालके भीतर हुए प्रकृत सञ्चयका अवलम्बन लिया गया है । यद्यपि उपशमश्रेणाका अपेक्षा ही प्रकृत सञ्चयका अवलम्बन लिया जा सकता है तो भी पूर्वसे यह सञ्चयकाल बड़ा है, इसलिए इसमें संख्यातगुणी जीवराशिके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

\* उनसे एक प्रकृतिके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

३५१. कथेक पूर्वके सञ्चयकालसे यह सञ्चयकाल बड़ा देख जाता है । यथा— दो प्रकृतियोंका प्रवेशकाल पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिके रहते हुए नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और छह नोकपायोका क्षपणकालमात्र है । परन्तु एक प्रकृतिका प्रवेशकाल पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिके गल जानेपर वहांसे लेकर अश्वकर्णकरणकाल, कृष्टिकरणकाल, क्रोधकी तीन संग्रहकृष्टिवेदक-काल, मानवेदककाल, मायावेदककाल, और लोभवेदककाल इसप्रकार इन छह कालोंके समुदाय-प्रमाण है । और यह पहलेके सञ्चयकालसे कुछ कम दूना है, इसलिए कुछ कम दूने कालके भीतर सञ्चित होनेके कारण यह राशि पूर्वकी राशिसे संख्यातगुणी है यह सिद्ध हुआ ।

शंका—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदमेंसे किसी एक वेदके उदयसे क्षपकश्रेणी पर चढ़े हुएकी अपेक्षा साधिक निगुणे प्रकृत सञ्चयकालका अवलम्बन क्यों नहीं लिया जाता ?

ममाधान—नहीं, क्योंकि पुरुषवेदको छोड़कर शेष वेदोंके उदयसे चढ़े हुए जीवोंका बहुत होना असम्भव है ।

❀ तेरसएहं पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ ३५२. किं कारणं ? अट्टकसाएसु खविदेसु तत्तो प्पहुडि जाव अंतरकरणं समाणिय समयूणावलयमेत्तो कालो गच्छदि ताव एदम्मि काले पुव्विल्लकालादो संखेज्जगुणे तेरमपवेमगाणं संचयावलंबणादो ।

❀ तेवीसाए पवेसगा संखेज्जगुणा ।

§ ३५३. कुदो ? दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिदेण मिच्छत्ते खविदे तत्तो प्पहुडि जाव सम्मामिच्छत्ताक्खवणाए चरिमसमयो त्ति ताव एदम्मि काले पुव्विल्लकालादो संखेज्जगुणे मंचिदजीवाणं गहणादो ।

❀ बावीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ ३५४. कुदो ? पल्लिदोवमस्मासंखेज्जभागपमाणत्तादो ।

❀ पणुवीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ ३५५. कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजायणाविरहिदाणमुवसमसम्माइट्ठीणं सामण-सम्माइट्ठीणं च अंतोमुहुत्तसंचिदाणमिह गहणादो ।

❀ सत्तावीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ ३५६. कुदो ? मम्मत्ते उव्वेल्लिदे पुणो पल्लिदोवमसंखेज्जभागपमाणमम्मामि-च्छत्तुव्वेल्लणाकालम्भंतरे पयदसंचयावलंबणादो ।

❀ एकवीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

\* उनसे तेरह प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३५२. क्योंकि आठ कषायोंका क्षय करने पर वहाँसे लेकर अन्तरकरणको समाप्त कर एक समय कम आवलिमात्र काल जाने तक पहलेके कालसे संख्यातगुणे इस कालके भीतर तेरह प्रकृतियोंके प्रवेशकोंके सञ्चयका अवलम्बन लिया है ।

\* उनसे तेईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३५३. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुए जीवके द्वारा मिथ्यात्वका क्षय कर देने पर वहाँसे लेकर सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षपणाके अन्तिम समय तक पहलेके कालसे संख्यातगुणे इस कालके भीतर सञ्चित हुए जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है ।

\* उनसे बाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५४. क्योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

\* उनसे पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५५. क्योंकि अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर सञ्चित हुए अनगनानुबन्धी चतुष्ककी विसंयो-जनासे रहित उपशमसम्यग्दृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोंका यहाँ पर ग्रहण किया है :

\* उनसे सत्ताईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५६. क्योंकि सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर लेने पर पुनः पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वके उद्वेलनाकालके भीतर हुए प्रकृत सञ्चयका अवलम्बन लिया गया है ।

§ ३५७. किं कारणं ? सोहम्मीसाणोसु वेसागरोवममेत्तकालब्भंतरसंचिदाणं खइयसम्माइट्ठिजीवाणमिह पहाणभावेण विवक्खियत्तादो ।

❀ चउवीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ ३५८. कुदो ? चउवीससंतकम्मियवेदयसम्माइट्ठिरासिस्स गहणादो ।

❀ अट्ठावीसाए पवेसगा असंखेज्जगुणा ।

§ ३५९. किं कारणं ? अट्ठावीससंतकम्मियवेदगसम्माइट्ठिरासिस्स पहाणभावेण विवक्खियत्तादो ।

❀ छुव्वीसाए पवेसगा अणंतगुणा ।

§ ३६०. कुदो ? किंचूणसव्वजीवरासिपमाणत्तादो ।

एवमोघेणप्पाबहुअं समत्तं ।

§ ३६१. संपहि आदेसपरूवणट्ठमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—आदेसेण एरइय० सव्वत्थोवा २२ पवे० । २५ पवेस० असंखेज्जगुणा । २७ पवे० असंखेज्जगुणा । २१ पवे० असंखेज्जगुणा । २४ पवे० असंखेज्जगुणा । २८ पवे० असंखेज्जगुणा । २६ पवे० अमंखेज्जगुणा । एवं पढमाए पंचिदियतिरिक्ख०२-देवा सोहम्मादि सहस्सारं च्चि ।

\* उनसे इक्कीम प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५७. क्योंकि सौधर्म और ऐशानकल्पमें दो सागरप्रमाण कालके भीतर सञ्चित हुए त्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंकी यहां पर प्रधानभावसे विवक्षा की गई है ।

\* उनसे चौबीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५८. क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाले वेदकसम्यग्दृष्टियोंका यहां पर ग्रहण किया गया है ।

\* उनसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ३५९. क्योंकि अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाली वेदकसम्यग्दृष्टि जीवराशि प्रधान-भावसे यहां पर विवक्षित है ।

\* उनसे छव्वीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ३६०. क्योंकि ये कुछ कम सब जीव राशिप्रमाण हैं ,

इस प्रकार ओघसे अल्पबहुत्व समाप्त हुआ

§ ३६१. अब आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं । यथा—आदेशसे नारकियोंमें २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीके नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्दृष्टिक, सामान्म दे । और सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्सारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३६२. विद्यादि सत्ता सत्त सव्वत्थोवा २२ पवे० । २१ पवे० असंखेज्जगुणा । २५ पवे० असंखेज्जगुणा । २७ पवे० असंखेज्जगुणा । २४ पवे० असंखेज्जगुणा । २८ पवे० असंखेज्जगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा । तिरिक्ख्वाणं णारयभंगो । णवरि २६ पवे० अणंतगुणा । जोणिणी० विदियपुट्टवीभंगो । एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि० । पंचि० तिरिक्खअणज्ज०-मणुणअणज्ज० सव्वत्थोवा २७ पवे० । २८ पवे० असंखेज्जगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा ।

§ ३६३. मणुस्सेसु सव्वत्थोवा ४ ७ १० पवेसगा सरिसा । ३ पवेसगा संखेज्जगुणा । ६ पवेसगा विसेसाहिया । ९ पवे० विसेसा० । १२ पवे० विसेसा० । १९ पवे० विसे० । २० पवे० विसेसा० । २ पवे० संखेज्जगुणा । १ पवे० संखेज्जगुणा । १३ पवे० संखेज्जगुणा । २३ पवे० संखेज्जगुणा । २२ पवे० संखेज्जगुणा । २५ पवे० संखेज्जगुणा । २१ पवे० संखेज्जगुणा । २४ पवे० संखेज्जगुणा । २७ पवे० असंखेज्जगुणा । २८ पवे० असंखेज्जगुणा । २६ पवे० असंखेज्जगुणा । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । णवरि संखेज्जगुणं कादच्चं ।

§ ३६२. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे पच्चीस प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। तिर्यञ्चोंमें सामान्य नारकियोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव अनन्तगुणों हैं। योनिनी तिर्यञ्चोंमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं।

§ ३६३ मनुष्योंमें ४, ५ और १० प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव परस्पर समान हो कर सबसे स्तोक हैं। उनसे ३ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे ६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे ६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे १२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे १६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे २० प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है। उनसे २ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे १ प्रकृतिके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे १३ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २३ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणों हैं। उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणों हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणोंके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए।



§ ३६४. आणदादि जाव णवगेवज्जा त्ति सव्वत्थोवा २२ पवे० । २५ पवे० असंखेज्जगुणा । २७ पवेसगा असंखेज्जगुणा । २६ पवेसगा असंखेज्जगुणा । २१ पवेसगा असंखेज्जगुणा । २४ पवेसगा संखेज्जगुणा<sup>१</sup> । २८ पवे० संखेज्जगुणा<sup>२</sup> । अणुहिमादि मव्वट्ठा त्ति मव्वत्थोवा २२ पवे० । २१ पवे० असंखेज्जगुणा । २४ पवे० संखेज्जगुणा<sup>३</sup> । २८ पवे० संखेज्जगुणा<sup>४</sup> । एव्वारि मव्वट्ठे संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं जाव० ।

एवमप्पावहुए समत्ते पयडिट्ठाणपवेमम्म मत्तारम अणियोगद्वाराणि समत्ताणि

§ ३६५. संपहि एत्थेव भुजगादिपरूवणट्टमुवग्गिं सुत्तकलावमाह—

❀ भुजगारो कायव्वो ।

❀ पदणिकखेवो कायव्वो ।

❀ वड्डी वि कायव्वो ।

§ ३६६. तं जहा— भुजगारपवेसगे त्ति तत्थ इमाणि तेरम अणियोगद्वाराणि ममुक्कित्ताणा जाव अप्पावहुए त्ति । ममुक्कित्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदे-  
सेण य । ओघेण अत्थि भुज०—अप्प०—अवट्ठि०—अवत्त०पवेसगा । एवं मणुम-

§ ३६४ आन्त कल्पस लेकर नोर्ध्वेयक तकके देवोमे २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्रक । उनसे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे २७ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे २१ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे है । उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे २२ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्रक है । उनसे २५ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव असंख्यातगुण है । उनसे २४ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे है । उनसे २८ प्रकृतियोंके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे है । किन्तु इतना विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमे असंख्य तगुणोंके स्थानमे संख्यातगुणा करना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गमा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर प्रकृतिस्थान

प्रवेशकके सत्रह अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

§ ३५ अब यहाँ पर भुजगारादिका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकलापका कहते हैं—

❀ भुजगार करना चाहिए ।

❀ पदनिक्षेप करना चाहिए ।

❀ वृद्धि करनी चाहिए ।

§ ३६६. यथा—भुजगारप्रवेशकका अधिकार है । उसमे समुत्कीर्तनासे लेकर अल्प-  
बहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—  
आंध और आदेश । आंधसे भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यप्रवेशक जीव है ।

१. ता० प्रती असंखेज्जगुणा इति पाठ । २. ता प्रती असंखेज्जगुणा इति पाठ ।

३. ता० प्रती असंखेज्जगुणा इति पाठ । ४. ता० प्रती असंखेज्जगुणा इति पाठ ।

तिए । आदेसेण एोरइय० अत्थि भुज०--अप्प०--अवट्टि०पवे० । एवं सव्वएोरइय० तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खतिय३-सव्वदेवा त्ति । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० अत्थि अप्प०-अवट्टि०पवे० । एवं जाव० ।

३६७. सामित्ताणु० दुविहो णि०-ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्प०--अवट्टि०पवेसगो को होदि ? अण्ण० सम्मादि० मिच्छाइट्ठी वा । अवत्त०-पवेसगो को होदि ? अण्ण० मणुसो वा मणुमिणी वा उवमामगो परिवदमाणगो देवो वा पढमसमयपवेसगो । एवं मणुसतिए । णवारे पढमसमयदेवो त्ति ए भाणियव्वं । एवं मव्वएोरइय०-सव्वतिरिक्ख-मव्वदेवा त्ति । णवरि अवत्त० णत्थि । एवरि पंचि०-तिरिक्खअपज्ज०--मणुमअपज्ज० अप्प०-अवट्टि० कस्म ? अण्णद० । अणुद्दिसादि सव्वट्ठा त्ति भुज०--अप्प०--अवट्टि० कस्म ? अण्णद० । एवं जाव०

३६८. कालाणु० दुविहो णि० ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि समया । त कथं ? अण्णताणुबंधी विसजोएदूण ण्णदउवसमसम्माइट्ठी उवसमसम्मत्तट्ठाए वे समया अत्थि त्ति मामणभावं पडिवण्णो तस्स पढमसमए वावीम-

इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आदर्शस नारकियामे भुजगार, अल्पतर और अवस्थित प्रवेशक जीव है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-त्रिक और सब देवोमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोमे अल्पतर और अवस्थितप्रवेशक जीव ह । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३६७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदर्श । ओघसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थित प्रवेशक कौन होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि होता है । अवत्तव्य प्रवेशक कौन होता है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला मनुष्य या मनुष्यनी अथवा प्रथम समयमे प्रवेश करनेवाला देव होता है । मनुष्यत्रिकमे इसीप्रकार जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि 'प्रथम समयमे प्रवेश करनेवाला देव' ऐसा नहीं कहना चाहिए । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च और सब देवोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे अवत्तव्यप्रवेशक नहीं ह । तथा इतनी और विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे अल्पतर और अवस्थित पद किमके होता है ? अन्यतरके होता है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद किसके होते है ? अन्यतरके होते है ? इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदर्श । ओघसे भुजगार प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है ।

शंका—वह कैसे ?

ममाधान—अनन्तानुबन्धीचतुष्कर्की विसयोजना करनेवाला उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमे दो समय शेष रहने पर मासादनभावको प्राप्त हुआ । उसके प्रथम समयमे बाईस प्रकृतिकस्थान होकर एक भुजगार समय प्राप्त हुआ । उसी जीवके दूसरे

दृष्टाणं होदूण एगो भुजगारसमयो, तस्सेव विदियममए पणुवीसपवेसट्टाणुप्पत्तीए विदियो भुजगारसमयो, से काले मिच्छत्तं पडिवणस्स छ्वीसपवेसट्टाणसभवेण तदियो, पुणो तदणंतरममए अट्टावीसपवेसट्टाणपडिवट्ठो चउत्थो ममयो त्ति एवं भुजगारस्स चत्तारि समया भवन्ति । अप्प०--अवत्त० जहणुक्क० एयम० । अथवा अप्प० उक्क० वे ममया । तं कथं ? मम्मत्तमुव्वेत्तेमाणो वेदगपाओग्गकालं बोलाविय सम्मत्ताहिमुहो होदूणंतरं करेमाणो अंतरदुचरिमफालीए मह सम्मत्तुव्वेत्तणाचरिमफालिं णिवादिय से काले अंतरकरणं ममाणिय कमेण मम्मत्तममयूणावलियमेत्तट्ठिदीओ गालिय एयममय . प्पदरपवेसगो जादो, तम्मि समए सत्तावीसपवेसुत्तंभादो । पुणो से काले सम्मामिच्छत्तपढमट्ठिदिं णिल्लेविय छ्वीसपवेसगो जादो । एसो विदियो अप्पदरसमयो । एवं वे ममया । अवट्ठि० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो मादिओ सपज्जवसिदो तस्म जह० एयसमओ, उक्क० उवड्ढपोग्गलपरियट्ठं ।

समयमें पृचीम प्रकृतिक प्रवेशस्थानकी उत्पत्ति होनेसे दूसरा भुजगार समय हुआ । पुनः तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए उसके छ्वीस प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्भव होनेसे तीसरा भुजगार समय हुआ । पुनः तदनन्तर समयमें अट्टाईस प्रकृतिक प्रवेशस्थान सम्बन्ध रखनेवाला चौथा भुजगारसमय हुआ । इस प्रकार भुजगारके चार समय होते हैं ।

अल्पतर और अवक्तव्य प्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अथवा अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट काल दो समय है ।

**शंका** — वह कैसे ?

**ममाधान**—सम्यक्त्वकी उद्वेलना करनेवाला जीव वेदक प्रायोग्य कालको बिताकर और सम्यक्त्वके अभिमुख्य होकर अन्तर करता हुआ अन्तरकी द्विचरम फालिके साथ सम्यक्त्वकी उद्वेलना सम्बन्धी अन्तिम फालिका पातकर तथा तदनन्तर समयमें अन्तरकरणको पूराकर क्रमसे सम्यक्त्वकी एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियोंको गला । एक समय तक अल्पतर प्रवेशक हुआ, क्योंकि उस समय सत्ताईस प्रकृतियोंका प्रवेश देखा जाता है । पुनः तदनन्तर समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिका अभाव कर छ्वीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । यह दूसरा अल्पतर समय है । इसतरह अल्पतर प्रवेशकके दो समय प्राप्त हुए ।

अवस्थित प्रवेशकके तीन भंग हैं । उनमें जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—यहां ओघसे भुजगार और अल्पतर प्रवेशकके उत्कृष्ट कालका निर्णय टीकाकारने स्वयं किया है । इनके जघन्य कालका विचार सुगम है । उदाहरणार्थ १६ प्रकृतियोंका प्रवेशक जो उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला जीव जब स्त्रीवेदका अपकर्षण कर २० प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है तक उसके भुजगार प्रवेशकका जघन्य काल एक समय देखा जाता है । तथा अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर दूसरे समयमें सत्ताईस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है उसके अल्पतर प्रवेशकका जघन्य काल एक समय देखा जाना है । अवक्तव्यपद एक समय तक ही होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । तथा जो उपशम सम्यक्त्वके सन्मुख हो सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके दो समय पूर्व सम्यक्त्वकी उद्वेलना करके प्रथम समयमें २८से २७

§ ३६९. आदेसेण गोरइय० भुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि समयया। अप्प० जहण्णुक० एयसमओ, अथवा उक्क० वे समयया। अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि। एवं सत्तसु पुढवीसु। एवरि सगड्ढिदी। तिरिक्खेसु भुज०-अप्प० पारयभंगो। अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पोग्गल-परियट्ठा। एवं पंचिदियतिरिक्खतिए। णवरि अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० पुव्वकोडिपुवत्तेणभहियाणि। एवं मणुमतिए। णवरि अवत्त० ओवं। पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणु०अपज्ज० अप्प० जहण्णुक० एयसमओ। अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु०। देवाणं पारयभंगो। एवं भवणादि जाव एवगेवज्जा त्ति। एवरि सगड्ढिदी। अणुदिसादि मव्वट्ठा त्ति भुज० जह० एयस०, उक्क० वे समयया। अप्प० जहण्णुक० एयस०। अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० सगड्ढिदी। एवं जाव०।

प्रकृतियोंका प्रवेशक होकर दूसरे समयमें अवस्थित पदका प्रवेशक होता है उसके अवस्थित पदके प्रवेशकका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और जो जीव अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल-प्रथम समयमें उपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर क्रमसे अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर और अति स्वल्प उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यगिमिथ्यात्वकी उद्वेलना कर २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल तक इसी पदका प्रवेशक बना रहता है। पुनः संसारमें रहनेका अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर उपशमसम्यक्त्वका प्राप्त कर जो इस पदका विघटन करता है उसके अन्तर्मुहूर्त अधिक पल्यका असंख्यातवाँ भागप्रमाण काल कम उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अवस्थित पदका उत्कृष्ट काल देखा जाता है।

§ ३६९. आदेशसे नारकियोंमें भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अल्पतरप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अथवा उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित प्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए। किन्तु अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तिर्यञ्चोंमें भुजगार और अल्पतर प्रवेशकका भंग नारकियोंके समान है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। इसी प्रकार मनुष्योंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यप्रवेशकका काल ओषके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अल्पतरप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिमें भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अल्पतरप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

३७० अंतगणु० द्विविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भुज०-अप्प० जह० एयम० अंतोमु०, अथवा अप्पदग्ग्म वि एग्गममओ । एसो अत्थो उवरि वि जहामंभवं जोजेयव्वो । उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टा । अवड्डि० जह० एग्गम०, उक्क० अंतोमु०, अवत्त० जह० अतोमु०, उक्क० उवड्डुपो०परियट्टं ।

**विशेषार्थ**—अन्य सब गनियोंमें जहां जितना उसका वायस्थिति या भवस्थितिकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल है उतने काल तक उसे २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक बनाये रखनेसे उस गतिमें अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल आ जाता है । मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे २८, २९, और २६ इनमेसे किसी भी पदकी अपेक्षा अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त किया जा सकता है । कारण स्पष्ट है । तथा नौ अनुदिशासे लेकर सर्वाथमिद्धि तकके देवोंमे २८, २४ और २१ प्रकृतियोंके प्रवेशककी अपेक्षा अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल प्राप्त करना चाहिए । इन पदोंकी अपेक्षा अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल सौधर्मादिकल्पोंमें भी प्राप्त किया जा सकता है इतना यहाँ विशेष समझना चाहिए । शेष कथन सुगम है । किन्तु इस सम्बन्धमें कुछ विशेष वक्तव्य है । जो इस प्रकार है—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे जो जीव अपनी पर्यायक उपान्त्य समयमें उद्वलना कर २७ या २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हाता है मात्र उमीके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय कहना चाहिए । इमी प्रकार जो अनुदिशादिकका उपशम सम्यग्दृष्टि देव वेदक सम्यक्त्वका प्राप्त हा प्रथम समयमे २१से २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है और दूसरे समयमे २४ प्रवेशस्थानको प्राप्त करता है उसके भुजगारप्रवेशकका उत्कृष्ट काल दो समय कहना चाहिए । इनमें अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय स्पष्ट ही है जो उपशमश्रेणिसे मर कर देव होने पर प्राप्त होता है ।

३७० अन्तगणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है । अथवा अल्पतर-प्रवेशकका भी जघन्य अन्तर एक समय है । इस अर्थकी आगे भी यथासम्भव योजना करनी चाहिए । तथा उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यप्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—अनन्तानुबन्धीका वियोजक कोई उपशम सम्यग्दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वके कालमें तीन समय शेष रहने पर सासादनभावको प्राप्त हो २२ प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । तथा दूसरे समयमें शेष अनन्तानुबन्धीत्रिकके उदयावलिमें प्रवेश करने पर २५ प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ । इसके बाद वह तीसरे समयमें पच्चीस प्रकृतियोंका ही प्रवेशक बना रहा और तदनंतर समयमें मिथ्यात्वमें जाकर वह २६ प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । इस प्रकार भुजगार प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हुआ । कोई छत्तीस प्रकृतियोंका प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जाव उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हुआ, उसके बाद वह अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया इस प्रकार अल्पतर प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हुआ । अल्पतर प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपशमश्रेणि और क्षणामे भी प्राप्त किया जा सकता है सो जान कर घटित कर लेना चाहिए । आघ प्ररूपणामे यद्यपि इसकी मुख्यता है । फिर भी चारों

§ ३७१. आदेसेण गोरइय० भुज०-अप्प० जह० एयस० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि । अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि समया । एवं सव्वगोरइय० । णवरि सगट्ठिदी देखणा । तिरिक्खेसु भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० णारयभंगो । एवं पंचि०तिरिक्खतिए । णवरि सगट्ठिदी देखणा । पंचि०तिरि०-अपज्ज०-मणुसअपज्ज० अप्प० एत्थि अंतरं । अवट्ठि० जहणु० एयम० । मणुसतिए पंचि०तिरिक्खभंगो । णवरि अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोट्टिपुध० ।

गतियोंमें अल्पतर पदके जघन्य अन्तरका प्रकार बतलानेके लिए हमने प्रथम उदाहरण लिपिबद्ध किया है। अथवा अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय जो टीकामें कहा है वह जो उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके दो समय पूर्व सम्यक्त्वकी उद्वेलना कर लेता है उसकी अपेक्षा प्राप्त होता है। इन दोनों पदोंके प्रवेशकोंका उत्कृष्ट अन्तर उपाधु पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। जो अवस्थितप्रवेशक जीव एक समय तक भुजगार या अल्पतरप्रवेशक हो एक समयके अन्तरसे पुनः अवस्थितप्रवेशक हो जाता है उसके अर्वास्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है। तथा जो एक प्रकृतिक प्रवेशक सर्वोपशामना करके अन्तर्मुहूर्त तक अप्रवेशक बना रहता है। पुनः उपशमश्रेणिसे उतरने हुए प्रथम समयमें अवक्तव्यप्रवेशक हो और दूसरे समयमें भुजगार प्रवेशक हो अवस्थितप्रवेशक हो जाता है उसके अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ानेसे अवक्तव्य प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है और उपाधुपुद्गलपरिवर्तनके अन्तरसे चढ़ाने पर उत्कृष्ट अन्तर उपाधुपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है। यह ओघकी अपेक्षा सब पदोंके अन्तरकालका खुलासा है। आदेशसे अपनी अपनी विशेषताको समझ कर इसे घटित करना चाहिए। जो विशेष वक्तव्य होगा मात्र उतनेका निर्देश करेंगे।

§ ३७१. आदेशसे नारकियोंमें भुजगार अल्पतरप्रवेशकोंका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। निर्यञ्चोंमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका अन्तरकाल ओघके समान है। अर्वास्थित प्रवेशकका अन्तरकाल नारकियोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य रूपर्याप्तकोंमें अल्पतरप्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्यप्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है।

विशेषार्थ—नारकियोंमें अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बतला आये हैं, इसलिए यहाँ भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर बन जाता है। तथा इनमें पहले भुजगारप्रवेशकका उत्कृष्ट काल चार समय बतला आये हैं, इसलिए

३७२. देवेसु भुज०-अप्प० जह० एयम० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूगाणि । अवट्ठि० जह० एयम०, उक्क० चत्ताग्गि ममया । एवं भवणादि जाव णव-गेवज्जा ति । णवरि सगट्ठिदि देसूणा । अणुद्दिसादि सव्वट्ठा ति भुज० जहण्णु० अंतोमु० । अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० वे समया । एवं जाव० ।

यहाँ अवस्थितप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर चार समय बन जाता है । सब नारकियोंमें यह अन्तर काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र प्रत्येक नरककी अलग-अलग भवस्थिति होनेसे उसे ध्यानमें रख कर भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें कायस्थिति अनन्त काल है । इसलिए उनमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण घटित होनेमें कोई बाधा नहीं आती । यही कारण है कि इनमें उक्त दोनों पदोंकी अपेक्षा अन्तर कालको आंघके समान जाननेकी सूचना की है । तथा अवस्थितप्रवेशकका अन्तरकाल नारकियोंके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । यही बात पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जाननी चाहिए । मात्र इनकी कायस्थिति पूर्वकाटि पृथक्त्व अधिक तान पत्य है, इसलिए इनमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तको अपनी-अपनी कायस्थितिके भीतर दो बार अल्पतरपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है । किन्तु जिसके इनकी कायस्थितिके भीतर सम्यक्त्व या सम्याग्मध्यात्वकी उद्वेलना होकर एक समय तक अल्पतर पद होता है उसके अवस्थित प्रवेशकका अन्तरकाल एक समय देखा जाता है, इसलिए इनमें अवस्थितप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । मनुष्यत्रिकमें अन्य सब भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह तो स्पष्ट ही है । मात्र इनमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे अवस्थित प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त तथा अवक्तव्य प्रवेशकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि पृथक्त्वप्रमाण बन जानेसे उसे अलगसे कहा है ।

§ ३७०. देवोंमें भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयकों तकके देवोंमें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें भुजगारप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरप्रवेशकका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित प्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**निशेषार्थ**— देवोंमें जो २६ प्रकृतियोंके प्रवेशक मिथ्यादृष्टि हैं उनकी अपेक्षा ही भुजगार और अल्पतरप्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो सकता है, इसलिए यह तत्प्रमाण कहा है । मात्र भवनवासी आदि नौ प्रवेयक तकके देवोंमें भवस्थिति अलग-अलग है, इसलिए उस उस निकायके देवोंमें अपनी अपनी भवस्थितिको ध्यानमें रख कर भुजगार और अल्पतर प्रवेशकका उत्कृष्ट अन्तर जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जो

३७३. णाणाजीवेहिं भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अवट्ठि० सव्वजीव० णिय० अत्थि, सेसपदा भयणिज्जा । एवं चदुसु गदीसु । एवरि पंचि०तिरिक्खअपज्ज० अवट्ठि णिय० अत्थि, मिया एदे च अप्प० विहत्तिओ च, मिया एदे च अप्पदग्गिहत्तया च । मणुसअपज्ज० अप्प०—अवट्ठि० भयणिज्जा । एवं जाव० ।

३७४. भागाभागाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अवट्ठि० सव्वजीव० के० ? अणंता भागा । सेसमणंतभागो । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण गेग्ग्य० अवट्ठि० सव्वजीव० असंखेज्जा भागा । सेमसंखे०भागो । एवं सव्वणिरय०--सव्व-पंचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणुमअपज्ज०--देवा जाव अवराजिदा त्ति । मणुमपज्ज०-मणुसिणी०-सव्व० अवट्ठि० संखेज्जा भागा । सेम संखे०भागो । एवं जाव०

३७५. परिमाणणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्प० उपशान्तकपायसे मरकर प्रथम समयमे ६ का प्रवेशक और दूसरे समयमे २१ का प्रवेशक होकर भुजगार हो गया अतः अन्तर्मुहूर्त पश्चात् उसने वेदकसम्यक्त्व प्राप्त करत समय प्रथम समयमे २२ प्रकृतिक प्रवेशस्थान और दूसरे समयमे २४ प्रकृतिक प्रवेशस्थान प्राप्त किया । इस प्रकार इन दोनोंमे भुजगारप्रवेशकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । अल्पतरका अन्तर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर या तां २२ से २१ वालेके या २८ से २४ वालेके एक बार अल्पतर होता है । पहले इनमे भुजगारप्रवेशकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय बतला आये हैं, इसलिए उसे ध्यानमे रख कर यहाँ पर अवस्थितप्रवेशकका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

३७३. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे अवस्थितप्रवेशक सब जीव नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । इसप्रकार चारों गतियोंमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमे अवस्थितप्रवेशक जीव नियमसे है । कदाचित् ये हैं और एक अल्पतरप्रवेशक जीव है । कदाचित् ये हैं और नाना अल्पतरप्रवेशक जीव हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोमें अल्पतर और अवस्थितप्रवेशक जीव भजनीय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३७४. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे अवस्थितप्रवेशक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है । अनन्त बहुभागप्रमाण है । शेष पदोंके प्रवेशक जीव अनन्तवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमे जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें अवस्थितप्रवेशक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुतभागप्रमाण है । शेष पदोंके प्रवेशक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और अपराजित विमान तकके देवोंमे जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिना और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे अवस्थितप्रवेशक जीव सब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके प्रवेशक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३७५ परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघस



के० ? असंखेज्जा । अवट्टि० केत्ति० ? अणंता । अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्खा० । एवगि अवत्त० णत्थि । मव्वणिरय०-सव्वपंचि० तिरिक्ख-मणुसअपज्ज०- देवा भवणादि जाव एवगेवज्जा त्ति मव्वपदा असंखेज्जा । मणुसेसु अप्प०-अवट्टि० केत्ति० ? अमंखेज्जा । भुज०-अवत्त० केत्ति० ? मंखेज्जा । मणुमपज्ज०-मणुसिणी०-मव्वट्टु० मव्वपदा संखेज्जा । अणुहिमादि अवगाइदा त्ति अप्प०-अवट्टि० केत्ति० । अमंखेज्जा । भुज० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं जाव० ।

३७६. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण अवट्टि० केवडि० खेत्तं ? सव्वलोगे । सेमपदा० लोग० अमंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । सेमगदीसु मव्वपदा० लोग० अमंखे०भागे । एवं जाव० ।

३७७. फोसणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज० लोग० अमंखे०भागो अट्ट-वारहचोहम० देसूणा । अप्प० लोग० असंखे०भागो अट्टचोहम०

भुजगार और अल्पतरप्रवेशक जीव कितने है ? असंख्यात हैं । अवस्थितप्रवेशक जीव कितने है ? अनन्त है । यवक्तव्यप्रवेशक जीव कितने है ? संख्यात है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यप्रवेशक जीव नहीं है । सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवाभियोंसे लेकर नीचे प्रवेशक तकके देवोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीव असंख्यात है । मनुष्योंमें अल्पतर और अवस्थितप्रवेशक जीव कितने है ? असंख्यात है । भुजगार और अवक्तव्यप्रवेशक जीव कितने है ? संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीव संख्यात है । अनुदिशसे लेकर अपगजित तकके देवोंमें अल्पतर और अवस्थितप्रवेशक जीव कितने है ? असंख्यात है । भुजगारप्रवेशक जीव कितने है ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

३७६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अवस्थितप्रवेशक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । शेष पदोंके प्रवेशक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब पदोंके प्रवेशक जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—ओघसे अवस्थितप्रवेशकोंमें २६ प्रकृतियोंके प्रवेशकोंकी मुख्यता है और इनका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण पहले बतला आये हैं, इसलिए यहाँ पर अवस्थितप्रवेशकोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । शेष पदोंके प्रवेशकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । यह प्ररूपणा सामान्य तिर्यञ्चोंमें बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । शेष मार्गणाओंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण होनेसे उनमें सब पदोंके प्रवेशकोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र कहा है ।

३७७. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भुजगारप्रवेशक जीवोंके लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण तथा वसनालीके चौदह भागमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरप्रवेशक

दे० सव्वलोगो वा । अवट्ठि० सव्वलोगो । अवत्त० लोग० असंखे०भागो ।

‡ ३७८. आदेसेण एोरइय० अप्प०-अवट्ठि० लोग० असंखेज्ज० छचोदस०। भुज० लोग० असंखे०भागो पंचचोद० देसूणा । पढमाए खेतं । विदियादि सत्तमा त्ति मव्व-पदाणं सगपोसणं । णवरि सत्तमाए भुज० खेतभंगो । तिग्गिक्खेसु भुज० लोग० असंखे०-भागो सत्तचोदस० देसूणा । अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्ठि० सव्वलोगो । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिय० । णवरि अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो सव्व-लोगो वा । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० अप्प०अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो

जीवने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितप्रवेशकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया।

**विशेषार्थ**— जो गुणस्थान प्रतिपन्न जीव यथायोग्य अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त होते हैं उनके भुजगारपद होता है ऐसे जीव सम्यग्दृष्टि और मासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानोंका भी प्राप्त होते है, यही देख कर यहाँ पर ओघसे भुजगारप्रवेशकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम बारह भागप्रमाण कहा है। जो जीव मिथ्यात्वादि गुणस्थानोंसे ऊपरके गुणस्थानोंमें जाते हैं वे तो अल्पतरप्रवेशक होते ही हैं। साथ ही जो मिथ्यादृष्टि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हैं वे भी अल्पतरप्रवेशक होते हैं। यही मात्र इनमें सासादन जीव नहीं होते। यही देख कर यहाँ अल्पतरप्रवेशकोंका लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र कहा है। इतना अवश्य है कि यहाँ पर सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन उन जीवोंके कहना चाहिए जो २८ प्रकृतियोंमेंसे सन्यक्त्वकी उद्वेलना होने पर २७ प्रकृतियोंमें और २७ प्रकृतियोंमेंसे सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होने पर २६ प्रकृतियोंमें प्रवेश कर अल्पतरप्रवेशक होने है। अवस्थितप्रवेशकोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण तथा अवक्तव्यप्रवेशकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है वह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार आगेके स्थानोंमें स्पर्शनका विचार कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे हम पृथक् पृथक् सुलासा नहीं करेंगे।

‡ ३७८ आदेशसे नारकियोंमें अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। भुजगारप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पदली पृथिवीका क्षेत्रके समान स्पर्शन है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें सब पदोंकी अपेक्षा अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सप्तम पृथिवीमें भुजगारका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चोंमें भुजगारप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अल्पतरप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितप्रवेशकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चवत्रिकमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितप्रवेशकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थित

सव्वलोगो वा । मणुसतिण् पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि अवत्त० खेत्तं । देवा० भवणादि जाव अच्चुदा त्ति सव्वपदाणं सगफोसणं । उवरि खेत्तं । एवं० जाव० ।

§ ३७९. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०-अप्प० जह० एयस०, उक्क० आवलि० अमंखे० भागो । अवट्ठि० मव्वद्धा । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । एवं सव्वणोरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । णवरि अवत्त० णत्थि । पंचि० तिरिक्खअपज्ज० अप्प०-अवट्ठि० ओघं ।

३८०. मणुसेसु भुज०-अवत्त० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । अप्प०-अवट्ठि० ओघं । एवमणुदिमादि जाव अवराजिदा त्ति । णवरि अवत्त० णत्थि । मणुमपज्ज०-मणुमिगी-मव्वट्ठु० अवट्ठि० मव्वद्धा । सेमपदा० जह० एयस०, उक्क०

प्रवेशकोंन लाकर असंख्यातवें भाग और सर्व लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य-त्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है। किन्तु इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यप्रवेशकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सामान्य देव और भवनवामियोंसे लेकर अन्युत कल्प तकके देवोंमें सब पदोंकी अपक्षा अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। ऊपरके देवोंमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है। इभीप्रकार अनाहारक मार्गगा तक जानना चाहिए।

§ ३७९. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश। आघसे भुजगार और अल्पतरप्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितप्रवेशकोंका काल सर्वदा है। अवक्तव्यप्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इमाप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और भवनवामियोंसे लेकर नौ प्रैवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकोंका काल आघके समान है।

विशेषार्थ—आघसे भुजगारपद और अल्पतरपद एक समयतक हो और दूसरे समयमें न हो यह सम्भव है। तथा नाना जीव यदि निरन्तर इन पदोंको करें तो उस कालका योग आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही हांगा, इसलिए आघसे भुजगार और अल्पतर प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अवस्थितप्रवेशकोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। अवक्तव्यप्रवेशक उपशम-श्रेणियोंसे गिरनेवाले जीव होत है, इसलिए इनके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। यहाँ कही गई मार्गणाश्रोमें यह काल बन जाता है, इसलिए उनमें आघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इनमें उपशमश्रेणियोंकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे अवक्तव्यपदका निषेध किया है।

३८०. मनुष्योंमें भुजगार और अवक्तव्यप्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकोंका काल आघके समान है। इसीप्रकार अनुदिशस लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें अवस्थितप्रवेशकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके प्रवेशकोंका जघन्य काल एक समय

संखेज्जा समया । मणुमअपज्ज० अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ३८१. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एगस०, उक्क० वामपुधत्तं । एवं मणुसतिए । एवं सव्वणिरय-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्ख-तिय-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । णवरि अवत्त० णत्थि ।

§ ३८२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अप्प० जह० एगस०, उक्क० चउवीस-महोरत्ते मादिरेगे । अवट्ठि० णत्थि अंतरं । मणुमअपज्ज० अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अणुहिसादि सव्वट्ठा त्ति अवट्ठि० णत्थि अंतरं । भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० वामपुधत्तं । सव्वट्ठे पलिदो० असंखे०-

है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे अल्पतरप्रवेशकोका काल ओघके समान है । अवस्थितप्रवेशकोका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—सामान्य मनुष्योमे भुजगार और अवक्तव्यपद मनुष्यद्विकमे ही होते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष पद अपर्याप्त मनुष्योमे भी सम्भव है, इसलिए इनमे उनका काल ओघके समान बन जानेसे वह तत्प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३८१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे भुजगार और अल्पतरप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । अवस्थितप्रवेशकोका अन्तर काल नहीं है । अवक्तव्यप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए । मात्र इनकी विशिष्टता है कि इनमे अवक्तव्यपद नहीं है ।

**विशेषार्थ**—यहाँ विशेष वक्तव्य इतना ही है कि उपशमसम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात बतलाया है । और उपशमसम्यक्त्वके अभावमे भुजगार तथा अल्पतरपद सम्भव नहीं, इसलिए यहाँ पर आघसे और उल्लिखित मार्गणाओमे उक्त पदोका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है । यद्यपि क्षणिक कालमे अल्पतरपद होते हैं पर उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर छह महीनासे कम नहीं है, इसलिए वह प्रकृतमे उपयोगी नहीं ।

§ ३८२. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चअपर्याप्त जीवोमे अल्पतरप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । अवस्थितप्रवेशकोका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे अल्पतर और अवस्थितप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे अवस्थितप्रवेशकोका अन्तरकाल नहीं है । भुजगार और अल्पतरप्रवेशकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । सर्वार्थसिद्धिमें उत्कृष्ट अन्तर

भागो । एवं जाव० ।

§ ३८३. भावो सव्वत्थ औदइओ भावो ।

§ ३८४. अप्पावहुआणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्प० असंखे०गुणा । भुज०पवे० विसेमा० । अवट्ठि० अणंतगुणा ।

§ ३८५. आदेसेण ओरइय० सव्वत्थोवा अप्प०पवे० । भुज०पवे० विसेमा० । अवट्ठि०पवे० असंखे०गुणा । एवं मव्वणिरय०-पंचिदियतिरिक्खतियइ-देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मव्वत्थोवा अप्प०पवे० । अवट्ठि०पवे० असंखे०गुणा ।

§ ३८६. तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा अप्प०पवे० । भुज०पवे० विसेसा० । अवट्ठि०पवे० अणंतगुणा । मणुसेसु सव्वत्थोवा अवत्त०पवे० । भुज०पवे० संखे०गुणा । अप्प०पवे० असंखे०गुणा । अवट्ठि०पवे० असंखे०गुणा । एवं मणुमपज्ज०-मणुसिणी० । एवरि संखेज्जगुणं कायव्वं । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मव्वत्थोवा भुज०पवे० । अप्प०पवे० असंखे०गुणा । अवट्ठि०पवे० असंखे०गुणा । णवरि सव्वट्ठे संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं जाव० ।

पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३८३. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है ।

§ ३८४. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अवक्तव्यप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं । उनसे भुजगारप्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव अनन्तगुणो हैं ।

§ ३८५. आदेशसे नारकियोंमें अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारप्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव तथा भवनत्रिकसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमें अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं ।

§ ३८६. तिर्यञ्चोंमें अल्पतरप्रवेशक जीव सबसे स्तोक है । उनसे भुजगारप्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव अनन्तगुणो हैं । मनुष्योंमें अवक्तव्यप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारप्रवेशक जीव संख्यातगुणो हैं । उनसे अल्पतरप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें असंख्यातगुणोके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें भुजगारप्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो है । उनसे अवस्थितप्रवेशक जीव असंख्यातगुणो है । इतना विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यातगुणोके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३८७. पदणिकखेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अण्णिओगहाराणि— समुक्कित्तणा० मामित्तमप्पावहुअं च । ममु० दुविहा—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण अत्थि उक्क० वड्डी हाणी अवट्ठाणं च । एवं चदुगदीसु । एवारि पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० अत्थि उक्क० हाणी अवट्ठाणं च । एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि णेदव्वं ।

§ ३८८. सामित्ताणु० दुविहो णि०—जह० उक्क० । उक्क० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० उवसमसेट्ठिमारुह-माणो अंतरकरणं कादूण मदो देवो जादो तदो छप्पवेमिय इगिनीसपवेसगो जादो, तस्स विदियममयदेवस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० उवसमसेट्ठि-मारुहमाणो एक्कावीसंपय०पवेसगो अंतरे कदे समयूणावलियमेत्तं गंतूण दोण्हं पवेसगो जादो, तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० समवट्ठाणं ।

§ ३८९. आदेसेण एग० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो चउवीसं पवेस-माणो अट्ठावीसं पवसेदि तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० अट्ठावीसं पवेसेमाणेण अणंताणुबंधिचउक्के णासिदे तस्स उक्क० हाणी । एगदरत्थावट्ठाणं । एवं सव्वएणइय०-तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खतिय ३-देशा भवणादि जाव एवगेवज्जा ति ।

§ ३८७. पदनिक्षेपका अधिकार है । उसमें ये तीन अधिकार हैं—समुक्तीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुक्तीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अव-स्थान है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार जघन्य भी जानना चाहिए ।

§ ३८८. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । आवसे उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर उपशमश्रेणिपर आरोहण करनेवाला अन्तरकरण करके मरा और देव हां गया । उसके बाद वह प्रकृतियोंका प्रवेशक वह इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया । ऐसा वह द्वितीय समयवर्ती देव उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो उपशमश्रेणिपर आरोहण करनेवाला इक्कीस प्रकृतियोंका प्रवेशक अन्तर करनेपर एक समय कम आवलिमात्र जाकर दोका प्रवेशक हां गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

§ ३८९. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक अट्ठाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो अट्ठाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक है वह अनन्तानुबन्धीचतु-ष्कका नाश होनेपर उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनमेंसे किसी एक स्थानमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव

अथवा आदेसे० एरइय० उक्० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो वावीमं पवेसेमाणो उवममम्मा० अट्टावीसं पवेसेदि, तस्स उक्० वड्डी । तस्सेव से काले उक्० अवट्टाणं । एवं जाव० णवगेवज्जा त्ति अपज्जत्तवज्जं । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुमअपज्ज० उक्० हाणी कस्म ? अण्णद० जो अट्टावीमं पवेसेमाणो सत्तावीमं पवेसेदि तस्स उक्० हाणी । तस्सेव से काले उक्० अवट्टाणं ।

३९०. मणुमतिए उक्० वड्डी कस्स ? अण्णद० उवममसेटीदो ओदरमाणो वाग्म पवेसिय पुणो सत्तणोकमायाणं पवेमगो जादो, तस्म उक्० वड्डी । उक्० हाणी अवट्टाणं च ओघं । देवेसु उक्० वड्डी ओघं । तस्सेव से काले उक्० अवट्टाणं । उक्० हाणी कस्म ? अण्णद० अट्टावीसं पवेसेमाणा चउवीमपवे० जादो तस्स उक्० हाणी । एवमणुदिसादि जाव सव्वट्टा त्ति । एवं जाव० ।

३९१. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० पणुवीमं पवेसेमाणो छवीमपवेमगो जादो तस्म जह० वड्डी । जह० हाणी कस्म ? अण्णद० अट्टावीमं पवेसेमाणो सत्तावीमपवेमगो जादो तस्म जह० हाणी । तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं । एवं चदुग्दीसु । णवरि पंचि०-तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० जह० वड्डी णत्थि । अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति जह०

और भवनवासिकोंमें लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । अथवा आदेशमें नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक उपशमसम्यग्दृष्टि जीव अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार अपर्याप्तकोंको छोड़कर नौ प्रैवेयक तक जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक जीव सत्ताईस प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

§ ३८० मनुष्यात्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशमश्रेणिसं उतरने-वाला जो बारह प्रकृतियोंका प्रवेश कर पुनः सात नाकपायोंका प्रवेशक हो गया वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व ओघके समान है । देवोंमें उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी ओघके समान है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक चौबीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

३९१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो पच्चीस प्रकृतियोंका प्रवेशक छवीस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो अट्टाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक सत्ताईस प्रकृतियोंका प्रवेशक हो गया वह जघन्य हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें

वड्डी कस्स ? अण्णद० एकावीसं पवेसेमाणो सम्मत्तं पवेसेदि तस्स जह० वड्डी ।  
जह० हाणी कस्स ? अण्णद० बावीसं पवेसेमाणेण मम्मत्तं खविदे तस्स जह० हाणी ।  
तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं । एवं जाव० ।

३०२. अप्पावहुअं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मव्वत्थो० उक्क० वड्डी । हाणी अवट्ठाणं च दो वि  
सरिसाणि विसे० । आदेसे० गेग्ह्य० उक्कम्मवट्ठि-हाणि-अवट्ठाणाणि तिण्णि वि  
मरिसाणि । अथवा सव्वत्थो० उक्क० हाणी । उक्क० वड्डी अवट्ठाणं च दो वि सरिसाणि  
विसेमा० । एवं मव्वणेग्ह्य०-मव्वतिरिक्ख-देवा भवणादि जाव एवगेवजा त्ति ।  
णवरि पचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० उक्क० हाणी अवट्ठाणं च दो वि मरिसाणि ।  
मणुसतिए सव्वत्थो० उक्क० वड्डी । हाणी अवट्ठाणं च दो वि मरिसाणि संखेज्ज-  
गुणाणि । देवेषु सव्वत्थो० उक्क० हाणी । वड्डी अवट्ठाणं च दो वि मरिसाणि संखे-  
गुणाणि । एवमणुदिमादि सव्वट्ठा त्ति । एव जाव० ।

३०३. जह० पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसे० । ओघेण जह०  
वड्डी हाणी अवट्ठाणं च तिण्णि वि मरिसाणि । एवं चदुगदीसु । णवरि पंच०

जघन्य वृद्धि नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन  
है ? अन्यतर जो इस्कास प्रकृतियोंका प्रवेशक सम्यक्त्वका प्रवेशक होता है वह जघन्य वृद्धिका  
स्वामी है । जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो बाईस प्रकृतियोंका प्रवेशक सम्यक्त्व  
प्रकृतिका क्षय करता है वह जघन्य हानिका स्वामी है । वहीं अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान  
का स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ ३६२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है ।  
निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघमें उत्कृष्ट वृद्धिके प्रवेशक सबसे स्तोक है ।  
उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके स्वामी दोनों ही परस्पर समान होकर विशेष अधिक है ।  
आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके प्रवेशक तीनों ही समान है । अथवा  
उत्कृष्ट हानिके प्रवेशक सबसे स्तोक है । उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही परस्पर  
समान होकर विशेष अधिक है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यच, सामान्य देव और  
भवतवासियोंमें लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय  
तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट हानि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही  
समान हैं । मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट वृद्धिके प्रवेशक सबसे स्तोक है । उनमें उत्कृष्ट हानि और  
अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही परस्पर समान होकर संख्यातगुण है । देवोंमें उत्कृष्ट हानिके  
प्रवेशक सबसे स्तोक है । उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही परस्पर समान होकर  
संख्यातगुण है । इसी प्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिके देवों तक जानना चाहिए । इसी  
प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ ३६३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघमें  
जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके तीनों ही प्रवेशक परस्पर समान है । इसी प्रकार चारों  
गणियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य



तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० जह० हाणी अवट्ठा० दो वि सरिसाणि । एवं जाव० ।

§ ३९४. वृद्धिपवेशगो ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगदाराणि—समुक्कित्ताणा जाव अप्पावहुए ति । समुक्कित्ताणा० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण अत्थि संखे० भागवट्ठि-हाणि-संखे० गुणवट्ठि-हाणी-अवट्ठि०-अवत्त० पवेशगा । एवं मणुमतिए ।

§ ३९५. आदे० णेरइय० अत्थि संखे० भागवट्ठिहाणि-अवट्ठि० पवे० । एवं सव्वणिरय०-तिरिक्ख-पंचि० तिरिक्खतिय ३-भवणादि जाव णवगेवजा ति । पंचि०-तिरि० अपज्ज०-मणुमअपज्ज० अत्थि संखे० भागहा०-अवट्ठि० । देवेषु अत्थि संखे० भागवट्ठि-हाणि-संखे० गुणवट्ठिअवट्ठि० पवे० । एवमणुदिमादि जाव मव्वट्ठा ति । एवं जाव० ।

§ ३९६. सामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखे० भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० मग्गाइट्ठि० मिच्छाइट्ठि० । संखे० गुणवट्ठि-हाणि० कस्स ? अण्णद० मग्गाइट्ठि० । अवत्त० भुजगारभंगो । एवं मणुमतिए । मव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-भवणादि जाव णवगेवजा ति भुजगारभंगो । एवरि संखेज्जभागवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदालावेण णेदव्वं । देवाणमोघं । णवरि संखे० गुण-

अपर्याप्तकर्म जघन्य हानि और अवस्थानके प्रवेशक दोनों ही समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

§ ३९४. वृद्धिप्रवेशकका अधिकार है। उभये ये तेरह अनुयांगद्वार है—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक। समुत्कीर्तनाके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्य पदके प्रवेशक है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए।

§ ३९५. आदेशसे नारकयामे संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि और अवस्थित पदके प्रवेशक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पचेन्द्रिय तिर्यञ्चरु और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। पचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकर्मों संख्यात भागहानि और अवस्थित पदके प्रवेशक है। देवोंमें संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थित पदके प्रवेशक हैं। इसी प्रकार अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए।

§ ३९६. स्वामित्वानुगमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि स्वामी है। संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात गुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि स्वामी है। अवक्तव्य पदका भङ्ग भुजगारके समान है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है। इनकी विशेषता है कि इनमें संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि और अवस्थित पदके आलापके साथ स्वामित्व ले जाना चाहिए। देवोंमें इनके समान भंग है। इनकी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पद

हाणि-अवत्त० णत्थि । अणुद्दिमादि मव्वट्टा त्ति सव्वपदाणि कस्स ? अण्णद० एवं जाव० ।

§ ३९७. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखेज्जभागवट्ठि० जह० एयम०, उक्क० चत्तारि समयया । मंखे०भागहाणि-संखेज्जगुणहाणि-अवत्त० जहण्णु० एयस० । अधवा मंखे०भागहाणि० उक्क० वे समयया । मंखे०गुणवट्ठि० जह० एयममओ, उक्क० तिण्णिण ममया । अवट्ठि० भुज०भंगो ।

§ ३९८. आदेसेण मव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुमअपज्ज० भवणादि जाव णवगेवजा त्ति भुजगारभंगो । मणुसतिण संखे०भागवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि ममया । मंखे०भागहाणि-संखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० जह० उक्क० एयम० । मंखे०भागहा० उक्क० वेममया वा । अवट्ठि० भुज०भंगो । देवाणं णाग्यभंगो । णवरि मंखे०गुणवट्ठि० जह० उक्क० एयम० । अणुद्दिमादि मव्वट्टा त्ति संखे०भागवट्ठि० जह० एयम०, उक्क० वेममया । मंखे०भागहा० मंखे०गुणवट्ठि० जह० उक्क० एयम० ।

नहीं हैं। अनुदिशमे लेकर सर्वार्थासिद्धि तकके देवोंमें सब पदोंका स्वामी कौन है? अन्यतर जीव स्वामी हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तकले जाना चाहिए।

§ ३९७. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश। आघसे संख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और अवत्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अथवा संख्यात भागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यात गुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अवस्थित पदका भंग भुजगारके समान है।

विशेषाथ—पहले भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय बनला आये है उसी प्रकार यहाँ संख्यात भागवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय घटित कर लेना चाहिए। पहले अल्पतर और अवत्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बनला आये है उसी प्रकार यहाँ संख्यातभागहानि, संख्यातगुणहानि और अवत्तव्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय घटित कर लेना चाहिए। वहाँ प्रकारान्तरसे अल्पतर पदका उत्कृष्ट काल दो समय बनला आये है वहाँ यहाँ संख्यात भागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

§ ३९८. आदेशमे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और भवनवामियोंसे लेकर नौ भेदोंके तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है। मनुष्यत्रिकमे संख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवत्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अथवा संख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित पदका भंग भुजगारके समान है। देवोंमें नारकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुदिशमे लेकर सर्वार्थासिद्धितकके देवोंमें संख्यात भागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। संख्यात भागहानि और संख्यात

अवद्विदं जह० एयममत्रो, उक्क० सगड्विदी । एवं जाव० ।

§ ३९९. अंतराणु दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखे०भागवद्धि-  
संखे०गुणवद्धि० जह० एयम० संखे०भागहा०-संखे०गुणहा०-अवत्त० जह० अंतोमु० ।  
अधवा संखे०भागहा० जह० एयम० । उक्क० मव्वेमिमुवड्डोपो० परियड्डं । अवद्वि०  
जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० ।

४००. आदेसेण मव्वणिरय०-मव्वतिरिक्ख-मणुमअपज्ज० भाणादि जाव  
एवगेवज्जा त्ति भुज०भंगो । मणुमतिण् भुज०भंगो । एवरि संखे०गुणवद्धि-हाणि-  
अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । देवगादिदेवा अणुहिमादि मव्वट्ठा  
त्ति भुज०भंगो । एवरि संखे०गुणवद्धि० णत्थि अंतरं । एवं जाव० ।

४०१. गागाजीवेहि भंगविचयाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० ।  
ओघेण अवद्वि० णिय० अनिय । सेमपदा भयणिज्जा । भंगा २४३ । एवं चदुगदीसु ।  
णवरि भंगा जाणिय वत्तवा । मणुमअपज्ज० मव्वपदा भयणिज्जा । भंगा ८ ।  
एवं जाव० ।

४०२. भागाभागानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण अवद्वि०  
मव्वर्जा० केव० ? अणंता भागा । सेममणंतभागो । एवं तिरिक्खा० । मव्वणेर०-  
गुणवद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय  
है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३९९. अंतराणुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे  
संख्यातभागवद्धि और संख्यात गुणवद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागहानि,  
संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है अथवा संख्यात भागहानि-  
का जघन्य अन्तर एक समय है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।  
अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४०० आदेशसे सब नारकी, सब नियंच, मनुष्य अपर्याप्त और भवनवासियोंसे लेकर  
नौ प्रवेयक तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । मनुष्यत्रिकमें भुजगारके समान भंग है ।  
इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवद्धि, संख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर  
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पुव्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । देवगतिमें सामान्य देव तथा  
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्ध तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि  
संख्यातगुणवद्धिका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ४०१ नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भंगविचयानुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका  
है—आंध और आदेश । आंधसे अवस्थित पद नियमसे है, शेष पद भजनीय है । भंग २४३  
है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भंग जानकर कहने  
चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद भजनीय है । भंग आठ है । इसी प्रकार अनाहारक  
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४०२. भागाभागानुगमका अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश ।  
आंधसे अवस्थित पदवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अन्तर्न बहुभागप्रमाण है ।

मन्वपंचि०तिरिक्ख-मणुम-मणुमअपज्ज०-देवा भवणादि जाव अवराजिदा त्ति अवट्ठि०  
असंखेज्जा भागा । सेममसंखे०भागो । मणुमपज्ज०-मणुमिणि०-मव्वट्ठदेवेसु अवट्ठि०  
संखेज्जा भागा । सेम संखे०भागो । एवं जाव० ।

४०३. परिमाणणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखे०भाग-  
वट्ठि-हाणि० केत्ति० ? अमंखेज्जा । अवट्ठि० केत्ति० ? अणंता । संखे०गुणवट्ठि-  
हाणि-अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । सव्वणिर०-मव्वतिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-भवणादि  
जाव णवगेवज्जा त्ति भुज०भंगो । मणुसेसु सखे०भागहा०-अवट्ठि० केत्ति० ?  
असंखेज्जा । सेसपदा संखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुमिणी०मव्वट्ठदेवेसु मव्वपदा  
संखेज्जा । देवगदिदेवा अणुद्दिसादि अवराजिदा त्ति भुज०भंगो । णवरि संखे०गुण-  
वट्ठि० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं जाव० ।

४०४. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अवट्ठि०  
मव्वल्लोगे । सेमपदा लोग० अमंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । सेमगदीसु मव्वपदा  
लोग० अमंखे० । एवं जाव० ।

शेष पदवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए ।  
सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, भामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और  
भवनवासियोंसे लेकर अपराजित कल्पतकके देवोंमे अवस्थित पदवाले जीव असंख्यात बहुभाग  
प्रमाण है तथा शेष पदवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और  
सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे अवस्थित पदवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा शेष पदवाले जीव  
संख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ४०३. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघमें  
संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि पदवाले जीव कितने है ? असंख्यात है । अवस्थित  
पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त है । संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि और अवत्तव्य  
पदवाले जीव कितने है ? संख्यात है । सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और भवन-  
वासियोंसे लेकर नौ ग्रंथेयक तकके देवोंका भंग भुजगारके समान है । मनुष्योमे संख्यात  
भागहानि और अवस्थित पदवाले जीव कितने है ? असंख्यात है । शेष पदवाले जीव संख्यात  
है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे सब पदवाले जीव कितने है ? संख्यात  
है । देवगतिमे देव और नौ अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमे भंग भुजगारके समान  
है । इनकी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि पदवाले जीव कितने है ? संख्यात है । इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ४०४. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
अवस्थित पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोक क्षेत्र है । शेष पदवाले जीवोंका क्षेत्र  
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब  
पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक  
जानना चाहिए ।

§ ४०५. पोमणाणु० दृविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण संखे०भाग-  
वड्ढि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-वारहचोदम० देसूणा । मंखेज्जभागहाणि० लोग०  
असंखे०भागो अट्टचोदम० देसूणा सव्वलोगो वा । अवट्ढि० मव्वलोगो । सेसपदा  
लोग० असंखे०भागो । मव्वणिरय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज० भवणादि जाव  
णवगेवजा त्ति भुज०भंगो । मणुसतिए भुज०भंगो । णवरि संखे०गुणवड्ढि-हाणि०  
लोग० असंखे०भागो । देवगदिदेवा अणुदिमादि सव्वट्ठा त्ति भुज०भंगो । णवरि  
संखे०गुणवड्ढि० लोग० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ४०६. कालाणु० दृविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघे० संखे०भागवड्ढि-  
हाणि० जह० एयम०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अवट्ढि० सव्वट्ठा । सेसपद०  
जह० एयस०, उक्क० मंखेज्जा ममया । सव्वणिरय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज०  
भवणादि जाव णवगेवजा त्ति भुज०भंगो । मणुसतिए भुज०भंगो । णवरि संखे०गुण-  
वड्ढि-हाणि० जह० एयम०, उक्क० संखेज्जा समय । देवगदिदेवा अणुदिमादि सव्वट्ठा  
त्ति भुज०भंगो । णवरि संखे०गुणवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समय ।

§ ४०५. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे संख्यातभागवृद्धि पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यात भागहानि पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित पदवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । मनुष्यत्रिकमें भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवर्गतमें सामान्य देव और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि पदवाले देवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४०६. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानि पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित पदका काल सर्वदा है । शेष पदोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । मनुष्यत्रिकमें भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानि पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । देवर्गतिमें सामान्य देव तथा अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धि पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात

एवं जाव० ।

४०७. अंतगण० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण संखेजभाग-  
वड्ढि०-हाणि० जह० एयम०, उक्क० सत्तगदिदियाणि । अवड्ढिदाणि णत्थि अंतरं ।  
संखे०गुणवड्ढि०-अवत्त० जह० एयम०, उक्क० वासपुधत्तं । संखे०गुणहाणि० जह०  
एयम०, उक्क० छम्मासा । एवं मणुसतिए । णवरि मणुमिणी० संखे०गुणहाणि०  
जह० एयसमओ, उक्क० वामपुधत्तं । मव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज०  
भवणादि जाव णवमेवजा त्ति भुज०भंगो । देवगइदेवा अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति भुज०-  
भंगो । एवरि संखे०गुणवड्ढि० जह० एयम०, उक्क० वासपुधत्तं । णवरि मव्वट्ठे  
पल्लिदो० संखे०भागो । एवं जाव० ।

४०८. भावणुगमेण सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

४०९. अप्पावहुगाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थो०  
अवत्त०पवे० । संखे०गुणवड्ढिपवे० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणिपवे० विवेमा० ।  
संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्ढि० विसेसा० । अवड्ढि० अणंतगुणा ।

४१०. आदेसेण एणइय० सव्वत्थो० संखे०भागहा० । संखे०भागवड्ढि०

समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४०७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
संख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तर मात दिन-रात है । अवस्थित पद हा अन्तरकाल नहीं है । संख्यात गुणवृद्धि और अव-  
क्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । संख्यात  
गुणहानिपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार  
मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें संख्यात गुणहानिका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । सब नारकी, सब निर्यञ्ज  
मनुष्य अपर्याप्त और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमें भुजगारके समान भंग है ।  
देवगनिमें सामान्य देव तथा अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें भुजगारके समान भंग  
है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता और है कि सर्वार्थसिद्धिमें पत्यके संख्यातवै भागप्रमाण  
है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४०८. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है ।

४०९. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।  
ओघसे अवक्तव्य पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि पदके प्रवेशक  
जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणहानि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । उनसे  
संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि पदके  
प्रवेशक जीव विशेष अधिक हैं । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव अन्तगुणे हैं ।

४१०. आदेशसे नारकियोंमें संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव सबसे थोड़े हैं ।

विसे० । अवट्टि० अमंखे०गुणा । एवं मव्वखेगइय०-पंचिदियतिग्गिक्खतिय३-भवणादि जाव णवगेवजा त्ति । तिग्गिक्खेसु मव्वत्थो० संखे०भागहाणि० । मंखे०भागवट्टि० विसेमा० । अवट्टि०पवे० अणंतगुणा । पंचि०निग्गिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मव्वत्थो० मंखे०भागहाणिपवे० । अवट्टि०पवे० अमंखे०गुणा ।

॥ ४११. मणुसेसु मव्वत्थो० अवत्त०पवे० । मंखे०गुणवट्टिपवे० मंखे०गुणा । मंखे०गुणहाणिपवे० विसेमा० । मंखे०भागवट्टिपवे० मंखे०गुणा । मंखे०भागहाणिपवे० अमंखे०गुणा । अवट्टि०पवे० अमंखे०गुणा । एवं मणुमपज्ज०-मणुसिणी० । णवरि मंखेज्जगुणं कादव्वं ।

॥ ४१२. देवेषु मव्वत्थो० मंखे०गुणवट्टिपवे० । मंखे०भागहाणिपवे० अमंखे०-गुणा । मंखे०भागवट्टिपवे० विसेमा० । अवट्टि०पवे० अमंखे०गुणा । अणुदिमादि मव्वट्टा त्ति मव्वत्थोवा मंखे०गुणवट्टिपवे० । मंखे०भागवट्टिपवे० विसेमा० । मंखे०-भागहा०पवे० अमंखे०गुणा । अवट्टि०पवे० अमंखे०गुणा । एवमि मव्वट्टे मंखेज्जगुणं कायव्वं । एव जाव० ।

एवमेदमु भुजगारादिअणियोगद्वारेसु विहासिदेसु तदा 'कदि च पविस्मंति कस्म आवलियं' ति पदं समत्तं ।

उनसे संख्यात भागवट्टि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । इसीप्रकार मव्व नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षत्रिक तथा भवन्नामियोंसे लेकर नौ प्रवेशक तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यक्षोंमें संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात भागवट्टि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव अनन्तगुणे है । पंचेन्द्रिय तिर्यक्ष अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

४११. मनुष्योंमें अवत्तपदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात गुणवट्टि पदके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे है । उनसे संख्यात गुणहानि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे संख्यात भागवट्टि पदके प्रवेशक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए ।

४१२. देवोंमें संख्यात गुणवट्टि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे संख्यात भागवट्टि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । अणुदिशोंमें लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें संख्यात गुणवट्टि पदके प्रवेशक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात भागवट्टि पदके प्रवेशक जीव विशेष अधिक है । उनसे संख्यात भागहानि पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित पदके प्रवेशक जीव असंख्यातगुणे है । इनकी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातगुणा करना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार इन भुजगार आदि अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान करने पर 'कदि च पविस्मंति कस्म आवलियं' इस पदका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

❀ 'खेत्त-भव-काल-पांगल-ट्टिदिविवागोदयस्वयां दु' त्ति एदस्स विहासा ।

४१३. एतो एदस्म गाहापच्छिमद्धस्म पत्तावमग परूवणा कायव्वा त्ति पडण्णावक्कमेदं । मंपहि एदस्स गाहापच्छद्धस्म ममुदायत्थे अणवगये तच्चिसया विहामा पयट्टदि त्ति तप्परूवणट्टमुत्तसुत्तभाह—

❀ कम्मोदयो खेत्त-भव-काल-पांगल-ट्टिदिविवागोदयस्वयां भवदि ।

४१४. कम्मणे उदयो कम्मोदयो । अपक्कपाचणाए विणा जहाकालजसिदो कम्मणं ट्टिदिवक्खणं जां विवागो सो कम्मोदयो त्ति भण्णदे । मो वुण खेत्त-भव-काल-पांगल-ट्टिदिविवागोदयस्वयो त्ति एदस्स गाहापच्छद्धस्म ममुदायत्थो भवदि । कुदो ? खेत्त-भव-काल-पांगले अस्सिउणं जां ट्टिदिवक्खयो उदिण्णफलकम्मक्खध-परिमडणलक्खणो सोदयो त्ति सुत्तथावलंबणादो । तदो कम्मोदयो 'दु' महेए सुच्चिदा-मेमविसेमपरूवणा एदस्मि गाहापच्छिमद्धस्म णिलीणो इदाणि विहामिस्वयो त्ति एतो एदस्म चुणिसुत्तस्म भावत्थो । मो च कम्मोदयो पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेस-विमयत्तेण चउत्विहो । तत्थेह ताव पयडिउदणं पयदं, पयडिउदाग्गाणंतग्मेदस्म परूवणाजोगत्तादो । जइ एवं, कम्मोदयस्स अत्थविहामा किमट्टमेत्थ सुत्तयारेण ण

\* 'क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलको निमित्त कर स्थिति विपाकसे उदयक्षय होता है' इसका विशेष व्याख्यान करना चाहिए ।

४१५ आगे डप गाथाके उत्तरार्धका अवसर प्राप्त कथन करना चाहिए इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है । अब इस गाथाके उत्तरार्धका समुदायार्थ अवगत होने पर तद्विषयक विशेष व्याख्यान प्रवृत्त होता है, इसलिए उसका कथन करनेके लिए आगे हा मूत्र कहने है—

\* कर्मोका उदय क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलको निमित्त कर स्थिति विपाकसे उदयक्षयरूप होता है ।

४१६. कर्मरूपसे उदयका नाम कर्मोदय है । अपक्वपाचनके बिना कर्मोका स्थितित्तयसे जो यथा कालजानित विपाक होता है वह कर्मोदय कहा जाता है । परन्तु वह 'क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलको निमित्त कर स्थिति विपाकसे उदयक्षयरूप है ।' इस प्रकार गाथाके इस उत्तरार्धका समुदायार्थ है, क्या क क्षेत्र, भव, काल और पुद्गलको आश्रय कर उदीर्ग फल करने रकन्त्येवा परिशान्त लक्षण जा स्थितित्तय जाता है वह उदय है, इस प्रकार मूत्रक अर्थका अवलम्बन लिया है । इसलिए गाथाके अन्तमें आये हुए 'तु' शब्दमें सूचित अणु विपाकका कथन करनेरूप जा कर्मोदय गाथाके इस उत्तरार्धमें लीन है उसका इस समय व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार यह इस चुणिसूत्रका भावाथ है । वह कर्मोदय प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशका विषय करनेवाला हानसे चार प्रकारका है । उनसेसे यहाँ पर प्रकृत उदय प्रकृत है, क्योंकि प्रकृति उदीर्गणाके बाद यह पररूपणायोग्य है ।

शंका—यदि ऐसा है तो यहाँ पर मूत्रकारने कर्मोदयर्था अर्थाविभाषा क्या नहीं की ?



कीरदि त्ति णासंक्रणिजं, उदीरणादो चैव कम्मोदयस्स वि गयत्थत्तादो । ण च उदयादो उदीरणा एयंतेण पुधमूदा अत्थि, उदयविसेसस्सेत्र उदीरणाववएमादो । तदो उदीरणाए परूविदाए एमो वि परूविदो चैव । जो च थोवयरो विसेमो एत्थ वि वक्खाणकारएहिं वक्खाणोयच्चो त्ति एदेणाहिप्पाएण कम्मोदयो एत्थ सुत्तयारेण ण वित्थाग्गिदो । अत्थसमप्पणामेत्तं चैव कयं, तदो एदं चैव देमामामयवयणमस्सिदूण कम्मोदयो एत्थ विहासियच्चो । एवं कम्मोदए विहामिए पढमगाहाए अत्थो समत्तो होइ ।

❀ को कदमाए द्विदीए पवेसगां त्ति पदस्स द्विदिउदीरणा कायच्चा ।

: ४१५. पयडिउदीरणाणंतग्मेत्तो द्विदिउदीरणा कायच्चा, पत्तावमग्गत्तादो । मा वुण द्विदिउदीरणा विदियगाहाए पढमपादे णिवद्धा त्ति जाणावणट्टमेदं सुत्तमोड्डणं 'का कदमाए द्विदीए पवेसगो त्ति ।'

४१६. एदस्स पदस्स अत्थो द्विदिउदीरणाए त्ति तदो एदं बीजपदं द्विदि-उदीरणापामित्तविसयपुच्छामुहेण पयट्टमस्मिज्जणं द्विदिउदीरणा विहासियच्चा त्ति एमो एदस्स भावत्थो । सा च द्विदिउदीरणा मूलत्तरपयडिविसयभेदेण दुविहा होदि त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तमाह—

ममाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदीरणासे ही कर्मोदयकं अर्थका भी ज्ञान हो जाता है ।

यदि कहा जाय कि उदयसे उदीरणा एकान्तसे पृथग्भूत है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उदयविशेषकी ही उदीरणा मंज्ञा है । इसलिए उदीरणाका कथन करने पर उदयका भी कथन हो ही गया । और जो थोड़ी-सा विशेषता है सो उभका यहाँ पर भी व्याख्यानकारकोंका व्याख्यान करना चाहिए, इसप्रकार इस आभिप्रायसे कर्मोदयकं व्याख्यानका यहा पर सूत्रकारन विस्तार नही किया, अर्थका समर्पणमात्र किया । इसलिए इसी देशामर्षक वचनका आश्रय कर कर्मोदयका यहाँ पर व्याख्यान करना चाहिए । इसप्रकार कर्मोदयका व्याख्यान करने पर प्रथम गाथाका अर्थ समाप्त होता है ।

❀ 'कौन जीव किम स्थितिमें प्रवेशक है' इम पदका आश्रय लेकर स्थिति उदीरणा करनी चाहिए ।

§ ४१५. प्रकृति उदीरणाके बाद आगे स्थितिउदीरणा करनी चाहिए, क्योंकि वह अवसर प्राप्त है । परन्तु वह स्थिति उदीरणा दूसरी गाथाके प्रथम पादमें निबद्ध है, यह बतलानेके लिए यह सूत्र अवतीर्ण हुआ है—कौन किस स्थितिमें प्रवेशक है ।

§ ४१६. इस पदका अर्थ स्थितिउदीरणासे सम्बन्ध रखता है, इसलिए स्थितिउदीरणाके स्वामित्वाविषयक पृच्छाके द्वारा प्रवृत्त हुए इस बीजपदका आश्रय कर स्थितिउदीरणाका व्याख्यान करना चाहिए । यह इसका भावार्थ है । और वह स्थितिउदीरणा मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतिरूप विषयके भेदसे दो प्रकारकी है यह ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ एत्थ द्विदिउदीरणा दुविहा—मूलपयडिद्विदिउदीरणा उत्तरपयडि-  
द्विदिउदीरणा च ।

४१७. एत्थ एदम्मि द्विदिउदीरणापरूवणावमरे मूलपयडिद्विदिउदीरणा  
उत्तरपयडिद्विदिउदीरणा चेदि दुविहा चेव द्विदिउदीरणा होइ, तदुभयवदिरेणेण द्विदि-  
उदीरणाए पयारंतरामंभवादो । एवं दुवियप्पाए द्विदिउदीरणाए अणियोगहारेहि विणा  
परूवणा ण मंभवदि त्ति तव्विमयाणमणियोगहाणमुवण्णामो कीरदे ।

❁ तत्थ इमाणि अणियोगहाराणि । तं जहा—पमाणापुगमां सामित्तं  
कालो अंतरं णाणाजावेहि भंगविचयां कालो अंतरं सणियासां अप्पाबहुअं  
भुजयारो पदणिकम्बेवो वड्ढी द्वाणाणि च ।

§ ४ ८. एत्थ सुगमत्त दो अणुवइहाणं मत्ता-णोसव्व-उक्कम्माणकम्म-जहण्णा-  
जहण्ण-मादिअणादि-धुव-अद्भुवाणियोगहाणमद्वाच्छेदाणतरणहमाग्गिहाणं भागाभाग-  
परिमाण-खेत्त-पोमणाणं च भंगविचयागतंरणिहेमजोगगाणं भाणणुगमम्म च मंगहो  
कायव्वो । ए च एदमिमणियोगहाणं गाहामुत्ते णिवधणं णत्थि त्ति आमंकाणज्ज,  
'मांतर-णिरंतरं वा०' इच्चेदंण गाहापच्छद्वेण सूचिदत्तादो । तदो मूलपयडिद्विदिउदीर-  
णाए सणियासां विणा तेवीममणियोगहाणणि भुजगार-पदणिकम्बेव-वड्ढि-द्वाणाणि च  
उत्तरपयडिद्विदिउदीरणाए वुण मणियासां मह चउवीममणियोगहाणणि मंपुण्णाणि

\* यहाँ स्थितिउदीरणा दो प्रकारकी हैं—मूलप्रकृति स्थितिउदीरणा और  
उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणा ।

४१७. यहा इम स्थितिउदीरणाके कथनके अवसर पर मूलप्रकृति स्थितिउदीरणा और  
उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणा यह दो प्रकारकी ही स्थितिउदीरणा हैं, क्योंकि उन दोनोंसे भिन्न  
स्थितिउदीरणाका प्रकारान्तर अमंभव है । इसप्रकार दो प्रकारकी स्थितिउदीरणाका अनुयोग-  
द्वारोंके बिना कथन सम्भव नहीं है, इसलिए तद्विषयक अनुयोगद्वारोंका उपनयन करत हैं—

\* उभयमें ये अनुयोगद्वार हैं । यथा—प्रमाणानुगम, स्वामित्व, काल, अन्तर,  
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय, काल, अन्तर, सन्निकर्ष, अल्पवहुत्व, भुजगार,  
पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ।

§ ४१८ यहा पर सुगम होनेसे नहीं कहे गये तथा अद्वाच्छेदके अनन्तर निर्देश योग्य  
ऐसे सर्व, नोमव्व, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य, सादि, अनादि, धुव, और अद्भुव अनु-  
नयोगद्वारोंका तथा भंगविचयके बाद निर्देश योग्य भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन  
अनुयोगद्वारोंका तथा भावानुगमका संग्रह करना चाहिए । इन अनुयोगद्वारोंका गायामूत्रमें  
संग्रह नहीं है ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि 'मांतर-णिरंतरं वा' इसप्रकार इस  
गाथाके उत्तरार्धके द्वारा इनका सूचन हुआ है । इसलिए मूलप्रकृति स्थितिउदीरणाके सन्निकर्षके  
बिना तईम अनुयोगद्वार तथा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये अनुयोगद्वार होते  
तथा उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणाके नो सन्निकर्षके साथ पूरे चोर्वस अनुयोगद्वार तथा भुजगार,

भुजगार-पदणिक्खेव-वड्ढि-ट्टाणाणि चेदि एमो एदस्स सुत्तस्म भावत्थो ।

❀ एदेसु अणियागद्दारेसु विहासिदेसु 'को कदमाए ढ्ढिदाए पवेसगो' ति पदं समत्तं ।

४१९. मंपहि मंदबुद्धिजणाणुगहट्टमेदेण ममप्पिदत्थपरूवणमुच्चारणाइगियो-  
वएमबलेण पयामइस्सामो । तं जहा—ड्ढिदिउदीरणा दुविहा—मूलपयडिड्ढिदिउदीरणा  
उत्तरपयडिड्ढिदिउदीरणा च । मूलपयडिड्ढिदिउदीरणाए ताव पयदं । तत्थ इमाणि  
तेवीममणियोगद्दाराणि एादव्वाणि भवन्ति पमाणाणुगमो जाअप्पावहुए ति भुज०  
पदाण० वड्ढीट्टाणाणि च ।

४२०. तत्थ पमाणाणु० दुविहं—जह० उक्क० । उक्क० पयदं । दुविहो  
णिहंमो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्क० ड्ढिदिउदीरणा मत्तग्गिमागरोवम-  
कोडाकोडीओ दोहिं आवलियाहिं ऊणाओ । एवं चदुगदीसु । णवरि पंचिदियतिग्गिख-  
अपज्ज०-मणुमअपज्ज० मोह० उक्क० ड्ढिदिउदीरणा मत्तग्गिमागरो०कोडाकोडीओ  
अतोमहुत्तणाओ । आणदादि सव्वट्टा ति मोह० उक्क० ड्ढिदिउदी० अंताकोडाकोडीओ ।  
एवं जाव० ।

पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये अनुयोगद्वार होते हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

❀ इन अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान करने पर 'कौन किस स्थितिमें प्रवेशक है' यह पद ममाप्त हुआ ।

४१९. अब मन्दबुद्धि जनोके अनुग्रहके लिए इसके द्वारा समर्पित अर्थका कथन उच्चारणाचार्यके उपदेशके बलसे प्रकाशित करेंगे । यथा—स्थितिउदीरणा दो प्रकारकी है मूलप्रकृति स्थितिउदीरणा और उत्तरप्रकृति स्थितिउदीरणा । सर्व प्रथम मूलप्रकृतिस्थितिउदीरणा प्रकृत है । उसमें ये तेईस अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं—प्रमाणानुगमसे लेकर अल्पबहुत्व तक तथा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ।

४२०. उससेसे प्रमाणानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा दो आवलि कम सत्तर कोडाकोड़ी सागरापम होती है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीय की उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्तर्मुहतेकम सत्तर कोडाकोड़ी सागरापम हाता ह । आनन कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धिकके दशोमे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोड़ी प्रमाण होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—माहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होने पर बन्धावलिसे वाद उद्यावलिसे उपरितन निपकोंका उदीरणा हानेपर वह दो आवलि कम सत्तर कोडाकोड़ी सागरापम प्राप्त हाता है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४२१. जहणणए पयदं । दुविहो णि०-- ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० जह० द्विदिउदीरणा एया द्विदी समयाहियावलयिकालद्विदिया । एवं मणुसतिए । आदेसेण एरइय० मोह० जह० द्विदिउदीरणा सागरोवमसहस्सस्स सत्तसत्तभागा पल्लिदो० संखेभागेण ऊणिया । एवं पढमपुट्टवि०-देवा भवण०-वाणवेंतर० । सेम-मगणामु द्विदिविहत्तिभंगो । एवरि उदीरणालावो कायव्वो ।

४२२. मव्वउदीरणा-णोसव्वउदीरणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मव्वआओ द्विदीओ उदीरेमाणस्स मव्वद्विदिउदीरणा । तदूणं णोसव्वद्विदि-उदीरणा । एवं जाव० ।

§ ४२३. उक्क०द्विदिउदी०-अणुक्क०द्विदिउदीरणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वुकुम्मियं द्विदिमुदीरेमाणस्स उक्क० द्विदिउदी० । तदूणमणुक्क०-द्विदिउदीरणा । एवं जाव० ।

§ ४२१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक समय अधिक एक आवलि काल स्थितिवाली एक स्थिति है। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक हजार सागरके सात भागोमेंसे पत्यका संख्यातवाँ भाग कम सात भाग-प्रमाण है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए। शंप मार्गणाओंमें स्थितिभिक्तिके समान भंग है। इनकी विशेषता है कि स्थितिसत्त्वके स्थानमें स्थितिउदीरणा कहनी चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ पर सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य स्थिति उदीरणा एक समय अधिक एक आवलि काल स्थितिवाली एक स्थिति कही है सो क्षपक सूक्ष्मसांपरायिकके संज्वलन सूक्ष्म लोभकी जब अधस्तन स्थिति एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण शंप रहती है तब यउ जघन्य स्थितिउदीरणा प्राप्त होती है। मनुष्यत्रिकमें ओघ प्ररूपणा अत्रिकल बन जानेसे उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य नारकी, प्रथम पृथिवीके नारकी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तरोंमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव मरकर उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलए इन मार्गणाओंमें असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके मोहनीय सम्बन्धी जघन्य स्थितिसत्त्वका ध्यानमें रखकर जघन्य स्थितिउदीरणाका प्रमाण कहा है। प्रमाणका उल्लेख मूलमें किया ही है। शंप कथन स्पष्ट है।

§ ४२०. सर्वउदीरणा और नोसर्वउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब स्थितियोंकी उदीरणा करनेवालेके सर्वस्थितिउदीरणा होती है और उससे न्यून स्थितियोंकी उदीरणा करनेवालेके नोसर्वस्थितिउदीरणा हांती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ४२३. उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सर्वोत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवालेके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है और उससे न्यून स्थितिकी उदीरणा करनेवालेके अनुत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा होती है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

१ ४२४. जह०उदीर०-अजह०द्विदि०-उदीरणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मव्वजहण्णयद्विदिमुदीरेमाणयस्म जह० द्विदिउदीरणा । तदो उवग्मिजह०द्विदिउदीरणा । एवं जाव० ।

१ ४२५. सादि०-अणादि०-ध्रुव०-अध्रुवाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क० अणुक्क० जह० किं सादि० ४ ? सादि-अध्रुवा । अजह०द्विदि-उदीर० किं सादि० ४ ? मादि० अणादि० ध्रुवा अध्रुवा वा । सेसगदीमु उक्क० अणुक्क० जह० अजह० मादि-अध्रुवा । एवं जाव० ।

४२६. मामिन्नाणुगमं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क०द्विदिउदी० कम्म ? अणुणद० उक्कम्मद्विदिं बंधिदूणावलिपादीदस्म । एवं चदुमु गदीमु । रावग्गि पंचि०तिग्गिक्खअपज्ज०-मणुम-

१ ४२४. जघन्य स्थितिउदीरणा और अजघन्य स्थितिउदीरणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सबसे जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाले जावके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । उससे ऊपर अजघन्य स्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

१ ४२५. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघमें मोहनीयकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य स्थितिउदीरणा क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । अजघन्य स्थितिउदीरणा क्या मादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव है । शेष गतियोंमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणा सादि और अध्रुव है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा पुनः पुनः प्राप्त हो सकती है, उचित उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणामें अनादि और ध्रुव ये दो विकल्प नहीं बन सकते । यही कारण है कि इन दोनों प्रकारकी उदीरणाओंको सादि और अध्रुव कहा है । जघन्य स्थितिउदीरणा उपशामक या तपकके होती है, इसलिए इसमें भी सादि और अध्रुव कहा है । किन्तु इसके पूर्व अजघन्य स्थितिउदीरणा अनादि है, उपशामकके जघन्य स्थितिउदीरणके बाद सादि है, तथा भव्योंमें अध्रुव और अभव्योंमें ध्रुव है, इसलिए इसे चारों प्रकारकी कहा है । यह ओघप्ररूपणा है । गति मार्गणाके उत्तर भेद कादाचिन्क है, इसलिए उनमें चारों प्रकारकी स्थितिउदीरणा सादि और अध्रुव कही है । शेष मार्गणाओंमें इसीप्रकार जहाँ जिस प्रकार सम्भव हो घटित कर लेना चाहिए ।

१ ४२६. स्वामित्वानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट स्थिति घाँधनेके बाद जिसे एक आवलि काल गया है ऐसा अन्यतर जाव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोह-

अपञ्ज० मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णद० मणुसो वा मणुसिणी वा पंचि०-  
तिरिक्खजोणिओ वा उक्कस्सट्टिदिं बंधिदूण अंतोमुहुत्तट्टिदिघादमकाऊण अपञ्ज०  
उववण्णो तस्म पढमसमयउववण्णल्लयस्स । आणदादि णवगेवजा त्ति मोह० उक्क०  
ट्टिदि०उदीर० कस्स ? अण्णद० दव्वलिगिणो तप्पाओग्गुक्कस्सट्टिदिसंत० पढमसमय-  
उववण्णल्लयस्स । अणुहिमादि सव्वट्टा त्ति मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णद०  
जो संजदो तप्पाओग्गुक्क०ट्टिदिमंत० पढमसमयउववण्णो तस्म उक्क०ट्टिदिउदीरणा ।  
एवं जाव ।

§ ४२७. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह०  
जह० ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णद० उवसामगस्स वा खवगस्स वा समयाहियावलिय-  
उदीरेमाणस्स । एवं मणुमतिए ।

§ ४२८. आदेसेण णोरइय० मोह० जह० ट्टिदि०उदी० कस्स ? अण्णद०  
असण्णिपच्छायददुसमयाहियावलियउववण्णल्लयस्स । एवं पढमाए देवा भवण०-  
वाणवें० । विदियादि जाव छट्टि त्ति मोह० जह०ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णद० दीहाए  
आउट्टिदीए उववज्जिऊण अंतोमुहुत्तेण मम्मत्तं पडिवज्जिय अणंताणु०चउक्कं० विसंजो-

नीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? जो मनुष्य, मनुष्यिनी या पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्  
योनिवाला अन्यतर जीव उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर स्थितिघात किये बिना अन्तर्मुहूर्तमें अपर्याप्तकों  
में उत्पन्न हुआ वह जीव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका  
स्वामी है । आनत कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका  
स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मवाला अन्यतर जो द्रव्यलिगी मरकर उक्त  
देवोंमें उत्पन्न हुआ वह उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका  
स्वामी है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका  
स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिमत्कर्मवाला जो अन्यतर संयत मरकर उक्त देवोंमें  
उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका स्वामी  
है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४२७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? उपशामक या क्षपक जो अन्यतर जीव  
एक समय अधिक आवलिप्रमाण स्थितिके रहनेपर उदीरणा कर रहा है वह मोहनीयकी  
जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए ।

§ ४२८. आदेशसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो  
असंज्ञी मरकर नरकमें उत्पन्न हुआ है और जिसे वहाँ उत्पन्न हुए दो समय अधिक एक  
आवलि हो गया है वह मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार प्रथम  
पृथिवीके नारकी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । दूसरीसे  
लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ?  
अन्यतर जो दीर्घ आयुस्थितिके साथ उत्पन्न होकर, अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और

एदूण तत्थ य भवट्टिदिमणुपालिय चग्गिममयणिप्पिडमाणयस्स । एवं जोदिमि० । मत्तमाए एवं चेव । णवग्गि तत्थ भवट्टिदिमणुपालेऊण थोवावसेसे जीविदव्वए ति मिच्छत्तं गदो जाव मक्कं ताव संतकम्मस्स हेट्ठा वंधिऊण ममट्टिदियं वा वंधिऊण संतकम्मं बोलेदूण वा आवलियादीदस्स तस्म जह० ट्टिदिउदीरणा ।

४२९. तिग्गिक्खेसु मोह० जह०ट्टिदिउदी० कम्म ? अण्णद० वादरेइंदियस्स हदसमुप्पत्तियस्स जाव मक्कं ताव संतकम्मस्स हेट्ठा वंधिऊण समट्टिदियं वा वंधिदूण संतकम्मं बोलेदूण वा आवलियादीदस्स तस्म जह० ट्टिदिउदी० । मव्वपंचिंदिय-तिग्गिक्ख-मणुमअपज्ज० मोह० जहण्णट्टिदिउदी० कम्म ? अण्णद० वादरेइंदियपच्छा० हदसमुप्पत्ति० आवलियउववण्णो तस्म जह० ट्टिदिउदी० । मोहम्मादि जाव मव्वट्टे ति मोह० जह० ट्टिदिउदी० कम्म ? अण्णद० ग्वइयसम्माइट्टि० उवममसेट्ठिपच्छाय० दीहाए आउट्टिदीए उववज्जिऊण चग्गिममयणिप्पिडमाणयस्स तस्म जह० ट्टिदिउदी० । एवं जाव० ।

४३०. कालाणुगमं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदसेण य । ओघेण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० जह० ण्यममओ, उक्क०

अनन्तानुबन्धीचतुष्ककौ विसंयोजना करके उसी अवस्थामें भवस्थितिका पालन कर जब अन्तिम समयमें वहाँसे निकलनेवाला होता है तब मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार ज्योतिषी देवोंमें स्वात्मत्व है । मानवी पृथिवीमें इमीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि वहाँ भवस्थितिका पालन कर जीवितव्यके स्तोक शेष रहनेपर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जब तक शक्य है तब तक सत्कर्मसे कम या समान स्थितिका बन्ध कर सत्कर्मको बिताते हुए जब एक आवलि काल चला जाता है तब वह जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है ।

४२९. निर्यञ्चोमे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? जो हत समुत्पत्तिक अन्यतर बादर पञ्चेन्द्रिय जीव जब तक शक्य है तब तक सत्कर्मसे कम या समान स्थितिका बाँधकर सत्कर्मको बिनाते हुए जब एक आवलि काल चला जाता है तब वह मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । सब पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चो और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? जिस हतसमुत्पत्तिक जीवको बादर पञ्चेन्द्रियोंसे आकर यहा उत्पन्न हुए एक आवलि हुआ है वह अन्यतर जीव मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी कौन है ? अन्यतर जा ज्ञायिकमभ्यगृष्टि जीव उपशमश्रेणसे आकर दीर्घ आयुस्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न होकर जब वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें स्थित होता है तब वह मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका स्वामी है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४३०. कालानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका

अंतोमु० । अणुक० जह० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखेजा योगगलपरियडा । एवं तिरिक्खाणं । णवरि अणुक० जह० एयस० ।

४३१. आदेशेण रोइय० उक० ड्ठिदिउदीर० जह० एयममओ, उक० अंतोमु० । अणुक० जह० एयम०, उक० नेत्तीमं सागरोवमाणि । एवं मव्वणोरइय० पंचिदिथतिरिक्खतिय ३-मणुमतिथ-देवा भवणादि जाव महम्माम त्ति । एवरि मगड्ठिदी ।

४३२. पंचिदिथतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मोह० उक० ड्ठिदि० उदीरणा जह० उक० एयस० । अणुक० जह० खुहाभवग्गहणं ममऊण, उक० अंतोमु० ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोम है । इतनी विशेषता है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है ।

**विशेषार्थ**—मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य बन्धकाल एक समय और उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त होनेमें उसकी उदीरणाका वह काल बन जानेसे उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । उत्कृष्ट स्थितिबन्धके बाद पुनः उसका बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके पहले नहीं होता और ऐसा जीव यदि एकेन्द्रियोंमें मरकर उत्पन्न हो जाता है और सबसे अधिक काल तक वहाँ तथा यथायोग्य अंशजियोंमें रहकर पुनः संज्ञी पर्याप्त होता है तो अधिकसे अधिक अनन्त काल बाद हा वहाँ उत्पन्न होता है । यही कारण है कि आघसे मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । तिर्यञ्चोम यह आघप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें आघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र तिर्यञ्चोम ऐसा जीव भी आकर उत्पन्न हो सकता है जो अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा एक समय तक करके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा करने लगे । यही कारण है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कहा है ।

४३१. आदेशसे नारकियोंमें उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल नेतीस माग है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चवृत्तिक, मनुष्यवृत्तिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर महस्त्राग कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

**विशेषार्थ**—पूर्वमें जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोम स्पष्टीकरण किया है उस प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए । यहाँ सर्वत्र जो अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अपनी अपना स्थितिप्रमाण कहा है सो उस उस गतिमें यथायोग्य सम्यक्त्व और मिथ्यात्व परिणामके साथ इसप्रकार रखे जिससे उस उस गतिमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तथा तदनुसार उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा न प्राप्त हो ।

४३२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कम लुल्लकभवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनन्त कल्पमें



आणदादि मन्वद्वा त्ति मोह० उक्क० द्विदि० उदी० जहण्णुक्क० एयस० । अणुक्क० जह० जहण्णद्विदी ममगुणा, उक्क० उक्कस्सद्विदी । एवं जाव० ।

४३३. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अजह० तिपिण भंगा । जो मो सादिओ सपज्जवसिदो जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियडुं ।

४३४. आदेसेण णेरइय० मोह० जह० द्विदिउदी० जहण्णुक्क० एयम० । अज० जह० आवलिया समयाहिया, उक्क० तेत्तीमं मागगेवमाणि । एवं पढमाण देवा भवण०-वाणवेंतर० । णवग्गि सगद्विदी ।

लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थिति-प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

**विशेषार्थ**—पूर्वोक्त दोनों लक्ष्यपर्याप्त जीवोंमें अरने स्वामित्वके अनुसार मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणा एक समय तक ही प्राप्त होती है, इसलिए इनमें इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस एक समयका लुल्लकभवके कालमेंसे कम भर देने पर इनमें मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनमें मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनमें मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इसीप्रकार आनादि देवोंमें स्वामित्वका विचार कर कालपरूपणा समझ लेनी चाहिए। विशेष वक्तव्य न हानेसे अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है।

४३३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउद्दीरणाके तीन भंग है। उनमें जो वह सादिमपर्यवसित भंग है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है।

**विशेषार्थ**—अपने स्वामित्वके अनुसार जघन्य स्थितिउद्दीरणा एक समय तक होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु किसी जीवके अर्ध-पुद्गलपरावर्तके प्रारम्भमें और अन्तमें यथायोग्य जघन्य स्थितिउद्दीरणा हो और मध्यमें अजघन्य स्थितिउद्दीरणा होती रहे तथा किसी जीवके अन्तर्मुहूर्त काल तक ही यह हो यह भा सम्भव है, इसलिए ओघमें अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उपार्थ पुद्गलपरावर्तप्रमाण कहा है।

४३४. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय अधिक एक आवलि और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसीप्रकार प्रथम पृथिवीके नारकी, सामान्य देव, भवनवामी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए।

४३५. विद्यादि छट्टि त्ति मोह० जह०ट्टिदिउदी० जहण्णुक्क० एयस० । अज० जहण्णुक्कस्सट्टिदी । एवं जोदिसियादि जाव सव्वट्टा त्ति । सत्तमाए मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० ।

४३६. तिरिक्खेसु मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अज० जह० एयस०, उक्क० असंखेजा लोगा । पंचिदियतिरिक्खतिए मोह० जह०ट्टिदिउदी० जहण्णुक्क० एयस० । अजह० जह० आवलिया समयूणा, उक्क०

**विशेषार्थ**— नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय जैसे पूर्वमें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ और आगे घटित कर लेना चाहिए। विशेषता न होनेसे उसका अलगसे गुलासा नहीं करेंगे। नरकमें अपने स्वामित्वके अनुसार जघन्य स्थितिउदीरणा यहाँ उत्पन्न होनेके बाद एक आवली और एक समय जानेपर द्वितीय समयमें ही प्राप्त होती है। इससे पूर्व अजघन्य स्थितिउदीरणा होती रहती है, इसलिए इनमें अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय अधिक एक आवलि कहा है। शेष कथन सुगम है।

४३५. दूसरी पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार ज्यातिपियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तंतीस सागर है।

**विशेषार्थ**—दूसरे नरकसे लेकर छठे नरक तक जघन्य स्थितिउदीरणा अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार भवके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है। अतः इनमें जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो उक्त नारकी उक्त प्रकारसे जघन्य स्थितिउदीरणा नहीं करते उनके सर्वदा अजघन्य स्थितिउदीरणा बन जानेसे इस अपेक्षा अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। ज्यातिपी देवोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें यह काल अपने स्वामित्वके अनुसार उक्त पद्धतिसे बन जाता है, अतः इनमें द्वितीयादि नरकोंके समान कालके जाननेकी सूचना की है। सातवें नरकमें अपने स्वामित्वके अनुसार जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है, इसलिए इनमें यह काल उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनमें अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जघन्य स्थितिउदीरणाके बाद प्राप्त होनेवाला लिया है। उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट भवस्थितिप्रमाण माना है यह स्पष्ट ही है।

४३६. तिर्यञ्चोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यान लोकप्रमाण है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिकमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल

सगड्ढिदी । एवं पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० । णवरि अजह० उक्क० अंतोमु० । मणुसतिए मोह० जह०ड्ढिदिउदी० जहणुक्क० एयसमओ । अज० जह० एयसमओ, उक्क० मगड्ढिदी । एवं जाव० ।

§ ४३७. अंतरं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्क०ड्ढिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंत-कालमसंखेजा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं तिरिक्खेसु ।

§ ४३८. आदेसेण एेरइय० मोह० उक्क०ड्ढिदिउदी० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसां सागरो० देसूणाण । अणुक्क० ओघं । एवं सब्वएेरइय० । णवरि सगड्ढिदी

एक समय कम एक आवर्तल है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकमं मोहनीयकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गगा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—पूर्वमे जो मुलासा कर आये हैं उसे ध्यानमे रखकर तथा अपने-अपने रवामित्वका लक्ष्यमें रखकर उक्त विषयका सर्पिकरण हो जाता है, इसलिए यहाँ अलगसे मुलासा नहीं किया ।

§ ४३७ अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इमीप्रकार तिर्यञ्चोमे है ।

**विशेषार्थ**—मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हाकर पुनः उसका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्तक पहल नहीं होता तथा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है । यही कारण है कि यहाँ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक समय तक हो यह भी नियम है और अन्तर्मुहूर्त काल तक हो यह भी नियम है । इसीसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोमे यह ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४३८. आदेशसे नारकियोंमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीम सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है

देमूणा । पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुसतिण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अणुक्क० ओघं । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुमअपज्ज० आणदादि मव्वट्ठा त्ति मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० अणुक्क०ट्टिदिउदी० एत्थि अंतरं । देवेसु मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टारस सागरो० सादिरैयाणि । अणुक्क० ओघं । एवं भवणादि जान सहस्सार त्ति । णवरि सगट्टिदी । एवं जाव० ।

§ ४३९. जहणो पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० उव्वड्डपोपरियट्ठं । अजह० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ४४०. आदेसेण गेरइय० मोह० जह०ट्टिदिउदी० णत्थि अंतरं । अज०

कि कुक कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और मनुष्यत्रिकमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व-कोटिपृथक्त्वप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । देवोंमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार भवन-वासियोंसे लेकर महस्मारकल्प तकके देवोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । इसीप्रकार अनाहासक मार्गणा तक अन्तरकाल घटित कर जान लेना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने-अपने स्वामित्वके अनुभार मात्र भवके प्रथम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इनमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाके अन्तरकाल-का निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४४६. जघन्य प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—उपशामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । यही कारण है कि यहां मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा जो उपशामक जघन्य स्थितिउदीरणा करके दूसरे समयमे भरकर देव हो जाता है उसके मोहनीयकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है और उपशामकके मोहनीयकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है, इसलिए यहां मोहनीयकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त कहा है ।

§ ४४०. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं

जहण्णुक्क० एयम० । एवं पढमाए मव्वपंचि०तिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-देवा भवण०-  
वाणवेंतग ति । विदियादि ङ्ङि ति मोह० जह०-अजह०ट्टिदि०उदीग० णत्थि  
अतरं । एवं जोदिमियादि जाव सव्वट्ठा ति । सत्तमाए मोह० जह०ट्टिदिउदी० णत्थि  
अंतरं । अजह० जह० एयममओ, उक्क० अंतोमु० । तिरिक्खेसु मोह० जह०ट्टिदि-  
उदीग० जह० अंतोमु०, उक्क० अमंखेजा लोगा । अज० जह० एयस०, उक्क०  
अंतोमु० । मणुमतिए मोह० जह०ट्टिदि०उदी० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडि-  
पुध० । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

४४१. णाणाजीवभंगविचयाणुगमं द्विविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं ।  
द्विविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण उदीरगेसु पय० । अणुदीरगेसु अव्ववहारो ।  
एदेण अट्टपदेण उक्कस्सियाए ट्टिदीए सव्वे अणुदीरगा, मिया अणुदीरगा च उदीरगो  
च, मिया अणुदीरगा च उदीरगा च । अणुक्कस्मट्टिदीए मिया मव्वे उदीरगा, मिया  
उदीरगा च अणुदीरगो च, मिया उदीरगा च अणुदीरगा च । एवं चदुसु गदीसु ।

है । अजघन्य स्थितिउदीरगाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसीप्रकार  
प्रथम पृथिवी, सब पञ्च इन्द्रिय निर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवतन्वाभी और व्यन्तर  
देवोंमें जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मोहनीयकी  
जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरगाका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार ज्यातिपियोंसे लेकर  
सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरगा-  
का अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरगाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है  
और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तिर्यञ्चोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरगाका  
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य  
स्थितिउदीरगाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकमें  
मोहनीयकी जघन्य स्थितिउदीरगाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-  
पृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरगाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां प्रतिपादित सभी मार्गणाओंमें स्वाभित्वको जानकर अन्तरकाल घटित  
कर लेना चाहिए । सुगम होनेसे विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया ।

४४१. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट ।  
उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उदीरकोंका प्रकरण  
है, अनुदीरक व्यवहार योग्य नहीं हैं । इस अर्थपदके अनुसार उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित् सब  
अनुदीरक है, कदाचित् नाना जीव अनुदीरक हैं और एक जीव उदीरक है, कदाचित् नाना जीव  
अनुदीरक है और नाना जीव उदीरक हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके कदाचित् सब जीव उदीरक हैं,  
कदाचित् नाना जीव उदीरक हैं और एक जीव अनुदीरक है, कदाचित् नाना जीव उदीरक है  
और नाना जीव अनुदीरक हैं । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है

णवरि मणुमअपज्ज० मोह० उक्क०-अणुक्क०ट्टिदिउदीर० अट्टु भंगा । एवं जाव० ।

§ ४४२. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण तं चेव अट्टुपदं कादूण मोह० जह०-अजह०ट्टिदिउदीरगाणं तिण्ण भंगा । एवं चदुसु गदीसु । णवरि तिरिक्खेसु जह०-अजह०ट्टिदिउदीरगा णिय० अत्थि । मणुमअपज्ज० जह०-अजह० अट्टुभंगा । एवं जाव० ।

§ ४४३. भागाभागाणु० दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० मव्वजी० केव० ? अणंत-भागो । अणुक्क० अणंत भागा । एवं तिरिक्खेसु । आदेसेण एरइ० मोह० उक्क०-ट्टिदिउदी० अमंखे०भागो । अणुक्क० अमंखेजा भागा । एवं सव्वएरइय०-सव्व-पंचिदियतिरिक्ख-मणुम-मणुमअपज्ज०-देवा जाव अवरइदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुमिणी-सव्वट्टुदेवेसु उक्कस्सट्टिदिउदी० मंखे०भागो । अणुक्क० संखेजा भागा । एवं जाव० ।

§ ४४४. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० जह०ट्टिदिउदीर० मव्वजी० केव०भागो ? अणंतभागो । अजह० अणंत भागा ।

कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंके आठ भंग हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४४२. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उसी अर्थपदका करके मोहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके तीन भंग जानने चाहिए । इसीप्रकार चारों गणियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंमें जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव नियमसे है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके आठ भंग हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४४३. भागाभागानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण है । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और अप राजित कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४४४. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें

आदेशेण एर० मोह० जह० द्विदिउदी० असंखे० भागो । अजह० असंखेजा भागा । एवं सव्वएरइय०-मव्वतिरिक्ख-मणुम-मणुमअपज्ज०-देवा जाव अवरजिदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-मव्वट्टदेवा जह० द्विदिउदीर० संखे० भागो । अज० संखेजा भागा । एवं जाव० ।

‡ ४४५. परिमाणं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेशेण य । ओघेण मोह० उक्क० द्विदिउदी० केत्तिया ? असंखेजा । अणुक्क० द्विदिउदी० केत्ति० ? अणंता० । एवं तिरिक्खा० । आदेशे० एरइय० मोह० उक्क०-अणुक्क० द्विदिउदी० केत्ति० ? असंखेजा । एवं सव्वएरइय०-सव्वपच्चि-दियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति । मणुसेसु मोह० उक्क० द्विदिउदी० केत्ति० ? संखेजा । अणुक्क० द्विदि० उदीर० केत्ति० ? असंखेजा । एवमाणदादि जाव अवरजिदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-सव्वट्टदेवेसु उक्क० अणुक्क० द्विदिउदीर० केत्ति० ? संखेजा । एवं जाव० ।

‡ ४४६. जह० पय० । दुवि० णिहेमो—ओघेण आदे० । ओघे० मोह० जह० द्विदिउदी० केत्ति० ? संखेजा । अजह०-द्विदिउदी० केत्ति० । अणंता । आदे०

भागप्रमाण हैं, अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण है । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ-सिद्धिके देवोंमें जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके संख्यात बहुभागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

‡ ४४५. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी-प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इसीप्रकार आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ-सिद्धिके देवोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

‡ ४४६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक

ए० मोह० जह०-अजह० द्विदिउदीर० केत्ति० ? असंखेजा । एवं पढमाए सत्तमाए सव्वपंचि०तिरिक्ख-मणुसअप०-देवा भवण०-वाणवे० । विदियादि द्दड्ढि त्ति मोह० जह०द्विदिउदी० केत्ति० संखेजा । अजह० केत्ति० असंखेजा । एवं मणुस-जोदिसियादि जाव अवराजिदा त्ति । तिरिक्खेसु मोह० जह०-अजह० केत्ति० ? अणता । मणुसपज्ज०-मणुमिणी०-सव्वदृदेवा मोह० जह०-अजह०द्विदिउदी० केत्ति० ? संखेजा । एवं जाव० ।

४४७. खेत्ताणु० दुविहो—जह० उक्क० । उक्क० पयदं । दुविहा णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क०द्विदिउदीर० केवडि खेत्ते ? लोगस्स असंखे०भागे । अणुक्क० केव० खेत्ते ? मव्वलोगे । एवं तिरिक्खा० । आदेसेण सेमगदीसु मोह० उक्क०-अणुक्क० द्विदिउदी० लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० ।

४४८. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० जह०द्विदिउदीर० लोग० असंखे०भागे । अज० सव्वलोगे । तिरिक्खेसु मोह० जह०-द्विदिउदी० लोग० संखे०भागे । अज० सव्वलोगे । सेमगदीसु जह०-अजह० लोग०

जीव कितने है ? अनन्त है । आदेशोंमें नारकियोंमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इस प्रकार प्रथम पृथिवी और सातवीं पृथिवीके नारकी तथा सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सामान्य मनुष्य तथा ज्योतिषियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४४७. क्षेत्रानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे माहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वलोक क्षेत्र है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । आदेशसे शेष गतियोंमें माहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४४८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सर्वलोक क्षेत्र है । तिर्यञ्चोंमें माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सर्वलोक क्षेत्र है । शेष गतियोंमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका



असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ४४९. पोसणं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो अट्ट-तेरह-  
चोहम० । अणुक्क० सव्वलोगो ।

§ ४५०. आदेसेण रोइय० मोह० उक्क०-अणुक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०-  
भागो छचोहस० । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । एवरि सगपोमणं । पढमाए खेत्तं ।  
तिरिक्खेसु मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो छचोहस० । अणुक्क०  
सव्वलोगो । पंचिदियतिरिक्खतिण्ण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो  
छचोहस० देखणा । अणुक्क० ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—तिर्यञ्चोमे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक वं हतसमुत्पत्तिक बादर  
एकेन्द्रिय जीव होते हैं जो सत्कर्मसे कम या सम स्थितिको बोधकर एक आवलिके बाद उसकी  
उदीरणा करते हैं । यही कारण है कि यहाँ इनका क्षेत्र लोकके मंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।  
शंप क्षेत्र सम्बन्धी सब कथन सुगम है ।

§ ४४९. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश  
दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोमेमे कुछ कम आठ आर तेरह  
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है ।

**विशेषार्थ**—यहाँ त्रसनालीके चौदह भागोमेमे कुछ कम आठ भागप्रमाण रपर्शन  
विहारवस्वस्थानकी अपेक्षा और कुछ कम तेरह भागप्रमाण स्पर्शन मारणान्तिक समुद्रघातकी  
अपेक्षा कहा है । शंप कथन सुगम है ।

४५०. आदेशसे नारकियोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने  
लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोमे से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका  
स्पर्शन किया है । इसीप्रकार दूसरीसे लेकर मातवी पृथिवी तकके नारकियोमे जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । प्रथम पृथिवीमे क्षेत्रके समान  
स्पर्शन है । तिर्यञ्चोमे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और  
त्रसनालीके चौदह भागोमे से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट  
स्थितिके उदीरकोने सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मोहनायकी  
उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ  
कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोने लोकके  
असंख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

**विशेषार्थ**—यहाँ सामान्य तिर्यञ्चो और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मोहनीयकी उत्कृष्ट  
स्थितिके उदीरकोका त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भागप्रमाण स्पर्शन मारणान्तिक

§ ४५१. पंचि०तिरि०अपञ्ज०-सव्वमणुस० मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ४५२. देवेसु मोह० उक्क०-अणुक्क०ट्टिदिउदीर० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइस देवणा । एवं सोहम्मीमाणे । भवण०-वाण०-जोदिमि० मोह० उक्क०-अणुक्क०ट्टिदिउदीर० लोग० असंखे०भागो अट्टधुट्टा वा अट्ट-णवचोइस० । मणकुमा-गदि सहस्सारे त्ति मोह० उक्क०-अणुक्क०ट्टिदि०उदीर० लोग० असंखे०भागो अट्टचोह० दे० । आणदादि अच्चुदा त्ति मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो छचोइस० । उवरि खेत्तं । एवं जाव० ।

४५३. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह०

समुद्घातकी मुख्यतासे बतलाया है, क्योंकि ऐसे जीवोंका नीचे सातवां पृथिवीतकके नार्गकियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करना बन जाता है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४५१ पचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य रूपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—जां मनुष्य, मनुष्यनी या पचेन्द्रिय तिर्यच उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर और उसका घात किये बिना अन्तर्मुहर्तमें उक्त दोनों प्रकारके जीवोंमें मरकर उत्पन्न होत हैं उन्हींके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा होनी है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः इनमें यह स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४५२ देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ तथा कुछ कम नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और उद्योतिषी देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग तथा कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सनत्कुमारसे सहस्रार कल्प तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आननसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आगेके देवोंमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ अपनी-अपनी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाके स्वामित्वका विचार कर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । सामान्य और अत्रान्तर देवोंका जो स्पर्शन बतलाया है उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है । इसलिए इसका स्पष्टीकरण नहीं किया ।

§ ४५३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे

जह०ट्टिदिउदीर० लोग० असंखे०भागो । अज० सव्वलोगो । आदेसे० एरइय० मोह०  
जह०ट्टिदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो छचोदम०  
देसूणा । एवं विदियादि मत्तमा त्ति । णवग्गि मगपोसणं । पढमाए खेत्तं ।

४५४. तिरिक्खेसु मोह० जह०ट्टिदिउदी० लोग० संखे०भागो । अज०  
मव्वलोगो । मव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्सेसु मोह० जह० लोग० असंखे०भागो ।  
अज० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । देवा जाव महस्सार त्ति जह०ट्टिदि-  
उदीर० लोग० असंखे०भागो । अजह० मगपोसणं । आणदादि अच्चुदा त्ति जह०  
लोग० असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो छचोदम० देसूणा । उाग्गि  
खेत्तं । एवं जाव० ।

४५५. कालाणु० दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि० —  
ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० पल्लिदो०

मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है । आदर्शन नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमें से कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार दूमरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशयता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है ।

§ ४५४. तिर्यञ्चोमे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है ।  
सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके  
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके  
असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सामान्य देव और सहस्रार  
कल्पतकके देवोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण  
क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अपना-अपना स्पर्शन है । आनतसं  
लेकरअच्युत कल्प तकके देवोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें  
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें  
भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।  
ऊपरके देवोंमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

त्रिशेषार्थ—स्वामित्व और अपने-अपने स्पर्शनका विचार कर यह स्पर्शन घटित कर  
लेना चाहिए ।

§ ४५५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका  
प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके  
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

असंखे०भागो । अणुक० मव्वद्धा । एवं सव्वणोरइय०-तिरिक्खत्तपिचंदियतिरिक्खत्तिय-  
देवा भवणादि जाव महस्मार ति ।

४५६. पंचि०तिरि०अपज्ज० मोह० उक्क०ट्टिदिउदीर० जह० एयस०, उक्क०  
आवलि० असंखे०भागो । अणुक० सव्वद्धा । एवं मणुसअपज्ज० । णवदि अणुक०  
जह० खुहाभवगहणं समयूणं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो ।

४५७. मणुमतिए मोह० उक्क०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।  
अणुक० मव्वद्धा । आणदादि मव्वद्धा ति मोह० उक्क०स्स-ट्टिदिउदी० जह० एयस०,  
उक्क० संखेजा समया । अणुक० सव्वद्धा । एवं जाव० ।

अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यच, पंचेन्द्रिय तिर्यचत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बतला आये हैं । अब यदि नाना जीव मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा एक समय तक करें और द्वितीयादि समयमें न करें तो यह भी सम्भव है आर सन्तानमें भंग पड़े बिना लगातार करते रहें तो यह काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाणसे अधिक नहीं हो सकता । इसी बातका विचार कर यहाँ मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४५६. पचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवप्रहण-प्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—उक्त जीवोंमें एक जीवकी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बतला आये हैं । यही कारण है कि यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

४५७. मनुष्यत्रिकमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—यहाँ सामान्य मनुष्योंमें शेष दो प्रकारके मनुष्योंकी मुख्यता है, इसलिए इनमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा यदि नाना जीव लगातार करते रहें तो भी उस कालका योग अन्तर्मुहूर्त हो हागा । यही कारण है कि यहाँ इनमें उत्कृष्ट स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट

१ ४५८. जह० पयदं । दृविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह०  
ऽह०ट्टिदि० जह० एयस०, उक्क० मग्गेज्जा ममया । अज० मव्वद्वा । एवं विदियादि  
व्वट्टि ति मणुमतिए जोदिसियादि मव्वट्टा ति ।

४५९. आदेसेण एरइय० मोह० जह०ट्टिदिउदीर० जह० एयस०, उक्क०  
आवलि० असंखे०भागो । अज० सव्वद्वा । एवं पढमाण सव्वर्पांचिदियातिरिक्ख-देवा०  
भवण०-त्राणवें० । मत्तमाण मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० पलिदो०  
असंखे०भागो । अज० सव्वद्वा । तिरिक्खेसु मोह० जह०-अज० मव्वद्वा । मणुम-  
अपज्ज० मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।  
अज० जह० आवलिया ममयूणा, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार आननादि कल्पोंमें भवके प्रथम समयमें ही माहनीयका उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा बनती है। अब यदि ऐसी उदीरणा करनेवाले नाना जीव लगातार इन कल्पों और कल्पार्तीतांमें उत्पन्न होता संख्यात समय तक ही यह कर चल सकता है। यही कारण है कि इनमें माहनीयकी उत्कृष्ट स्थि तक उदीरकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

४५८ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार दूमरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकी, मनुष्यत्रिक और ज्वालामुखियोंमें लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—स्व मित्वको ध्यानमें लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि माहनीयकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार संख्यात समय तक ही हो सकती है। यही कारण है कि यहाँ माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है। आगे भी सुगम होनेसे अलग-अलग खुलामा नहीं करेंगे।

४५९. आदेशसे नारकीमें माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार प्रथम पृथिवीके नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य देव भवनवामी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। तिर्यञ्चोंमें माहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें माहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ४६०. अंतरं दुविहं—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मोह० उक०ट्टिदिउदी० अंतरं जह० एयसमओ, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणुक० णत्थि अंतरं । एवं चदुसु गदीसु । एवरि मणुसअपज्ज० मोह० अणुक० जह० एयस०, उक० पलिदी० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ४६१. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० जह०ट्टिदिउदी० अंतरं जह० एयसमओ, उक० छम्मासा । अज० णत्थि अंतरं । एवं मणुमतिए । णवरि मणुसिणी० वासपुधत्तं ।

४६२. आदेसेण एगइय० मोह० जह०ट्टिदिउदी० जह० एयम०, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अज० णत्थि अंतरं । एवं सव्वएोरइय०-सव्वर्पंचिदियतिरिक्ख-सव्व-देवा त्ति । तिरिक्खेसु मोह० जह०-अज० णत्थि अंतरं । मणुमअपज्ज० मोह०

§ ४६०. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा कोई भी जीव न करे तो अंगुलके असंख्यातवें भाग काल तक वह नहीं होती, इसके बाद उसके उदीरक एक या नाना जीव अवश्य होते हैं । यही कारण है कि यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अन्तर काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह माह है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार मनुष्यविक्रममें जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें जघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—मनुष्यनियोंका उपशम और क्षपक श्रेणिपर आरोहणका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है इसलिए इनमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४६२. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें मोहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य

जह०ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अज० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ ४६३. भावो उक०-अणुक० जह० अजह० सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ४६४. अप्पावहुअं दुविहं—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थोवा मोह० उक०ट्टिदिउदी० । अणुक०ट्टिदिउदी० अणंतगुणा । एवं निरिक्खा० । आदे० गेर० मोह० सव्वत्थोवा उक०ट्टिदिउदी०, अणुक०ट्टिदिउदी० असंखेजगुणा । एवं मव्वणेरइय०-सव्वपचिंदियतिग्गिस्स-मणुस-मणुसअपज्ज०-देवा अवराजिदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-सव्वट्टेदेवा मव्वत्थो० मोह० उक०ट्टिदिउदी०, अणुक०ट्टिदिउदी० संखे०गुणा । एवं जाव० ।

§ ४६५. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थो० मोह० जह०ट्टिदिउदी०, अज०ट्टिदिउदी० अणंतगुणा । आदेसे० गेरइय० सव्वत्थो० मोह० जह०ट्टिदिउदी०, अज०ट्टिदिउदी० असंखे०गुणा । एवं मव्वणेरइय०-सव्व-अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है । आगममें इसका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है । उस ध्यानमें रखकर यहाँ मोहनीयकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४६३. भाव—मोहनीयकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सर्वत्र औद्यिक भाव है ।

§ ४६४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । इसीप्रकार तिर्यचोंमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर अपराजित-विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ४६५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सब नारकी,

तिरिक्ख-मणुस-मणुमअपज्ज०-देवा जाव अवरइदा त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-  
सव्वहुदेवा० सव्वत्थोवा मोह० जह०ट्टिदिउदी०, अज० ट्टिदिउदीर० संखे०गुणा ।  
एवं जाव० ।

§ ४६६. भुजगारट्टिदिउदीरणाए तत्थ इमाणि तेरस अणियोगहाराणि—समु-  
क्कित्तणा जाव अप्पावहुए त्ति । समुक्कित्तणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० ।  
ओघेण मांह० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त०ट्टिदि०उदीरगा । एवं मणुसतिए ।  
आदेसेण णेरइय० मोह० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्टि०ट्टिदिउदी० । एवं सव्वणेरइय०-  
मव्वतिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-देवा जाव सहस्सर त्ति । आणदादि सव्वाट्टा त्ति मोह०  
अत्थि अप्पदर०उदीर० । एवं जाव० ।

४६७. मामित्ताणु० दुविहो णिहेमो—ओघेण आदेसे० । ओघेण भुज०  
अवट्टि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टि० । णवरि सेट्ठिविक्खणाए भुज० मम्माइट्टिस्स  
वि लब्भइ । एदमेत्थ ण विवक्खियं । अप्प० कम्म ? अण्णद० मम्माइट्टि० मिच्छा-  
इट्टि० । अवत्त० कम्म ? अण्णद० जो उत्रमामगो परिवदमाणगो मणुमो देवो वा  
पट्ठमसमयउदीरगो । एवं मणुमतिए । णवरि देवो त्ति ण भाणिदव्वो । एवं सव्व-

सव तिर्यञ्च, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें मोहनीयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात-गुणे हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ४६६. भुजगार स्थिति उदीरणांमे वहाँ ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक। समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव हैं। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए। आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

§ ४६७. स्वामित्वकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे भुजगार और अवस्थित स्थितिकी उदीरणा किसके होती है? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। इनकी विशेषता है कि श्रेणिकी विवक्षामें भुजगार स्थितिकी उदीरणा सम्यग्दृष्टिके भी प्राप्त होती है। किन्तु इसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। अल्पतर स्थितिकी उदीरणा किमके होती है? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है। अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा किसके होती है? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक मनुष्य या (मरण होनेपर) देव प्रथम समयमें मोहनीयकी स्थितिका उदीरक है उसके मोहनीयकी अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा होती है। इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें देव पदका आलाप



णेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय०-देवा जाव सहस्सार त्ति । णवरि अवत्त० पत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वपदाणि कस्स ? अण्णद० । आणदादि सव्वट्ठा त्ति मोह० अप्प० कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव० ।

४६८. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० भुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि ममया । अप्प० जह० एयम०, उक्क० तेवट्ठिसागरोवम-सदं तिण्णि पत्तिदो० सादि० । अवट्ठि० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एयसमओ ।

४६९. आदेसेण णेरइय० मोह० भुज० जह० एयम०, उक्क० तिण्णि समया । अप्प० जह० एयम०, उक्क० तेत्तीसं मागरो० देसूणाण । अवट्ठि० ओघं । एवं पढमाए । एवरि सागरोवमं देसूणं ।

नहीं करना चाहिए । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं । आन्त कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मोहनीयकी अल्पतरस्थितिकी उद्दीरणा किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी भुजगारस्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अल्पतर स्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और तीन पत्य अधिक एक सौ त्रैसठ सागर हैं । अवस्थित स्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यस्थितिके उद्दीरकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

**विशेषार्थ**—स्थितिबिभक्ति पु० भाग ३ पृ० ६८ में भुजगार आदि तीन पदोंका स्थिति-सत्त्वकी अपेक्षा जैसा खुलासा किया है उन्हीं प्रकार यहाँ उद्दीरणाकी अपेक्षा खुलासा कर लेना चाहिए । इतना विशेष है कि यह काल उद्दीरणाकी अपेक्षा जैसे घटित हो वैसे आलापके साथ कहना चाहिए । अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणा उपशमश्रेणिसे गिरने समय मूढमसापराय गुणस्थानके प्रथम समयमें या मरण कर देव होनेके प्रथम समयमें ही होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा ।

४६९. आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयकी भुजगारस्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अल्पतरस्थितिके उद्दीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ तृतीस सागर है । अवस्थितस्थितिके उद्दीरकका काल आघके समान है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । इतना विशेषता है कि यहाँ अल्पतरस्थितिके उद्दीरकका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर है ।

**विशेषार्थ**—नरकमें असती जीवार्थी लेकर उत्पत्ति सम्भव है, इस अपेक्षास यहाँ पर भुजगारस्थितिकी उद्दीरणाके तीन समय ही बन सकत है । यही कारण है कि नारकियोंमें

§ ४७०. विदियादि सत्तमा ति भुज० जह० एयस०, उक्क० वे समया । अप्प० जह० एयस०, उक्क० सगड्ढिदी देखणा । अवड्ढिदमोवं ।

§ ४७१. तिरिक्खेसु भुज०-अवड्ढि० ओघं । अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० भादिरेयाणि । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिए । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० भुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि समया । अप्प०-अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ४७२. मणुसतिए भुज० जह० एयस०, उक्क० चत्तारि ममया । अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडितिभागेण भादिरेयाणि । एवरि मणुमिणी० अंतोमुहुत्तेण भादिरेगे । अवड्ढि०-अवत्त० ओघं ।

४७३. देवेसु भुज० जह० एयस०, उक्क०, तिण्णि ममया । अप्प० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीम मागरोवमं । अवड्ढि० ओघं । एव भवण०-वाणवेत्त० । णवरि  
भुजगारस्थितिके उदीरकका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है । यहाँ अद्भुतज्ञय, शरीर ग्रहण और संक्लेशज्ञयसे भुजगारके तीन समय प्राप्त कर भुजगार स्थितिउदीरणाके तीन समय प्राप्त करने चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

§ ४७०. दूसरीसे लेकर सातवां पृथिवी तकके नारकयोमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अवस्थितस्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है ।

**विशेषार्थ**—इन नरकोंमें असंख्य जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें अद्भुतज्ञय और संक्लेशज्ञयसे ही भुजगारस्थिति उदीरकके दो समय प्राप्त होते हैं । शेष कथन सुगम है ।

§ ४७१. तिर्यञ्चोमें भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यचत्रिकमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

४७२ मनुष्यत्रिकमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनीमें यह काल अन्तर्मुहूर्त अधिक तीन पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है ।

§ ४७३. देवोंमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तैत्तीस माग है । अवस्थितस्थितिके उदीरकका काल ओघके समान है । इसीप्रकार भवनवासी और

सगड्ढिदी । जोदिसियादि सहस्सारे त्ति एवं चेव । णवरि भुज० जह० एयस०, उक्क०  
बेसमया । आणदादि सव्वट्ठा त्ति मोह० अप्प० जह० उक्क० जहण्णुकस्सट्ढिदी ।  
एवं जाव० ।

‡ ४७४. अंतराण० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० भुज०-  
अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० तेवट्ठिमागरोवममदं तिण्णि पलिदोवमं सादिरियं ।  
अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्ढ-  
पोग्गलपरियट्ठं ।

‡ ४७५. आदेसेण एेरइय० भुज०-अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं  
मागरोवमं देसूणं । अप्प० ओघं । एवं मव्वणेरइय० । णवरि सगड्ढिदी देसूणा ।  
तिरिक्खेसु भुज०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प०

व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।  
ज्योतिषियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है  
कि इनमें भुजगारस्थितिके उदीरकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय  
हैं । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें माहनीयकी अल्पतरस्थितिके उदीरकका  
जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**— कालका प्रारम्भमें ओघसे और कतिपयगति मार्गणाके भेदोंकी अपेक्षा  
जो स्पष्टीकरण किया है उसे ध्यानमें लेनेपर शेष गतिमार्गणाके भेदोंमें स्पष्टीकरण करनेमें  
कठिनाई नहीं जाती, इसलिए अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है ।

‡ ४७४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनोयकी भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य अधिक एक सौ त्रेसठ सागर है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्यस्थितिके उदीरकका  
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**— पहले अल्पतरस्थितिके उदीरकका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य अधिक  
एक सौ त्रेसठ सागर बतला आये हैं । वही यहाँ भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका  
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए यह तत्प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

‡ ४७५. आदेशसे नारकियोंमें भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य  
अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तत्तीस सागर है । अल्पतरस्थितिके  
उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तिर्यञ्चोंमें भुजगार और  
अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल  
पल्यके अमंख्यातवे भागप्रमाण है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान

ओघं । पंचिंदियतिरिक्खतिए भुज०-अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ४७६. मणुमतिए भुज०-अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अप्प० ओघं० ।

§ ४७७. देवेषु भुज०-अवट्टि० जह० एगम०, उक्क० अट्टारससागरोवमं सादिरेयं । अप्प० ओघं । एवं भवणादि जाव महस्सार त्ति । एवरि मगट्टिदी देसूणा । आणदादि मव्वट्टा त्ति अप्प० णत्थि अंतरं । एवं जाव० ।

४७८. णाणाजीवभंगविचयाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० भुज०-अप्प०-अवट्टि० णिय० अत्थि, मिया एदे च अवत्तगो च, मिया एदे

है । पंचेन्द्रिय तिर्यचत्रिकमें भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ—**सामान्य तिर्यचोमें एकेन्द्रिय जीव भी सम्मिलित है और उनमे अल्पतर स्थितिकी उदीरणाए उत्कृष्ट काल पत्यके असंग्यातर्वे भागप्रमाण प्राप्त होता है । उसे ख्यालमें रखकर ही यहाँ सामान्य तिर्यचोमें भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंग्यातर्वे भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४७६ मनुष्यत्रिकमे भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अवक्तव्यस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । अल्पतरस्थितिके उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान है ।

**विशेषार्थ—**जो मनुष्य आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त होनेपर सम्यक्त्व उपार्जित कर भवके अन्तर्मुहूर्त पूर्व तक सम्यग्दृष्टि रहकर मिथ्यादृष्टि हो जाता है उसीके भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि बनता है । इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर मनुष्यत्रिकमें यह अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४७७. देवोंमें भुजगार और अवस्थितस्थितिके उदीरकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर है । अल्पतर स्थितिके उदीरकका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पतर स्थितिके उदीरकका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जाना चाहिए ।

§ ४७८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे

च अवत्तगा च । आदेशेण एरइय० अप्प०-अवट्टि० णियमा अत्थि, मिया एदे च भुजगारओ च, मिया एदे च भुजगारगा च । एवं सव्वएरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-देवा जाव सहस्मार ति । तिरिक्खेसु भुज०-अप्प०-अवट्टि० णिय० अत्थि । मणुसतिण् अप्प०-अवट्टि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । मणुसअपज्ज० सव्वपदा भयणिज्जा । आणदादि सव्वट्टा ति अप्प० णिय० अत्थि । एवं जाव० ।

§ ४७९. भागाभागाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेशे० । ओघेण अवत्त०-उदीर० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । भुज० असंखे०भागो । अवट्टि० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । एवं सव्वएरइय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज०-देवा जाव सहस्मार ति । णवरि अवत्त० णत्थि । मणुसेसु अवट्टि० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । सेसपदा असंखे०भागो । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० अप्प० संखेज्जा भागा । सेसपदा संखे०भागो । आणदादि सव्वट्टा ति णत्थि भागाभागो । एवं जाव० ।

§ ४८०. परिमाणणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेशे० । ओघेण मोह०

हैं, कदाचित् ये नाना जीव हैं और एक अवक्तव्यस्थितिका उदीरक जीव है, कदाचित् ये नाना जीव हैं और नाना अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं । आदेशसे नारकियोंमें अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे है, कदाचित् ये नाना जीव हैं और एक भुजगारस्थितिका उदीरक जीव है, कदाचित् ये नाना जीव हैं और नाना भुजगारस्थितिके उदीरक जीव हैं । इसी प्रकार सभी नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य देव और सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । तिर्यञ्चोंमें भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे है । मनुष्यत्रिकमें अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद भजनीय हैं । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव नियमसे है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४७९. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग-प्रमाण हैं । भुजगारस्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है और अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य पद नहीं है । मनुष्योंमें अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें भागाभाग नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४८०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

भुज०-अप्प०-अवट्टि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्खेसु । णवरि अवत्त० णत्थि । आदेसेण एरइय० सव्वपदा केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वएरइय०-सव्वपंचि०तिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति । मणुसेसु अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । सेमपदा केत्ति० ? असंखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुमिणी० सव्वपदा केत्ति० ? संखेज्जा । आणदादि मव्वट्टा त्ति अप्प० केत्ति० ? असंखेज्जा । णवरि मव्वट्टे संखेज्जा । एवं जाव० ।

४८१. खेत्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० तिण्णिण पदा केव० ? सव्वलोगे । अवत्त० लाग० असंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । णवरि अवत्त० णत्थि । सेसगदीसु सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० ।

४८२. पोमणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० तिण्णिणपदेहिं मव्वलोगो पोस० । अवत्त० लोग० असंखे०भागो । एवं तिरिक्खा० । णवरि अपत्त० णत्थि ।

४८३. आदेसे एरइय० सव्वपद० लोग० असंखेज्जदिभागो ढ्चोइस०

मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवतव्यपद नहीं है । आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंमें लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है ? शेष पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोगे सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । अनन्तकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात हैं । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४८१. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके तीन पदोंके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोक क्षेत्र है । अवक्तव्यपदके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है । शेष गतियोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४८२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके तीन पदोंके उदीरक जीवोंने सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है ।

४८३. आदेशसे नारकियोंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग

१. ता०प्रतौ असंखेज्जा इति पाठः । २. आ०-ता०प्रत्योः असंखेज्जा इति पाठः ।

देसूणा । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । णवरि सगपोसणं । पढमाए खेत्तं । सव्व-  
पंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस सव्वपदं लोगं असंखे० भागो सव्वलोगो वा । णवरि  
मणुसतिए अवत्त० लोगं असंखे० भागो । देवेसु मोह० तिरिणपदं लोगं असंखे०-  
भागो अट्ट-णवचोहस० देसूणा । एवं सव्वदेवाणं । णवरि सगपदाणं सगपोसणं  
एदव्वं । एवं जाव० ।

§ ४८४. कालाणुं दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० भुज०-  
अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । अवत्त० जह० एयम०, उक्क० मंखेज्जा समया । आदेसेण  
एरइय० भुज० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अप्प०-अवट्ठि०  
सव्वद्धा । एवं सव्वणेरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-देवा जाव सहस्सार त्ति ।

§ ४८५. तिरिक्खेसु सव्वपदा सव्वद्धा । मणुसेसु णारयभंगो । णवरि अवत्त०  
ओघं । मणुसपज्ज०-मणुसणी० अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । भुज०-अवत्त० जह०  
एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । मणुसअपज्ज० भुज० जह० एयम०, उक्क० आवलि०

और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार  
दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना-  
अपना स्पर्शन द्वितीयादि पृथिवियोंके कहना चाहिए । प्रथम पृथिवीके नारकियोंमें स्पर्शन क्षेत्रके  
समान है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके  
असंख्यातवें भाग और सर्व लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें  
अवक्तव्यपदके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । देवोंमें  
मोहनीयके तीन पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह  
भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सब देवोंमें  
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने पदोंका अपना-अपना स्पर्शन ले आना  
चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४८४. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीयकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । अवक्तव्य-  
स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आदेशसे  
नारकियोंमें भुजगारस्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके  
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है ।  
इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सामान्य देव और सहस्रार कल्पतकके देवोंमें  
जानना चाहिए ।

§ ४८५. तिर्यञ्चोंमें सब पदोंके उदीरकोंका काल सर्वदा है । मनुष्योंमें नारकियोंके समान  
भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदके उदीरकोंका काल ओघके समान है ।  
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा  
है । भुजगार और अवक्तव्यस्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल  
संख्यात समय है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें भुजगारस्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय

असंखे०भागो । अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो ।  
आणदादि सव्वट्टा त्ति अप्प० सव्वट्टा । एवं जाव० ।

§ ४८६. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण तिहं पदाणं  
णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं तिरिक्खेसु । णवरि  
अवत्त० णत्थि । आदेसेण खेरइय० भुज० जह० एयस०, उक्क० अंतोसु० । अप्प०-  
अवट्टि० णत्थि अंतरं । एवं मव्वणेरइय० सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-देवा जाव सहस्सार  
त्ति । मणुसतिए एारयभंगो । एवरि अवत्त० ओघं । मणुसअपज्ज० सव्वपदा जह०  
एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । आणदादि सव्वट्टा त्ति अप्प० णत्थि  
अंतरं । एवं जाव० ।

§ ४८७. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइयो भावो ।

§ ४८८. अप्पावहुआणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थो०  
अवत्त० । भुज० अणंतगुणा । अवट्टि० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा ।

§ ४८९. आदेसेण णेरइय० सव्वत्थो० भुज० । अवट्टि० असंखे०गुणा ।

और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतर और अवस्थितस्थितिके  
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।  
आनतकल्पमे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अल्पतरस्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है।  
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जाना चाहिए।

§ ४८६. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे  
तीन पदोंके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्यस्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल  
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। इसीप्रकार निर्यञ्चोमें जानना चाहिए।  
इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। आदेशमे नारकियोंमे भुजगारस्थितिके  
उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। अल्पतर  
और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, सब  
पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्च और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए।  
मनुष्यत्रिकमे नारकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपदका भंग  
आघके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पदोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है  
और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके  
देवोंमें अल्पतरस्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक  
जानना चाहिए।

§ ४८७. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औद्यिक भाव है।

§ ४८८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश।  
ओघसे अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारस्थितिके उदीरक जीव  
अनन्तगुणे हैं। उनसे अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है। उनसे अल्पतर-  
स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं।

§ ४८९. आदेशसे नारकियोंमे भुजगारस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे



अप्य० संखे०गुणा । एवं सव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा जाव सहस्मार  
त्ति । मणुसेसु सव्वत्थो० अवत्त०ट्टिदिउदी० । भुज० असंखे०गुणा । अवट्टि०  
असंखे०गुणा । अप्य० संखे०गुणा । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । एवरि संखे०गुणं  
कायव्वं । आणदादि सव्वट्टा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव० ।

४९०. पदणिकखेवे त्ति तत्थ इमाणि । तिण्णि अणिओगहाराणि—समु-  
क्कित्तणा मामित्तं अप्पावहुअं चेदि । समुक्कि० दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं ।  
दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० अत्थि उक्क०वट्टि-हाणि०-  
अवट्टा० । एवं चदुगदीसु । एवरि आणदादि सव्वट्टा त्ति अत्थि उक्क०हाणी ।  
एवं जाव० ।

४९१. एवं जहण्णयं पि णेदव्वं ।

४९२. मामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्क०वट्टी कस्म ? अएणद० तप्पाओगजहण-  
ट्टिदिमुदीरेमाणो उक्कस्सट्टिदिं पवट्टो तस्स आवलियादीदस्स तस्म उक्क०वट्टी । तस्सेव  
से काले उक्क० अवट्टाणं । उक्क०हाणी कस्म ? अण्णद० उक्कस्सट्टिदिमुदीरेमाणो

अवस्थितस्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अल्पतरस्थितिके उद्दीरक जीव  
संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब निर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, और सामान्य देवोंसे  
लेकर सहस्वार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें अवक्तव्यस्थितिके उद्दीरक जीव  
सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारस्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उभे अवस्थित  
स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरस्थितिके उद्दीरक जीव संख्यातगुणे  
हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें  
असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । आननकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके  
देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४९०. पदनिक्षेपका अधिकार है । उभे ये तीन अनुयोगद्वारा हैं—समुत्कीर्तना,  
स्वामित्व और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—जघन्य और  
उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी  
उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । इसप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी  
विशेषता है कि आननकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि है । इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४९१. इसीप्रकार जघन्य पदनिक्षेपका भी जानना चाहिए ।

४९२. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश  
दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?  
तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उद्दीरणा करनेवाला अन्यतर जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है,  
एक आबलिके नाद उसके उत्कृष्ट वृद्धि होता है । उद्दीरके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान  
होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा करनेवाला जो अन्यतर

उकस्सयं द्विदिखंडयं हणदि, तस्म उक्क०हाणी । एवं चदुगदीसु । णवरि पंचि०तिरि-  
क्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० उक्क०वड्डी कस्स ? अण्णद० तप्पाओग्गजहण्णद्विदिमुदीरे-  
माणो तप्पाओग्गउकस्सद्विदि पवट्ठो तस्स आवलियादीदस्स उक्क०वड्डी । तस्सेव से  
काले उक्क० अत्रट्ठा० । उक्क०हाणी कस्स ? अण्ण० तिरिक्खो वा मणुसो उकस्सद्विदि-  
मुदीरेमाणो उक्कस्सयं द्विदिखंडयं पादयमाणो अपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स पढमे द्विदि-  
खंडये हदे तस्म उक्क०हाणी० । आणदादि एवगेवज्जा त्ति उक्क०हाणी कस्स ?  
अण्णद० तप्पाओग्गुक्कस्सद्विदिमुदीरेमाणो पढमसम्मत्ताहिमुहो जादो तेण पढमे द्विदि-  
खंडए हदे तस्म उक्क०हाणी० । अणुदिसादि मव्वट्ठा त्ति उक्क०हाणी कस्स ?  
अण्णद० वेदयसम्माइडिस्स अणंताणुबंधी विसंजोएतस्म पढमे द्विदिखंडए हदे तस्स  
उक्क०हाणी । एवं जाव० ।

४९३. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह०  
जह०वड्डी कस्स ? अण्णद० जो समयूणमुक्कस्सद्विदिमुदीरेमाणो उकस्सद्विदिमुदीरेदि  
तस्स जह०वड्डी । जह०हाणी कस्स ? अण्णद० जो उक्कस्सद्विदिमुदीरेमाणो ममयूण-  
द्विदिमुदीरेदि तस्स जह०हाणी । एगदरत्थावट्ठाणं । एवं चदुगदीसु । णवरि आणदादि

जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका हनन करना है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार चारों  
गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशयना है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य  
अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला  
अन्यतर जो जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, एक आवलिके बाद उसके उत्कृष्ट  
वृद्धि होती है । उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती  
है ? उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जो अन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति-  
काण्डकका घात करना हुआ अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ, उसके प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करने  
पर उत्कृष्ट हानि होती है । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके  
होती है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला अन्यतर जीव प्रथम सम्यक्त्वके  
अभिमुख है उसके प्रथम स्थितिकाण्डकके घात करने पर उत्कृष्ट हानि होती है । अनुदिशसे  
लेकर सर्वार्थमिद्धि तकके देवोंमें उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? अन्यतर जो वेदकसम्यग्दृष्टि  
जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कर रहा है उसके प्रथम स्थितिकाण्डकके घात करने  
पर उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४९३ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मोहनीयकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा  
करनेवाला उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है । जघन्य हानि  
किसके होती ? अन्यतर जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला एक समय कम स्थितिकी  
उदीरणा करता है उसके जघन्य हानि होती है । इसमेंसे किसी एक जगह जघन्य अवस्थान  
होता है । इसीप्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशयना है कि आनतल्पकसे

सव्वट्ठा त्ति जह०हाणी कस्स ? अण्णद० अधट्ठिदि गालेमाणस्स तस्स जह०हाणी । एवं जाव० ।

§ ४९४. अप्पबहुअं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि० ओघेण आदेसे० । ओघेण भव्वत्थो० उक्क०हाणी । वड्डी अवट्ठाणं च विसेमा० । एवं चदुगदीसु । णवरि पंचित्तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वत्थो० उक्क०वड्डी अवट्ठाणं च । हाणी संखे०गुणा । आणदादि सव्वट्ठा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव० ।

§ ४९५. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० जह०वड्ढि-हाणि-अवट्ठाणाणि मारिमाणि । एवं चदुगदीसु । णवरि आणदादि सव्वट्ठा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव० ।

§ ४९६. वड्ढिउदीरगे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्वाराणि—समुक्कित्तणा जाव अप्पावहुए त्ति । समुक्कित्तणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० अत्थि असंखे०भागवड्ढि-हाणी संखे०भागवड्ढि-हाणी संखे०गुणवड्ढि-हाणी असंखे०गुणवड्ढि-हाणी अवट्ठि० अवत्त० । आदेसेण गोरइय० अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणी-अवट्ठि० । एवं भव्वणोर०-सव्वतिरिक्ख०-मणुमअपज्ज०-देवा जाव सहस्मार त्ति ।

लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जघन्य हानि किसके होती है ? अधःस्थितिका गालना करनेवाला जो अन्यतर जीव है उसके जघन्य हानि होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

४९४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघमें उत्कृष्ट हानि सबसे म्नांक है । उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक है । इसीप्रकार चारों गनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४९५ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान समान हैं । इसीप्रकार चारों गनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४९६. वृद्धि उदीरणाका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीर्तनाका निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मोहनीयकी असंख्यात भागवृद्धि-हानि, संख्यात भागवृद्धि-हानि, संख्यात गुणवृद्धि-हानि, असंख्यात गुणवृद्धि-हानि, अवस्थान और अवक्तव्यपद है । आदेशसे नारकियोंमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थान पद है । इसप्रकार सब नारकी, सब तिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य

मणुसतिए ओघं । आणदादि मव्वट्टा त्ति अत्थि असंखे० भागहाणी संखे० भागहाणी । एवं जाव० ।

§ ४९७. सामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण मोह० तिण्णिवट्ठि०-अवट्ठि कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्ठिस्स । तिण्णहाणि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्ठि० । असंखे० गुणवट्ठि-हाणि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठि० । अवत्त० भुज० भंगो । एव मणुसतिए ।

§ ४९८. आदेसेण णेरइय० तिण्णिवट्ठि-हाणी-अवट्ठि० ओघं । एवं सव्व-णेरइय०-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सर त्ति । पंचि०-तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० तिण्णिवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० । आणदादि एवगेवज्जा त्ति असंखे० भागहाणि-संखे० भागहाणि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठि० मिच्छाइट्ठिस्स वा । अणुदिसादि मव्वट्टा त्ति असंखे० भागहा०-संखे०-भागहा० कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव० ।

§ ४९९. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे य । ओघेण तिण्णिवट्ठि केवचिरं० ? जह० एयस०, उक्क० वेसमया । असंखे० भागहा० जह० एयस०, उक्क० तेवट्ठिसागरोवमदं पत्तिदो० असंखे० भागेण मादिरे० । संखे० भागहाणि०-संखे०-

देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४९९. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयका तीन वृद्धि और अवस्थान किसके होते हैं ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होते हैं । तीन हानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यात गुणवृद्धि और हानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती हैं । अवक्तव्यपदका भंग भुजगारके समान है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए ।

§ ४९८. आदेशसे नारकियोंमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थानका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार तकके देवोंमें जानना चाहिए । पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थान किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि किसके होती हैं ? अन्यतरके होती हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ४९९. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन वृद्धियोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय हैं । असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक

गुणहाणि०-असंखेजगुणवड्डि०हाणि-अवत्त० जहणुक्क० एयम० । अवड्डि० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ५००. आदेशेण णेरइय० असंखे०भागवड्डि० जह० एयम०, उक्क० बे-समया । असंखे०भागहाणि० जह० एयम०, उक्क० तेत्तीमंमागगे० देसूणाणि । दोवड्डि-हाणि० जह०-उक्क० एयसमओ । अवड्डि० ओघं । एवं सवणेरइय० । एवरि मगड्डिदी देसूणा ।

एक सौ त्रेसठ सागर हैं । संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धिका अद्वात्तय या संक्लेशत्तयसे एक समय प्राप्त कर उसी रूपमें उसकी उदीरणा होनेपर इनके उदीरकका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा जो जीव पहले समयमें अद्वात्तयसे और दूसरे समयमें संक्लेशत्तयसे असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है तथा क्रमसे उसी रूपमें उनकी उदीरणा करता है तब असंख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । तथा जब कोई द्वीन्द्रिय जीव एक समय तक संक्लेशत्तयसे संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है और दूसरे समयमें मरकर तथा त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर पूर्वस्थितिसे संख्यातवें भाग अधिक त्रीन्द्रियके योग्य स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है और क्रमसे उसी रूपमें उनकी उदीरणा करता है तब संख्यात भागवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । तथा जो एकेन्द्रिय जीव एक मोड़ा लेकर संज्ञियोंमें उत्पन्न होता है उसके पहले समयमें असंज्ञीके योग्य और दूसरे समयमें संज्ञीके योग्य स्थिति-बन्ध होता है । इसप्रकार इस जीवके संख्यात गुणवृद्धिके दो समय प्राप्त कर क्रमसे उसी रूपमें उनकी उदीरणा करनेपर संख्यात गुणवृद्धिका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवा भाग अधिक १६३ सागर स्पष्ट ही है । इसका विशेष खुलासा स्थितिबिभक्ति भाग ३ पृ० १४२ से जान लेना चाहिए । शेष हानि और वृद्धियों तथा अवक्तव्यरुद्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है । अवस्थित उदीरणा कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक हाँ यह सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ५००. आदेशसे नारकियोंमें असंख्यात भागवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

**विशेषार्थ**—यहाँ अद्वात्तय और संक्लेशत्तयसे असंख्यात भागवृद्धिके दो समय प्राप्त होना सम्भव है, इसलिए इसका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है । शेष कथन सुगम है । इसी प्रकार विचारकर आगे भी कालको घटित कर लेना चाहिए ।

५०१. तिरिक्खेसु तिण्णिणवडि-दोहाणि-अवडि० ओघं । असंखे०भागहा० जह० एयस०, उक्क० तिण्णिणपलिदो० सादिरेयाणि । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिए । एवरि संखे०भागवडि० जहण्णुक्क० एयस० । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० असंखे०भागवडि०-संखे०गुणवडि० जह० एयस०, उक्क० वेसमया । असंखे०भागहाणि-अवडि० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । संखे०भागवडि-दोहाणि० जहण्णुक्क० एयम० । मणुमतिए पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवरि अमंखे०गुणवडि-हाणि-अवत्त० जह०-उक्क० एयस० ।

५०२. देवेसु अमंखे०भागहा० जह० एयममओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमा० । सेमपदाणं णाय्यभंगो । एवं भवणादि जाव सहस्मार ति । एवरि सगडिदी । आणदादि सव्वट्टा ति । असंखे०भागहा० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क०सगडिदी । संखे०-भागहाणि० जहण्णु० एयम० । एवं जाव० ।

५०४. तिर्यञ्चोमें तीन वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका भंग ओघके समान है । असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात भागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यात भागहानि और अवस्थितका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । संख्यात भागवृद्धि और दो हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

५०२. देवोंमें असंख्यात भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । शेष पदोंका भंग नारकियोंके समान है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कइनी चाहिए । आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें असंख्यात भागहानिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । संख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—जो आनतादिका देव वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है उसके प्रारम्भसे लेकर उसके पूर्व असंख्यात भागहानि होती रहती है, इसलिए यहाँ इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । नौवें भ्रैवेयक तकके देव वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी भी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस अपेक्षासे इनमें असंख्यात भागहानिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । इन आनतादि सब देवोंमें विसंयोजनाके समय संख्यात भागहानि होती है तथा नौ भ्रैवेयक तकके इन देवोंमें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय भी संख्यात भागहानि होती है । यतः इसका काल एक समय है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा । शेष कथन सुगम है ।

§ ५०३. अंतगणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखेज्ज-  
भागवड्ढि-अवड्ढि० जह० एगम०, उक्क० तेवड्ढिसागरोवममदं तिण्णिण पलिदो०  
सादिरेयाणि । असंखे०भागहा० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । दोवड्ढि-हाणि० जह०  
एगस० अंतोमु०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा । अमंखे०गुणवड्ढि-हा०-  
अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्ढपो०परियट्ठं ।

§ ५०४. आदेसेण गोरइय० अमंखे०भागवड्ढि-अवड्ढि० जह० एयस०, दोवड्ढी-  
हाणि जह० अंतो०, उक्क० तेतीमं मागरो० देसू० । असंखे०भागहा० ओघं । एवं  
मव्वगोर० । णवरि सगट्ठिदी देसू० ।

§ ५०५. तिरिक्खेसु अमंखे०भागवड्ढि-अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो०  
असंखे०भागो । अमंखे०भागहा० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । दोवड्ढि-हाणि०  
जह० एगम०, अंतोमु० उक्क० अणंतकालमसंखे० । पंचिदियतिरिक्खवतिण्णिण अमंखे०-  
भागवड्ढि-संखे०गुणवड्ढि० अवड्ढि० जह० एयम०, मंखे०भागवड्ढि०-संखे०गुणहाणि०

५०३. अन्तगणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हैं—ओघ और आदेश । ओघसे  
असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तरकाल साधिक तीन पत्य अधिक १६३ सागर है । असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तर  
काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका  
जघन्य अन्तरकाल क्रमसे एक समय तथा अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल  
है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और  
अवक्तव्यका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन-  
प्रमाण है ।

विशेषार्थ—स्वामित्व और कालको ध्यानमें रखकर अन्तरकालका स्पष्टीकरण सुगम  
है, इसलिए अलगसे खुलासा नहीं किया । आगे भी यही समझना । दिशाका ज्ञान करनेके  
लिए स्थितिबिभक्ति भाग तीन पृ० १५० आदिके विशेषार्थ देखो । इतना अवश्य है कि यहाँ  
उदीरणाकी अपेक्षा यह अन्तरकाल घटित करना चाहिए ।

§ ५०४. आदेशसे नारकियोंमें असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तर  
काल एक समय है, दो वृद्धियों और दो हानियोंका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है तथा  
सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है । असंख्यात भागहानिका भंग ओघके  
समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-  
अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ५०५. तिर्यञ्चोंमें असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात भागहानिका  
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । दो वृद्धियों और  
दो हानियोंका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल  
अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें असंख्यात  
भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, संख्यात

जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । संखे०भागहा० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० असंखे०भागवड्डि-हाणि-संखे०गुणवड्डि-अवड्डि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । संखे०भागवड्डि-हाणि-संखे०गुणहाणि० जह० उक्क० अंतोमु० ।

§ ५०६. मणुसतिए असंखे०भागवड्डि-संखे०गुणवड्डि-अवड्डि० जह० एगस०, संखे०भागवड्डि-संखे०गुणहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० मन्वेसिं पुव्वकोडी देसूणा । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । संखे०भागहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणवड्डि-हाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

§ ५०७. देवेषु असंखे०भागवड्डि-अवड्डि० जह० एगस०, दोवड्डि-संखे०गुण-हाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि । अमंखे०भागहा० ओघं । संखे०भागहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० एक्कत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवं भवणादि जाव सहस्सारं ति । णवग्गि सगड्ढिदी देसूणा । आणदादि एवगेवज्जा ति

भागवृद्धि और संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। असंख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य है। पञ्चेन्द्रिय निर्यच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमं असंख्यात भागवृद्धि, अमंख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि और संख्यात गुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५०६. मनुष्यत्रिकमे असंख्यात भागवृद्धि संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। असंख्यात भाग-हानिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य है। असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवस्थितका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है।

§ ५०७. देवोमे असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, दो वृद्धियों और संख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर है। असंख्यात भागहानिका अन्तरकाल आंचके समान है। संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। इसीप्रकार भवनवाप्तियामे लेकर सहस्रार कल्पतककः (यामे जानना चाहिए।



असंखे०भागहा० जह० उक्क० एयसमओ । संखे०भागहा० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देखणा । अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति असंखे०भागहा० जहणु० एयसमओ । संखे०भागहा० जहणुक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

§ ५०८. एणाणाजीवभंगविचयाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । एवं तिरिक्खेसु । आदेसेण एग्इय० असंखे०भागहा०-अवट्टि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । एवं तिरिक्खेसु । आदेसेण एग्इय० असंखे०भागहा०-अवट्टि० णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । एवं सव्वणेग्इय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसतिय-देवा जाव महस्सार त्ति । मणुसअपज्ज० सव्वपदा भयणिज्जा । आणदादि सव्वट्टा त्ति असंखे०भागहा० णिय० अत्थि, सिया एदे च संखे०भागहाणिगो च, सिया एदे च संखे०भागहाणिगा च । एवं जाव० ।

§ ५०९. भागाभागाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण असंखे०-भागहाणि० संखेज्जा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० असंखे०भागो । सेसपदा अणंतभागो । सेममग्गणासु विहत्ती व कायत्तां । णव्वार मणुस्सेसु असंखे०-

इतना विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए । आननकल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें असंख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । संख्यात भागहानिका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें असंख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । संख्यात भागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५०८. नाना जीवोंका आश्रय कर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे असंख्यात भागवट्टि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितपद नियमसे है, शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । आदेशसे नारकियोंमें असंख्यात भागहानि और अवस्थितपद नियमसे है, शेष पद भजनीय हैं । इसीप्रकार सब नागकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मनुष्यत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब पद भजनीय है । आनन-कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव नियमसे है, कदाचित् ये नाना जीव हैं और एक संख्यातभागहानि स्थितिका उदीरक जीव है, कदाचित् ये नाना जीव हैं और नाना संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५०९ भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात भागवट्टि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष पदोंके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण है । शेष मार्गणाओंमें

गुणवड्डि-हाणि-अवत्त० असंखे० भागो । मणुसपज्ज०-मणुमिणी० असंखे० भागहा० मंखेज्जा भागा । सेमपदा संखे० भागो । एवं जाव० ।

५१०. परिमाणानु० द्रुविहो० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखे०-भागवड्डि-हाणि-अवत्त० केत्ति० ? अणंता । दोवड्डि-हाणि० असंखेज्जा । असंखे० गुणवड्डि-हाणि०-अवत्त० संखेज्जा । सेममग्गणासु विहत्तिभंगो । एववि मणुसतिण असंखे० गुणवड्डि-हाणि-अवत्त० मंखेज्जा । एवं जाव० ।

५११. खेत्ताणु० द्रुविहो० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखे०-भागवड्डि-हाणि-अवत्त० सव्वलोगे । सेसपदा लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खा० । सेमगदीसु सव्वपदा लोग० असंखे० भागे । एवं जाव० ।

५१२. पोसणानु० द्रुविहो० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखे०-भाग-वड्डि-हाणि-अवत्त० सव्वलोगो । दोवड्डि-हाणि० लोग० असंखे० भागो अट्टुचो० देसूणा । सेमपदा लोग० असंखे० भागो । सेमगडमग्गणासु विहत्तिभंगो । एववि

स्थितिविभक्तिके समान भागाभाग करना चाहिए । इतना विशेषता है कि मनुष्योंमें असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियामें असंख्यात भागहानि स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । शेष पदोंके उद्दीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५१०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितस्थितिके उद्दीरक जीव कितने है ? अनन्त है ? दो वृद्धि और दो हानिरूप स्थितियोंके उद्दीरक जीव असंख्यात हैं । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यात हैं । शेष मार्गणाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यस्थितिके उद्दीरक जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५११. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितस्थितिके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक है । शेष पदोंके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यचोमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब पदोंके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५१२. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितस्थितिके उद्दीरक जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानिरूप स्थितियोंके उद्दीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और व्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोंके उद्दीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष गतिमार्गणाओंमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें

मणुमति ए असंखे० गुणवृद्धि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे० भागो । एवं जाव० ।

५१३. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण असंखे०-भागवृद्धि-हाणि-अवत्ति० मव्वद्दा । दोवृद्धि-हाणि० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । असंखे०-गुणवृद्धि-हाणि-अवत्त० जह० एयम०, उक्क० मंखेजा समय । मणुमति ए असंखे० गुणवृद्धि-हाणि-अवत्त० जह० एगसमओ, उक्क० संखे० समय । सेमपदा सेयमग्गणाओ च विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

५१४. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण विहत्तिभंगो । एवगि असंखे० गुणवृद्धि-अवत्त० जह० एयम०, उक्क० वामपुधत्तं । मणुमति ए विहत्ति-भंगो । णवगि असंखे० गुणवृद्धि-अवत्त० जह० एयम०, उक्क० वासपुधत्तं । सेसगइ-मग्गणामु विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

५१५. भावाणु० सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

५१६. अप्पावहुआणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघेण सव्वत्थो०

असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीवोने लांकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५१३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीवोका काल सर्वदा है । दो वृद्धि और दो हानिरूप स्थितियोके उदीरक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । मनुष्यत्रिकमे असंख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीवोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । शेष पद और मार्गणाओका भंग स्थितिविभक्तिके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५१४. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आवसे स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि और अवक्तव्य-स्थितिके उदीरक जीवोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व-प्रमाण है । मनुष्यत्रिकमे स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीवोका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । शेष गतिमार्गणाओमे स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५१५. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है ।

५१६. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश ।

अवत्त०उदीर० । असंखे०गुणवड्डिउदीर० संखे०गुणा । असंखे०गुणहाणिउदी० संखे०-  
गुणा । संखे०गुणहा० असंखेगुणा । संखे०भागहा० संखे०गुणा । संखे०गुणवड्डि०  
असंखे०गुणा । संखे०भागवड्डि० संखे०गुणा । असंखे०भागवड्डि० अणंतगुणा ।  
अवड्डि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा० संखे०गुणा । सेममगणासु विहत्तिभंगो ।  
णवरि मणुमतिए सव्वत्थो० अवत्त० । असंखे०गुणवड्डि० संखे०गुणा । असंखे०-  
गुणहाणि० संखे०गुणा । सेसपदाणं विहत्तिभंगो ।

एवं वड्डी समत्ता ।

§ ५१७. एत्थ ढाणपरुवणे कीरमाणे ट्टिदिसंक्रमभंगो ।

एवं मूलपयडिडिउदीरणा समत्ता ।

§ ५१८. एत्तो उत्तरपयडिडिउदीरणा । तत्थ इमाणि चउवीसमणिओग-  
दाराणि अद्दाच्छेदो जाव अप्पावहुए त्ति भुजगार-पदणिक्खेव-वड्डिउदीरणा च ।  
अद्दाच्छेदो दुविहो—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण  
य । ओघेण मिच्छ० उक्कस्सिया ट्टिदिउदीरणा सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ दोहि  
ओघसे अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात गुणवृद्धिस्थितिके  
उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात गुणहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे  
हैं । उनसे संख्यात गुणहानिस्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात  
भागहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धिस्थितिके उदीरक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
उनसे असंख्यात भागवृद्धिस्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अवस्थितस्थितिके  
उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे  
हैं । शेष मार्गणाओमें स्थितिविभक्तिके समान भंग है । इत्तनी विशंपत्ता है कि मनुष्यत्रिकमे  
अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यात गुणवृद्धिस्थितिके उदीरक  
जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात गुणहानिस्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष  
पदोंका भंग स्थितिविभक्तिके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार वृद्धि समाप्त हुई ।

§ ५१७. यहाँ पर स्थानपरुवणा करनेपर उसका भंग स्थितिसंक्रमके समान है ।

इसप्रकार मूलप्रकृतिस्थितिउदीरणा समाप्त हुई ।

§ ५१८. आगे उत्तरप्रकृतिस्थिति उदीरणाका प्रकरण है । उसमें ये चौबीस अनुबोगद्वार  
हैं—अद्दाच्छेदसे लेकर अल्पबहुत्व तक तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धिउदीरणा ।  
अद्दाच्छेद दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका  
है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा दो आवलि कम सत्तर

आवलियाहिं ऊणाओ । मम्म०-सम्मामि० उक्क० द्विदिउदी० मत्तरिसागरोवमकोडा-  
कोडीओ अतोमुहुत्तूणाओ । गोलमक० उक्क० द्विदिउदी० चत्तालीसंसागरो० कोडा-  
कोडीओ दोहिं आवलियाहिं ऊणाओ । एवणोकमाय० उक्क० द्विदिउदी० चत्तालीमसा०  
कोडा० तीहिं आवलियाहिं ऊणाओ । एवं मव्वणोरइय० । एवगि इत्थिवेद-पुरिसवेद०  
उदीरणा एत्थि ।

५१९. तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिए ओघं । एवगि पज्ज० इत्थिवेद०  
उदी० एत्थि । जोण्णिणीसु पुरिस०-णवुंस० उदी० णत्थि । पंचितिरि०अपज्ज०  
मणुसअपज्ज० मिच्छ०सोलमक०-सत्तणोक० उक्क० द्विदि०उदी० मत्तरि-चत्तालीसं-  
सागरो०कोडा० अंतोमुहुत्तूणाओ । मणुमतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । देवाणमोघं ।  
एवगि णवुंस० उदीरणा एत्थि । एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोहम्ममीमाणा ति ।  
मणकुमागदि महस्सारा ति एवं चेत्र । णवगि इत्थिवेद० उदी० णत्थि । आणदादि  
णवगेवज्जा ति छुव्वीसं पयडीणं उक्क० द्विदिउदी० अंतोकोडाकोडी । अणुहिमादि  
मव्वट्टा ति मम्म०-वारमक०-पत्तणोक० उक्क० द्विदिउदीरणा अंतोकोडाकोडी ।  
एवं जाव० ।

५२०. जहण्णाए पयदं । दुव्विहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

कोडाकोड़ी सागरप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्त-  
मुहूर्त कम सत्तर कोडाकोड़ी सागर है । सोलह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा दो आवलि  
कम चालीस कोडाकोड़ी सागर है । नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा तीन आवलि कम  
चालीस कोडाकोड़ी सागर है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है  
कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा नहीं है ।

§ ५१९. तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता  
है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्तन्त्रोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च  
योनियोगमें पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्त  
और मनुष्य अर्थात्तकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंका उत्कृष्ट  
स्थितिउदीरणा अन्तमुहूर्त कम सत्तर और चालीस कोडाकोड़ी सागर है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय  
तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । देवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि देवोंमें  
नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और  
ऐशान कल्पके देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें इसीप्रकार  
जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । आनतकल्पसे लेकर  
नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें २६ प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण है ।  
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नाकषायोंकी  
उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना  
चाहिए ।

§ ५२०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे

मिच्छ०-मम्म०-चदुमंजल०-तिणिणवेद० जह० द्विदिउदी० एया द्विदी गमयाहिया-  
वलियद्विदी । मम्मामि० जह० द्विदिउदी० मागरोवमपुधत्तं । वाग्मक०-छण्णेक०  
जह० द्विदिउदी० मागरोवमस्म चत्तारि मत्तभागा पलिदो० असंखे०भागेणूणा ।

§ ५२१. आदेसेण गेरइय० मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि० ओघं । मोलमक०-  
सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० मागरोवमहस्मस्स चत्तारि सत्तभागा पलिदो० संखे०-  
भागेणूणा । एवं पढमाए । विदियादि सत्तमा त्ति मिच्छ० ओघं । मम्म०-सम्मामि०  
जह० द्विदिउदी० सागरोवमपुधत्तं । मोलमक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी०  
अंतोकोडा० ।

§ ५२०. तिग्गिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं । मोलमक०-णवणोक०  
जह० द्विदिउदी० मागरो० चत्तारि सत्तभागा पलिदो० असंखे०भागेण ऊणा । एवं  
पंचिदियतिग्गिक्खतिए । णवरि पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणी० पुरिम०-णवुंम०  
णत्थि । मम्म० सम्मामि०भंगो । पंचिदियतिग्गिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ०-  
मोलमक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० सागरोवम० सत्त मत्तभागा चत्तारि मत्तभागा  
पलिदोवमस्सामंखे०भागेण ऊणा ।

§ ५२३. मणुमतिए ओघं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । मणुसिणी०

मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, चार मंज्वलन और तीन वेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक समय अधिक  
एक आवलिप्रमाण स्थितिके रहनेपर एक स्थिति है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा  
सागरपृथक्त्वप्रमाण है । बारह कषाय और छह नोकषायकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक  
सागरका चार बटे सात भागप्रमाण है जो कि पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम है ।

§ ५२१. आदेशमे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके  
समान है । सोलह कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक सागरकी चार  
बटे सात भागप्रमाण है जो कि पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें  
जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवाँ पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वका भंग ओघके  
समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सागरपृथक्त्वप्रमाण है ।  
सोलह कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोडी है ।

§ ५२२. तिर्यञ्चोमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है ।  
सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक सागरकी चार बटे सात भाग-  
प्रमाण है जो कि पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम है । इसीप्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी स्थितिउदीरणा नहीं है तथा योनिनी  
तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी स्थितिउदीरणा नहीं है । सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मि-  
थ्यात्वके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह  
कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा एक सागरकी क्रमसे पत्यका असंख्यातवाँ  
भाग कम सात बटे सात भागप्रमाण और पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम चार बटे सात  
भागप्रमाण है ।

§ ५२३. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी

पुरिम०-णवुंम० णत्थि । देवाणं पारयभंगो । णवरि णवुंम० णत्थि । एवं भवण०-  
वाणवे० । एवरि सम्म० सम्मामि०भंगो । जोदिसि० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०  
धिदियपुढविभंगो । मोलसक०-अट्टणोक० जह० द्विदिउदी० अंतोकोडाकोडी । एवं  
मोहम्मीमाणे । णवरि सम्म० ओघं । मणक्कुमारादि जाव णवगेवजा त्ति एवं चेव ।  
एवरि इत्थिवेद० णत्थि उदीर० । अणुदिमादि सवट्ठा त्ति सम्म० ओघं । बारसक०-  
मत्तणोक० जह० द्विदिउदी० अंतोकोडाकोडि त्ति । एवं जाव० ।

§ ५२४. सव्वुदीर०-णोसव्वुदीर०-उक०-अणुक०-जह०-अजह०उदीर० मूल-  
पयडिभंगो ।

§ ५२५. सादि-अणादि०-धुव०-अधुवाणु० मिच्छ० उक०-अणुक०-जह० कि  
मादि०४ ? सादि-अधुवा । अज० कि मादि०४ ? मादी अणादी धुवा अधुवा वा ।  
सेमपयडीणमुक० अणुक० जह० अजह० कि मादि०४ ? सादि-अधुवा । सेसगदीसु  
मव्वपय० उक० अणुक० जह० अजह० मादि-अधुवा० ।

स्थितिउदीरणा नहीं है । मनुष्यनियोमे पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी स्थितिउदीरणा नहीं है ।  
देवोमे नारकियोके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमे नपुंसकवेदकी स्थितिउदीरणा  
नहीं है । इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तरोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे  
सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है । ज्योतिषियोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्य-  
ग्मिथ्यात्वका भंग दूसरी पृथिवीके समान है । सोलह कषाय और आठ नोकषायोकी जघन्य  
स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोड़ी है । इसीप्रकार सौधर्म और पेशानकल्पमें जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका भंग आघके समान है । इन्माप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर  
नौवें प्रैवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेदकी उदीरणा  
नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्वका भंग आघके समान है । बारह  
कषाय और सात नोकषायोकी जघन्य स्थितिउदीरणा अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण है । इसीप्रकार  
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५२४. सर्व स्थितिउदीरणा, नोसर्व स्थितिउदीरणा, उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा, अनुत्कृष्ट  
स्थितिउदीरणा, जघन्य स्थितिउदीरणा और अजघन्य स्थितिउदीरणाका भंग मूलप्रकृतिके  
समान है ।

§ ५२५. सादि, अनादि ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट  
और जघन्य स्थितिउदीरणा क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव  
है । अजघन्य स्थितिउदीरणा क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि, अनादि  
ध्रुव और अध्रुव है । शेष प्रकृतियोकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणा  
क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । शेष गतियोमें सब  
प्रकृतियोकी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणा सादि और अध्रुव है ।

विशेषार्थ—आघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा कादाचित्क है  
तथा इसकी जघन्य स्थितिउदीरणा ऐसे जीवके होती है जो उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख होकर  
एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर आवलिकी उपरितनवर्ती प्रथम

§ ५२६. सामिचं दुविहं—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त-सोलसक० उक० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्ढि० उकस्सद्विदिं बंधिऊणावलियादीदस्म । एवणोको उक० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्ढि० उक०द्विदिं पडिच्छिदूणावलियादीदस्स । मम्म० उक० द्विदिउदी० कस्स० ? अण्णद० जो पुव्ववेदगो मिच्छत्त० उक०द्विदिं बंधिऊण अतोमु० द्विदिघादमकादूण सम्मत्तं पडिवण्णो, तस्म विदियसमयसम्माइड्ढिस्स । सम्मामि० उकस्सद्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० स एव वेदयमम्माइड्ढी अतोमुहुत्तमच्छिऊण पढमसमयसम्मामिच्छाइड्ढी जादो, तस्स उक० द्विदिउदी० । एवं सव्वणोइय०-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिय-सणुमतिय-देवा जाव सहस्सार ति । एवरि अप्पणो पयडीओ जाणिदव्वाओ ।

§ ५२७. पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-मत्तणोको उक० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० मणुस्सस्स वा मणुसिणीए वा पंचि०तिरिक्ख-

स्थितिकी उदीरणा करता है, इसलिए ये तीनों स्थितिउदीरणा सादि और अध्रुव कही हैं । किन्तु अजघन्य स्थितिउदीरणा जघन्य स्थितिउदीरणाके पूर्व भी हाती है और बादमे भी मिथ्यात्व गुणस्थानके प्राप्त होनेपर हाती है, इसलिए इसे सादि आदि चारों प्रकारका कहा है । शेष प्रकृतियोंकी चारो प्रकारकी स्थितिउदीरणा अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार कदाचित् ही हाती है, इसलिए इन्हे सादि और अध्रुव कहा है । गतिमार्गणाके सब भेद सादि और अध्रुव है, इसलिए इनमें स्थितिउदीरणाके उत्कृष्टादि चारों भेदोंको सादि और अध्रुव कहा है । इसीप्रकार अन्य मार्गणाओंमे विचार कर घटित कर लेना चाहिए ।

§ ५२६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और सोलह कषायकी उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणा किमके हाती है ? जिस अन्यतर मिथ्यादृष्टिको उत्कृष्ट स्थिति बांधकर एक आबलि काल व्यतीत हुआ है उसके हाती है । नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके हाती है ? जिस मिथ्यादृष्टिको कषायकी उत्कृष्ट स्थितिका नौ नोकषायोंमें संक्रमण करनेके बाद एक आबलि काल गया है उसके हाती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किसके हाती है ? पूर्वमें वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हुए जिस मिथ्यादृष्टि जीवने मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति बांधकर और स्थितिघात किये बिना अन्तर्मुहूर्तमे वेदकसम्यक्त्वका प्राप्त किया है उस द्वितीय समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा हाती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किमके हाती है ? अन्यतर वही वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अन्तर्मुहूर्त रहकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि हा गया, प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा हाती है । इसीप्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी प्रकृतियां जानना चाहिए ।

§ ५२७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा किमके हाती है ? अन्यतर जो मनुष्य



जोणिणीयस्स वा उक्कस्मट्टिदिं बंधिऊण अंतोमुहुत्तं ट्टिदिघादमकादूण अपजत्तएसु उववण्णल्लयस्स तस्स पढमसमयउववण्णल्लयस्स उक्कं ट्टिदिउदी० ।

॥ ५२८. आणदादि एवगेवज्जा त्ति मिच्छं-मोलमकं-मत्तणोकं उक्कं ट्टिदिउदी० कम्म ? अण्णदं दव्वलिगी तप्पाओग्गुक्कस्मट्टिदिमंतकम्मिओ पढमसमय-उववण्णल्लगो तस्स । णवरि अरदि-मोगं अंतोमुहुत्तउववण्णल्लगो तस्स उक्कं ट्टिदिउदी० । मम्मं उक्कं ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णदं तप्पाओग्गुक्कस्सट्टिदि-सतकम्मिं वेदयसम्माइट्टिं पढमसमयउववण्णल्लयस्स । तस्सेव अंतोमुहुत्तेण सम्मा-मिच्छत्तं पडिवएणस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स मम्मामिं उक्कं ट्टिदिउदी० । अणुहिसादि मव्वट्टा त्ति मम्मं-बारसकं-सत्तणोकं उक्कं ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णदं वेदयसम्माइट्टी तप्पाओग्गुक्कं ट्टिदिमंतकम्मिं पढमसमयउववण्णल्लगो तस्स उक्कं ट्टिदिउदी० । णवरि अरदि-मोगं अंतोमुहुत्तोववण्णल्लयस्स । एवं जाव० ।

॥ ५२९. जहण्णए पयदं । दुव्विहो एिहेमो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छं जहं ट्टिदिउदी० कस्स ? अण्णदं मिच्छाइट्टिस्स उवसममम्मत्ताहिमुहस्स ममयाहियावलियपढमट्टिदिउदीग्गस्स तस्स जहं ट्टिदिउदी० । मम्मं जहं ट्टिदि-

या मनुष्यिनी या पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च योनिवाला जीव उत्कृष्ट स्थिति बांधकर स्थितिघात किये बिना अन्तर्मुहूर्तमे उक्त अपर्याप्तकोमे मरकर उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा हाती है ।

॥ ५२८. आनत कल्पसे लेकर नां प्रवेयक तकके देवोमे मिथ्यात्व, सोलइ कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा किसके हाती है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मवाला जो द्रव्यलिगी मरकर उक्त देवोमे उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा हाता है । इतना विशेषता है कि जिसे वहाँ उत्पन्न हुए अन्तर्मुहूर्त हुआ है उसके अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा किसके हाती है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मवाला जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ है उसके वहा उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा हाती है । उसीके अन्तर्मुहूर्तमे सम्यग्मिथ्यात्वकी प्राप्त होने पर प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्व, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा किसके हाती है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थिति सत्कर्मवाला अन्यतर जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर उक्त देवोमे उत्पन्न हुआ है उसके वहा उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा हाती है । इतनी विशेषता है कि जिस उक्त जीवको वहाँ उत्पन्न हुए अन्तर्मुहूर्त काल गया है उसके अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीर्गणा हाती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

॥ ५२९. जघन्यका प्रकरण ह । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीर्गणा किसके हाता है ? उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर जो मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिकी एक समय आधिक एक आवलि स्थिति शेष

उदी० कस्स ? अण्णद० दंसणमोहवखवयस्स ममयाहियावलियउदीरगस्स । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० जो मिच्छाइट्ठी वेदगपाओग्गजहण्णद्विदिसंत-कम्मिओ सम्मामि० पडिवण्णो अंतोमुहूत्तं विगट्ठं मम्मामिच्छत्तद्धमणुणालिय चरिम-ममयसम्मामिच्छाइट्ठिस्स तस्स जह० द्विदिउदी० । वारसक० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० बादरेइंदियस्स हदसमुप्पत्तियस्स जावदि सक्कं ताव संतकम्मस्स हेट्ठा वंधिदूण ममद्विदिं वा वंधिदूण संतकम्मं वीलेदूण वा आवलियादीदस्स । एवं भय-दुगुंझा० । णवरि वेआवलियादीदस्स तस्स जह० । हस्म-रदि-अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० जो बादरेइंदियपच्छायदो हदममुप्पत्तियो सण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स अंतोमुहूत्तुववण्णल्लयस्स जह० द्विदिउदी० । तिण्हं वेदायां जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० उवसामगो खवगो वा अप्पप्पणो वेदेण सेट्ठिमारूढा समयाहियावलियं उदीरेमाणयस्स तस्स जह० । चदुसंज० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० उामामगस्स वा खवगस्स वा अप्पप्पणो कसाएहिं सेट्ठिमारूढस्स ममयाहियावलियउदी० तस्स जह० ।

रहनेपर प्रथम उपरितन ) स्थितिकी उदीरणा करता है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? दर्शनमोहनीयकी क्षणना करनेवाला जो अन्यतर कृतकृत्यवेडक सम्यग्दृष्टि जाव सम्यक्त्वकी एक समय अधिक एक आवलि स्थिति शेष रहनेपर उपरितन एक स्थितिकी उदीरणा करता है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? वेदकप्रायोग्य जघन्य स्थिति-सत्कर्मवाले जिस अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीवको सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुए उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल गया है, सम्यग्मिथ्यात्वके कालका पालन करनेवाले उस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तम समयमें उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । बारह कपायको जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? हतसमुत्पत्तिक जिस अन्यतर बादर एकन्द्रिय जावने जबतक शक्य है तबतक सत्कर्मसे कम स्थितिका बन्ध किया है या समान स्थितिका बन्ध किया है, या सत्कर्मको बिताकर जिसे एक आवलि गया है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार भय और जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि जिस दो आवलि काल गया है उसके भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । हास्य, रति, अरति और शाककी जघन्य स्थिति-उदीरणा किसके होती है ? जो अन्यतर हतसमुत्पत्तिक बादर एकन्द्रियोमेंसे आकर संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तके अन्तमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । नान वेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो उपशामक या क्षपक अपने-अपने वेदसे श्रेणिपर आरूढ़ हुआ है, प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि स्थितिके शेष रहनेपर उपरितन स्थितिकी उदीरणा करनेवाले उसके उक्त वेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । चार संज्वलनकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो उपशामक या क्षपक अपनी-अपना कपायसे श्रेणिपर आरूढ़ हुआ है, प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि स्थितिके शेष रहनेपर उपरितन स्थितिकी उदीरणा करनेवाले उसके चार संज्वलनकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है ।

§ ५३०. आदेसे० एरइय० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं । सोलसक०-भय-दुगुंछ० जह० ट्टिदिउदी० कस्स ? अएणद० असण्णपच्छायदहदसमुप्पत्तियस्स दुसमयाहियावलियउववण्णल्लयस्स तस्म जह० । पंचणोक० जह० ट्टिदिउदी० कस्म ? अण्णद० अमण्णपच्छायदहदसमुप्पत्तियस्म अंतोमुहुत्तादीदस्म तस्म जह० ट्टिदिउदी० । एवं पठमाण । विदियादि जाव सत्तमा त्ति ट्टिदिसंक्रमंभंगो । णवरि मिच्छ०-सम्मामि० पठमपुढविभंगो । सम्म० जह० ट्टिदिउदी० कस्म ? अण्णद० वेदगसम्मत्त-पाओगजह०ट्टिदिसंतकम्मि० सम्मत्तं पड्विण्णो तस्स पठममयवेदयसम्माइट्टिस्म । अण्णताणु०४ जह० ट्टिदिउदी० कस्म ? अएणद० दीहाउट्टिदिणसु उववज्जिऊण अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पड्विण्णो अण्णताणु०चउक्कं विमंजोएदूण थोवावसेसे जीविदव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो जाव सकं मंतकम्मस्म हेट्ठा वंधिदूण समट्टिदिं वा वंधिदूण संतकम्मं वा बोलेदूण आवलियादीदस्म तस्स जह० ।

§ ५३१. सव्वतिरिक्खेसु अप्पण्णो ट्टिदिसंक्रमंभंगो । णवरि दंसणतिय-अण्णताणु०४ ओघं । पंचिदियतिग्गिक्खतिए अण्णताणु०४ अपच्चक्खाणभंगो । णवरि जोणिणीसु सम्म० विदियपुढविभंगो । पच्चि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० जाओ

§ ५३०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जिस हतसमुत्पत्तिक जीवको असंज्ञियोंसे आकर दो समय अधिक एक आवालि काल गया है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । पांच नाकपायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जिस हतसमुत्पत्तिक जीवको असंज्ञियोंसे आकर अन्तर्मुहूर्त काल अतीत हुआ है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर भातवी पृथिवीतकके नारकियोंमें स्थितिसंक्रमके समान भंग है । इनकी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग प्रथम पृथिवीके समान है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? वेदकसम्यक्त्वके योग्य जघन्य स्थितिसंक्रमवाला जो अन्यतर जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ उस प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो अन्यतर दीर्घ आयुस्थितिवाले जावोमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना कर जीवितके थोड़ा शेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जबतक शक्य है तबतक सत्कर्मसे नीचे स्थितिका बन्ध कर या समान स्थितिका बन्ध कर या सत्कर्मको बितकर एक आवलि अतीत हुए उस जीवके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है ।

§ ५३१. सब तिर्यञ्चोमें अपने-अपने स्थितिसंक्रमके समान भंग है । इनकी विशेषता है कि दर्शनमाहनीयकी तान और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग अप्रत्याख्यानके समान है । इनकी विशेषता है कि यानिनियोंमें सम्यक्त्वका भंग दूसरी पृथिवीके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और

पयडीओ अत्थि तासिं द्विदिसंकमभंगो । मणुमतिए जाओ पयडीओ अत्थि तासि-  
मोघं । एवरि बारमक०-भय-दुगुंछ० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० वादरेइंदिय-  
पच्छायदहदममुप्पत्तियस्स आवलियउववण्णल्लयस्स तस्स जह० । हस्स-रदि-अरदि-  
मोग० तस्सेव पज्जत्तएसु अंतोमुहुत्तुववण्णल्लयस्स ।

५३२. देवाणं एारयभंगो । एवरि इत्थिवे०-पुरिसवे०-हस्स-रइ-अरइ-सोग०  
असण्णिपच्छायदहदसमुप्पत्तियस्स अंतोमुहुत्तुववण्णल्लयस्स । एवं भवण०-वाण्वे ।  
एवरि सम्म० विदियपुढविभंगो । जोदिसि० विदियपुढविभंगो । एवरि एणुंसयं  
छंडेऊण इत्थिवेदे पुरिमवेदे भाणिदव्वं ।

५३३. सोहम्म० जाव महस्साए त्ति दंमणतियमोघं । अणंताणु०४ विदिय-  
पुढविभंगो । बारसक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० कस्स ? अण्णद० जो खइय-  
मम्माइट्टी उवसमसेट्ठिपच्छायदो दीहाए आउद्विदीए उववण्णो तस्स चरिमसमयणिप्पिद-  
माणयस्स जह० द्विदिउदी० । एवरि मोहम्मीमाणे इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० कस्स ?  
जो पणवण्णं पलिदोवमिएसु उववण्णो अंतोमु० सम्मत्तं पडिअणो । पुणो अणंताणु०-  
चउक्कं विमंजोएदूण चरिमसमयणिप्पिदमाणयस्स तस्स जह० । उवरि इत्थिवे०

मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जो प्रकृतियाँ हैं उनका भंग स्थितिसंक्रमके समान है । मनुष्यत्रिकमें जो प्रकृतियाँ हैं उनका भंग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा किमके होती है ? जिसे अन्यतर हतसमुत्पत्तिक बाहर एकेन्द्रियोंमेंसे आकर उत्पन्न हुए एक आवलि काल हुआ है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा हाती है । तथा उसीके पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए अन्तर्मुहूर्त होनेपर हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है ।

५३०. देवोंका भंग नागकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य रति, अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा जिसे हतसमुत्पत्तिक असंज्ञियोंमेंसे आकर उत्पन्न हुए अन्तर्मुहूर्त हुआ है उसके हाती है । इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग द्वितीय पृथिवीके समान है । ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदको छोड़कर स्त्रीवेद और पुरुषवेद कहलाना चाहिए ।

५३३. सौधर्मकल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका भंग ओषके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग दूसरी पृथिवीके समान है । बारह कषाय और सात नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो अन्यतर चायिकसम्यगदृष्टि जीव उपशमश्रेणिसे पीछे आकर दीर्घ आयुस्थितिवाले उक्त देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके वहाँसे निकलते हुए अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । इतनी विशेषता है कि सौधर्म और ऐशानकल्पमें स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो पचत्रन पत्यवाले स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न हुआ, पुनः अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें स्थित है उसके

णन्थि । अणदादि णवगेवजा त्ति मणक्कुमारभंगो । एवग्गि अणंताणु०४ जह०  
 द्विदिउदी० कस्म ? अणदाद० जा वेदयममाइड्डी चउवीममंतकम्मिओ उक्कस्माउ-  
 द्विदीए उववण्णो मिच्छत्तं गंतूण अणंताणु०४ मंजोजित्ता चरिमसमयणिप्पिदमाण-  
 यस्म तस्स जह० द्विदिउदी० । अणुहिमादि मव्वट्ठा त्ति मम्म०-चारसक०-मत्तणोक०  
 अणदभंगो । एवं जाव० ।

§ ५३४. कालाणु० द्रुविहो णि०—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । द्रुविहो  
 णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० द्विदिउदी० जह० एगम०,  
 उक्क० अंतोमु० । अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकालममंखेजा पोग्गल-  
 पणियट्ठा । मम्म० उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अणुक्क० जह०  
 एयम०, उक्क० छावट्ठिमागगेवमाणि देसूणाणि । मम्मामि० उक्क० द्विदिउदी० जह०  
 उक्क० एयम० । अणुक्क० जह० उक्क० अंतोमु० । सोलमक०-भय-दृगुञ्ज० उक्क०  
 अणुक्क० जह० एगममओ, उक्क० अंतोमु० । इत्थिवेद-पुग्गिमवेद० उक्क० द्विदिउदी०  
 जह० एम०, उक्क० आवलिया० । अणुक्क० जह० एयम०, उक्क० पत्तिदीवममद-  
 पुधत्तं मागगेवमसदपुधत्तं । हस्स-रदि० उक्क० द्विदिउदी० जह० एयम०, उक्क०

जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । इन दोनों कल्पोंके ऊपर खांवेदकी उदीरणा नहीं है । आनत कल्पसे लेकर नौ धैवेयक तकके देवोंमें सनत्कुमार कल्पके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जा अन्यतर चौबीस कर्मोंकी सत्तावाला वेदकसम्यग्रदृष्टि जीव उत्कृष्ट आयुस्थितिवालोंमें उत्पन्न हा और मिथ्यात्वमें जाकर तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजन कर वहासे निकलनेके अनन्तम समयमें स्थित होता है उसके जघन्य स्थितिउदीरणा होती है । अनुदिशमें लेकर सर्वार्थामद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कपाय और सात नोकपायोंका भंग आनतकल्पके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

५३४. कालानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यान पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागरप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है । खांवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक आवलि है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे सौ पृथक्त्व पत्यप्रमाण और सौ पृथक्त्व साग-प्रमाण है । हास्थ और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और

आवलिआ० । अणुकक० जह० एयम०, उक्क० छम्मासं । अरदि-सोग०-णवुंमय०  
उक्क० ड्दिउदी० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अणुक० जह० एयस०, उक्क०  
तेत्तीमं सागरो० सादिरेयाणि । णवरि णवुंम० अणंतकालममंखे०पो०परियट्ट० ।

उत्कृष्ट काल एक आवलि है । अनुत्कृष्ट स्थिति उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है । अरति, शोक और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक नेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक होता है । इसीप्रकार इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिकसे अधिक अनन्त काल तक होता है । इसीसे इसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त तथा अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अनन्त काल कहा है । जो मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर अन्तर्मुहूर्तमें स्थितिघात किये बिना वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसके संक्रमविधानसे दूरमें समयमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा ऐसे जीवके प्रथम समयमें अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कहा है और वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर कहा है ! सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । सोलह कपायकी उत्कृष्ट स्थितिका जघन्य बन्ध काल एक समय और उत्कृष्ट बन्ध काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए तो इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । भय, जुगुप्सा ये संक्रमसे उत्कृष्ट स्थितिवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बन जानेसे यह भी उक्त प्रमाण कहा है । किन्तु सोलह कपाय तथा भय और जुगुप्साका उद्य उदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनका अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । यह जघन्य काल ऐसे कि किसी जीवने एक समय तक क्रोधकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा की और दूरमें समयमें मानकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा करने लगा । इसीप्रकार भय और जुगुप्साका उक्त काल भी घटित कर लेना चाहिए । इनके निरन्तर उद्य-उदीरणाका नियम भी नहीं है, इसलिए भी यह काल बन जाता है । कपायोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके समय स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक आवलि बन जानेसे वह तत्प्रमाण कहा है । इसीप्रकार हास्य और रतिकी उत्कृष्ट उदीरणाका काल घटित कर

५३५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-णवुंम०-अग्दि-मोग० उक्क० द्विदिउदी० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अणुक्क० जह० एयम०, उक्क० तेत्तीसं मागगेवमाणि । मम्म० उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं मागगेवमं देख्णं । सम्मामि०-सोलसक०-भय-दुगुञ्जा० ओघं । हस्स-रदि० उक्क० द्विदिउदी० जह० एयम०, उक्क० आवलिया । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं मत्तमाए । एवं पढमाए जाव ह्विट्ठि ति । णवरि मगड्ठिदी । अरदि-मोग० उक्क० अणुक्क० द्विदिउदी० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० ।

लेना चाहिए । इन चारो प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाके जघन्य और उत्कृष्ट कालका कथन सुगम है । मात्र स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाके जघन्य कालके कथनमें जो विशेषता है वह आगे बतलानेवाले हैं । अरति, शोक और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल भय-जुगुप्साके समान घटित कर लेना चाहिए । अरति और शोककी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय भी यथा सम्भव उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । अरति और शोककी अनुत्कृष्ट उद्दीरणाका उत्कृष्ट काल जो साधक तृतीस सागर बतलाया है उसका कारण यह है कि नरकमें मरनेके पूर्व इनकी उद्दीरणा होने लगी और वहां तृतीस सागर कालतक इनकी उद्दीरणा होती रही । इसप्रकार यह काल बन जाता है । जो जीव नपुंसकवेदसे उपशमश्रेणिपर आरोहण कर उतरने समय एक समय तक नपुंसकवेदका उद्दीरक हुआ और दूसरे समयमें मरकर देव हो गया उसके नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इसीप्रकार स्त्रीवेदकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका एक समय जघन्य काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र पुरुषवेदका भवक अन्तिम समयमें एक समयके लिए अनुत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा कराकर यह काल लाना चाहिए । नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका यह काल इसप्रकार भी प्राप्त किया जा सकता है । एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए इसका मुख्यतासे नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण कहा है ।

५३५. आदेशसे नागियोंमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तृतीस सागर है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तृतीस सागर है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भंग ओघके समान है । हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक आवलि है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इसीप्रकार पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक नाराकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अरति और शोककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

॥ ५३६. तिरिक्खेसु मिच्छ०-णवुंस० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोसु० । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । सम्म० उक्क० ट्टिदिउदी जह० उक्क० एयस० । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसुणाणि । सम्माम्मि०-सोलसक०-द्धएणो० पटमाए भंगो । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० ट्टिदिउदी० ओघं । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तं<sup>१</sup> । एवं पंचिंदियतिरिक्खनिए । एववि मिच्छ० अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० मगट्टिदी । णवुंसं० अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं<sup>२</sup> । णवरि पञ्ज० इत्थिवेद० उदी० णत्थि । जोणिणीसु पुरिस०-णवुंस उदी० णत्थि ।

विशेषार्थ— इनके स्वामित्वमें आघसं कोई विशेषता नहीं है, इसीलए ओघप्ररूपणाके स्पष्टीकरणको ध्यानमें रखकर तथा यहाँकी भवस्थितिको खयालमें रखकर यहा स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । मात्र मिथ्यात्व आर नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा भवके अन्तिम समयमें करानपर इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय प्राप्त करना चाहिए । प्रथमादि छह पृथिवियोंमें अरति और शोककी उदय-उदीरणा अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक होनी है, इसीलए यहां इनका अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इसीप्रकार आगे भी कालको घटित कर लेना चाहिए । यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो उसका अलगसे स्पष्टीकरण करेंगे ।

॥ ५३६. तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर् काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । सम्यक्त्वका उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायोंका भंग प्रथम पृथिवीके समान है । स्वावेद और पुनपवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका भंग आघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य अधिक पूर्वकाटिपृथक्त्वप्रमाण है । इसी-प्रकार पठचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकाटिपृथक्त्वप्रमाण है । इनकी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे म्नीवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा योर्तिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है ।

विशेषार्थ— भोगभूमिमें नपुंसकवेदकी तिर्यञ्च और मनुष्य नहीं होते, अतः पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमें नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल मात्र पूर्वकाटिपृथक्त्व-प्रमाण कहा है । यह विशेषता आगे भी यथायोग्य जान लेनी चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

१. ता०प्रती उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं इति पाठः ।

२. ता०प्रती उक्क० नपुंसं इति पाठः ।

३. ता०प्रती उक्क० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तं इति पाठः ।



॥ ५३७. पंचि०तिरि०अपञ्ज०-मणुमअपञ्ज० मिच्छ०-णवुंम० उक्क० जहणणुक०  
 एयस० । अणुक० जह० सुदाभव० ममऊणं, उक्क० अंतोमु० । मोलसक०-छणणोक०  
 उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अणुक० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० ।  
 मणुमतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो ।

॥ ५३८. देवेसु मिच्छ० उक्क० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।  
 अणुक० जह० एयम०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० । मम्म० उक्क० द्विदिउदी० जह०  
 उक्क० एयम० । अणुक० जह० एयम०, उक्क० तेत्तीमं मागरोवमाणि । मम्मामि०-  
 मोलमक०-अदि-सोग-भय-दुगुंझा० पढमपुढविभंगो । इत्थिवे० उक्क० जह० एयम०,  
 उक्क० आवलिया० । अणुक० जह० एयम०, उक्क० पणवएणपलिदां० । पुग्गिमेवेद०  
 उक्क० ओघं । अणुक० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । हम्म-ग्दि० उक्क०  
 द्विदिउदी० ओघं । अणुक० जह० एयममओ, उक्क० छम्मामा । एवं भवणादि जाव  
 महस्मार ति । णवरि मग्गिदी । हम्म-ग्दि० पारयभंगो । महस्मारि हम्म-ग्दि० ओघं ।  
 भवण०-वाणवे०-जोदिमि० इत्थिवे० उक्क० ओघं । अणुक० जह० एयस०, उक्क०

॥ ५३७. पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्ज अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकामे मिथ्यात्व और नपुंसक  
 वेदकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थिति-  
 उद्दीरणाका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवप्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल  
 अन्तर्मुहूर्त है । सालह कषाय और छह नोकपायोकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और  
 उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और  
 उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकामे पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्जत्रिकके समान भंग है ।

॥ ५३८. देवोमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और  
 उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और  
 उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट  
 काल एक समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल  
 ततीस सागर है । सम्यग्मिथ्यात्व, सालह कषाय, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका भंग  
 प्रथम पृथिवीके समान है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है  
 और उत्कृष्ट काल एक आवलि है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है  
 और उत्कृष्ट काल पचवन पत्य है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका भंग आघके समान  
 है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ततीस सागर  
 है । हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका भंग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणा  
 का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महाना है । इसीप्रकार भवनवासियोसे  
 लेकर सहस्वार कल्पतक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी  
 चाहिए । तथा इनमे हास्य और रतिका भंग नागकियोके समान है । सहस्वारमे हास्य और  
 रतिका भंग आघके समान है । भवनवासी, अन्तर और ज्योतिषी देवोमे स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट  
 स्थितिउद्दीरणाका भंग ओघके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय

तिष्णि पलिदोवमाणि पलिदोवमसादिरेयाणि पलिदोवममादिरे० । सोहम्मीसाणे इत्थिवेद० देवोघं । उवरि इत्थिवे० णत्थि ।

§ ५३९. आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ० उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० मगद्विदी । मम्म० उक्क० द्विदिउदी० जहणु० एयस० । अणुक० जह० एयममओ, उक्क० मगद्विदी । सम्मामि० ओघं । सीलसक०-छण्णोक० उक्क० द्विदिउदी० जहणुक्क० एयम० । अणुक० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । पुग्गिवेद० उक्क० द्विदिउदी० जहणुक्क० एयम० । अणुक० जहणुक्क०-द्विदी ।

§ ५४०. अणुहिमादि सव्वट्ठा त्ति मम्म० उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अणुक० जह० एयम०, उक्क० मगद्विदी । वारमक०-छण्णोक० उक्क० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अणुक० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । पुग्गिसेव० उक्क० द्विदिउदी० जहणुक्क० एयम० । अणुक० जहणुक्क० जहणुक्क०-द्विदी । एवं जाव० ।

हैं और उत्कृष्ट बाल क्रमसे तीन पत्न्य, साधिक एक पत्न्य और साधिक एक पत्न्य हैं। सौवर्मे और ऐशानकल्पमे रत्नोवेदका भंग सामान्य देवोंके समान हैं। आगे स्त्रीवेदका उद्धारणा नहीं है।

§ ५३८. आनतकल्पसे लेकर नीचे प्रेयकतकके देवोंमें मन्थात्वका उत्कृष्ट स्थिति-उद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल अन्नमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वका उत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। मन्थात्वका भंग ओघके समान है। गालह कपाय और छह नाकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

§ ५४० अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। वारह कपाय और छह नाकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्नमुहूर्त है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थिति-उद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

५४१. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जह० अंतोमु०, उक्क० अद्रपोग्गलपरियट्टं देसूणं । सम्म० जह० द्विदिउदी० जहणु० एयम० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० छावट्टिमागरोवमाणि देसूणाणि । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अजह० जह० उक्क० अंतोमु० । बारसक०-भय-दुगुंद्ध० जह० अज० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । चदुसंज० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । इत्थिवे०-पुरिमवे०-गवुंस० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० एयस०, पुरिमवे० अंतोमु० । उक्क० पल्लिदोवमसदपुधत्तं मागरोवमसदपुधत्तं अणंतकालमसंखे० पोग्गलपरियट्टं । हम्म-रदि० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयम०, उक्क० छम्मासं । अरदि-सोग० जह० जह० उक्क० एयममओ । अज० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं मागरो० सादिरेयाणि ।

५४१ जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाके तीन भंग है । उनमेसे जो सादि-सपर्यगसित भंग है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छ्यामठ माग है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साको जघन्य और अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । चार मज्जलनकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेदकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है, पुरुषवेदका अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमसे सौ पत्यपृथक्त्व, सौ सागरपृथक्त्व तथा असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण अन्तर् काल है । हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है । अरति और शाककी जघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्धारणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तैतास सागर है ।

**विशेषार्थ**—जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख हो एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिके रहनेपर उपरितन एक स्थितिकी उद्धारणा करता है उसका मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउद्धारणा मात्र एक समय तक प्राप्त होनेके कारण इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इसकी अजघन्य स्थितिउद्धारणाके तीन भंग प्राप्त होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-मान्त और सादि-सान्त । उनमेसे सादि-सान्त भंगका जो जघन्य और

५४२. आदेसेण एणइय० मिच्छ०-णवुंस०-अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० अंतोमु०, अरदि-सोग० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागगेवमाणि । सम्म० जह० द्विदिउ० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० एयसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागगे० देखणाणि । सम्मामि० ओधं । सोलसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुंछा० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयसमओ । अज० जह० एयस०,

उत्कृष्ट काल मूलमे बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वमें जाकर अन्तर्मुहूर्त कालतक मिथ्यादृष्टि बना रहकर पुनः सम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है और जो अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण कालके शेष रहने पर सम्यग्दृष्टि होकर पुनः अन्तर्मुहूर्तमे मिथ्यादृष्टि हो जाता है और मुक्ति लाभ करनेके कुछ काल पूर्व सम्यग्दृष्टि होता है उसके मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है। सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार क्षाधिक सम्यक्त्वको प्राप्त करते समय एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर एक समय तक उपरितन स्थितिकी होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा वेदकसम्यक्त्वके जघन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर इसकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम ल्हासठ सागर कहा है। अपने स्वामित्वके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस गुणस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तको ध्यानमें रखकर इसकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। बाह्य कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थिति उद्दीरणाका जो स्वामित्व बतलाया है उस ध्यानमें रखकर इनकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए। अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका काल सुगम है। कालका निर्देश मूलमें किया ही है। चार संज्वलनोकी जघन्य स्थिति दोनो श्रेणियोंमें विवक्षित कषायसे चढ़े हुए जीवके एक समयतक होती है, इसलिए इनकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। इसीप्रकार आगे भी स्वामित्वका विचारकर काल घटित कर लेना चाहिए। सुगम होनेसे प्रथक्-प्रथक् स्पष्टीकरण नहीं किया। यही बात गतिमार्गणाके सब उत्तर भेदोंमें जाननी चाहिए। जहाँ कुछ विशेषता होगी उसका स्पष्टीकरण अलगसे करेंगे।

५४२. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, अरति और शोककी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त, अरति और शोककी अपेक्षा जघन्य काल एक समय तथा सबका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। सोलह कषाय हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट

उक्० अंतोमु० । एवं पहमाए । एवरि मगट्टिदी । अरदि-भोग० जह० ट्टिदिउदी० जह० उक्० एयम० । अज० जह० एयम०, उक्० अतोमु० ।

६४३. विदियादि जाव छट्टि ति मिच्छ० जह० ट्टिदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० मगट्टिदी । सम्म० जह० जह० उक्क० एयममओ । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० मगट्टिदी देसूणा । सम्मामि० ओघं । वारमक०-छण्णोक० जह० ट्टिदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अणंताणु०४ जह० अजह० ट्टिदिउदी० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । णवुंस० जह० ट्टिदिउ० जह० उक्क० एयस० । अज० जहण्णुकक० जहण्णुककस्म-ट्टिदी भाणियव्वा ।

६४४. मत्तमाए मिच्छत्त-णवुंस०-अरदि-सोग-मम्मामि०-हस्म-रदि० णिरयोघं । सम्म० जह० ट्टिदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क०

काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषना है कि अपनी स्थिति कहना चाहिए । अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—अरति और शोककी अजघन्य स्थितिउदीरणा प्रथमादि छह पृथिवियोंमें अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त कालतक ही जाती है । यही कारण है कि प्रथम पृथिवीमें उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

६४५. दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वका जघन्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग आघके समान है । बारह कपाय और छह नाकवायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदका जघन्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—इन नारकियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके स्वामित्वको ध्यानमें लेनेपर इनकी जघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है, इसलिए यह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

६४६. सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, अरति, शोक, सम्यग्मिथ्यात्व, हास्य और रतिका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका



सम्मामि० निरिक्खोघं । सोलसक०-झरणोक० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । णवुंम० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । जोणिणीसु पुरिमवे०-णवुंस० णत्थि । जोणिणी० सम्म० अज० जह० अंतोमु० ।

॥ ५४७. पंचि०निरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० आवलिया ममयूणा, उक्क० अंतोमु० । सोलसक०-झरणोक० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । णवुंस० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० उक्क० अंतोमु० ।

॥ ५४८. मणुसतिय० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म० अज० जह० अंतोमु० । तिणिवेद० अज० जह० एयम० । पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । सम्म०

स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट बाल सिध्यात्व आदि तीनोंका ही अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा योनिनी तिर्यञ्चोंमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ — कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्य मरकर योनिनी तिर्यञ्चोंमें नहीं उत्पन्न होते, अतः इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय न बन सकनेके कारण वह अन्तर्मुहूर्त कहा है जो वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा बन जाता है ।

॥ ५४७ पंचेन्द्रिय तिर्यच अपग्रीप्त और मनुष्य अपर्थाप्तकोंमें मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कम एक आबाल है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

॥ ५४८. मनुष्यत्रिकमे पंचेन्द्रिय तिर्यचोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । तानों वेदोंकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है ।

अज० जह० एयसमओ । मणुसिणीसु पुरिसवेद०-एवुंस० एत्थि ।

§ ५४९. देवेसु मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीमं सागरोवमं । मम्म०-पुग्गिमे० जह० द्विदिउ० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयम०, पुग्गिमे० अंतोमु०, उक्क० दोण्हं पि तेत्तीमं सागरोवमं । मम्मामि०-सालमक०-ञ्जणोक० पढमपुढविभंगो । णवरि हस्म-ग्दि० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एगसमओ । अज० जह० एयम०, उक्क० मम्मामं । इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एगम० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० पणवएणं पल्लिदोवमं० । एवं भवण-त्राणवें० । णवरि मगद्धिदी । सम्पत्त० अज० जह० अंतोमु०, उक्क० मगद्धिदी देसणा । इत्थिवे० अज० जह० अंतोमु०, उक्क० निण्ण पल्लिदो० पल्लिदो० सादिरैयाणि । हस्म-ग्दि० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयम० । अज० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

तथा इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है । मनुष्यनियामें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है ।

**विशेषार्थ**—मनुष्योंमें क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें हो सकती है । इसलिए क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाली जो कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि मनुष्यनी मरकर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होती है वह भी मनुष्य पर्याप्तकोंमें ही उत्पन्न होती है । इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ मनुष्य पर्याप्तकोंमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह तत्प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ५४९. देवोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है । सम्यक्त्व और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है, पुरुषवेदका अन्तर्मुहूर्त है और दोनोका उत्कृष्ट काल तेनीस सागर है । सम्यग्मिथ्यात्व, सालह कपाय और छह नाकषायोका भंग प्रथम पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है । स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पचवन पल्य है । इसीप्रकार भवनबासी और व्यन्तरदेवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहना चाहिए । सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपना स्थिति-प्रमाण है । स्त्रीवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल क्रमसे तीन पल्य और साधिक एक पल्य है । हास्य-गतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।



§ ५५०. जोदिसियादि जाव सहस्सार ति मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० मगड्ढिदी । सम्म० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अजह० जह० एयस०, उक्क० सगड्ढिदी । सम्मामि०-सोलमक०-उण्णोक० विदियपुठविभंगो । इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयस० । अज० जह० पल्लिदो० अट्टभागो पल्लिदो० सादिरेंयं, उक्क० पल्लिदो० सादिरेंयं पणवणं पल्लिदोवमाणि । पुरिसवे० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०..... । अज० जहण्णुक० जहण्णुकस्मड्ढिदीओ । णवरि जोदिमि० सम्म० अज० जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० सादिरेंयं । सहस्सारे हस्म-रदि ओषं । आणदादि णवगेवजा ति मणकुमारभंगो । णवरि सगड्ढिदी । अणंताणु०४ जह० द्विदिउदी० जह० उक्क० एयसमओ । अज०

विशेषार्थ—सामान्यकी अपेक्षा देवोंमें भी कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय बन जानेसे यह काल तत्प्रमाण कहा है । किन्तु भवनत्रिकमें सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं प्राप्त होनेसे यह अन्तर्मुहूर्त कहा है । पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउद्दीरणा जो हतसमुत्पत्तिक असंखी जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त होनेपर होती है, इसलिए सामान्य देवोंमें पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इसीप्रकार स्वामित्व और भवस्थिति आदिका जानकर अन्य सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ ५५०. ज्योतिषी देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकषायोंका भग दृग्गी पृथिवीके समान है । स्त्रीवेदका जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल ज्योतिषियोंमें एक पत्यका आठवाँ भागप्रमाण और सौधर्म-ऐशानकल्पमें साधिक एक पत्यप्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल ज्योतिषियोंमें साधिक एक पत्यप्रमाण और सौधर्म-ऐशानकल्पमें पचवन पत्यप्रमाण है । पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक एक पत्य है । सहस्रार कल्पमें हास्य और रतिक भंग ओषके समान है । आन्त कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें सनत्कुमारकल्पके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका

जह० एयस०, उक० अंतोमु० ।

§ ५५१. अणुहिमादि सव्वद्धा ति मम्म० जह० द्विदोउदी० जह० उक० एयस० । अज० जह० एयस०, उक० सगद्धिदी । पुरिमवेद० जह० द्विदिउदी० जह० उक० एयस० । अजह० जहण्णुक० जहण्णुकस्मद्धिदी । वारसक०-द्धण्णोक० जह० द्विदिउदी० जह० उक० एयस० । अज० जह० एयस०, उक० अंतोमु० । एवं जाव० ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—ज्योतिषियोंमें सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होत, इसलिए इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं प्राप्त होता, इसलिए वह अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा ज्योतिषियोंकी उत्कृष्ट स्थिति साधिक एक पल्य है, इसे ध्यानमें रखकर इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण कहा है । किन्तु इसे कुछ कम ही जानना चाहिए । कारण स्पष्ट है । सहस्रार कल्पमें हास्य और रतिकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउद्दीरणाओंके समान बन जानी है इस बातको ध्यानमें रखकर इस कल्पमें हास्य और रतिका भंग आघके समान कहा है । आन्तकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें स्वामित्वके अनुसार सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल सनत्कुमारकल्पके देवोंके समान बन जाता है । मात्र यहा अपनी-अपनी स्थिति जाननी चाहिए । साथ ही इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउद्दीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार भवके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है । मात्र अपने-अपने स्वामित्वको जानकर काल घटित करना चाहिए ।

§ ५५१ अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसाद्वृत्तकर देवोंमें सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बाह्य कपाय और छह नोकपायोंकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—इन देवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव भी उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । इनमें सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका उत्कृष्ट काल अपना-अपनी उत्कृष्ट भवस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । अपने स्वामित्वक अनुसार इनमें पुरुषवेदका जघन्य स्थितिउद्दीरणा भवके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इनमें पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । इनमें पुरुषवेदकी अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य

§ ५५२. अंतरं दुविहं—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदसेण य । ओघेण मिच्छ०-अणंताणु०४ उक० द्विदिउदी० जह० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । अणुक० जह० एयस०, उक० वेळावट्टिसागरो० देसूणाणि । सम्म०-सम्मामि० उक० अणुक० द्विदिउदां० जह० अंतोमुहुत्तं, णवरि सम्म० अणुक० जह० एयस०, उक० उवड्डपो०परियट्टं । अट्टक० उक० द्विदिउदी० जह० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखे०पोग्गलपरियट्टं । अणुक० जह० एयसमओ, उक० पुव्वकोडी देसूणा । एवं चदुसंजल० । णवरि अणुक० जह० एयम०, उक० अंतोमु० । इत्थिवे०-पुग्गिमे० उक० अणुक० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । एवं णवुस० । णवरि अणुक० जह० एयस०, उक० मागरोवममदपुधत्तं । एवं हस्स-रदीणं । णवरि अणुक० जह० एयसमओ, उक० तेत्तीसं मागरोवमं सादिरेयं । एवमरदि-मोग० । णवरि अणुक० जह० एयस०,

और उत्कृष्ट काल अपर्ना-अपनी जघन्य और उत्कृष्ट भवाम्भितप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इनमे बारह कृपाय और छह नोकपायोंकी जघन्य स्थितिउद्दीरणा अपने भवाम्भित्वक अनुसार भवके अन्तिम समयमे ही प्राप्त होती है, इसलिए यहा इनकी जघन्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ५५२. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो ख्यासठ सागरप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यास्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । आठ कृपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । इसीप्रकार चार संज्वलनोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । खीवेद और पुरुषवेद की उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसक वेदके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार हास्य और रतिके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तनीस सागर है । इसीप्रकार अरति और शोकके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल

उक० छम्मामा । एवं भय-दृगुञ्जणं । णवरि अणुक्क० जह० एयम०, उक० अंतोमु० ।

छह महीना है । इसीप्रकार भय और जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम जघन्यमें अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और उत्कृष्टसे अनन्त कालके अन्तरसे होते हैं, क्योंकि मंजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल आगममें बतलाया है और ऐसे परिणाम उक्त जीवके ही होते हैं । यही कारण है कि यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त कालप्रमाण कहा है । यहाँ अनन्त कालसे असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालका ग्रहण हुआ है । इसलिए उसके स्पष्टीकरणके रूपमें अनन्त कालको असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कमसे कम एक समयतक भा होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय बन जाता है । तथा जो सम्यग्दृष्टि जीव बीचमें अन्तर्मुहूर्त कालतक सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त कर सम्यक्त्वके साथ कुछ कम दो छयासठ सागर कालतक रहकर पुनः मिथ्यादृष्टि हो जाता है उनके उक्त कालतक उक्त प्रकृतियोंकी उदीरणा नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है । जो मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर उसका स्थितिघात किये बिना वेदकसम्यग्दृष्टि बनता है उस वेदकसम्यग्दृष्टिके दूसरे समयमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है तथा आगे अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । तथा अन्तर्मुहूर्तमें उसीके कदाचित् मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होनेपर उनके प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है और आगे उसीकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । इसके बाद अन्तर्मुहूर्तमें उसके मिथ्यादृष्टि हो जानेपर तथा उसी प्रकार पुनः अन्तर्मुहूर्तमें वही सब क्रिया करनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । इतनी विशेषता है कि ऐसा जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रथम समय और तृतीय आदि समयोंमें सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा करता है और दूसरे समयमें उसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा करता है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । इनकी उक्त दोनों उदीरणाओंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । आठ कषायोंकी उदीरणा क्रमसे पाँचवें और छठे आदि गुणस्थानोंमें नहीं होता और पाँचवें तथा छठे आदि गुणस्थानोंका जुदा-जुदा उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है । यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि इनकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जो उत्कृष्ट अन्तरकाल बतलाया है वह इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका नहीं घटिता होता, क्योंकि मिथ्यात्वमें इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाके कालको छोड़कर यथाम्भव होनी रहती है । चार संज्वलनकी उदीरणा उपशमश्रेणियोंमें उदीरणा व्युच्छित्तिके बाद पुनः उस स्थानके प्राप्त होनेतक मध्यकालमें नहीं होती । यदि ऐसा जीव एक समयतक अनुदीरक होकर दूसरे समयमें मरकर देव हो जाय तां एक समयके

५५३. आदेसेण गोरइय० मिच्छ०-सम्मामि०-अणताणु०४ उक्क० द्विदिउदी० जह० अंतोमु०, अणुक्क० जह० एयस०, मम्मामि० उक्क० अणुक्क० जह० अतोमु०, हस्म-रदि० उक्क० अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० मव्वेमिं तेचीमं मागरोवमाणि देसुणाणि । बारमक० उक्क० द्विदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसमागरो० देसुणाणि । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं एणुसं-अग्दि-सोग-भय-दुगुंझा० । एणवरि उक्क० द्विदिउदी० जह० एयस० । एवं मत्तमाए । एवं पढमाए जाव ह्विट्ठि त्ति । एणवरि सगट्ठिदी देसुणा । हस्म-रदि० अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

५५४. तिरिक्खेसुं मिच्छ०-अणताणु०४ ओघं । एणवरि अणुक्क० जह०

अन्तरके बाद भी इनकी उद्दीरणा होने लगती है। यही कारण है कि यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है। नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय कहा है। इन नौ नोकपायोंमें भय और जुगुप्साको छोड़कर शेष सात सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं और इनका जघन्य बन्धहाल एक समय है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। आगे गति मार्गणाक सब भेदोंमें स्वाभाविक और उक्त विशेषार्थ तथा अपनी-अपनी स्थिति आदिकों ध्यानमें रखकर स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो उसका संकेत करेंगे।

५५३. आदेशसे नारकियोम मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है, अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तर काल एक समय है, सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है, हास्य और रतिकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल सबका कुछ कम तैत्तीस भाग है। बारह कपायकी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तैत्तीस भाग है। अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है। इसीप्रकार नपुंसकवेद, अरति, शाक, भय और जुगुप्साके सम्बन्धमें जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार सातवीं पृथिवीमें जान लेना चाहिए। इसीप्रकार प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इन पृथिवीबोधमें हास्य और रतिकी अनुत्कृष्ट स्थिति उद्दीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है।

५५४. तियेओमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग ओघके समान है।

१. ता०प्रती हस्म-रदि० अणु० जह० । एयस० इति पाठः ।

२. ता०प्रती सगट्ठिदी देसुणा । उक्क० अंतोमु० । तिरिक्खेसु इति पाठः ।

एयस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसणाणि । मम्म०-सम्मामि०-अपच्चक्खाण०४-  
इत्थिवे०-पुरिसवे० ओघं । अट्टक० ओघं । णवरि अणुक० जह० एयस०, उक०  
अंतोमु० । णवुंसवे० ओघं । णवरि अणुक० जह० एयम०, उक० पुव्वकोडिपुधत्तं ।  
हण्णोक० उक० ओघं । अणुक० जह० एयस०, उक० अंतोमु० । एवं पंचिदिय-  
तिरिक्खतिय० । णवरि सव्वपयडी० उक० द्विदिउदी० उक० पुव्वकोडिपुधत्तं ।  
सम्म०-सम्मामि० अणुक० जह० एयस० अंतोमु०, उक० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडि-  
पुध० । तिण्णिवेद० उक० अणुक० जह० एयम०, उक० पुव्वकोडिपुध० । पज्जत्त०  
इत्थिवे० एत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अणुक० जह०  
एयम०, उक० आवलिगा ।

५५५. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-णवुंस० उक०  
अणुक० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । सेमपयडी० उक० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं ।  
अणुक० द्विदिउदी० जहण्णुक० अंतोमु० ।

इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है। सम्यक्त्व, सम्यगिभ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरण चार, स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग ओघके समान है। आठ कषायका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। नपुंसकवेदका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि-पृथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यगिभ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। तीन वेदोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनीतिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक आवलिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ योनिनीतिर्यञ्चोंमें स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जो उत्कृष्ट अन्तरकाल एक आवलि बतलाया है उसे स्थितिबिभक्ति भाग ३, पृ० ३२० को देखकर घटित कर लेना चाहिए। तथा इसीप्रकार अन्य विशेषता भी जाननी चाहिए।

५५५. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५५६. मणुमति ए पंचिदियतिग्खिभंगो । णवरि मणुमिणी० इत्थिवेद०  
अणुक० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

५५७. देवगदी ए देवेसु मिच्छ०-सम्म०-अणंताणु०४-सम्मामि० उक्क०  
ट्टिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टारम सागरो० सादिरेयाणि । अणुक० जह०  
एयम०, सम्मामि० अणुक० जह० अंतोमु०, उक्क० मव्वेसिमैक्कत्तीसं सागरो०  
देसुणाणि । वारसक० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टारमसागरो०  
सादिरेयाणि । अणुक० जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । एवं छण्णोक० । णवरि  
उक्क० जह० एयम०, अरदि-सोग० अणुक० जह० एगम०, उक्क० छममासं ।  
इत्थिवे० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसुणं ।  
अणुक० जह० एयम०, उक्क० आवलिया । एवं पुरिमवे० । णवरि उक्क० ट्टिदिउदी०  
जह० एयम०, उक्क० अट्टारम सागरोवमाणि सादिरेयाणि । एव भवणादि जाव  
सहस्मार ति । णवरि सगट्टिदी भाणिय०या । णवरि भवण०-णणवें-जोदिमि०-मोहम्मी-  
साणोसु इत्थिवे० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयम०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसु-

§ ५५६. मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोक समान भंग है । इतनी विशेषता है कि  
मनुष्यिनयोमें स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—उपशमश्रेणिकी अपेक्षा मनुष्यिनयोमें स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा-  
का उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

§ ५५७. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्यानुबन्धीचतुष्क और सम्यगिमिथ्यात्व-  
की उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल  
साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है,  
सम्यगिमिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और सबका  
उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है । बारह कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका  
जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर है । अनुत्कृष्ट  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।  
इसीप्रकार छह नोकपायोंके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है । अरति और शोककी अनुत्कृष्ट स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । स्त्रीवेदकी  
उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम  
पचवन पत्य है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तरकाल एक आवलि है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि इसकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल  
साधिक अठारह सागर है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार वल्पतक देवोंमें जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि  
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म-पेशानकल्पके देवोंमें स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थिति-

णाणि, पलिदो० सादिरे०, पलिदो० मादिरे०, पणवण्णं पलिदो० देसूणं । अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० आवलिया । उवरि इत्थिवेद० अणुदीरगा । सव्वेसिमरदि-सोग० अणुक्क० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवरि सहस्सारे अरदि-सोग० अणुक्क० जह० एयस०, उक्क० छम्मासा ।

§ ५५८. आणदादि उवरिमगोवज्जा त्ति सव्वपयडीणमुक्क० द्विदिउदीरणा णत्थि अंतरं । मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० सगद्विदी देखणा । बारसक०-छण्णोक० अणुक्क० जह० उक्क० अंतोमु० । पुरिसवे० उक्क० अणुक्क० एत्थि अंतरं । अणुद्दिसादि सव्वट्ठा त्ति मम्म०-पुरिसवे० उक्क० अणुक्क० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । बारसक०-छण्णोक० उक्क० द्विदिउदी० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

§ ५५९. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० वेज्जावड्डिमागरो० देखणाणि । एवं सम्मामि० । एवरि अजह०

उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे कुछ कम तीन पल्य, साधिक एक पल्य, साधिक एक पल्य और कुछ कम पचवन पल्यप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक आवलि है । आगेके देव स्त्रीवेदके अनुदीरक हैं । सबमे अरति और शोककी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि सहस्त्र कल्पमे अरति और शोककी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है ।

§ ५५८ आनतकल्पसे लेकर उपरिम ग्रैवेयकतकके देवोमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यगिमथ्यात्व और अनन्तानु-बन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । बारह कपाय और छह नोकषायोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अनुद्दिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे सम्यक्त्व और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । बारह कपाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५५९. जघन्य प्रकृत हैं । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधुपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण है । इसीप्रकार सम्यगिमथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अजघन्य



जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियड्डुं । एवं सम्म० । णवरि जह० ड्ढिदिउदी०  
णत्थि अंतरं । अथवा सम्म० जह० ड्ढिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डु-  
पोग्गलपरियड्डुं । अणंताणु०४ जह० ड्ढिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० असंखेज्जा  
लोगा । अजह० जह० एयस०, उक्क० वेच्चावड्ढिमागरो० देसूणाणि । एवमड्डुक० ।  
णवरि अज० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । एवं भय-दुग्गुड्ढा० । णवरि  
अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । चदुसंजल० जह० ड्ढिदिउदी० जह०  
अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियड्डुं । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।  
इत्थिवे०-पुरिमवे० जह० ड्ढिदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियड्डुं ।  
अज० जह० अंतोमु०, पुरिसवे० एयस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गल-  
परियड्डा । एवं णवुंस० । णवरि अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं ।  
हस्स-रदि० जह० ड्ढिदिउदी० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० अणंत-  
कालमसंखे० पोग्गलपरियड्डा । अज० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं मागरो०

स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तन-  
प्रमाण है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जघन्य  
स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अथवा सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य  
अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानु-  
बन्धीचतुष्कर्का जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट  
अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । इसीप्रकार आठ  
कषायोके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य  
अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकारिप्रमाण है । इसीप्रकार  
भय और जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका  
जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है । चार संज्वलनकी  
जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध-  
पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य  
अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और पुरुषवेदका एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तरकाल दोनोंका अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार  
नपुंसकवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका  
जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । हास्य  
और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है और  
उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक ततोस सागर

सादिरेयाणि । एवमरदि-सोग० । णवरि अज० जह० एयस०, उक० छम्मासं ।

है । इसीप्रकार अरति और शोकके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है ।

**विशेषार्थ**—प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी द्वितीय बार प्राप्ति कमसे कम पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरके पूर्व नहीं होती, इसीलिए मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अपने स्वामित्वके अनुसार उक्त कालप्रमाण कहा है । इसकी जघन्य स्थिति-उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । मिथ्यात्व गुणस्थानके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमें रखकर इसकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है । मिश्र गुणस्थानके अन्तरकालका ध्यानमें रखकर सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा दर्शनमोहनीयकी क्षणिके समय एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहने पर होती है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । किन्तु द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके अन्तरकालकी अपेक्षा इसका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । बादर एकेंद्रियोंके अन्तरकालका ध्यानमें रखकर अन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है । अन्तरकालका निर्देश मूलमें है ही । जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है, इसलिए तो इसकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय कहा है तथा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अन्तरकालका ध्यानमें रखकर इसकी अजघन्य स्थिति उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है । संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । और इनके क्रमशः अपत्याख्यानावरण-चतुष्ककी तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी उदीरणा नहीं होती, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । चार संज्वलनकी उपशम श्रेणिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका ध्यानमें रखकर जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा उपशमश्रेणिके चढ़ते समय अपनी-अपनी उदीरणायुच्छित्तिसे लेकर उतरते समय पुनः उदीरणा प्राप्त होनेके कालतक इसकी अनुदीरणा है । यह काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए इसकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त कहा है । भय और जुगुप्साका अन्य सब विचार आठ कषायके समान ही है । मात्र इनकी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तमुहूर्त कालतक उदीरणा नहीं होती, क्योंकि ये सान्तर उदय प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त कहा है । उपशामक और क्षणिके अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार ही स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है, इसलिए उपशामककी अपेक्षा इनकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त प्राप्त होनेमें वह उक्त कालप्रमाण कहा है । स्पष्टीकरण सुगम है । उपशमश्रेणिके स्त्रीवेदा मरकर देव होता है पर उसका वेद बदलकर पुरुषवेद हो जाता है, इसलिए तो इसकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त कहा है । मात्र पुरुषवेदका मरणाकी अपेक्षा यह अन्तरकाल एक समय बन जाता है, इसलिए वह एक समय कहा है । इन दोनोंकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट

§ ५६०. आदेशेण शेरह्य० मिच्छ०-सम्मामि० जह० द्विदिउदी० जह० पलिदो० असखे०भागो, अज० जह० अंतोमु०, उक्क० दोणहं पि तेत्तीसं सागगे० देसूणाणि । एवं सम्म० । एवरि जह० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४-हस्स-रदि० जह० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयम०, उक्क० तेत्तीमं सागगे० देसूणाणि । वारमक०-अरदि-मोग०-भय-दुगुञ्जा० जह० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । एवुंम० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० एयसमओ । एवं पढमाए । एवरि सगद्विदी देसूणा । हस्स-रदि० अज० जह० एगस०,

अन्तरकाल सुगम है । नपुंसकवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाके जघन्य अन्तरकालका स्पष्टीकरण स्त्रीवेदके समान कर लेना चाहिए । सौ सागरपृथक्त्व कालतक नपुंसकवेदका उदय न हो यह सम्भव है, इसलिए इसकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण कहा है । हास्यादि चारकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वको देखते हुए दूसरी बार वह कमसे कम पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके पूर्व नहीं प्राप्त हो सकती है, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा जो बादर एकेन्द्रिय जीव हतममुत्पत्तिक होकर संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद इनकी जघन्य स्थितिउदीरणा करता है वह पुनः इम अवस्थाको अधिकसे अधिक काल बाद यदि प्राप्त करे तो अनन्तकाल बाद ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संज्ञी पञ्चेन्द्रियका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है यह तो स्पष्ट ही है । मात्र उत्कृष्ट अन्तरकाल जुदा-जुदा है । कारण कि हास्य-रतिका उत्कृष्ट अनुदीरणाकाल साधिक तैतीस सागर है और अरति-शांकका उत्कृष्ट अनुदीरणाकाल छह महीना है । यही कारण है कि हास्य-रतिका अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तैतीस सागर कहा है तथा अरति-शांककी अजघन्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना कहा है । शेष कथन सुगम है । आगे गतिमार्गाका भेदोंमें अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार इसे समझकर अन्तरप्ररूपणा घटित कर लेनी चाहिए ।

§ ५६०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्प्रगिमिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और दोताका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तैतीस सागर है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके सम्बन्धमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धा चार, हास्य और रतिका जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तैतीस सागर है । बारह कषाय, अरति, शांक, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए । हास्य और रतिका अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य

उक्क० अंतोमु० ।

§ ५६१. विदियादि जाव छट्टि ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० द्विदीउदी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, अज० जह० अंतोमु०, उक्क० दोण्हं पि सगट्टिदी देसुणा । बारमक०-छण्णोक० जह० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अणंताणु०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयम०, उक्क० सगट्टिदी देसुणा । णवुंम० जह० अजह० द्विदीउदी० णत्थि अंतरं । सत्तमाए णिरयोघं । णवरि सम्म० सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ५६२. तिरिक्खेसु मिच्छ० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ ओघं । एवरि अणंताणु०४ अजह० जह० एयस०, मिच्छ० अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० दोण्हं पि तिण्णि पलिदो० देसुणाणि । अपच्चक्खाण०४ ओघं । अट्टक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० जह० अंतोमु०, उक्क० असंखेजा लोगा । अज० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । इत्थिवे०-पुरिमवे० जह० द्विदिउदी० जह० पलिदो० असंखे०भागो,

अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ५६१. दूमरीमें लेकर छठी पृथ्वीतकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ह, अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय और छह नोकरपायोंकी जघन्य स्थिति-उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धाचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । नपुंसकवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थिति-उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है ।

§ ५६२. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चारकी अजघन्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भंग ओघके समान है । आठ कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । ऋग्वेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर-

१. ता०-आ०प्रत्योः जह० उक्क० इति पाठः ।

२. ता०-आ०प्रत्योः एवरि सम्मामिच्छत्तभंगो इति पाठः ।

उक्० अणंतकालमसंखे० पो० । अज० जह० एयम०, उक्० अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरिग्रहा । एवं हस्म-रदि-अरदि-सोग० । णवरि अज० जह० एयस० उक्० अंतोमु० । एवं णवुंम० । णवरि अज० जह० एयस०, उक्० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

५६३. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ० जह० द्विदिउदी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० मगद्धिदी देसणा । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तिणिए पलिदो० देसणाणि । एवं मम्मामि०ऽ। णवरि अज० जह० अंतोमु०, उक्क० मगद्धिदी । एवं मम्म० । णवग्गि जह० एत्थि अंतरं । अणंताणु०४ जह० द्विदिउदी० एत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० तिणिए पलिदो० देसणाणि । अपच्च-क्खाण०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयम०, उक्क० पुव्वकोडी देसणा । अट्टक०-उण्णोक्क० जह० द्विदिउदी० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । तिण्हं वेदाणं जह० द्विदिउदी० एत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० एत्थि । जोण्णिणी० पुग्गिसे०-

काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार हास्य, गति, अरति और शोकके विषयमें जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदके विषयमें जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।

५६३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिमे मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अपनी स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । आठ कपाय और छह नोकपायकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । तीन वेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें

णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अज० जहणुक्क० एयस० । सम्म० सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ५६४. पंचि०तिरिक्खअपज०-मणुमअपज० मिच्छ०-णवुंस० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० एयस० । सोलसक०-उण्णोक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ५६५. मणुसतिए मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-उएणोक्क० पंचि०तिरिक्खभंगो । अधवा सम्म० जह० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अट्ठक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसणा । चदुसंज० जह० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अज० जह० एयसमओ किट्ठीवेदयस्म, उक्क० अंतोमु० । तिण्णवेद० जह० अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । णवरि पज० इत्थिवेद० णत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवेद० अज० जह० उक्क० अंतोमु० ।

§ ५६६. देवेसु मिच्छ०-सम्मामि० जह० द्विदिउदी० जह० पल्लिदो० असंखे०-भागो । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० दोण्हं पि एकत्तीसं सागरो० देसणाणि ।  
 ॐवेदकी उदीरणा नहीं है और योनिनीतिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। ॐवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिध्यात्वके समान है।

§ ५६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५६५. मनुष्यत्रिकमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और छह नोकषायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। अथवा सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। आठ कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। चार संज्वलनोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल कृष्टिवेदके एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। तीन वेदोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। तथा स्त्रीवेदकी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५६६. देवोंमें मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल

एवं सम्म० । णवरि जह० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-छण्णोक० जह० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयम०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एवरि अरदि-सोग० अज० जह० एयस०, उक्क० छम्ममं । इत्थिवे०-पुरिस० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एयस० । एवं भवण०-वाणवे० । एवरि सगट्टिदी । णवरि सम्म० सम्मामि०भंगो । अरदि-सोग० अज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ५६७. जोदिसि० दंसणतिय-अणंताणु०४ वाणवे०तभंगो । वारसक०-छण्णोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० अंतोमु० । इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अजह० णत्थि अंतरं ।

§ ५६८. सोहम्मादि जाव णवगेवजा त्ति दंसणतिय-अणंताणु०४ देवोघं । एवरि सगट्टिदी देसूणा । वारसक०-छण्णोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतोमु० । एवरि महस्सारे अरदि-सोग० अज० जह० अंतोमु०, उक्क०

अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल दोनोंका कुछ कम इकतीस सागर है। इसीप्रकार सम्यक्त्वके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। बारह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इतनी और विशेषता है कि सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है। अरति और शोककी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५६७. ज्योतिषी देवोमे तीन दर्शनमोहनीय और अन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग व्यन्तर देवोंके समान है। बारह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है।

§ ५६८. सौधर्म कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भंग सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए। बारह कषाय और छह नोकषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि सहस्रार कल्पमें अरति और शोककी अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है। स्त्रीवेद

द्धमासं । इत्थिवेद-पुरिसवे० जह० अजह० णत्थि अंतरं । मोहम्मीसाण० इत्थिवे०-  
पुरिसवे० अत्थि । उवरि पुरिसवेदो चैव अत्थि । णवरि आणदादि णवगेवजा त्ति  
अणंताणु०४ अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसणा ।

§ ५६९. अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मम्म०-पुरिसवे० जह० अज० णत्थि  
अंतरं । बारसक०-द्धण्णोकसाय० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतोमु० ।  
एवं जाव० ।

§ ५७०. सणियासो दुविहो—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० ट्टिदिमुदीरेंतो मोलमक० सिया उदीर०  
सिया अणुदीर० । जदि उदीर० उक्कस्मा वा अणुक्कस्मा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्मा  
समयूणमादिं कादूण जाव पलिदोवमस्म असंखेज्जदिभागेण्णा त्ति । इत्थिवेद०-  
पुरिसवे०-हस्स-रदि० मिया उदीर० सिया अणुदीर० । जदि उदीर० णियमा  
अणुक्कस्मा अंतोमुहुत्तूणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । एवुंम०-अरदि-  
सोग०-भय-दुगुद्धा० मिया उदीर० सिया अणुदीर० । जदि उदीर० उक्कस्मा वा  
अणुक्कस्मा वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्मा समयूणमादिं कादूण जाव वीसं सागरोवम-

और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । सौधर्म और  
ऐशानकल्पमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा दोनों है । आगे पुरुषवेदकी ही उदीरणा है ।  
इतनी विशेषता है कि आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रंथयुक्त तकके देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी  
अजघन्य स्थितिउदीरणा जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम  
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है ।

§ ५६९. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व और पुरुषवेदकी जघन्य  
और अजघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । बारह कपाय और छह नोकपायोंकी  
जघन्य स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और  
उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५७०. सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश  
दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला  
जाव सोलह कपायका कदाचित् उदीरक होता है और कदाचित् अनुदीरक हाता है । यदि  
उदीरक हाता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका  
उदीरक हाता है तो उत्कृष्टसे एक समय कमसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग कम तक  
अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, और रतिका कदाचित् उदीरक  
होता है और कदाचित् अनुदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे अन्तर्मुहूर्त कम  
स्थितिसे लेकर अन्तःकोडीकोडीप्रमाण स्थिति तक अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है ।  
नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है और कदाचित्  
अनुदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता  
है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है तो उत्कृष्टसे एक समय कमसे लेकर पत्यका



कोडाकोडीओ पलिदो० असखे०भागेण ऊणाओ ।

§ ५७१. सम्म० उक्क० डिदिउदी० बारसक०-वण्णोक्क० सिया उदी० । जदि उदी० णियमा अणुक्कस्सा अंतोमुहुत्तणमादिं कादूण जाव पलिदो० असखे०भागेणूणा त्ति । एवं सम्मामि० ।

§ ५७२. अणंताणु०-क्रोध० उक्क० डिदिउदी० मिच्छ० तिण्हं कोहाणं णियमा उदी०, उक्क० अणुक्क० । उक्कसादो अणुक्कस्सा ममयूणमादिं कादूण जाव पलिदो० असखे०भागेणूणा । एवणोक्क० जहा मिच्छत्तेण एीदं तथा णेदच्चं । एवं पण्णारम-कसाय० ।

§ ५७३. इस्थिवेद० उक्क० डिदिमुदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अणु-क्कस्सा ममयूणमादिं कादूण जाव पलिदो० असखे०भागेणूणा त्ति । सोलमक० मिया उदी० । णिय० अणुक्क० ममयूणमादिं कादूण जाव आवलियुणा त्ति । हस्स-रदि० सिया उदी० । जदि उदी० उक्क० अणुक्क० वा । उक्क० अणु० ममयूणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । अरदि-मोग० मिया उदी० । जदि उदी० उक्क० अणुक्क० वा । उक्कसादो अणुक्कस्सा ममयूणमादिं कादूण जाव वीसं सागरो० कोडाकोडीओ पलिदो०

असंख्यातवाँ भाग कम बीस कोडाकोडी सागरप्रमाण अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है ।

§ ५७१. सम्यक्त्वको उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय और छह नोकपायका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक हाता है तो नियमसे अन्तर्मुहूर्त कमसे लेकर पल्यक असंख्यातवाँ भाग कम तक अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५७२. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व और तीन क्रोधका नियमसे उदीरक हाता है जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यक असंख्यातवाँ भाग कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । नौ नोकपायोंका सन्निकर्ष जैसे मिथ्यात्वके साथ ले गये है वैसे ले जाना चाहिए । इसीप्रकार पन्द्रह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५७३. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । सोलह कपायोंका कदाचित् उदीरक हाता है । यदि उदीरक हाता है तो नियमसे उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर एक आवलि कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । हास्य और रतिका कदाचित् उदीरक हाता है । यदि उदीरक हाता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर अन्तःकोडाकोडी तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । अरति और शोकका कदाचित् उदीरक हाता है । यदि उदीरक हाता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक हाता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम बीस कोडाकोडी

असंखे० भागेणूणाओ । भय-दुगुंछ० सिया उदी० । जदि उदी० णियमा उकस्सा । एवं पुरिसवेद० । एवं हस्स० । णवरि अरदि-सोग० णत्थि । इत्थिवे०-पुरिसवे० सिया उदी० । जदि उदीर० उक० अणुक० वा । उक० अणु० अंतोमुहुत्तणमादिं कादूण जाव अंतोकोडाकोडि त्ति । णवुंस० सिया उदी० । जदि उदी० उक० अणुकस्सा वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयूणमादिं कादूण जाव वीसं सागरोवम-कोडाकोडीओ पल्लिदो० असंखे०भागेणूणाओ । रदि० णियमा उकस्सा । एवं रदीए ।

§ ५७४. णवुंस० उक० द्विदिमुदीरंतो० मिच्छ० णिय० उदीर०, उक० अणुक० वा । उक० अणुक० समयूणमाद कादूण जाव पल्लिदो० असंखे०भागेणूणा । सोलसक० सिया उदीर० । जदि उदीरे० उक० अणुक० वा । उकस्सादो अणुकस्सा समयूणमादिं कादूण जाव आवल्लियुणा त्ति । हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा० जहा इत्थिवेदेण णीदं तथा एदेव्वं । एवमरदीए । णवरि हस्स-रदी० णत्थि । तिण्णि वेद०

सागरप्रमाण तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसं उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होना है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसीप्रकार हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अरति और शोककी उदीरणा नहीं होती । वह स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कमसे लेकर अन्तः कोडाकोडी सागर तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । नपुंसक-वेदका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम बीस कोडाकोडी सागर तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । रतिकी नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५७४. नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक होता है जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । सोलह कषायका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कमसे लेकर एक आवलि कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यहाँ हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका भंग जिस प्रकार स्त्रीवेदके साथ ले गये उस प्रकार ले जाना चाहिए । इसीप्रकार अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके हास्य और रतिकी उदीरणा नहीं है । इसके तीन वेदोंका भंग जिस प्रकार हास्य और रतिके साथ ले गये

जहा हस्म-रदीहिं तथा शेयव्वं । सोग० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं । एवं सोग० ।

§ ५७५. भय० उक्क० द्विदिमुदी० मिच्छ०-सोलसक०-हस्म-रदि-अग्दि-मोग० णवुंस० भंगो । तिण्णवेद० हस्मभंगो । दुगुञ्जं सिया उदी० । जदि उदी० णिय० उक्क० । एवं दुगुञ्ज० । एवं सव्वणोरइय० । णवरि णवुंसं धुवं कादव्वं ।

§ ५७६. तिरिक्ख०-पंचिदियतिरिक्खतिये ओघं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । जोणिणीसु इत्थिवेदं धुवं कादव्वं । मणुसतिय० पंचि०तिरिक्खतियेभंगो । देवाणमोघं । णवरि णवुंसं णत्थि । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-सोहम्मीसाणा त्ति । एवं सणक्कुमागादि जाव सहस्सारे त्ति । णवरि पुरिसवे० धुवं कायव्वं ।

§ ५७७. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ० उक्क० द्विदि उदी० सोलसक०-छण्णोक० मिया उदी० । जदि उदी० उक्क० अणुक्क० वा । उक्कस्सादो अणुक्कस्सा समयूणमादिं कादूण जाव पत्तिदो० असंखे०भागेणूणा त्ति । एवं णवुंसं । णवरि

उस प्रकार ले जाना चाहिए । यह शोकका नियमसे उदीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको विवक्षित कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५७८. भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवका मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, अरति और शोकके साथ सन्निकर्षका भंग नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवको विवक्षित कर इन प्रकृतियोंके साथ कहे गये भंगके समान है । तीन वेदका भंग हास्य प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवको विवक्षित कर इन प्रकृतियोंके साथ कहे गये भंगके समान है । यह जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको विवक्षित कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । इसीप्रकार सष नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेदकी उदीरणाको ध्रुव करना चाहिए ।

§ ५७९. तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनियोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणाको ध्रुव करना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । देवोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवासि, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुमारकल्पसे लेकर महास्यारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी उदीरणाको ध्रुव करना चाहिए ।

§ ५७७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कम स्थितिसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा भंग जान लेना चाहिए ।

णिय० उदी० ।

§ ५७८. अणंताणु०कोध० उक्क० द्विदिमुदीरें० तिण्हं कोर्धं णवुंम० णिय० उदी० णिय० उक्कस्सं । ङ्णणोक्क० सिया उदी०, जदि उदी० णियमा उक्कस्सं । मिच्छ० णिय० उदी० उक्क० अणुक्क० वा । उक्क० अणुक्क० समयुणमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०भागेणूणा । एवं पण्णारसक० ।

§ ५७९. हस्स० उक्क० द्विदिमुदीरें० मोलसक०-भय-दुगुंछ० सिया उदीरे० । जदि उदी० णिय० उक्कस्सं । मिच्छ० अणंताणु०चउक्कभंगो । रदि-णवुंम० णिय० उदी० णिय० उक्क० । एवं रदीए ! एवमरदि-सोगाणं ।

§ ५८०. भय-उक्क० द्विदिमुदीरें० मिच्छ०-णवुंम० हस्सभंगो । सोलसक०-पंचणोक्क० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्क० । एवं दुगुंछाए ।

§ ५८१. णवुंम० उक्क० द्विदिमुदी० मिच्छत्त० हस्सभंगो । सोलसक०-ङ्णणोक्क० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्क० । एवं मणुमअपज्ज० ।

इतनी विशेषता है कि वह इसका नियमसे उदीरक होता है ।

§ ५७८ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव तीन क्रोध और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । छह नोकषायका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक होता है जो उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । यदि अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा एक समय कम स्थितिसे लेकर पल्यका असंख्यातवां भाग कम तककी अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५७९. हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक होता है । यदि उदीरक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । मिथ्यात्वका भंग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है । रति और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक होता है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक होता है । इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५८०. भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका भंग हास्यके समान है । सोलह कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५८१. नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्वका भंग हास्यके समान है । सोलह कषाय और छह नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ ५८२. आणदादि एवगेवजा ति मिच्छ० उक्क० द्विदिमुदी० सोलसक०-भय-दुगुंछा सिया उदी० । जदि उदी०, णियमा उक्क० । हस्स-रदि-पुरिसवेद० णियमा उदीरेदि, णिय० उक्क० । एवं सम्म० । णवरि अणंताणु०चउक्कं एत्थि ।

§ ५८३. सम्मामि० उक्क० द्विदिमुदीर० वारसक०-ळण्णोक० सिया उदीर० । जदि उदी०, णिय० अणुक्क० असंखे०भागहीणं । पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० अणुक्क० असंखे०भागही० ।

§ ५८४. अणंताणु०कोध० उक्क० द्विदिमुदीरें० मिच्छ०-तिण्णिकोध-हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक्क० । भय-दुगुंछ० मिच्छत्तभंगो । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ ५८५. अपच्चक्खाण०कोध० उक्क० द्विदिमुदी० मिच्छ०-सम्म०-अणंताणु०-कोध-भय-दुगुंछ० मिया उदी० । जदि उदी० णियमा उक्कसा । दोएहं कोधाणं हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक्क० । एवमेकारसक० ।

§ ५८६. हस्सस्म उक्क० द्विदिमुदी० मिच्छ०-सम्म०-सोलमक०-भय-दुगुंछ०

§ ५८२. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें मिध्यात्वको उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है।

§ ५८३. सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय और छह नोकपायका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है।

§ ५८४. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व, तीन क्रोध, हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसके भय और जुगुप्साका भंग मिध्यात्वके समान है। इसीप्रकार मान आदि तीन कषायोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ ५८५. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धी क्रोध, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। दो क्रोध, हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार ग्यारह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ ५८६. हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय,

सिया उदी० । जदि उदी० णिय० उक्क० । रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं । एवं रदीए ।

§ ५८७. अरदि० उक्क० डिदिमुदी० मिच्छ०-सम्मा०-सोलसक०-भय-दुगु० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अणुक्क० असंखे०भागही० । पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० अणुक्क० असंखे०भागही० । सोगं णिय० उदी०, णिय० उक्क० । एवं मोग० ।

§ ५८८. भय० उक्क० डिदिमुदी० मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-हस्स-रदि-पुरिमवे० अपच्चक्खाणभंगो । दुगुंछा० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्कस्सं । एवं दुगुंछाए ।

§ ५८९. पुरिसवेद० उक्क० डिदिमुदी० मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्कस्सं । हस्स-रदि० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं ।

§ ५९०. अणुहिमादि सव्वट्ठा त्ति सम्म० उक्क० डिदिमुदीरे० बारसक०-भय-दुगुंछा० मिया उदी० । जदि उदी० णिय० उक्क० । हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं ।

भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५८७. अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । शोकका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५८८. भयकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय, हास्य, रति और पुरुषवेदका भंग अप्रत्याख्यानावरणके समान है । जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५८९. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । हास्य और रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है ।

§ ५९०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है ।

५९१. अपञ्चकखाणकोह० उक्कस्म० द्विदिमुदी० सम्म०-दोकोध-हस्स-रदि-पुरिमवेद० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्मं । भय-दुगुंछा० सम्मत्तभंगो । एव-मेक्कारमक० ।

५९२. हस्सस्स उक्क० द्विदिमुदी० सम्म०-रदि-पुरिसवेद० णिय० उदीर०, णिय० उक्कस्मं । वारसक०-भय-दुगुंछा० सम्मत्तभंगो । एवं रदीए ।

५९३. अरदि उक्क० द्विदिमुदी० सम्म०-पुरिमवे० णिय० उदीर०, णिय० अणुक्क० असंखे०भागही० । वारसक०-भय-दुगुंछा० मिया उदी० । जदि उदी० णिय० अणुक्क० असंखे०भागहीणं । सोगं णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं । एवं सोग० ।

५९४. भय० उक्क० द्विदिमुदीरे० सम्मा०-हस्स-रदि-पुरिसवे० णिय० उदी० णिय० उक्कस्मं । वारसक०-दुगुंछा० मिया० उदी० । जदि उदी०, णिय० उक्क० । एवं दुगुंछा० ।

५९५. पुरिस० उक्क० द्विदिमुदी० सम्म०-हस्स-रदि० णिय० उदी०, णिय० उक्कस्सं० । वारसक०-भय-दुगुंछा० मिया उदी० । जदि० उदी०, णिय० उक्क० ।

५९१. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, दो क्रोध, हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसके भय और जुगुप्साका भंग सम्यक्त्वके समान है । इसीप्रकार ग्यारह कषायकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५९२. हास्यकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसके बारह कषाय, भय और जुगुप्साका भंग सम्यक्त्वके समान है । इसीप्रकार रतिकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५९३. अरतिकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असख्यातवें भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । शोकका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार शोककी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

५९४. भयकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । बारह कषाय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

५९५. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्व, हास्य और रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे उत्कृष्ट स्थितिका उदीरक है ।

एवं जाव० ।

§ ५९६. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० द्विदिउदी० चारसक०-छण्णोक्क० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० मंखे०गुणब्भहियं । चदुसंजल०-तिण्णिवे० मिया उदी०, जदि उदी०, णिय० अज० असंखे०गुणब्भहियं । एवं सम्म०-सम्मामि० । एवरि अणंताणु० चउक्कं णत्थि ।

§ ५९७. अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-कोधमंजल०-एवुंम० णिय० उदी०, णिय० अज० असंखे०गुणब्भ० । दोण्हं कोधाणं णिय० उदी०, जहण्णा वा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा ममयुत्तरमादि कादृण जाव पल्लिदो० अमंखे०भागब्भहियं । हस्म-ग्दि-अग्दि-सोग० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० अमंखे०भागब्भहियं । भय-दुगुब्बा० मिया उदी० । जदि उदी०, जहण्णा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा ममयुत्तरमादि कादृण जाव आवलियब्भहियं । एवमेकारसक० ।

§ ५९८. कोहमंज० जह० द्विदिउदी० सेसाणमणुदीरगो । एवं तिण्हं संजलणाणं ।

इमीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५९६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय और छह नोकपायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । चार संज्वलन और तीन वेदका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता कि इनके उदीरकके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है ।

§ ५९७. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व, क्रोधसंज्वलन और नपुसंक्वेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । दो क्रोधांका नियमसे उदीरक है जां जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवां भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिसे लेकर एक आवलि अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इमीप्रकार ग्यारह कपायकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाका मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५९८. क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव शंभ प्रकृतियोंका अनुदीरक



§ ५९९. इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० चदुसंज० मिया उदी० । जदि० उदी०, गिय० अज० असंखे०गुणब्भ० । एवं पुरिसवे० ।

§ ६००. हस्सस जह० द्विदिमुदी० मिच्छत्तं गिय० उदी०, गिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । बारसक०-भय-दुगुंछा० मिया उदी० । जदि उदी०, गिय० अजह० संखे०गुणब्भहियं । चदुसंजलण-तिण्णवे० मिया उदी० । जदि उदी०, गिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । रदि० गिय० उदी०, गिय० जहणं । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० ।

§ ६०१. भय० जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-णवुंम० गिय० उदी०, गिय० अजहणणा असंखे०गुणब्भ० । बारसक० मिया उदी० । जदि उदी०, जह० अजहणणा वा । जहणणादो अजहणणा समयुत्तरमादिं कादृण जाव पलिदो० अमंखे०भागब्भ० । चदुसंजल० मिया उदी० । जदि० उदी०, गिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । हस्म-रदि-अरदि-सोग० मिया उदी० । जदि उदी०, गिय० अज० असंखे०भागब्भ० । दुगुंछा० मिया उदी० । जदि० उदी०, गिय० जहणणा । एवं दुगुंछाए ।

हे । इसीप्रकार तान संज्वलनकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ५९९. म्त्रावेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव चार संज्वलनोका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । इसीप्रकार पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६००. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक हे जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । बारह कपाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । चार संज्वलन और तीन वेदका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । रतिका नियमसे उदीरक हे जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक हे । इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थिति-उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६०१. भयकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक हे जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । बारह कपायका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक हे तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यका असंख्यातवों भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । चार संज्वलनका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे असंख्यातवों भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हे । जुगुप्साका कदाचित् उदीरक हे । यदि उदीरक हे तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक हे । इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थिति-

§ ६०२. आदेशेण खेरइय० मिच्छ० जह० ड्दिउदी० सोलसक०-अण्णोको० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० संखे०गुणब्भ० । णवुंस० णिय० उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० । एवं सम्म० । णवरि अणताणु०४ एत्थि । एवं सम्मामि० ।

§ ६०३. अणताणु०कोध० जह० ड्दिउदी० मिच्छ० णिय० उदी०, णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । तिण्हं कोधायं जहण्णा वा अजहएणा वा । जहण्णादो अजहएणा समयुत्तरमादिं कादूण जाव पल्लिदो० असंखे०भागब्भ० । अरदि-सोग-एणुंस० णिय० उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । भय-दुगुब्बा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । एवं पण्णारमकसायाणमण्णमण्णस्म ।

§ ६०४. एणुंसयवेद० जह० ड्दिउदी० मिच्छ० णिय० उदी०, णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । सोलसक०-भय-दुगुब्बा० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० विट्ठाणपदिदा असंखे०भागब्भ० संखेज्जगुणब्भहियं वा ।

उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६०२. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय और छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्यकर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धी-चतुष्टकी उदीरणा नहीं होती । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६०३. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । तीन क्रोधोंकी जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । अरति, शोक और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर परस्पर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

§ ६०४. नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक इसप्रकार द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६०५. हस्मस्म जह० द्विदिमुदी० मिच्छ०-मोलसक०-भय-दुगुञ्ज० णवुंसय-भंगो । णवुंस० णिय० उदी० णिय० अज० मंखे०गुणब्भ० । रदि० णिय० उदी० णिय० जहण्णा । एवं रदीए । एवमग्दि-मोगाणं ।

§ ६०६. भय० जह० द्विदिउदी० मोलसक० सिया उदी० । जदि० उदी०, जहण्णा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा विट्ठाणपदिदा असंखे०भागब्भ० संखे०भागब्भ० वा । मिच्छ०-अरदि-सोग०-णवुंस० अणंताणु०बंधिभंगो । दुगुञ्जा० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । एवं दुगुञ्जाए । एवं पढमाए पुढवीए एदेव्वं ।

६०७. विदिधादि जाव ङ्ङि ति मिच्छ०-मम्म०-मम्मामि० णियोघभंगो । अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अज० अमंखे०-गुणब्भ० । तिण्हं कोधाणं णवुंसय० णिय० उदी० णिय० अजह० असंखेज्जभागब्भ० । झएणोक्क० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० अमंखे०भागब्भ० । एवं तिण्हं कमायाणं ।

§ ६०८. अपच्चक्खाणकोध० जह० द्विदिउदी० दोण्हं कोधाणं णवुंस० णिय०

§ ६०५. हास्यकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भग नपुंसकवेदके समान है। नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

६०६ भयकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषायका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है। यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातवें भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है। मिथ्यात्व, अरति, शोक और नपुंसकवेदका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है। जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसीप्रकार प्रथम पृथिवीके सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ ६०७ दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंके मिथ्यात्व, सभ्यक्त्व और सभ्यमिथ्यात्वका भग सामान्य नारकियोंके समान है। अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। तीन क्रोध और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है। यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है। इसीप्रकार तीन कर्पूरियोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ ६०८. अपत्याख्यान क्रोधी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव दो क्रोध और नपुंसकवेद-

उदी० गिय० जहण्णा । छण्णोक्क० सिया उदी० । जदि उदी०, गिय० जहण्णा । सम्म० गिय० उदी० गिय० अज्ज० संखे० गुणव्व० । एवमेकारसकसा० ।

§ ६०९. हस्सस्म जह० द्विदिउदी० वारसक०-भय-दुगुंझा० सिया उदी० । जदि उदी०, गिय० जहण्णा । रदि-एणुंस० गिय० उदी० गिय० जहण्णा । सम्मा० अपच्चक्खाणभंगो । एवं ग्दीए । एवमरदि-सोगाणं ।

§ ६१०. भय० जह० द्विदिमुदी० सम्मा०-एणुंस० हस्सभंगो । वारसक०-पंचणोक्क० सिया उदी० । जदि उदी०, गिय० जहण्णा । एवं दुगुंझाए ।

§ ६११. एणुंस० जह० द्विदिउदी० सम्म० हस्सभंगो । वारसक०-छएणोक्क० सिया उदी० । जदि उदी०, गिय० जहण्णा ।

§ ६१२. सत्तमाए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० गिरयोघं । अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-पण्णारमक०-सत्तणोक्क० गिरयोघं । एवरि भय-दुगुंझा० मिया उदी० । जदि उदी० जहण्णा वा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा

का नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । सम्यक्त्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार ग्यारह कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६०९. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । रति और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो निबभसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । सम्यक्त्वका भंग अप्रत्याख्यानके समान है । इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६१०. भयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके सम्यक्त्व और नपुंसकवेदका भंग हास्यके समान है । वह बारह कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थिति-उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६११. नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके सम्यक्त्वका भंग हास्यके समान है । वह बारह कषाय और छह नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६१२. सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिके उदीरकके मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और सात नोकषायका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर एक

समयुत्तरमादि कादूण जात्र आवलियब्भहिया । हस्स-रदि-अरदि-सोग० मिया उदी० ।  
जदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । एवं पण्णारसक० । एणुंभयवेद-  
हस्स रदि-अरदि-सोग० णिरयोघं । भय-दुगुंझा० णिरयोघं । णवरि सोलसक० सिया  
उदी० । जदि उदी०, जहण्णा वा अजहण्णा वा । जहण्णादो अजहण्णा तिट्ठाणपदिदा  
असंखे०भागब्भ० संखे०भागब्भ० संखे०गुणब्भहिया वा ।

§ ६१३. तिरिक्खेसु मिच्छ० जह० ट्टिदिउदी० सोलसक०-णवणोक० सिया  
उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० । एवं सम्मामि० । णवरि  
अणंताणु०चउकं एत्थि । एवं सम्मत्तं । एवरि पुरिसवेदं धुवं कायव्वं । सोलमक०  
सत्तमाए भंगो ।

§ ६१४. इस्थिवेद० जह० ट्टिदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह०  
असंखे०गुणब्भ० । सोलसक०-भय-दुगुंझा० सिया उदी० । जदि उदी०, णियमा  
अजह० संखेज्जगुणब्भ० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय०  
अजहण्णा संखे०गुणब्भहिया । एवं पुरिसवे० ।

आवलि अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्षका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थिति-उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्षका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि सोलह कषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा असंख्यातवें भाग अधिक, संख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक त्रिस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६१३. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सम्यगमिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है । इसीप्रकार सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके पुरुषवेदकी उदीरणाको ध्रुव करना चाहिए । सोलह कषायकी जघन्य स्थितिका उदीरणाको मुख्य कर भंग सातवीं पृथिवीके समान जानना चाहिए ।

§ ६१४. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६१५. हस्स० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० इत्थिवेदभंगो । सोलसक०-णवुंस०-भय-दुगुंझा० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणब्भ० । इत्थिवे०-पुरिसवे० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० विट्ठाणपदिदा असंखे०भागब्भ० संखे०गुणब्भहिया वा । रदिं णियमा जहण्णा । एवं रदीए । एवमरदि-सोगाणं । भय-दुगुंझा० अणंताणु०भंगो । णवरि मोलसक० सिया उदी० । जदि उदी०, जह० अजह० । जह० अजहण्णा समयुत्तरमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०-भागब्भ० । एवुंसवे० मत्तमपुटविभंगो ।

§ ६१६. पांचि०तिरिक्खतिये मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि० सत्तणोक० तिरि-क्खोघं । अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । तिण्हं कोधाणं णिय० उदी०, जह० अजह० । जह० अजह० समयुत्तमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०भागब्भ० । भय-दुगुंझा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । सत्तणोक० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० असंखे०भागब्भ० । एवं पण्णासक० । भय-दुगुंझा० तिरिक्खोघं । एववि सत्तणोक०

§ ६१५. हास्यकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्वका भंग स्त्रीवेदके समान है । वह सोलह कषाय, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है । रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसीप्रकार अरति और शाककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । भय और जुगुप्साका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है । इतनी विशेषता है कि वह सोलह कषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । नपुंसकवेदका भंग सातवी पृथिवीके समान है ।

§ ६१६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सात नोकषायका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । वह तीन क्रोधका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिक स्थितिसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । सात नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । भय और जुगुप्साका भंग सामान्य

सिया उदी० । यदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागम्० । णवरि पञ्ज० इत्थिवेद० णत्थि । जोणिणीसु इत्थिवेदो ध्रुवो कायव्वो ।

§ ६१७. पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज०-मणुसअपञ्ज० मिच्छ० जह० ट्टिदिउदी० सोलसक०-भय-दुगुञ्जा० सिया उदी० । यदि उदी०, जहण्णा वा अजहण्णा वा । जह० अजह० समयुत्तरमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०भागम्० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया उदी० । यदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागम्० । एवं णवुंस० । णवरि णिय० उदी० ।

§ ६१८. अणंताणु०कोध० जह० ट्टिदिउदी० मिच्छ०-तिण्हं कोधाणं णिय० उदी०, जह० अजह० । जह० अजह० समयुत्तरमादिं कादूण जाव पलिदो० असंखे०-भागम्० । भय-दुगुञ्जा० सिया उदी० । यदि उदी०, णिय० जहण्णा । चदुणोक०-णवुंस० मिच्छत्तभंगो । एवं पणारसक० ।

§ ६१९. हस्सस्स जह० ट्टिदिउदी० मिच्छ०-णवुंस० णिय० उदी० णिय० अजह० संखे०गुणम्० । एवं सोलसक०-भय-दुगुञ्जा० । णवरि सिया उदी० । रदि

तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वह सात नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक हैं । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । योनिनियोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा ध्रुव करना चाहिए ।

§ ६१७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार नपुंसक-वेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका नियमसे उदीरक है ।

§ ६१८. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व और तीन क्रोधोंकी नियमसे जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक हैं । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । चार नोकषाय और नपुंसकवेदका भंग मिध्यात्वके समान है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

§ ६१९. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिध्यात्व और नपुंसकवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका कदाचित् उदीरक है । रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है ।

णिय० उदी० णिय० जहण्णा । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० ।

§ ६२०. भयस्स जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-चदुणोक्क०-णवुंम० अणंताणुबंधी-भंगो । सोलसक० मिच्छत्तभंगो । दुगुंछा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । एवं दुगुंछाए ।

§ ६२१. एवुंस० जह० द्विदिउ० मिच्छ०-सोलमक०-भय-दुगुंछा० हस्सभंगो । हस्म-रदि-अरदि-सोग० सिया० उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० बिट्ठाणपदिदा असंखे०भाग्गम० संखे०गुणग्गम० वा ।

§ ६२२. मणुमतिए ओघं । एवरि बारसक०-उण्णोक्क०-पंचिं०तिरिक्खभंगो । पज्ज० इत्थिवे० एत्थि । मणुसिणीसु इत्थिवेदो धुवो कायव्वो ।

§ ६२३. देवेषु मिच्छ० जह० द्विदिउ० सोलमक०-अट्टणोक्क० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० संखे०गुणा । एवं सम्मामिं । एवरि अणंताणु०४ एत्थि । सम्म० पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।

§ ६२४. अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० संखे०गुणाग्गम० । तिण्हं कोधाणं णिय० उदी०, जह० अजह० । जह० अजह०

इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । तथा इसी-प्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिकी उदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

§ ६२०. भयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, चार नोकषाय और नपुंसक-वेदका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है । सोलह कषायका भंग मिथ्यात्वके समान है । जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६२१. नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भंग हास्यके समान है । हास्य, रति, अरति और शोकका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातर्वे भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६२२. मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और छह नोकषायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और मनुष्यनियोंमें स्त्रीवेदको ध्रुव करना चाहिए ।

§ ६२३. देवोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सोलह कषाय और आठ नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदीरणा नहीं है । सम्यक्त्वका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है ।

§ ६२४. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । तीन क्रोधोंकी



समयुत्तरमादिं कादूण जात्र पलिदो० असंखे०भागम्भ० । भय-दुगुंछा० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । इत्थिवे०-पुरिसवे० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० असंखे०भागम्भ० । हस्स-रदिं णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०-भागम्भ० । एवं पण्णारसक० ।

§ ६२५. इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० मिच्छ० अणंताणु०भंगो । सोलसक०-भय-दुगुंछा०-चदुणोक्क० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणम्भ० । एवं पुरिसवेद० ।

§ ६२६. हस्सस्स जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० इत्थिवेद०भंगो । इत्थिवेद०-पुरिसवे० मिया उदी० । जदि० उदी०, णिय० अजह० विट्ठाण-पदिदा असंखे०भागम्भ० संखे०गुणम्भ० । रदि० णिय० उदी० णिय० जहण्णा । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० ।

§ ६२७. भय० जह० द्विदिउदी० मिच्छ०-इत्थिवेद०-पुरिसवे०-हस्स-रदि० अणंताणु०भंगो । सोलमक० मिया उदी० । जदि उदी०, जहण्णा वा अजह० वा ।

जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो नियमसे जघन्यकी अपेक्षा एक समय अधिकसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तककी अजघन्य स्थितिका उदीरक है । भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । हास्य और रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पन्द्रह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६२५. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्वका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है । सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा और चार नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पुरुष वेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६२६. हास्यकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भंग स्त्रीवेदके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है । रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार रतिका जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए तथा इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६२७. भयकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवके मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और अरतिका भंग अनन्तानुबन्धीके समान है । सोलह कषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो जघन्य या अजघन्य स्थितिका उदीरक है । यदि अजघन्य स्थितिका उदीरक है तो नियमसे

जहणणादो अजहणणा विट्टाणपदिदा असंखे०भागब्भ० संखे०भागब्भहिया वा ।  
दुगुंछा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहणणा । एवं दुगुंछा० ।

§ ६२८. एवं भवण०-वाणवे० । णवरि सम्म० सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ६२९. जोदिसि० मिच्छ०-सम्मत्त-सम्मामि० भवणवासियभंगो । अणंताणु०-  
कोध० जह० ड्दिउदी० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०गुणब्भहियं ।  
तिण्हं कोधाणं णिय० उदी० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । अट्टणोक० सिया  
उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० असंखेजभागब्भ० । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ ६३०. अपञ्चखाणकोह० जह० ड्दिउदी० दोण्हं कोधाणं णिय० उदी०  
णिय० जहणणा । अट्टणोक० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहणणा । सम्म०  
णिय० उदी० णिय० अज० संखे०गुणब्भ० । एवमेकारसक० ।

§ ६३१. हस्सम् जह० ड्दिउदी० वारसक०-भय-दुगुंछा०-इत्थिवे०-पुरिसवे०  
सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहणणा । सम्म० अपञ्चखाणभंगो । रदिं णिय०  
उदी० णिय० जहणणा । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० ।

असंख्यातवें भाग अधिक या संख्यातवें भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक  
हैं । जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है ।  
इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६२८ इतीप्रकार भव-वासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता  
है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६२९. ज्योतिषा देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग भवनवासियोंके  
समान है । इनमें अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे  
उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । तीन क्रोधोंका  
नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । आठ  
नोकपायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक  
अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार तीन कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर  
सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३०. अप्रत्याख्यान क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव दो क्रोधोंका नियमसे  
उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । आठ नोकपायोंका कदाचित् उदीरक है ।  
यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । सम्यक्त्वका नियमसे उदीरक है जो  
नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार ग्यारह कषायोंकी  
जघन्य स्थितिउदीरणाका मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३१ हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद  
और पुरुषवेदका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक  
है । इसके सम्यक्त्वका भंग अप्रत्याख्यानके समान है । रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे  
जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष

§ ६३२. भय० जह० द्विदिउदी० बारसक०-सत्तणो० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । सम्मत्तं हस्सभंगो । एवं दुगुब्बाए ।

§ ६३३. इत्थिवे० जह० द्विदिउदी० बारसक०-छण्णो० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । सम्म० हस्सभंगो । एवं पुरिसवे० ।

§ ६३४. सोहम्मीमाणेसु मिच्छ०-सम्मामि० देवोधं । सम्म० जह० द्विदिउदी० बारसक०-छण्णो० मिया उदी० । जदि० उदी०, णिय० अजह० विट्ठाणपदिदा संखे०भागवम० संखे०गुणवमहिया वा । एवं पुरिसवे० । एवरि णिय० उदी० ।

§ ६३५. अणंताणु०कोध० जह० द्विदिउ० मिच्छ० णिय० उदी० णिय० अजह० अमखे०गुणवम० । तिण्हं कोधाणं पुरिसवे० णिय० उदी० णिय० अज० संखे०गुणवम० । छण्णो० मिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अजह० संखे०गुणवम० । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ ६३६. अपच्चक्खाणकोह० जह० द्विदिउदी० दोण्हं कोधाणं पुरिसवे० णिय०

जानना चाहिए । इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३२. भयकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय और सात नोकपायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसके सम्यक्त्वका भंग हास्यके समान है । इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

६३३. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय और छह नोकपायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसके सम्यक्त्वका भंग हास्यके समान है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३४. सौवर्म और पेशानकल्पमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य देवोंके समान है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कपाय और छह नोकपायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातवें भाग अधिक या संख्यातगुणी अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका नियमसे उदीरक है ।

§ ६३५. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव मिथ्यात्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । तीन क्रोध और पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । छह नोकपायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार तीन कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३६. अपत्याख्यान क्रोधकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव दो क्रोध और पुरुषवेदका

उदी० णिय० जहण्णा । छण्णोको० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । एवमेकारसको० ।

§ ६३७. पुरिसवे० जह० ट्टिदिउदी० बारसको०-छण्णोको० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा ।

§ ६३८. इत्थिवे० जह० ट्टिदिउदी० सम्म० णिय० उदी० णिय० अज० असंखे०गुणम्भ० । बारसको०-छण्णोको० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० अज० संखे०गुणम्भ० ।

§ ६३९. हम्मस्स जह० ट्टिदिउ० बारसको०-भय-दुगुंझा० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । पुरिसवे०-रदि० णिय० उदी० णिय० जहण्णा । एवं रदीए । एवमरदि-सोग० ।

§ ६४०. भय० जह० ट्टिदिउदी० बारसको०-पंचणोको० सिया उदी० । जदि उदी०, णिय० जहण्णा । पुरिसवे० णिय० उदी० णिय० जहण्णा । एवं दुगुंझाए ।

§ ६४१. सण्णकुमारदि जाव णवगेवजा त्ति एवं चैव । एवरि (इत्थिवेदो णत्थि । पुरिसवे० धुवो कायव्वो । अणुद्दिमादि जाव सव्वट्ठा त्ति सम्म०-बारसको०-

नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । छह नोकषायोंका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार ग्यारह कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६३७. पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय और छह नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६३८. स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव सम्यक्त्वका नियमसे उदीरक है जो नियमसे असंख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है । बारह कषाय और छह नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका उदीरक है ।

§ ६३९. हास्यकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय, भय और जुगुप्साका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । पुरुषवेद और रतिका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६४०. भयकी जघन्य स्थितिका उदीरक जीव बारह कषाय और पाँच नोकषायका कदाचित् उदीरक है । यदि उदीरक है तो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । पुरुषवेदका नियमसे उदीरक है जो नियमसे जघन्य स्थितिका उदीरक है । इसीप्रकार जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणाको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ६४१. सनत्कुमारकल्पसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । पुरुषवेदका ध्रुव करना चाहिए ।

सत्तणोक० एवगेवज्जभंगो । एवं जाव ।

§ ६४२. णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सत्तावीसाए पयडी० उक०-अणुक० द्विदिउदी० तिण्णि भंगा । सम्मामि० उक०-अणुक० द्विदिउदी० अट्ट भंगा ८ । सव्व-एोरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिजंति तासिमोघं । णवरि मणुमअपज्ज० चउवीसपय० उक०-अणुक० द्विदिउदी० अट्ट भंगा । एवं जाव० ।

§ ६४३. जहएणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-चदुसंजल०-तिण्णिवे०-चदुणोक० जह० अजह० द्विदिउदी० तिण्णि भंगा । सम्मामि० जह० अजह० द्विदिउदी० अट्ट भंगा । वारमक०-भय-दुगुद्धा जह० अजह० द्विदिउदी० णिय० अत्थि । सव्वएोरइय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति उकस्सभंगो ।

§ ६४४. तिरिक्खेसु सोलमक०-भय-दुगुद्धा० जह० अजह० द्विदिउदी० णिय० अत्थि । दंमणतिय-सत्तणोक० ओघं । एवं जाव० ।

§ ६४५. भागाभागाणु० दुविहो—जह० उक० । उकस्से पयदं । दुविहो

अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नोकषायका भंग नौ प्रवेयरुके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६४२. नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियोंके उदीरक जीवोंके तीन भंग हैं । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंके आठ भंग हैं । सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देव जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हैं उनका भंग ओघके समान है । इनकी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें चौबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरकोंके आठ भंग है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६४३. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, चार संज्वलन, तीन वेद और चार नोकषायके जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके तीन भंग हैं । सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउदीरकोंके आठ भंग है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें उत्कृष्टके समान भंग है ।

§ ६४४. तिर्यञ्चोंमें सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । तीन दर्शनमोहनीय और सात नोकषायका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६४५. भागाभागानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है ।

णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण चउवीमाए पयडी० उक्कस्सट्टिदिउदी० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अणुक्क० अणंता भागा । मम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० ट्टिदिउदी० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । अणुक्क० ट्टिदिउदी० असंखेजा भागा । एवं तिरिक्खा० ।

§ ६४६. सव्वणेरइय-सव्वपंचि० तिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-देवगदिदेवा भवणादि जाव अवराजिदा त्ति सव्वपय० उक्क०ट्टिदिउदी० सव्वजी० केव० ? असंखे०-भागो । अणुक्क० असंखेजा भागा ।

§ ६४७. मणुसेसु चउवीसपय० उक्क० ट्टिदिउ० असंखे०भागो । अणुक्क०-ट्टिदिउदी० असंखेजा भागा । मम्म०-सम्मामि०-इत्थिवेद०-पुरिसवेद० उक्क० ट्टिदिउदी० संखे०भागो । अणुक्क० संखेजा भागा । एवं मणुसपज्ज० । णवरि संखेजं कायव्वं । इत्थिवेदो णत्थि । एवं चेव मणुसिणी० । णवरि पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । सव्वट्ठे वीमं पय० उक्क०ट्टिदिउदी० संखे०भागो । अणुक्क० संखेजा भागा । एवं जाव० ।

§ ६४८. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे चौबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवे भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।

§ ६४६. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिके देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

§ ६४७. मनुष्योंमें चौबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए । इनके स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । इसीप्रकार मनुष्यनियोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । सर्वार्थसिद्धिमें बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६४८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

मिच्छ०-चदुमंज०-णवुंस०-चदुणोक० जह० ट्टिदिउ० मव्वजी० अणंतभागो । अज० अणंता भागा । मम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिमवे०-बारसक०-भय-दुगुंछा० जह० असंखे०भागो । अजह० अमंखेजा भागा । मव्वणेर०-सव्वपंचि०तिरिक्ख०-सव्व मणुम-सव्वदेवा त्ति उक्कस्मभंगो ।

§ ६४९. तिरिक्खेसु मिच्छ०-णवुंसय०-चदुणोक० जह० अणंतभागो । अजह० अणंता भागा । मम्म०-सम्मामि०-सोलमक०-इत्थिवेद-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा० जह० असंखे०भागो । अजह० असंखेजा भागा । एवं जाव० ।

§ ६५०. परिमाणं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उक्क० ट्टिदिउदी० केत्तिया ? असंखेजा । अणुक० केत्ति० ? अणंता । मम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुग्गिमवे० उक्क० अणुक० ट्टिदिउदी० केत्ति० ? अमंखेजा ।

§ ६५१. मव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-देवगदिदेवा भवणादि जाव सहस्सारे त्ति सव्वपयडी० उक्क० अणुक० केत्तिया ? अमंखेजा । मणुसेसु चउवीमं पयडीणं उक्क० ट्टिदिउदी० संखेजा । अणुक० केत्ति० ? अमंखेजा ।

मिथ्यात्व, चार संज्वलन, नपुंसकवेद और चार नोकपायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें भंग उत्कृष्टके समान है ।

§ ६४८. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और चार नोकपायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६५०. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

§ ६५१. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिके देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्योंमें चौबीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व,

सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-पुरिस० उक्क० अणुक्क० केत्ति० ? संखेज्जा । मणुसपज्ज०-  
मणुसिणी-सव्वदुदेवेसु सव्वपय० उक्क० अणुक्क० केत्ति० ? संखेज्जा । आणदादि  
जाव अवरज्जिदा त्ति सव्वपय० उक्क० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक्क० केत्ति० ?  
असंखेज्जा । एवं जाव० ।

६५२. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
मिच्छ०-चदुणोक्क०, जह० द्विदिउदी० केत्ति० ? असंखेज्जा । अजह० द्विदिउदी०  
केत्ति० अणंता । णवुंम०-चदुसंजल० जह० द्विदिउदी० केत्ति० ? संखेज्जा । अजह०  
केत्ति० ? अणंता । सम्म०-इत्थिवे०-पुरिम० जह० द्विदिउदी० केत्तिया ? संखेज्जा ।  
अजह० असंखेज्जा । सम्मामि० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेज्जा । वारसक०-  
भय-दुगुंद्धा० जह० अजह० द्विदिउदी० केत्ति० ? अणंता ।

६५३. आदेसेण णेइय० मव्वपय० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेज्जा ।  
णवरि सम्म० जह० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं पढमाए । विदियादि जाव छट्ठि त्ति  
दंमणतिय० जह० अजह० असंखेज्जा । सेसपयडी जह० केत्तिया ? संखेज्जा । अजह०  
के० ? असंखेज्जा । सत्तमाए सव्वपय० जह० अजह० असंखेज्जा ।

सम्यग्मध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने  
हैं ? संख्यात है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट  
और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । आनतकल्पसे लेकर अपराजित  
विमानतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है ।  
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

६५४. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मिध्यात्व और चार नाकषायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है ।  
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । नपुंसकवेद और चार संज्वलनकी  
जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने  
हैं ? अनन्त है । सम्यक्त्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ?  
संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात है । सम्यग्मध्यात्वकी जघन्य और  
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी  
जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।

६५५. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक  
जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरक  
जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर छठी  
पृथिवी तकके नारकियोंमें तीन दर्शनमोहनीयकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव  
असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।  
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें सब



§ ६५४. तिरिक्खेसु सोलमक०-भय-दुगुंछा० जह० अजह० केत्ति० ? अणंता । मिच्छ०-णवुंस०-चदुणोक्क० जह० केत्ति० ? असंखेजा । अजह० केत्ति० ? अणंता । मम्म० ओघं । मम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेजा । पंचिदियतिरिक्खतिय० मम्म० ओघं । सेमपयडी० जह० अजह० केत्ति० ? असंखेजा । णवरि पज्जन० इत्थिवे० णत्थि । जोणिणीसु पुरिम०-णवुंस० णत्थि । मम्म० मम्मामि०भंगो । पंचिदितिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-भवण०-वाणवें० सव्वपयडी० जह० अजह० संखेजा ।

§ ६५५. मणुसेसु मिच्छ०-णवुंस०-चदुसंज०-चदुणोक्क० जह० संखेजा । अज० केत्ति० ? असंखेजा । मम्म०-समामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० अजह० संखेजा । वारसक०-भय-दुगुंछा० जह० अजह० असंखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी-सव्वट्टदेवेसु सव्वपय० जह० अजह० संखेजा ।

§ ६५६. देवेषु मम्म० ओघं । सेसपय० जह० अजह० केत्तिया ? अमंखेज्जा । जोदिमियादि जाव णवगेवज्जा त्ति दंसणतियस्स देवोघं । सेसपय०  
प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हैं ।

§ ६५४. तिर्यञ्चोमें सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और चार नोकषायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है । सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व, म्त्रावेद और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-त्रिकमें सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इनकी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें म्त्रावेदकी उदीरणा नहीं है । तथा योनितीर्यञ्चोमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा इनमें सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं ।

§ ६५५ मनुष्योंमें मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, चार संज्वलन और चार नोकषायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, म्त्रावेद और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिणी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं ।

§ ६५६. देवोंमें सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । ज्योतिषियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें तीन दर्शनमोहनायका भंग सामान्य देवोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य

जह० केत्ति० ? संखेज्जा । अजह० केत्ति० असंखेज्जा । एवरि जोदिसि० सम्म० जह० अजह० ड्दिदिउदी० केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुहिसादि अवराजिदा त्ति सम्म०-वारसक०-सत्तणोक्क० जह० संखेज्जा । अजह० असंखेज्जा । एवं जाव० ।

§ ६५७. खेतं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तं-सोलसक०-सत्तणोक्क० उक्क० ड्दिदिउदी० लोगस्स असंखे०भागे । अणुक्क० सव्वलोगे । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० अणुक्क० लोग० असं०भागे । एवं तिरिक्खा० । सेसगदीसु सव्वपय० उक्क० अणुक्क० लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० ।

§ ६५८. जहएणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

स्थितिके उदीरक जीव कितने है ? संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने है ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंमें सम्यक्त्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव कितने है ? असंख्यात हैं । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानतकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कपाय और मात नाकपायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यात हैं । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गगातक जानना चाहिए ।

§ ६५७. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघमें मिथ्यात्व, मोलह कपाय और सात नाकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार तिर्यक्त्वमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गगातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जा संज्ञी पञ्चेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं वे ही अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करने हैं । यतः इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः वह उक्तप्रमाण कहा है । इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थिति उदीरणा एकेन्द्रियादि जीवोंमें भी होती है और उनका क्षेत्र सर्व लोक है, अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है । रहीं सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेद ये चार प्रकृतियाँ सा इनकी उदीरणा यथा-योग्य पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें ही सम्भव है, यतः इन जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६५८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

ओघेण मिच्छ०-चदुसंज०-एवुंस०-चदुणोक० जह० द्विदिउदी० लोग० असंखे०-  
भागे । अजह० सव्वलोगे । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिमवे० जह० अजह०  
लोगस्म असंखे० । बारसक०-भय-दुगुं० जह० लोगस्स संखेज्जदिभागे । अजह०  
सव्वलोगे ।

६५९. तिरिक्खेसु मिच्छ०-एवुंस०-चदुणोक० जह० लोगस्म असंखे०-  
भागे । अजह० सव्वलोगे० । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिमवे० जह० अजह०  
लोग० असंखे०भागे । सोलमक०-भय-दुगुं० जह० लोग० संखे०भागे । अजह०

मिथ्यात्व, चार संज्वलन, नपुंसकवेद और चार नोकपायोकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—मिथ्यात्वकी उपशमसम्यक्त्वके अभिमुख जीवके, चार संज्वलन और नपुंसकवेदकी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवके तथा चार नोकपायोकी जो हतसमुत्पत्तिक बादर एकेन्द्रिय जीव सर्वा पञ्चेन्द्रियोमे उपन्न होता है उसके यथास्थान अपने-अपने स्वामित्वके अनुगार जघन्य स्थितिउदीरणा होती है, यतः ऐसे जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सम्यक्त्व आदि चार प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरणा अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं, यत इनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र भा उक्तप्रमाण कहा है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा बादर एकेन्द्रिय जीव करते हैं और इन जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है । इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इसीप्रकार गतिमार्गोके सब भेदोंमें अपने-अपने स्वामित्वको जानकर क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए । सुगम होनेसे यहाँ निर्देश नहीं कर रहे हैं ।

६५९. निर्यञ्जोमे मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और चार नोकपायोकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीवोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य

मव्वलोगे । सेसगदीसु सव्वपय० जह० अजह० लोग० असंखे० भागे । एवं जात्र० ।

§ ६६०. पोमणं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-द्धण्णोक० उक्क० द्विदिउदी०  
लोग० असंखे० भागे अट्ट-तेरहचोद्दस० । अणुक्क० सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि०  
उक्क० अणुक्क० लोग० असंखे० भागे अट्टचोद्दम० । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० लोगस्म  
असंखे० अट्टचोद्दस० । अणुक्क० लोग० असंखे० भागे अट्टचो० सव्वलोगो वा ।  
णवुंसय० उक्क० द्विदिउदी० लोग० असंखे० भागे तेरहचोद्दस० । अणुक्क० सव्वलोगो ।

स्थितिके उदीरक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६६०. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आव और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व सोलह, कपाय और छह नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम तेरह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीव मिथ्यात्व और सोलह कपायका उत्कृष्ट स्थिति बन्धकर एक आवलि काल बाद उक्त कर्मोंकी उदीरणा करते हैं उनके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । यतः ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह भागप्रमाण पाया जाता है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं और उनका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, अतः इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरकोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंकी अपेक्षा भी स्पर्शन उक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए । स्वामित्व सम्बन्धी विशेषता स्वामित्व अनुयोगद्वारसे जान लेनी चाहिए । यतः वेदकसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है, अतः सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिउदीरकोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा

§ ६६१. आदेसेणं एगइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उक० अणुक० लोग० अमंखे०भागो छचोदस० । मम्म०-सम्मामि० उक० अणुक० खेत्तं । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । एवरि सगपोसणं कायव्वं । पढमाए खेत्तं ।

§ ६६२. तिरिवखेसु मिच्छ०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग०-भय-दुगुंछा० उक० द्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो छचोदस० । अणुक० सव्वलोगो । हम्म-रदि० उक० द्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अणुक० सव्वलोगो । एवमिस्थिवे०-पुरिसवे० । णवरि अणुक० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म० उक० द्विदिउदी०

हैं। खीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार मनुष्य, तिर्यञ्च और देवगतिके जीव करते हैं। यतः इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ आठ भागप्रमाण ही बनता है, अतः इनकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। किन्तु इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थिति-उदीरणाकी अपेक्षा विचार किया जाता है तो उक्त स्पर्शनके साथ सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन भी बन जाता है, अतः इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार यतः चारों गतिके जीव करते हैं, अतः इस प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिउदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे मध्यलोकसे नीचे छह और ऊपर सात इसप्रकार कुछ कम तेरह भागप्रमाण बननेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। नपुंसकवेदकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए वह सर्व लोकप्रमाण कहा है। आगे चारो गतियो और उनके अत्रान्तर भेदोंमें स्पर्शनका विचार अपने-अपने स्वामित्व और स्पर्शनको जान कर घटित कर लेना चाहिए। सुगम होनेसे उसका हमने अलगसे निर्देश नही किया है।

§ ६६१. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नाकपायोकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। पहिली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भंग है।

§ ६६२. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य और रतिकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार खीवेद और पुरुषवेदकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें

खेत्तं । अणुक० लोग० असंखे०भागो छचोदस० । सम्मामि० खेत्तं । एवं पंचिदिय-  
तिरिक्खतिए । णवरि जम्हि सव्वलोगो तम्हि लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।  
पज्जत्त० इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-एवुंम० णत्थि । पंचिदियतिरिक्ख-  
अपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वपय० उक्क० द्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो । अणुक०  
लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ६६३. मणुसतिए सम्म०-सम्मामि० खेत्तं । सेसपय० उक्क० खेत्तं ।  
अणुक० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ६६४. देवेषु मिच्छ०-सोत्तसक०-उण्णोक० उक्क० अणुक० द्विदिउदी०  
लोग० असंखे०भागो अट्ट-एवचोद० । सम्म०-सम्मामि० उक्क० अणुक० द्विदिउदी०  
लोग० असंखे०भागो अट्टचोद० । इत्थिवे०-पुरिसवे० उक्क० लोग० असंखे०भागो  
अट्टचोदम० दे० । अणुक० लोग० असंखे०भागो अट्ट-एवचोदस० दे० । एवं  
सोहम्मीसाणे । भवण०-वाणवे०-जोदिसि० एवं चेव । एवरि सगपोसणं ।

भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ सर्व लोक कहा है वहाँ लोकका असंख्यातवां भाग और सर्व लोक कहना चाहिए। पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ६६३. मनुष्यत्रिकमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ६६४. देवोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सौधर्म और ऐशानकरूपमें जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए।

§ ६६५. सणकुमागादि सहस्साग ति मव्वपयडी० उक० अणुक० ढुडिडिउदी० लोड० असंखे०भाडो अडुचोड० । आणुदाडि अरुचुदा ति सव्वपयडी० उक० ढुडिडिउदी० खेतं । अणुक० लोड० असंखे०भाडो छुचोडस० । उवरि खेतं । एवं जाव० ।

§ ६६६. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-चदुसंजल०-णवुंसं-चदुणोक० जह० अजह० खेतं । णवरि मिच्छ० जह० लोड० असंखे०भाडो अडुचोडस० । बारसक०-भय-दुगुंछा० जह० लोडसस संखे०भाडो । अजह० सव्वलोगो । सम्म० जह० खेतं । अजह० लोड० असंखे०भाडो अडुचोडस० । सम्मामि० जह० अजह० लोड० असंखे०भाडो अडुचोडस० । इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० खेतं । अजह० लोड० असंखे०भाडो अडुचोडस० दे० सव्वलोगो वा ।

§ ६६५. सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अनानहारक मार्गणा-तक जानना चाहिए ।

§ ६६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व चार संज्वलन, नपुंसकवेद और चार नाकषायोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—चार संज्वलन और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशमश्रेणि या क्षपकश्रेणिमें अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार होती है तथा हास्यादि चारकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार संज्ञी पद्वेन्द्रिय पर्याप्तकोंके होती है । यतः इनकी

§ ६६७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० जह० अजह०  
लोग० असंखे० भागो ङ्खोइस० । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० खेतं । एवं

जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। तथा इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होती है, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन प्राप्त होता है। इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र भी कमसे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोक है, अतः यहाँ इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन तो उनके क्षेत्रके समान सर्व लोक ही है। मात्र जघन्य स्थितिके उदीरकोंके स्पर्शनमें फरक है। बात यह है कि मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हुआ जीव प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर करता है, यतः ऐसे जीवोंका अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार बादर एकेन्द्रिय जीव करते हैं, यतः इनका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यक्त्वकी स्थितिके एक समय अधिक एक आवलि शेष रहनेपर करता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इसे क्षेत्रके समान कहा है। वेदकसम्यग्दृष्टियोंके स्पर्शनको देखते हुए सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं, अतः उनके स्पर्शनके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशामक या क्षपकके यथासम्भव हांती हैं। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही होता है, अतः इनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणा तिर्यञ्चादि तीन गतिमें भी सम्भव है। इन्हीं तथ्यको ध्यानमें रखकर इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। आगे चारों गतियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें अपने-अपने स्वामित्वको और स्पर्शनको जानकर प्रकृतमें स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेष न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है।

§ ६६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नाकपायोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर



§ ६६५. सणकुमारादि सहस्रार त्ति मव्वपयडी० उक्क० अणुक० द्विदिउदी० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद० । आणदादि अच्चुदा त्ति सव्वपयडी० उक्क० द्विदिउदी० खेतं । अणुक० लोग० असंखे०भागो छचोदस० । उवरि खेतं । एवं जाव० ।

§ ६६६. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-चदुसंजल०-णवुंस०-चदुणोक० जह० अजह० खेतं । णवरि मिच्छ० जह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोदस० । बारसक०-भय-दुगुद्धा० जह० लोगस्स संखे०भागो । अजह० सव्वलोगो । सम्म० जह० खेतं । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोदस० । सम्मामि० जह० अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोदस० । इत्थिवे०-पुरिसवे० जह० खेतं । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोदस० दे० सव्वलोगो वा ।

§ ६६५. सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व चार संज्वलन, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—चार संज्वलन और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशमश्रेणि या क्षपकश्रेणिमें अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार होती है तथा हास्यादि चारकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके होती है । यतः इतकी

§ ६६७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० जह० अजह०  
 लोग० असंखे०भागो छवोद्दस० । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० खेत्तं । एवं

जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । तथा इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणा एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होती है, इसलिए इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन प्राप्त होता है । इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका क्षेत्र भी क्रमसं लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोक है, अतः यहाँ इनकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । मिथ्यात्वकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन तो उनके क्षेत्रके समान सर्व लोक ही है । मात्र जघन्य स्थितिके उदीरकोंके स्पर्शनमें फरक है । बात यह है कि मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशमसम्यक्त्वके सन्मुख हुआ जीव प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहनेपर करता है, यतः ऐसे जीवोंका अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा अपने स्वामित्वके अनुसार बादर एकेन्द्रिय जीव करते हैं, यतः इनका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है, अतः उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यक्त्वकी स्थितिके एक समय अधिक एक आवलि शेष रहनेपर करता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इसे क्षेत्रके समान कहा है । वेदकसम्यग्दृष्टियोंके स्पर्शनको देखते हुए सम्यक्त्वकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उदीरणा सम्यग्मिथ्या-दृष्टि जीव करते है, अतः उनके स्पर्शनके अनुसार सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा उपशामक या क्षपकके यथासम्भव होती हैं । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही होता है, अतः इनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनकी अजघन्य स्थितिउदीरणा तिर्यञ्चादि तीन गतिमें भी सम्भव है । इसी तथ्यको ध्यानमें रखकर इनकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । आगे चारों गतियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें अपने-अपने स्वामित्वको और स्पर्शनको जानकर प्रकृतमें स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए । कोई विशेष न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है ।

§ ६६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंके लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर

बिदियादि जात्र सत्तमा त्ति । णवरि सगपोसणं । पढमाए खेत्तं ।

§ ६६८. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-सम्मामि० जह० अजह० खेत्तं । इत्थिबे०-पुरिसवे० जह० खेत्तं । अजह० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म० जह० खेत्तं । अजह० लोग० असंखे०भागो ङ्खोदस० ।

§ ६६९. पंचिदियतिरिक्खतिए सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोघं । सेसपय० जह० खेत्तं । अज० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० सव्वपयडी० जह० खेत्तं । अजह० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । मणुमतिय० पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि सम्म० जह० अजह० लोग० असंखे०भागो ।

§ ६७०. देवेसु सोलसक०-अट्टणोक० जह० खेत्तं । अजह० लोग० असंखे०-भागो अट्ट-णवचोदस० । एवं मिच्छ० । णवरि जह० अट्टचोदस० । सम्म० जह० खेत्तं । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० । सम्मामि० जह० अजह० लोग०

सातवीं पृथिवीतक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

§ ६६८. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ६६९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ६७०. देवोंमें सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके

असंखे०भागो अट्टचोदस० । एवं भवण०-त्राणवें० । णवरि सगपोसणं । सम्म०  
सम्मामि०भंगो । जोदिसि० भवण०भंगो । णवरि अणंताणु०४ जह० अद्धुट्ट-अट्ट-  
चोदस० । अजह० लोग० असंखे०भागो अद्धुट्ट-अट्ट-एवचोदस० ।

§ ६७१. सोहम्मीसाणे देवोघं । णवरि अणंताणु०चउक० जह० अट्टचोदस०  
देसूणा । अजह० अट्ट-एवचोदस० देसूणा ।

§ ६७२. सणक्कुमारादि जाव सहस्सार ति मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु०-  
चउक० जह० अज० लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० देसूणा । सम्म०-वारसक०-  
सत्तणोक० जह० खेतं । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० ।

§ ६७३. आणदादि जाव अच्चुदा ति सम्म०-सोलसक०-सत्तणोक० जह०  
खेतं । अजह० लोग० असंखे०भागो छचोदस० । मिच्छ०-सम्मामि० जह० अजह०

असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार भवतवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। तथा इनमें सम्यक्त्वका भंग सम्यग्मिध्यात्वके समान है। ज्यातिषी देवोंमें भवतवासियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग और आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग, आठ भाग और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ६७१. सौधर्म और ऐशानकल्पमें सामान्य देवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ६७२. सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और अतन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व, वारह कपय और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ६७३. आनतकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें सम्यक्त्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह

लोग० असंखे० भागो छचोइस० । उवरि खेत्तभंगो । एवं जाव० ।

६७४. णाणाजीवेहि कालो दुविहो—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणं उक्क० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मामि० उक्क० जह० एग-ममओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । णवरि सम्मामि० अणुक्क० जह० अंतोसु०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो ।

६७५. मव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख-देवा सहस्सारे त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति तामिमोघं । णवरि पच्चिदियतिरिक्खअपज्ज० सव्वपय० उक्क० जह० भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर क्षेत्रके समान भंग है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

६७४. नाना जीवोंकी अपेक्षा काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसं छव्वीस प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व और सम्यगिमध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि सम्य-गिमध्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

**विशेषार्थ**—पहले एक जीवकी अपेक्षा काल बतला आये है । उसमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल बतलाया है । वह यहाँ नाना जीवोंकी अपेक्षा भी बन जाता है, अतः उसका अलगसे खुलासा नहीं किया । अब रही उत्कृष्ट कालकी बात सो यदि नाना जीव अनुत्कृष्ट सन्तानरूपसे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा करें तो छव्वीस प्रकृतियोंकी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक और सम्यक्त्व-सम्यगिमध्यात्वकी आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक ही उत्कृष्ट स्थिति उदीरणा बनती है । यही कारण है कि यहाँ पर छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा सम्यक्त्व और सम्यगिमध्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है । अब रहा इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंके कालका विचार सो सत्ताईस प्रकृतियोंकी निरन्तर उदीरणा सर्वदा सम्भव है, इसलिए तो इनकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा कहा है । अब रहा सम्यगिमध्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंके कालका विचार सो नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यगिमध्यात्व गुणस्थानका ही उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यही कारण है कि यहाँ सम्यगिमध्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है ।

६७५. सब नारकी, सब तिर्यञ्च और सामान्य देवोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमे जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका काल ओघके समान है । इतनी विशेषता है

एयम०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० सव्वद्धा ।

§ ६७६. मणुमतिए सम्म० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एगम०, उक्क० मंखेजा समया । अणुक० सव्वद्धा । एवं सम्मामि० । णवरि अणुक० जह० उक्क० अंतोमु० । सेसपय० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अणुक० सव्वद्धा ।

§ ६७७. मणुमअपज्ज० सव्वपय० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० जह० एयम०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । णवरि मिच्छ०-णवुंस० अणुक० जह० खुदाभवगहणं ममयूणं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो ।

कि पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है।

**विशेषार्थ**—पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंका प्रमाण यद्यपि असंख्यात है, फिर भी इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा मात्र एक समयप्रमाण बनती है, इसलिए अनुत्कृष्ट सन्तानकी अपेक्षा नाना जीवोंके उक्त कालका योग आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही बनता है। यही कारण है कि इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ६७६ मनुष्यत्रिकमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है।

**विशेषार्थ**—मनुष्यत्रिकका प्रमाण संख्यात है इस तथ्यको ध्यानमें रखकर यहाँ सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ६७७. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्व और नपुंसकवदकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय कम क्षुब्धकभवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

**विशेषार्थ**—मनुष्य अपर्याप्तकोंका प्रमाण यद्यपि असंख्यात है, फिर भी इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल भी एक समयमात्र है। यदि अनुत्कृष्ट सन्तान रूपसे ऐसे जीव इनमें उत्पन्न हों तो आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक ही वे उत्पन्न होंगे। यही कारण है कि इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ६७८. आणदादि जाव एवमेवज्जा त्ति सव्वपय० उक्क० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा ममया । अणुक्क० मव्वद्दा । णवरि सम्मामि० अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अणुदिसादि मव्वद्दा त्ति सव्वपय० उक्क० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा ममया । अणुक्क० सव्वद्दा । एवं जाव० ।

§ ६७९. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-चदुणोक० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो, । अज० सव्वद्दा । एवं सम्मामि० । एवरि अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । सम्म०-चदुसंजल०-तिण्णवेद० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा ममया । अजह० सव्वद्दा । वारसक० भय-दुगुंझा० जह० अजह० सव्वद्दा ।

§ ६७८. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ—**नौ प्रवेयकसे लेकर उक्त सब देवोंमें मनुष्यत्रिक ही मरकर जन्म लेते हैं और उनका प्रमाण संख्यात है । यही कारण है कि इनमें अपनी-अपनी उदीरणा प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६७९. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और चार नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व, चार संज्वलन और तीन वेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है ।

**विशेषार्थ—**मिथ्यात्व और चार नोकपायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणाके स्वामित्वको ध्यानमें लेनेपर ऐसे नाना जीव लगातार यदि इनकी जघन्य स्थितिउदीरणा करें तो उस कालका योग आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है । यही कारण है कि इनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके विषयमें जान लेना चाहिए । सम्यक्त्व, चार संज्वलन और तीन वेदोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा करनेवाले जीव ही अधिक-से-अधिक संख्यात हो सकते हैं । यदि अनुदत्त

§ ६८०. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-मोलमक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मामि० ओघं । एवं पढमाए ।

§ ६८१. विदियादि जाव छट्ठि त्ति सम्म०-मिच्छ० जह० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्धा । सम्मामि० ओघं । अणंताणु०४ जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अतोमु० । अज० सव्वद्धा । बारसक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सव्वद्धा । सत्तमाए सोलसक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । अज० सव्वद्धा । सम्मामि०-मिच्छ०-पचणोक० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अज० सव्वद्धा । सम्मामि० ओघं ।

सन्तानकी अपेक्षा भी विचार किया जाय तो उस कालका योग भी संख्यात समय होगा । यही कारण है कि इन प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६८०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए ।

**विशेषार्थ**—सामान्यसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थिति उदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । यदि नाना जीवोंकी अपेक्षा अत्रुटत् संतानकी अपेक्षा यह काल लिया जाय तो वह आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है । यही कारण है कि यहा उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

६८१. दूसरी पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी चारको जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । बारह कपाय और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । सातवीं पृथिवीमें सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और पाँच नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोका काल सर्वदा है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है ।



॥ ६८२. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सत्तणोक० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्दा । मोलमक०-भय-दुगुञ्जा० जह० अजह० ट्टिदिउदी० मव्वद्दा । सम्म०-सम्मामि० ओघं । पंचि०तिरिक्खतिय० दंमणतियमोघं । सेमपय० जह० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्दा । एवरि जोणिणीसु सम्मत्त० मिच्छत्तभंगो । पंचि०तिरि०अपज्ज० सव्वपय० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्दा ।

॥ ६८३. मणुसेसु मिच्छ०-सम्म०-चदुसंजल०-सत्तणोक० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० असंखेजा समया । अजह० सव्वद्दा । बारसक०-भय-दुगुञ्जा० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० आवलि० असं०भागो । अजह० सव्वद्दा । सम्मामि० जह० जह० एयस०, उक्क० संखेजा समया । अज० जह० उक्क० अंतो-मुहुत्तं । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० सव्वपयडी० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० संखेजा समया । अजह० सव्वद्दा । णवरि सम्मामि० मणुमोघं । मणुस-

विशेषार्थ—इसके पूर्व जो स्पष्टीकरण किया है उसे और साथ ही अपने-अपने स्वामित्वका ध्यानमें लेनेपर सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिउद्दीरणाका नाना जीवोंकी जो अपेक्षा काल कहा है वह समझमें आ जाता है, इसलिये यहाँ और आगे अलगसे गुलासा नहीं किया ।

॥ ६८२. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । इतनी विशंपता है कि योनिनियोमें सम्यक्त्वका भंग मिथ्यात्वके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है ।

॥ ६८३. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, चार संज्वलन और सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

अपञ्ज० मिच्छ०-णवुंस० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अज० जह० आवलि०या समयुणा, णवुंस० अंतोमुहुत्तं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सोलसक०-द्वएणोक० एवं चेव । णवरि अजह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो ।

६८४. देवेषु दंसणतियमोघं । सेसपय० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अजह० सव्वद्धा । एवं भवण०वाणवें० । णवरि सम्म० मिच्छत्तभंगो । जोदिमियादि जाव एवगेवज्जा त्ति दंसणतियमोघं । सेसपय० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सव्वद्धा । णवरि अणंताणु०चउक्क० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवरि जोदिमि० सम्म० मिच्छत्तभंगो । आणदादि णवगेवज्जा त्ति अणंताणु०४ जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सव्वद्धा । अणुहिसादि सव्वद्धा त्ति सव्वपय० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सव्वद्धा । एवं जाव० ।

संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य मनुष्योंके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल मिथ्यात्वका एक समय कम एक आवलिप्रमाण है, नपुंसकवेदका अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

६८४. देवोंमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग मिथ्यात्वके समान है । ज्योतिषी देवोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवोंमें सम्यक्त्वका भंग मिथ्यात्वके समान है । तथा आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक

१ ६८५. अंतरं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वपय० उक्क० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अणुक्क० णत्थि अंतरं । णवरि सम्मामि० अणुक्क० जह० एयम०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । आदेसेण सव्वणेरइय०-मव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स सव्वदेवा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति तासिमोघं । णवरि मणुस०अपज्ज० सव्वामिमणुक्क० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

१ ६८६. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । अजह० णत्थि अंतरं । मम्म०-लोभसंजल० जह० ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० इम्मासं । जानना चाहिए ।

१ ६८५. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर काल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काल अंगुलके अमंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्व की अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्थाप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गसातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नाना जीव यदि सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा न करें तो कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक नहीं करते । यही कारण है कि यहाँ ओघसे उक्त सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके अमंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसलिए सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा उक्त प्रकारसे अन्तरकालका निर्देश अलगसे किया है । चारों गतियोंमें यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्थाप्त यह सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके समान सान्तर मार्गणा है, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर इनमें सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है ।

१ ६८६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिवस है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट

अजह० णत्थि अंतरं । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । बारमक०-भय-दुगुंखा० जह० अजह० णत्थि अंतरं । तिण्णिणसंजल०-पुरिसवेद० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० वासं सादिरेयं । अजह० णत्थि अंतरं । इत्थिवेद-णवुंस० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० वासपुधत्तं । अजह० णत्थि अंतरं । चदुणोक्क० जह० द्विदिउदी० जह० एगममओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं ।

अन्तरकाल छह महीना है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । सम्यग्मि-थ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्षप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । चार नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है ।

**विशेषार्थ**—उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात है । इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात कहा है । सम्यक्त्वकी क्षण और क्षणश्रेणिका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है, इसलिए यहाँ सम्यक्त्व और लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना कहा है । ऐसे जीव जो सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा करते हैं उनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है, इसलिए यहाँ सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी अपेक्षा यह अन्तर-काल उक्त कालप्रमाण कहा है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य स्थितिके उदीरकोंके अन्तरकालका निषेध किया है । तीन संज्वलन और पुरुषवेदके उदीरक जीव क्षणश्रेणिए पर न चढ़ें तो अधिकसे अधिक साधिक एक वर्षतक नहीं चढ़ते, इसलिए यहाँ इनकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक वर्ष कहा है । स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंकी अपेक्षा क्षणश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहाँ स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व कहा है । चार नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण सम्यग्मिथ्यात्वकी

६८७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-मम्मामि० ओघं । सम्म० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० वामपुधत्तं । अजह० णत्थि अंतरं । सेसपयडी० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेव । एवग्गि सम्म० अणंताणु०भंगो ।

§ ६८८. तिरिक्खेसु मिच्छ०-मम्म०-सम्मामि० णिरओघं । मोलसक्क०-भय-दुगुंढा० जह० अजह० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । पंचिदियतिरिक्खतिय० दंसण-तिय० णाग्यभंगो । सेसपयडी० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवग्गि जोणिसु सम्म० विदियपुढविभंगो । पंचि०तिरि०अपज्ज० मव्वपय० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवं मणुसअपज्ज० । णवरि अजह० जह०

जघन्य स्थितिके उदीरकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालके समान है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६८७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग आघकें समान है । सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीमें लेकर सातवीं पृथिवीतक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका भंग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है ।

**विशेषार्थ**—आघपरूपणामें जो खुलासा किया है उसे और अपने-अपने स्वामित्वको समझकर यहाँ स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । आगे भी इसीप्रकार खुलासा कर लेना चाहिए ।

§ ६८८. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य नारकियोंके समान है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । सात नोकपायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि योनिनीतिर्यञ्चोंमें सम्यक्त्वका भंग दूसरी पृथिवीके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी

एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो ।

§ ६८६. मणुसतिए ओघं । एवरि बारमक०-भय-दुगुंछ० पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणी० पुरिसवेद०-एवुंस० णत्थि । जम्हि छम्मासं वासं सादिरेयं तम्हि वासपुधत्तं ।

§ ६९०. देवेषु दंसणतियं णारयभंगो । सेसपय० जह० द्विदिउदी० जह० एयसमओ, उक० अंगुलस्स असंखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवं भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । णवरि भवण०-वाणवे०-जोदिसि० सम्म० विदियपुढविभंगो । अणुहिसादि मव्वट्टा त्ति सम्म०-बारसक०-सत्तणोक० आणदभंगो । णवरि सव्वट्टे सम्म० जह० द्विदिउदी० जह० एयस०, उक० पलिदो० संखे०भागो । अजह० णत्थि अंतरं । एवं जाव० ।

§ ६९१. भावाणु० सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ६९२. अप्पाबहुअं दुविहं—जीवप्पाबहुअं द्विदिअप्पाबहुअं चेदि । जीवअप्पा-बहुअं दुविहं—जह० उक० । उकस्से पपदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-गत्तणोक० सव्वत्थोवा उक० द्विदिउदी० जीवा । अणुक्क० विशोपता है कि इनमें अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ६८६. मनुष्यत्रिकमं ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, भय और जुगुप्साका भंग पञ्चेन्द्रिय निरर्थकोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यनियामें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । जहाँ छह माह और साधिक एक वर्ष कहा है वहाँ वर्षपृथक्त्व कहना चाहिए ।

§ ६९०. देवोंमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भंग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार भवनवासियोसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भवन-वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सम्यक्त्वका भंग दूमरी पृथिवीके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नोकषायोंका भंग आनत-कल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अजघन्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६९१. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव हैं ।

§ ६९२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जीव अल्पबहुत्व और स्थितिअल्पबहुत्व । जीव अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट

द्विदिउदी० जीवा अणंतगुणा । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वत्थो० उक्क०  
द्विदिउदी० जीवा । अणुक० द्विदिउदी० जीवा असंखेज्जगुणा । एवं तिरिक्खा० ।

§ ६९३. मव्वणोरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा जाव अवरा-  
जिदा त्ति सव्वपय० मव्वत्थोवा उक्क० द्विदिउदी० जीवा । अणुक० द्विदिउदी० जीवा  
असंखे०गुणा । मणुसेसु सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वत्थोवा उक्क०  
द्विदिउदी० जीवा । अणुक० द्विदिउदी० जीवा संखे०गुणा । सेसपयडीणं सव्वत्थोवा  
उक्क० द्विदिउदी० जीवा । अणुक० द्विदिउदी० जीवा असंखे०गुणा । मणुसपज्ज०-  
मणुसिणी-सव्वदुदेवेसु सव्वपय० सव्वत्थोवा उक्क० द्विदिउदी० । अणुक० द्विदिउदी०  
जीवा संखे०गुणा । एवं जाव० ।

§ ६९४. जह० पयदं दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-  
चदुसंजल०-णवुंस०-चदुणोकसाय० सव्वत्थोवा जह० द्विदिउदी० जीवा । अजह०  
द्विदिउदी० जीवा अणंतगुणा । सम्म०-सम्मामि०-बारसक०-इत्थिवे०-पुरिस०-भय-  
दुगुं० सव्वत्थोवा जह० द्विदिउदी० जीवा । अजह० द्विदिउदी० असंखेज्जगुणा ।  
तिरिक्खेसु मिच्छ०-णवुंमय०-चदुणोक० सव्वत्थोवा जह० द्विदिउदी० जीवा । अज०  
द्विदिउदी० जीवा अणंतगुणा । सम्म०-सम्मामि०-सोलमक०-भय-दुगुज्ज०-इत्थिवेद०-

स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं ।  
सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे  
स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चामें  
जानना चाहिए ।

§ ६९३. सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सामान्य देवोंसे लेकर  
अपराजितविमानतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं ।  
उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्योंमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व,  
स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुत्कृष्ट  
स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । शंष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे  
थोड़े हैं । उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी  
और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं ।  
उनसे अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक  
जानना चाहिए ।

§ ६९४. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मिध्यात्व, चार संज्वलन, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव  
सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मि-  
ध्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव  
सबसे स्तोक हैं । उनसे अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । तिर्यञ्चोंमें मिध्यात्व,  
नपुंसकवेद और चार नोकषायकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे  
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय,

पुरिसवे० सव्वत्थोवा जह० द्विदिउदी० । अजह० द्विदिउदी० जीवा असंखे०गुणा ।  
सेमगदीसु सव्वपयडीणं जह० अजह० उक्कस्मभंगो । एवं जाव० ।

§ ६९५. द्विदिअप्पाबहुअं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयद । दुविहो  
णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वत्थोवा एवणोक्क० उक्क० द्विदिउदी० ।  
सोलसक० उक्क० द्विदिउदी० विसेमा० । सम्मामि० उक्क० द्विदिउदी० विसेमा० ।  
सम्म० उक्क० द्विदिउदी० विसेमा० । मिच्छ० उक्क० द्विदिउदी० विसेसा० । एवं सव्व-  
एणइय० । णवरि इत्थिवे०-पुरिस० णत्थि । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिए ओघं ।  
एवरि पज्जत्तएसु इत्थिवे० णत्थि । जोणिणीसु पुरिस०-णवुंम० णत्थि । पंचिदिय-  
तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० सव्वत्थोवा मोलमक०-सत्तणोक्क० उक्क० द्विदिउदी० ।  
मिच्छ० उक्क० द्विदिउदी० विसेसा० । मणुमतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो ।

६९६. देवाणमोघं । णवरि णवुंस० णत्थि । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-  
सोहमीसाणे त्ति । सणकुमारादि सहस्सारे त्ति एवं चेव । एवरि इत्थिवे० णत्थि ।  
आणदादि जाव णवगेवज्जा त्ति मव्वत्थोवा अरदि-सोग० उक्क० द्विदिउदी० ।

भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे  
अजघन्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट  
और अनुत्कृष्ट स्थितिके उदीरकोंका भंग उत्कृष्टके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गाणा-  
तक जानना चाहिए ।

§ ६९५. स्थिति अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण  
है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा  
सबसे स्तोक है । उससे सोलह कपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्य-  
ग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा  
विशेष अधिक है । उससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । इसीप्रकार  
सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा  
नहीं है । तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें आघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि  
तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा योनिनी तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेद और नपुंसक-  
वेदकी उदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सोलह कषाय  
और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट  
स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है ।

§ ६९६. देवोंमें आघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेदकी  
उदीरणा नहीं होती । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशान-  
कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहस्रार वल्पनकके देवोंमें इसी-  
प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं होती । आनत-  
कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक



सोलमक०-पंचणोक्० उक्० द्विदिउदी० विसेमा० । मम्मामि० उक्० द्विदिउदी० विसेमा० । सम्म०-मिच्छ० उक्० द्विदिउदी० विसेमा० । अणुदिमादि सव्वट्टात्ति सव्वत्थो० अरदि-मोग० उक्० द्विदिउदी० । बारसक०-पंचणोक्० उक्० द्विदिउदी० विसे० । मम्म० उक्० द्विदिउदी० विसेसा० । एवं जाव० ।

§ ६९७. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वत्थोवा मिच्छ०-मम्म०-चदुसंज०-तिण्णिवे० जह० द्विदिउदी० । जद्विदिउदी० असंखे०गुणा । हस्स-रदि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । भय-दुगुंढा० जह० द्विदिउदी० विसे० । बारसक० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । मम्मामि० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा ।

§ ६९८. आदेसेण एरइय० सव्वत्थोवा मिच्छ०-मम्म० जह० द्विदिउदी० । जद्विदिउदी० असंखे०गुणा । मम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । हम्म-रदि० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । अरदि-मोग० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । णवुंस० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । मोलमक०-भय-दुगुंढा० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । एवं पट्टमाए ।

है । उससे सोलह कषाय और पाँच नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यक्त्व और मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमें अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे बारह कषाय और पाँच नोकषायकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ६९७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आव और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, चार संज्वलन और तीन वेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे बारह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है ।

§ ६९८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । इसीप्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए ।

§ ६९९. विदियादि जाव ङ्ङि त्ति सव्वत्थोवा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । जङ्घिदिउदी० असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । सम्म० जह० द्विदिउ० विसेमा० । वारसक०-सत्तणोक० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । अणंताणु०चउक० जह० द्विदिउदी० विसे० ।

• ७००. सत्तमाए सव्वत्थोवा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । जङ्घिदि० असंखे०-गुणा । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । सम्म० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । हस्म-रदि० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । अरदि-मोग० जह० द्विदिउदी० विसे० । णवुंम० जह० द्विदिउदी० विसे० । भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । सोलसक० जह० द्विदिउदी० विसेमा० ।

• ७०१. तिरिक्खेसु सव्वत्थोवा मिच्छ०-सम्म० जह० द्विदिउदी० । जङ्घिदि० असंखे०गुणा । पुरिसवे० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । इत्थिवेद० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । हस्म-रदि० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । अरदि-मोग० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । णवुंम० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । सोलसक० जह० द्विदिउदी० विसेमा० । सम्मामि० जह०

§ ६९९. दूमरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति-उदीरणा सबसे स्तोक है । उसमें यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे बारह कषाय और सात नाकपायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।

• ७००. सातवी पृथिवीमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सालह कषायोंकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।

• ७०१. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सालह कषायकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति-

द्विदिउदी० संखे०गुणा । एवं पंचिदियतिरिक्खेसु । णवरि सोलमक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० सरिसा विसेसाहिया । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्ज० । णवरि इत्थिवेदो णत्थि ।

§ ७०२. जोण्णिणीसु सव्वत्थोवा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । जट्टि०उदी० असंखे०गुणा । इत्थिवेद० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । हस्म-रदि० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । सोलसक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । सम्म० जह० द्विदिउदी० विसेसा० ।

§ ७०३. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वत्थोवा हस्म-रदि० जह० द्विदिउदी० । अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० विसे० । णवुंस० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । सोलमक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । मिच्छ० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । मणुसतिए ओघं । णवरि बारसक०-भय-दुगुंझा० जह० द्विदिउदी० सरिसा । पज्जत्त० इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणी० पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि ।

§ ७०४. देवेषु सव्वत्थोवा मिच्छ०-सम्म० जह० द्विदिउदी० । जट्टिदि०उदी० उदीरणा संख्यातगुणो है । इसीप्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा सदृश होकर विशेष अधिक है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है ।

§ ७०२. योनिनी तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।

§ ७०३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे नपुंसकवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । मनुष्यत्रिकमें आवके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा सदृश है । पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है ।

७०४. देवोंमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है ।

असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । पुरिसवे० जह०  
द्विदिउदी० संखे०गुणा । इत्थिवेद० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । हस्स-रदि० जह०  
द्विदिउदी० विसेसा० । अरदि-सोग० जह० द्विदिउदी० विसेसा० । सोलसक०-भय-  
दुगुंढा० जह० द्विदिउदी० विसेसा० ।

७०५. भवण०-वाणवे० सव्वत्थोवा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । जद्विदि०उ०  
असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । सम्म० जह० द्विदिउदी०  
विसे० । पुरिमवेद० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । उवरि देवोधं ।

७०६. जोदिमि० सव्वत्थोवा मिच्छ० जह० द्विदिउदी० । जद्वि०उ०  
असंखे०गुणा । सम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । सम्म० जह० द्विदिउदी०  
विसेसा० । बारसक०-अट्टणोक० जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । अणंताणु०४ जह०  
द्विदिउदी० विसेसा० ।

७०७. सोहम्मीमाण० सव्वत्थोवा मिच्छ०-मम्म० जह० द्विदिउदी० । जद्वि०उ०  
असंखे०गुणा । मम्मामि० जह० द्विदिउदी० असंखे०गुणा । बारसक०-मत्तणोक० जह०  
द्विदिउदी० संखे०गुणा । अणंताणु०४ जह० द्विदिउदी० संखे०गुणा । इत्थिवेद०

उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा  
असंख्यातगुणी है । उससे पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे स्त्रीवेदकी  
जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे हास्य और रतिकी जघन्य स्थितिउदीरणा  
विशेष अधिक है । उससे अरति और शोककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।  
उससे सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।

७०५. भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे  
स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति-  
उदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।  
उससे पुरुषवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । इससे आगे सामान्य देवोंके  
समान भंग है ।

७०६. ज्योतिषी देवोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्तोक है । उससे  
यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा  
असंख्यातगुणी है । उससे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । उससे बारह  
कषाय और आठ नाकषायकी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अनन्तानुबन्धो-  
चतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है ।

७०७. सौधर्म और ऐशानकल्पमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा  
सबसे स्तोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य  
स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे बारह कपाय और सात नाकषायकी जघन्य स्थिति-  
उदीरणा संख्यातगुणी है । उससे अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी जघन्य स्थितिउदीरणा संख्यातगुणी

ज०द्विदिउदी० विसेसा० । एवं सणक्कुमारादि जाव णवगेवजा त्ति । णवरि इत्थिवेदो णत्थि । अणुद्दिमादि सव्वट्ठा त्ति सव्वत्थोवा मम्म० जह० द्विदिउदी० । जद्वि०उ० असंखे०गुणा । बारसक०-मत्तणोक० जह० द्विदिउदी० असंखेज्जगुणा । एवं जाव० ।

॥ ७०८. भुजगारद्विदिउदीरणा त्ति तत्थ इमाणि तेगस अणिओगहागणि—समुक्कित्तादि जाव अप्पावहुए त्ति । ममुक्कित्ताणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-णवणोक० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त०उदी० । सम्मामि० अत्थि अप्प०-अवत्त०द्विदिउदी० ।

॥ ७०९. आदेसेण णेग्इय० मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-द्वणणोक० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त०उदी० । एणुंम० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०द्विदिउदी० । मम्मामि० ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु । तिग्गिखाणमोघं । एवं पंचिदिय-तिग्गिखातिए । एणवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवेद-णवुंम० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० एत्थि । पंचिदियतिग्गिख अपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ० एणुंम० अत्थि भुज०-अप्प०-अवट्ठि०उदी० । सोलसक०-द्वणणाक० ओघं । मणुस-

हे । उससे स्त्रीवेदकी जघन्य स्थितिउदीरणा विशेष अधिक है । इसीप्रकार मनत्कुमारकल्पसे लेकर नौ प्रैवैयकनकके देवोमे जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । अनुदिशमे लेकर सर्वार्थसिद्धिकके देवोमे सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिउदीरणा सबसे स्नोक है । उससे यत्स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । उससे बारह कषाय और सात नाकषायकी जघन्य स्थितिउदीरणा असंख्यातगुणी है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

॥ ७०८. भुजगार स्थितिउदीरणाका प्रकरण है । उसमे समुत्कीर्तनासे लेकर अल्प-बहुत्वतक ये तरह अनुयोगद्वार हैं । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और नौ नाकषायकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं । सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं ।

७०९. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और छह नाकषायकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं । नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव हैं । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्चोंका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है, यानिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है तथा स्त्रीवेदकी अवक्तव्यस्थितिके उदीरक नहीं हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितस्थितिके उदीरक जीव हैं । सोलह कषाय और छह नाकषायका भंग ओघके समान है । मनुष्यत्रिकमें ओघके

तिए ओघं । एवरि पज्ज० इत्थिवे० एत्थि । मणुमिणीसु पुरिसवे०-एवुंस० एत्थि ।

§ ७१०. देवेषु मिच्छ०-सम्म०-मम्मामि०-मोलमक०-अट्टणोक० ओघं । एवरि इत्थिवे०-पुरिमवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-सोहम्मी-साणे त्ति । मणक्कुमारादि सहस्सार त्ति एवं चेव । एवरि इत्थिवे० एत्थि । आणदादि णवणेवज्जा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-मोलमक०-अट्टणोक० अत्थि अप्प०-अवत्त० । पुरिमवे० अत्थि अप्प०-ट्टिदिउदी० । सम्म० अत्थि भुज०-अप्प०-अवत्त०-ट्टिदिउदी० । अणुहिमादि मव्वट्ठा त्ति सम्म०-वारमक० अट्टणोक० अत्थि अप्प०-अवत्त० । पुरिमवे० अत्थि अप्प०-ट्टिदिउदी० । एवं जाव० ।

§ ७११. मामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अणताणु०४ भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त० कस्म ? अणणद० मिच्छाइट्टिस्म । सम्मत्तस्स भुज०-अप्प०-अवट्टि०-अवत्त० कस्म ? अणणद० सम्माइट्टि० । सम्मामि० अप्प०-अवत्त० कस्म ? अणणद० सम्मामिच्छादिट्टि० । वारसक०-णवणोक० भुज०-अवट्टि० कस्म ? अणणद० मिच्छाइट्टि० । अप्प०-अवत्त० कस्म ? अणणद० मिच्छा-

समान भंग है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें ऋग्वेदकी उदीरणा नहीं है और मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है।

§ ७१०. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषाय-का भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें ऋग्वेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य-स्थितिके उदीरक जीव नहीं है। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्यातिर्षा और सौधम पेशान-कल्पके देवोंमें जानना चाहिए। सनत्कुमारकल्पसे लेकर सहस्वारकल्पतकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें ऋग्वेदकी उदीरणा नहीं है। आनन्तकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं। पुरुषवेदकी अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव हैं। सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं। अनुदिशसं लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव हैं। पुरुषवेदकी अल्पतरस्थितिके उदीरक जीव हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

§ ७११. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अल्पतर मिथ्यादृष्टि जीव उदीरक हैं। सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उदीरक हैं। सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव उदीरक हैं। बारह कषाय और नौ नोकषायकी भुजगार और अवस्थित-स्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उदीरक हैं। अल्पतर और

इट्टिस्स सम्माइट्टिस्स वा ।

§ ७१२. आदेशेण णेरइय० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलमक०-सत्तणोक्क० ओघं । णवरि णवुंस० अवत्त० णत्थि । तिरिक्खेसु ओघं । णवरि तिण्णिवे० अवत्त० मिच्छाइट्टिस्स । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिए । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्तव्वं च णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वपयडी० सव्वपदा कस्स ? अण्णद० । मणुसतिए ओघं । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । मणुमिणी० पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स ।

§ ७१३. देवेसु सत्तावीसपयडी० ओघं । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवण०-त्राणवें०-जोदिमि०-सोहम्मिमाणा त्ति । एवं सणक्कुमारादि सहसारा त्ति । णवरि इत्थिवे० णत्थि । आणदादि णवगेवज्जा त्ति मिच्छ०-अणंताणु०४ अप्प०-अवत्त० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टि० । सम्म० भुज्ज०-अप्प०-अवत्त० कस्स० ? अण्णद० सम्मा० । सम्मामि० ओघं । वारसक०-अण्णोक्क० अप्प०-

अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर मिध्याट्टि और सम्यग्दृष्टि जीव उदीरक हैं ।

§ ७१२. आदेशसे नागक्रियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकषायका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव नहीं हैं । तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि इनमें तीन वेदकी अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव मिध्याट्टि हैं । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय नियञ्च-त्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और योनिनियोंमें पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा इनमें स्त्रीवेदके उदीरकोंवा अवक्तव्यपद नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर जीव उदीरक हैं । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । मनुष्यनियोंमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उदीरक हैं ।

§ ७१३. देवोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव नहीं हैं । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुमारसे लेकर सहस्रारकल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्यस्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर मिध्याट्टि जीव उदीरक हैं । सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उदीरक हैं । सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है ।

अवत्त० कस्स ? अण्णद० मिच्छाडिडि० मम्मइडिडिस्स वा । एवं पुरिसवे० । एवरि  
अवत्त० एत्थि । अणुदिमादि मव्वड्डा त्ति वासं पय० मव्वपदा कस्स ? अण्णद० ।  
एत्थोधपरूवणाए पुरिसवे०-चदुमंजलणभुजगारो मम्मइडिडिस्स वि लब्भइ । एवं  
मणुसतिए चदुसंजलणभुजगारो वत्तव्वो । एवरि एम संभवो एत्थ ण विवक्खिओ ।  
एवं जाव० ।

७१४. कालानुगमेण दुविदो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
मिच्छ० भुज० जह० एयम०, उक्क० चत्तारि ममया । अप्प०डिडिउदी० जह०  
एयममओ, उक्क० एकत्तीमं मागरो० मादिरेयाणि । अवट्ठि०डिडिउदी० जह०  
एगममओ, उक्क० अतोमुहुत्तं । अवत्त०डिडिउदीरणा० जह० उक्क० एयस० ।  
मम्म० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त०डिडिउदी० जह० उक्क० एयस० । अप्प०डिडिउदी०  
जह० अंतोमु०, उक्क० आवट्ठिमागरो० देसूणाणि । मम्मामि० अप्प०डिडिउदी०  
जह० उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एयम० । मोलसक०-भय-दुगुंद्धा०  
भुज०डिडिउदी० जह० एगम०, उक्क० एसूगतीम ममया । अप्प०-अवट्ठि०डिडिउदी०  
जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एगम० । एवं हम्म-रदि० ।

बारह कषाय और छह लोहपागकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कौन हैं ?  
अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जाव उदीरक है । इमीप्रकार पुरुषवेदके विषयमे समझना  
चाहिए । इनकी विशेषता है कि इनमे पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । अनुदिशसे  
लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमे बीम प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कौन हैं । अन्यतर  
जीव उदीरक हैं । यहाँपर ओघारूपणके अनुसार पुरुषवेद और चार संज्वलनका भुजगारपद  
सम्यग्दृष्टिके भी उपलब्ध होता है । इमीप्रकार अनुष्यत्रिकमे चार संज्वलनका भुजगारपद कहना  
चाहिए । इनकी विशेषता है कि यह संभव है इसकी यहाँ विवक्षा नहीं है । इसीप्रकार  
प्रवाहारक मार्गगानक जानना चाहिए ।

७१४. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारवा है—ओघ और आवेश । ओघसे  
मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय  
है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस  
सागर है । अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त  
है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्वकी भुजगार,  
अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अल्पतर  
स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर है ।  
सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरस्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य-  
स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी  
भुजगारस्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उन्नीस समय है ।  
अल्पतर और अवस्थितस्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल  
अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इमीप्रकार



णवरि अप्पद० जह० एयस०, उक्क० छम्मामा । एवमरदि-मोग० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवमिस्थिवे० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० पणवण्णपल्लिदो० देसूणाणि । एवं पुरिसवे० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० तेवट्ठिमागंगवमपदं तीहि पल्लिदोवमेहि सादिरेंयं । एवं णवुंस० । णवरि अप्पद० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि ।

हास्य और रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर स्थिति-उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ महीना है। इसीप्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार स्त्रीवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है। इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य अधिक एकसौ त्रेयस सागर है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तैत्तीस सागर है।

**विशेषार्थ—**जिस जीवने मिथ्यात्वका कमसे कम एक समयतक भुजगारम्यतिबन्ध किया है उसके तदनुसार एक समयतक भुजगार स्थितिउदीरणा होनेपर मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा जिस जीवने अद्भ्यान्त्य और संकलेश-न्त्य आदिके क्रमसे अधिकसे अधिक चार समयतक मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिका बन्ध किया है उसके चार समयतक भुजगार स्थितिउदीरणा सम्भव होनेसे मिथ्यात्वकी भुजगार स्थिति-उदीरणाका उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। जिस जीवने कमसे कम एक समयतक अल्पतर स्थितिका बन्ध किया है उसके मिथ्यात्वकी एक समय तक अल्पतर स्थितिउदीरणा सम्भव होनेसे उसका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा नौवें श्रेय्यक्रममें मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वकी निरन्तर अल्पतर स्थितिउदीरणा होनेसे उसका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है। जिस जीवने सत्कर्मके समान मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिका एक समयतक बन्ध किया है उसके एक समयतक उसकी अवस्थित स्थितिउदीरणा सम्भव होनेसे उसका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा जिसने सत्कर्मके समान अन्तर्मुहूर्त कालतक उसका अवस्थित स्थितिबन्ध किया है उसके उतने कालतक मिथ्यात्वकी अवस्थित स्थितिउदीरणा सम्भव होनेसे उसका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वका अनुदीरक होकर मिथ्यादृष्टि होनेपर प्रथम समयमें इसकी उदीरणा करता है उसकी अवक्तव्य संज्ञा है। वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर है, इसलिए सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर कहा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्व सत्कर्मसे दो समय अधिक आदि मिथ्यात्वकी स्थिति बाँधकर वेदकसम्यग्दृष्टि होता है उसके सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिबिभक्ति एक समय तक पाई जानेसे उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव

७१५. आदेसेण रोग्इय० मिच्छ०-सोलमक०-छण्णोक० भुज०डिदिउदी० जह० एयम०, उक्क० तिण्णिणं समया अट्ठागम समया । अप्प०-अवट्ठि० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एयस० । एवगि अग्दि-सोग० अप्पद० जइ० एयम०, उक्क० पल्लिदो० अमंखे०भागो । हस्म-रदि-भुज०डिदिउदी०

सम्यक्त्व मत्कर्मसे मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थिति बंधकर वेदकसम्यग्दृष्टि होता है उसके सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थितिबिभक्ति एक समयतक पाई जानेसे उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो मिथ्यादृष्टि या उपशमसम्यग्दृष्टि जीव वेदक-सम्यग्दृष्टि होता है उसके प्रथम समयमें एक समयतक अवक्तव्य स्थितिउदीरणा होनेसे उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा इस गुणस्थानके प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय मिथ्यात्वकी भुजगारादि स्थितिउदीरणाके जघन्य कालके समान घटित कर लेना चाहिए। इन सब प्रकृतियोंकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जो उत्कृष्ट काल उन्नीस समय बतलाया है उसका खुलामा इम प्रकार है—जिस एकेन्द्रियकी सत्रह समय अधिक एक आवलि आयु शेष है वह विवक्षित कषायके सिवाय शेष पन्द्रह कषायोंका क्रमसे अट्ठाक्षय होनेसे स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे, फिर बन्धक्रमसे एक आवलि काल जानेपर उनी क्रमसे पन्द्रह समयोंके भीतर विवक्षित कषायमें उनका संक्रम करे। इसप्रकार भुजगारके ये पन्द्रह समय हुए। पुनः सोलहवें समयमें अट्ठाक्षयसे विवक्षित कषायका स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे, पुनः सत्रहवें समयमें संक्लेशक्षयसे विवक्षित कषायके साथ सब कषायोंका स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे, पुनः अठारहवें समयमें मरकर एक विग्रहसे सज्जियोंमें उत्पन्न होकर असंज्ञीके योग्य भुजगार स्थितिका बन्ध करे, पुनः उन्नीसवें समयमें संज्ञीके योग्य स्थिति बढ़ाकर बन्ध करे। इस प्रकार प्रत्येक कषायके भुजगारके उन्नीस समय होकर इसी क्रमसे उदीरणा होनेपर प्रत्येक कषायकी भुजगार स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल उन्नीस समय कहा है। इसीप्रकार नौ नोकषायोंकी भुजगार स्थितिउदीरणाका काल यथासम्भव जान लेना चाहिए। इन सब प्रकृतियोंकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। इन सब प्रकृतियोंकी अविस्थित स्थिति-उदीरणाका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह भी स्पष्ट है। मात्र इनकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका काल १८ का अन्तर्मुहूर्त और शेषका जुदा-जुदा है सो जानकर घटित कर लेना चाहिए। कोई कठिनाई न होनेसे यहाँ अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया।

७१५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय तथा अठारह समय हैं। अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। हास्य और रतिकी भुजगार

जह० एयस०, उक्क० सत्तारम ममया । मम्म० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अप्प०ट्टिदिउदी० जह० एगम०, उक्क० तेत्तीमं मागरो० देसूणाणि । सम्मामि० ओघं । णवुंम० भुज०ट्टिदिउदी० जह० एयम०, उक्क० अट्टारस ममया । अप्प० जह० एगम०, उक्क० तेत्तीमं मागरो० देसूणाणि । अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं पट्टमाए । णवरि सगट्टिदी । अग्दि-मोग० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।

९ ७१६. विद्यादि मत्तमा त्ति मिच्छ०-मोलमक०-छण्णोक० भुज० जह० एयममओ, उक्क० वेसमया सत्तारम ममया । अप्पद० अवट्टि०-अवत्त० पट्टमाए भंगो । सम्म० ओघं । णवरि अप्पद० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । सम्म० ओघं । णवुंम० भुज०ट्टिदिउदी० जह० एयस०, उक्क० सत्तारस ममया । अप्पद० जह० एयम०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । अवट्टि० ओघं । णवरि मत्तमाए

स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । सम्यक्त्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्वय स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस माग है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । नपुंसकवेदकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अठारह समय है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस माग है । अवस्थित स्थिति-उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अरति और शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

**विशेषार्थ**—एकेन्द्रिय जीव मरकर नरकमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए यों मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाके तीन समय और मोलह कपाय तथा अरति-शोक और भय-जुगुप्साकी भुजगार स्थितिउदीरणाके अठारह समय कहे हैं । मात्र भुजगार स्थितिउदीरणाके ये अठारह समय हास्य और रतिके नहीं प्राप्त होते, इसलिए इनकी अपेक्षा सत्रह समय कहे हैं । शेष कथन सुगम है ।

९ ७१६. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतकके नारकियोमें मिथ्यात्व, सत्तह कपाय और छह नाकपायको भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय तथा सत्रह समय है । अल्पतर अवस्थित और अवक्वय स्थिति-उदीरणाका भंग प्रथम पृथिवीके समान है । सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । नपुंसकवेदकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अवस्थित स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है । इतना विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें

अरदि-मोग० अप्प० जह० एयम०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो ।

६७१७. तिग्गिक्खेसु मिच्छ० ओघ । णवरि अप्प० जह० एयम०, उक्क० तिण्ण पलिदो० मादिरेयाण । णमिस्सिक्खेद-पुग्गिक्खेदाणं । सोत्तमय०-ल्लण्णोक्क० ओघं । णवरि अरदि-मोग०-हस्स-ग्दि० अप्प० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । मम्म० ओघं । णवरि अप्प० जह० एयम०, उक्क० तिण्ण पलिदो० देसूणाणि । मम्मामि० ओघं । णवुम० ओघ णवरि अप्प० जह० एयम०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । एवं तंचिदियतिग्गिक्खतिण । णवरि णवुंस० अप्प० जह० एयम०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्त । पज्जत्त० इत्थिक्खे० णत्थि । जाणिीसु पुग्गिक्खेद-णवुंम० णत्थि । इत्थिक्खे० अवत्तव्वं च णत्थि । मम्म० अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्ण पलिदो० देसूणाणि ।

~~~~~

अरति ओग शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

**विशेषार्थ** — द्वितीयादि नरयोमे असंज्ञा जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय तथा शोलह कपाय और सान नोकपायोकी भुजगार स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल मात्र साय बनता है । अरति और शोककी अल्पतर स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण मात्र ही प्राप्त होता है । शेष कथन सुगम है ।

७१७ नियंत्रोमे मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशयता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधक तीन पत्य है । इसीप्रकार स्त्रीवें और पुरुषवदका अपक्षा जानना चाहिए । शोलह कपाय और छह नोकपायका भंग ओघके समान है । इतनी विशयता है कि अरति-शोक तथा हास्य-रतिकी अल्पतर स्थिति-उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशयता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । नपुंसकवेदका भंग ओघके समान है । इतनी विशयता है कि अल्पतर स्थिति-उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्जत्रिक्रमे जानना चाहिए । इतनी विशयता है कि इनमें नपुंसकवेदकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकाटिप्रथक्त्वप्रमाण है । पर्याप्तकोमे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और योनिनियोमे पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । योनिनियोमे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है ।

**विशेषार्थ** — नपुंसकवेदका अल्पतर स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण सामान्य तियञ्चो ही बनता है । शेष कथन सुगम है ।

१ ७१८. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ० भुज०ट्टिदिउदी० जह० एगस०, उक्क० चत्तारि समया । अप्प०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं एवुंस० । णवरि भुज० जह० एयस०, उक्क० एगुणवीसं समया । एवं सोलसक०-द्धणोक्क० । णवरि अवत्त० जह० उक्क० एयसमओ ।

१ ७१९. मणुमतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि सम्म० अप्प० जह० अंतोमु० । पज्जत्त० सम्म० अप्प० जह० एगस० । मणुसिणी० इत्थिवे० अवत्त० जह० उक्क० एयस० ।

१ ७२०. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-द्धणोक्क० पढमपुढविभंगो । एवरि मिच्छ० अप्प० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि । हम्म-रदि० भुज० जह० एयस०, उक्क० अट्ठारस समया । अप्प० जह० एगस०, उक्क० छम्मासं । अरदि-मोगाणं भुज० जह० एयस०, उक्क० सत्तारस समया । सम्म० ओषं । णवरि

१ ७१८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमि मिथ्यात्वकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल उर्त्रास समय है। इसीप्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

१ ७१९. मनुष्यत्रिकोमि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकोमि समान भंग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। मनुष्य पर्याप्तकोमि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है। मनुष्यनियामे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषाथ— उत्तम भागभूमिकी अपेक्षा मनुष्य पर्याप्तकोमि सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय बन जाता है। क्योंकि जो मनुष्यनी ज्ञायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर रही है उसके सम्यक्त्वकी उदीरणामे एक समय शेष रहने पर भरकर वहाँके मनुष्य पर्याप्तकोमि उत्पन्न होनेपर यह काल प्राप्त होता है तथा उपशमश्रेणिकी अपेक्षा मनुष्यनियामे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

१ ७२०. देवगतिमे देवामि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायका भंग प्रथम पृथिवीके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल इकर्तास सागर है। हास्य और रतिकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अट्ठारह समय है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है। अर्थात् और शोककी

अप्प० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं मागरोवमाणि । मम्मामि० ओघं । इत्थिवे०-  
 पुरिसवे० हस्मभंगो । एवरि अप्प० जह० एयम०, उक्क० पणवणं पलिदोवमं देसूणं  
 तेत्तीसं सागरोवमं । अवत्त० एत्थि । एवं भवण०-वाणवें० । एवरि सगट्टिदी ।  
 मिच्छ० अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । मम्म० अप्प० जह० अंतोमु० ।  
 इत्थिवे० अप्प० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि पलिदो०  
 सादिरेयाणि । हस्स-रदि० अप्प० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । जोदिमि० वाण-  
 वेंतरभंगो । एवरि मिच्छ०-मोलसक० अट्टणोक० भुज० जद् एयस०, उक्क० वे  
 समया सत्तारम ममया । मोहम्मादि जाव महस्सारे ति एवं चेव । एवरि सगट्टिदी ।  
 मम्म० अप्प० जह० एयम०, उक्क० सगट्टिदी । इत्थिवेद० अप्प० जह० एयस०,  
 उक्क० पणवणं पलिदोवमं देसूणं । सणक्कुमागादिसु इत्थिवेदो एत्थि । महस्सारे  
 हस्म-रदि० अप्प० ओघं ।

भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग हास्यके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थिति-उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल क्रमसे कुछ कम पचवन पल्य और पूरा तेतीस सागर है । इनकी अवत्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य और साधिक एक पल्य है । हास्य-रतिकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । ज्योतिषी देवोंमें व्यन्तरदेवोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायकी भुजगार स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय और सत्रह समय है । सौधर्म आदिसे लेकर सहस्रार कल्पनकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेदकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है । सन्त्कुमागादिमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है । सहस्रारमें हास्य और रतिकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है ।

**विशेषार्थ**—जो जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके मरणके पूर्व अरति और शोकका बन्ध नहीं होता, इसलिए देवोंमें अरति और शोककी भुजगार स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल सत्रह समय कहा है । इसीप्रकार नारकियोंमें मरकर जो जीव उत्पन्न होता है उसके मरणके पूर्व हास्य और रतिका बन्ध नहीं होता, इसलिए नारकियोंमें हास्य और रतिकी भुजगार स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल सत्रह समय कह आये हैं । शेष कथन सुगम है ।

७२१. आणदादि जाव णवगेवजा ति मिच्छ० अप्पं जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० मगद्धिदी । अवत्त० जह० उक्क० एयम० । सम्म० भुज०-अवत्त० जह० उक्क० एयम० । अप्प० जह० एयम०, उक्क० मगद्धिदी । मग्गामि० ओघं । सोलसक०-छण्णोक्क० अप्प० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एयम० । पुरिमवे० अप्प० जहण्णुक्क० जहण्णुक्कम्मद्धिदी ।

७२२. अणुहिमादि मव्वड्ढा ति सम्म० अप्प० जह० एयम०, उक्क० मगद्धिदी । अवत्त० जह० एयम०, उक्क० एयममओ । पुरिसये० अप्प० जहण्णुक्क० जहण्णुक्कम्मद्धिदीआ । वारमक०-छण्णोक्क० अप्प० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० उक्क० एयम० । एवं जाव० ।

७२३. अंतगणुं दुद्धो णि०--ओघेण आदेशेण व । ओघेण मिच्छ० भुज०-अवत्ति० जह० एयम०, उक्क० नेवद्धिमागरोवमगदं तीहिं पण्णिवमेहिं मादिरेंयं । अप्प० जह० एयम०, उक्क० वेद्धाद्धि सागरों देसुणाति । अवत्त० जह० अंतोमु०,

७२१. आन्तकल्पसे लेकर नी ग्रैव्यक तकके देशोंमें मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्वकी भुजगार और अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अल्पतर स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । सालह कपाय और छह नोकपायकी अल्पतर स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेदका अल्पतर स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

७२२. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिकके देशोंमें सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थिति-उद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कपाय और छह नोकपायकी अल्पतर स्थितिउद्दीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इमीप्रकार अनाहारक सार्धगणनक जानना चाहिए ।

७२३. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्य अधिक एकसौ त्रैसठ सागर है । अल्पतर स्थितिउद्दीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छत्तामठ सागरप्रमाण है । अवक्तव्य

उक० उवड्डुपोग्गलपरियडुं । एवमणंताणु०४ । णवरि अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० वेड्ढावड्डिसागरो० देसूणाणि । एवमड्डुकसाय० । णवरि अप्प०-अवत्त० जह० एयस० अंतोमु०, उक० पुव्वकोडी देसूणा । एवं चदुसंजलण-भय-दुगुंझा० । णवरि अप्प०-अवत्त० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं हस्स-रदि० । णवरि अप्प०-अवत्त० जह० एगम० अंतोमु०, उक० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । एवमरदि-सोग० । णवरि अप्प० जह० एगम०, उक० छम्मासं । सम्म० भुज०-अप्प०-अवड्डि०-अवत्त० सम्मामिं अप्प० अवत्त० जह० अंतोमुहुत्तं, उक० उवड्डुपोग्गलपरियडुं । इत्थिवे० पुरिसवे० भुज०-अप्प०-अवड्डि० जह० एयम०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० सव्वेमिमणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियडु। णवुंमवे० भुज०-अप्प०-अवड्डि० जह० एगम०, उक० सागरोवमसदपुधत्तं । अवत्त० इत्थिवेदभंगो ।

स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल-परिवर्तनप्रमाण है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है। इसीप्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। इसीप्रकार चार संज्वलन, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार हास्य और रतिकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तंतीस सागर है। इसीप्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्व-प्रमाण है। अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग आघके समान है।

**विशेषार्थ**—जिन्होंने मनुष्यों और तिर्यञ्चोंमें मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिका उदीरणा प्रारम्भ किया। पुनः वहाँपर अन्तर्मुहूर्त कालतक अल्पतर स्थितिउदीरणासे उन्हें अन्तरित किया। पुनः वे तीन पल्यकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर और एकसौ त्रेसठ सागर कालतक परिभ्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुए और वहाँपर उन्होंने अन्तर्मुहूर्त



§ ७२५. आदेसेण गोरइय० मिच्छ०-अणंताणु०४-हस्सरदि० भुज०-अप्प०-  
अवट्ठि० जह० एयस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरो०

कालके बाद संक्लेशकी पूर्ति करके भुजगार और अवस्थित स्थितिका बन्ध कर उनकी उदीरणा की। इसप्रकार मिध्यात्वकी इन दोनों स्थितिउदीरणाओंका तीन पत्य अधिक एकसौ त्रेसठ सागर-प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। जो जीव बीचमें सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त कर कुछ कम दो छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिध्यात्वमें आकर मिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिउदीरणा करता है उसके मिध्यात्वकी अल्पतर स्थिति-उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। किसी जीवके सम्यक्त्वकी कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालके अन्तरसे उदीरणा होती है, इसलिए इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण कहा है। कोई जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कालके अन्तरसे पुनः मिध्यादृष्टि हो सकता है, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर कहा है। क्रमसे देशसंयम और सकल संयमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए आठ कषायोंकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और अल्पतर व अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि बन जानेसे तत्प्रमाण कहा है। उपशमश्रेणिमें चार संजलन, भय, जुगुप्साकी उदीरणा अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तरसे होती है, इसलिए इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सातवें नरकमें तथा उसमें उत्पन्न होनेके पूर्व और वहाँसे निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त कालतक हास्य और रतिकी उदीरणा न हो यह सम्भव है, इसलिए हास्य और रतिकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है। सहस्रार कल्पमें अरति और शोककी छह माहतक उदीरणा न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी अल्पतर स्थिति उदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल छह महीना कहा है। यह जीव अनन्त काल अर्थात् असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन कालतक नपुंसकवेदी बना रहे यह सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारादि चारों स्थितिउदीरणाओंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। यह जीव सौ सागर पृथक्त्व कालतक पुनः नपुंसकवेदी न हो यह सम्भव है, इसलिए नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। कोई जीव नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा करके अनन्त काल अर्थात् असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन कालतक नपुंसकवेदी रहा, पुनः मरणपूर्वक अन्य वेदी होकर अन्तर्मुहूर्त काल बाद मरणपूर्वक पुनः नपुंसकवेदी हो गया उसके स्त्रीवेदके समान नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तर काल बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ७२४. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य और रतिकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है।

देसूणाणि । एवमरदि-मोग० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं वारसक०-भय-दुगुंळा० । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतोमु० । एवं णवुंस० । णवरि अवत्त० णत्थि । सम्म० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०-अवत्त० सम्मामि० अप्प०-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवं सत्तमाए । एवं पठमादि जाव छट्ठि ति । णवरि सगट्ठिदी देसूणा । णवरि हस्म-रदि० अप्प०-अवत्त० अग्दि-सोग० अवत्त० जह० एगस० अंतोमु०, उक्क० अंतोमु० ।

७२५. तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अप्प० जह० एगम०, उक्क० तिणिएण पलिदोवमाणि देसूणाणि । अवत्त० ओघं । एवमणंताणु० ४ । णवरि अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० तिणिएण पलिदो० देसूणाणि । एवमपच्चक्खाण चउक्क० । णवरि अप्पद०-अवत्त० जह० एगस० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । एवमट्टकसा०-द्वण्णोक० । णवरि अप्प०-अवत्त०

इसीप्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार वारड कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेत्तीस सागर है । इसीप्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इसीप्रकार प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवीतक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । इतनी और विशेषता है कि हास्य और रतिकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा अरति और शोककी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

७२५. तिर्यञ्चोमे मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवक्तव्यका भंग आंघके समान है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । इसीप्रकार आठ कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी

जह० एगस० अंतोमु०, उक्क० अंतोमु० । एवं णवुंस० । णवरि अप्प० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अवत्त० ओघं । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवेद० ओघं ।

§ ७२६. पंचिदियतिरिक्खतिय० मिच्छ० भुज०-अवट्टि० जह० एयसमओ, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अप्प० तिग्गिखोघं । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० मगट्टिदी । एवमणंताणु०४ । णवरि अवत्त० तिग्गिखोघं । एवं वारमक०-इण्णोक० । एवगि अप्प०-अवत्त० तिग्गिखोघं । सम्म० भुज०-अप्प०-अवत्त० सम्मामि० अप्प०-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसणा । सम्म० अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । तिग्गिणवेद० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एयस०, अवत्त० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । जोण्णिणोसु पुरिस- णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि । अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ७२७. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-णवुंस० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं सोलसक०-इण्णोक० । णवरि

विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग ओघके समान है ।

§ ७२६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अल्पतर स्थिति-उदीरणाका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान जानना चाहिए । इसीप्रकार बारह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका तथा सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । तीन वेदोंकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-पृथक्त्वप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । तथा अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ७२७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व और नपुंसक-वेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना

अवत्त० जह० उक्क० अंतोमु० ।

§ ७२८. मणुसतिए मिच्छ०-अणंताणु०४-चदुसंजलण-अणोक्क० भुज०-अवट्ठि० जह० एयसमओ, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अप्प०-अवत्त० पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । अट्ठक० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एयस०, अवत्त० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिं पुव्वकोडी देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-तिण्णि वेद० पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । णवरि पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० भुज०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

§ ७२९. देवेषु मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० अट्ठारस मागरो० सादिरेयाणि । अप्प०-अवत्त० जह० एगममओ अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं मागरो० देसूणाणि । एवं बाग्मक०-भय-दुगुंछा० । णवरि अप्प०-अवत्त० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवमरदि-सोग० । णवरि अप्प०-अवत्त० जह० एयस० अंतोमु०, उक्क० छम्मासं । एवं हस्सरदि० । णवरि अप्प० जह० चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ७२८. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और छह नोकपायकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । आठ कपायकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तीन वेदोंका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है और मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद तथा नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । तथा इनमें स्त्रीवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है ।

§ ७२९. देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अवस्थित स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इसीप्रकार बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अरनि और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार

एयम०, उक्क० अंतोमु० । एवं पुरिम० । णवरि अवत्त० णत्थि । सम्म० भुज०-  
अप्प०-अवत्त० सम्मामि० अप्प०-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो०  
देसूणाणि । सम्म० अवट्ठि० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टागम मागरो० मादिरेयाणि ।  
इत्थिवे० भुज०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पणवण्णं पलिदो० देसूणाणि । अप्प०  
जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं भवणादि जाव सहस्सारं त्ति । एवरि सगट्ठिदीओ  
भाणिदव्वाओ । हस्म-रदि अरदि-मोग० अप्प०-अवत्त० जह० एगस० अंतोमु०, उक्क०  
अंतोमु० । महस्सारे हस्म-रदि-अरदि-सोग० अप्प०-अवत्त० देवोधं । एवरि भवण०-  
वाणवे०-जोदिसि०-सोहम्मीसाण० इत्थिवेद० भुज०-अवट्ठि० जह० एगम०, उक्क०  
तिण्णि पलिदो० देसूणाणि पलिदो० मादिरेयाणि-पलि० मादिरे० पणवण्णं पलिदो०  
देसूणाणि । अप्प० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । उवरि इत्थिवेदो णत्थि ।

७३०. आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ०-मम्मामि०-अणंताणु०४ अप्प०-  
अवत्त० सम्म० भुज०-अप्प० अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्ठिदी देसूणा ।  
बारसक०-द्धण्णोक० अप्प०-अवत्त० जह० उक्क० अंतोमु० । पुरिमवे० अप्प० णत्थि

हास्य और रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अल्पतर स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार पुरुष-  
वेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है।  
सम्यक्त्वकी भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा सम्यग्मिध्यात्वकी  
अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर  
कुछ कम इकतीस सागर है। सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थिति उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त  
है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। स्त्रीवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। अल्पतर  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार  
भवनवासियोंसे लेकर सहस्वार कल्पनक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी  
स्थिति कहनी चाहिए। हास्य-रति और अरति-शोककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा-  
का जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। सहस्वार  
कल्पमे हास्य-रति तथा अरति-शोककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग सामान्य  
देवोके समान है। इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर, ज्यातिपी तथा सौयर्म और  
ऐशानकल्पमें स्त्रीवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है  
और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य, साधिक एक पल्य, साधिक एक पल्य और कुछ कम  
पचवन पल्य है। अल्पतर स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
अन्तर्मुहूर्त है। आगे स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है।

७३०. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोमे मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और  
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा सम्यक्त्वकी भुजगा,  
अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर  
कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। बारह कपाय और छह नोकषायकी अल्पतर और

अंतरं । अणुहिसादि मन्वद्वा त्ति सम्म० अप्प०-अवत्त० पुरिसवे० अप्प० एत्थि  
अंतरं । बाग्मक० छण्णोक० अप्पद०-अवत्त० जह० उक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

§ ७३१. गाणार्जावेहि भंगविचयाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य ।  
ओघेण मिच्छ०-णवुंम० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० णिय० अत्थि, सिया एदे य  
अवत्तव्वगो य, सिया एदे च अवत्तव्वगा य । सम्म० अप्प० णि० अत्थि ।  
सेसपदाणि भयणिज्जाणि । सम्मामि० अप्पद०-अवत्त० भयणिज्जा । सोलसक०-  
छण्णोक० मन्वपदा णिय० अत्थि । इत्थिवे०-पुरिसवे० अप्प०-अवट्ठि० णिय० अत्थि ।  
सेसपदा० भयणिज्जा० । एवं तिरिक्खा० ।

§ ७३२. आदेसेण एरइय० मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० अप्प०-अवट्ठि०  
णिय० अत्थि । सेसपदा० भयणिज्जाणि । मम्म०-सम्मामि० ओघं । णवुंम० अप्प०-  
अवट्ठि० णिय० अत्थि, सिया एदे य भुजगारडिदिउदीरगो य, सिया एदे च  
भुज०-ट्ठिदिउदीरगा च । एवं सव्वणोरइय० ।

§ ७३३. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सोलमक०-णवणोक० अप्प०-अवट्ठि०  
णिय० अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । मम्म०-सम्मामि० ओघं । णवरि पज्ज० इत्थिवेदो

अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदकी अल्पतर  
स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वकी  
अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका तथा पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिउदीरणाका अन्तर-  
काल नहीं है । बारह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका  
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७३१. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका  
है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और  
अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित् ये जीव हैं और अवक्तव्य स्थितिका  
उदीरक एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक नाना जीव हैं ।  
सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके  
अल्पतर और अवक्तव्य पद भजनीय हैं । सोलह कषाय और छह नोकषायके सब पदोंके  
उदीरक जीव नियमसे हैं । स्त्रावेद और पुरुषवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक  
जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चामें जानना चाहिए ।

§ ७३२. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर  
और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व और  
सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । नपुंसकवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके  
उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित् ये जीव हैं और भुजगार स्थितिका उदीरक एक जीव है,  
कदाचित् ये जीव हैं और भुजगार स्थितिके उदीरक नाना जीव हैं । इसीप्रकार सब नारकियोंमें  
जानना चाहिए ।

§ ७३३. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायकी अल्पतर  
और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मि-

णत्थि । जोणिलीसु पुरिसवे०-णवुंम० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि० । पंचिदिय-  
तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-णवुंम० अप्प०-अवट्ठि० णिय० अत्थि, सिया एदे च  
भुज्ज०ट्ठिदिउदीरगो च, सिया एदे च भुज्ज०ट्ठिदिउदीरगा च । सोलमक०-छण्णोक०  
अप्प०-अवट्ठि० णिय० अत्थि । सेसपदाणि भयणिजाणि । मणुसतिए पंचि०-  
तिरिक्खतियभंगो । एवरि मणुसिली० इत्थिवे० अवत्त० अत्थि । मणुसअपज्ज०  
मव्वपयडीणं सव्वपदा० भयणिजाणि ।

§ ७३४. देवेषु मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक०-सम्म०-सम्मामि० पंचिदिय-  
तिरिक्खभंगो । इत्थिवे०-पुरिसवे० अप्प०-अवट्ठि० णिय० अत्थि, सिया एदे च  
भुज्जगारो च, सिया एदे च भुज्जगारा च । एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-  
सोहम्मिसाए० । एवं सएकुमारादि जाव सहस्मार त्ति । णवरि इत्थिवेदो णत्थि ।

§ ७३५. आणदादि एवगेवजा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-छण्णोक० अप्प०  
णिय० अत्थि, सिया एदे च अवत्तव्वगो च, सिया एदे च अवत्तव्वगा च । सम्म०  
ओघं । णवरि अवट्ठि० णत्थि । सम्मामि० ओघं । पुरिसवे० अप्प० णिय० अत्थि ।

ध्यात्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदकी उदीरणा नहीं है तथा यानिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उदीरणा नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व और नपुंसकवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित् ये जीव हैं और भुज्जगार स्थितिका उदीरक एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और भुज्जगार स्थितिके उदीरक नाना जीव है । सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । मनुष्यत्रिकमें पंचेन्द्रिय तिर्यंचत्रिकके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं ।

§ ७३७. देवोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, छह नोकषाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित् ये जीव हैं और भुज्जगार स्थितिका उदीरक एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और भुज्जगार स्थितिके उदीरक नाना जीव हैं । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिर्षा तथा सौधर्म-ऐशानकल्पके देवोंमें जानना चाहिए । इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी स्थितिउदीरणा नहीं है ।

§ ७३५. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव नियमसे हैं, कदाचित् ये जीव हैं और अवक्तव्य स्थितिका उदीरक एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक नाना जीव हैं । सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थित पद नहीं है । सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है । पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव नियमसे

अणुहिसादि सव्वट्टा त्ति वारसक०-सत्तणोक० आणदभंगो । सम्म० हस्सभंगो । एवं जाव० ।

§ ७३६. भागाभागानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-णवुंस० भुज० सव्वजी० केव० भागो ? असंखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । अवत्त० अणंतभागो । सम्मामि० अप्प० ट्टिदिउदी० असंखेज्जा भागा । सेमपदा असंखे०भागो । सोलसक०-अट्टणोक० अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । सेमपदा० असंखे०भागो । एवं तिरिक्खा० ।

§ ७३७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० अप्प०ट्टिदिउदी० संखेज्जा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । सेमपदा० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० ओघं । एवं सव्वणेरइय० ।

§ ७३८. पंचि०तिरिक्खतिय० मिच्छ०-सोलसक०-एवणोक० अप्प०ट्टिदिउदी० संखेज्जा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । सेसप० असं०भागो । सम्म०-सम्मामि० ओघं । णवरि पज्ज० इत्थिवेदो एत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे०

हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें बारह कषाय और सात नोकषायका भंग आनतकल्पके समान है । सम्यक्त्वका भंग हास्थके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७३६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सोलह कषाय और आठ नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।

§ ७३७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए ।

§ ७३८. पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है । योनिनियोंमें



अवत्त० एत्थि । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ०-सोलमक०-सत्तणोक०  
अप्पद० संखेज्जा भागा । अवट्ठि० संखे०भागो । सेमपदा० असंखे०भागो ।

§ ७३९. मणुसेसु मिच्छत्त-सोलमक०-सत्तणोक० पंचिदियतिरिक्खभंगो ।  
सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुग्गिवे० अप्प० संखेज्जा भागा । सेसपदा संखे०भागो ।  
मणुमपज्ज०-मणुसिणी० सव्वपय० अप्पद० संखेज्जा भागा । सेसपदा संखे०भागो ।

§ ७४०. देवेसु मिच्छ०-सोलमक०-अट्ठणोक० अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्ठि०  
संखे०भागो । सेमप० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० ओधं । एवं भवण०-त्राणवें०-  
जोदिसि०-सोहम्मीसाणे त्ति । एवं सणक्कुमारादि सहस्सार त्ति । णवरि इत्थिवेदो एत्थि ।

§ ७४१. आणदादि एवगेवज्जा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-उण्णोक०  
अप्प० असंखेज्जा भागा । सेमप० असंखे०भागो । पुग्गिवे० एत्थि भागाभागो ।  
अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति सम्म०-वारसक०-उण्णोक० अप्प० असंखे०भागो । अवत्त०  
असंखे०भागो । पुरिसवे० एत्थि भागाभागो । एवरि सव्वट्ठे संखेज्जं कादव्वं ।  
एवं जाव० ।

पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है। इसमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थिति उदीरणा नहीं है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं।

§ ७३९. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है। शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ७४०. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी देवों तथा सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें जानना चाहिए। इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है।

§ ७४१. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। पुरुषवेदकी अपेक्षा भागाभाग नहीं है। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा

§ ७४२. परिमाणानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-एवुंम० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केत्तिया ? अणंता । अवत्त० केत्ति० ? असंखेज्जा । मोलमक०-उण्णो० मव्वपदा के० ? अणंता । मम्म०-मम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिस० सव्वपदा के० ? असंखेज्जा । एवं तिरिक्खा० ।

७४३. सव्वणोर०-मव्वपंचि०-तिरिक्ख-मणुमअपज्ज०-मव्वदेवा त्ति सव्वपय० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । णवरि अणुद्दिमादि अवराजिदा त्ति मम्म० अवत्त० केत्ति० ? संखेज्जा । मव्वट्ठे सव्वपयडीणं मव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा ।

§ ७४४. मणुसेसु मिच्छ०-सोलमक०-सत्तणोक० मव्वपदा के० ? असंखेज्जा । णवरि मिच्छ०-एवुंम० अवत्त० के० ? संखेज्जा । मम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वपदा के० ? संखेज्जा । मणुमपज्ज०-मणुसिणी० मव्वपयडीणं सव्वपदा के० ? संखेज्जा । एवं जाव० ।

§ ७४५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-मोलसक०-सत्तणोक० सव्वपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । णवरि मिच्छ०-एवुंम०

तक जानना चाहिए ।

७४२. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघके मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त है । अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सोलह कषाय और छह नोकषायके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, रीतिवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार नियर्योमें जान लेना चाहिए ।

७४३. सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि अनुदिशासे लेकर अपराजिततकके देवोंमें अवक्तव्य पदके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सर्वार्थ-सिद्धिमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

§ ७४४. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ७४५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदोंके उदीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वलोक क्षेत्र है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके

अवत्त० सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वपदा लोगस्स असंखे०भागे । एवं तिरिक्खा० । सेसगदीसु सव्वपयडीणं सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं जाव० ।

§ ७४६. पोसणाणुं दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सव्वपदेहिं केवडियं खेत्तं पोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० लोग० असंखे०भागो, अट्ट-बारहचोद्दस भागा वा देखणा । णवुंस० अवत्त० लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० सव्वपदा लोग० असंखे०-भागो, अट्टचोद्दस० देखणा । इत्थिवे०-पुरिमवे० सव्वप० लोग० असंखे०भागो, अट्टचोद्दस० दे० सव्वलोगो वा । णवरि अवत्त० लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा ।

उदीरक जीवोंका तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यचोंमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७४६. स्पर्शानानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदोंके उदीरकोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकक्षेत्रका स्पर्शन किया है । मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

**विशेषार्थ**—जो देव विहारवत्स्वस्थानके समय सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वको प्राप्त होते हैं उनके मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है । तथा नीचे कुछ कम पाँच राजु और ऊपर कुछ कम सात राजु इसप्रकार मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम बारह भागप्रमाण स्पर्शन भी बन जाता है । यहाँ मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जो स्पर्शन कहा है उसमेंसे स्पष्टीकरण योग्य स्पर्शन यह खुलासा है । वेदक-सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंके स्पर्शनको ध्यानमें रखकर यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सब पदोंके उदीरकोंका स्पर्शन कहा है । उससे अन्य कोई विशेषता न होनेसे यहाँ अलगसे खुलासा नहीं किया है । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके स्पर्शनको ध्यानमें रखकर यहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरकोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है । मात्र आगमसे इन जीवोंके लोकका असंख्यात बहुभाग स्पर्शन प्रतरसमुद्घातकी अपेक्षा कहा गया है, किन्तु स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी उदीरणा करनेवाले जीवोंके प्रतरसमुद्घात नहीं होता,

§ ७४७. आदेशेण शेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० सव्वपदा लोग० असंखे०भागो, छचोइस० । णवरि मिच्छ० अवत्त० लोग० असंखे०भागो, पंच-चोइस० । सम्म०-सम्मामि० खेत्तं । एवं विदियादि सत्तमा त्ति । एवरि सगपोसणं । सत्तमाए मिच्छ० अवत्त० खेत्तं । पढमाए खेत्तमंगो ।

§ ७४८. तिरिक्खेसु मिच्छ० ओघं । एवरि अवत्त० लोग० असंखे०भागो, सत्तचोइस० । सम्म० अप्प० छचोइम० । सेसपदानं खेत्तं । सम्मामि० खेत्तं । सोलसक०-सत्तणोक० ओघं । इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वपदा लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

अतः उक्त स्पर्शनका उल्लेख यहा नहीं किया गया है। इतना विशेष यहाँ और समझना चाहिए कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरणाके समय त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण स्पर्शन नहीं घटित होता, इसलिए यहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण बतलाया गया है। शेष कथन सुगम है।

§ ७४७. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदोंके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिध्यत्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पाँच भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। प्रथम पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

**विशेषार्थ**—मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा हाती तो सातां पृथिवियोंमें है, किन्तु सातवें नरकमें मारणान्तिक समुद्घातके समय और वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा सम्भव नहीं है, इसलिए मिध्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन सामान्यसे नारकियोंमें त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम पाँच भागप्रमाण और सातवें नरकमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ७४८. तिर्यञ्चोंमें मिध्यात्वका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भंग क्षेत्रके समान है। सम्यग्मिध्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। सोलह कषाय और सात नोकषायका भंग ओघके समान है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

**विशेषार्थ**—जो तिर्यञ्च या मनुष्य मरणके बाद प्रथम समयमें मिध्यादृष्टि होकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होते हैं वे ऊपर त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण

§ ७४९. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सोलसक०-एवणोक० सव्वपदा लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । णवरि मिच्छ० अवत्त० सत्तचोदस० । एवुंस० अवत्त० इत्थिवे०-पुरिसवे० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० खेत्तं । सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोघं । एवरि पज्जत्त० इत्थिवेदो एत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-एवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सव्वपयडीणं मव्वपदा लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । मणुसतिए मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० पंचि०तिरिक्खतियभंगो । सम्म०-सम्मामि० खेत्तं । णवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । मणुसिणी० पुरिमवे०-णवुम० एत्थि । इत्थिवे० अवत्त० खेत्तं ।

§ ७५०. देवेषु मव्वपयडीणं सव्वपदा लोग० असंखे०भागो अट्ठ-णवचोदस० । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० भुज०-अवट्ठि० सम्म०-सम्मामि० सव्वपदा लोग० असंखे०-भागो अट्ठचोदस० । एवं सोहम्मीसाणे । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि० । णवरि  
 क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७४९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायके सब पदोंके उद्दीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंने त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य तिर्यचोके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है तथा यानिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषाय का भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका भंग क्षेत्रके समान है ।

**विशेषार्थ**—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउद्दीरणा बन जाती है, इसलिए मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७५०. देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और नौ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंने तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और पेशान-

सणपोसणं । सणकुमारादि जाव सहस्सार ति सव्वपयडीणं सव्वपदा लोग० असंखे०-  
भागो अट्टुचोइम० । आणदादि अचुदा ति सव्वपयडीणं सव्वपदा लोग०  
असंखे०भागो, इचोइस० । उवरि खेत्तं । एवं जाव० ।

§ ७५१. एणाणाजीवेहिं कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण  
मिच्छ०-मोलमक०-मत्तणोको० सव्वपदा सव्वद्धा । णवरि मिच्छ०-णवुंसय० अवत्त०  
जह० एयस०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो । इत्थिवेद-पुरिसवेद० अप्प०-  
अवट्टि० मव्वद्धा । सेसपदाणं जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।  
सम्म० अप्प० मव्वद्धा । सेसपदा जह० एगम० उक्क० आवलि० असंखे० सम्मामि०  
अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० अमंखे०भागो । अवत्त० मिच्छत्तभंगो ।  
एवं तिरिक्खा० ।

कल्पमें जानना चाहिए । इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए ।  
इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार  
कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके  
चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतकल्पसे लेकर  
अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवालोंने लोकके असंख्यातवें भाग और  
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर क्षेत्रके  
समान स्पर्शन है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय स्त्रीवेद और  
पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित उदीरणा सम्भव नहीं है और न ही इनके सम्यक्त्व और  
सम्यग्मिथ्यात्वकी उदय-उदीरणा सम्भव है, इसलिए स्त्रीवेद और पुरुषवेदके उक्त दो पदवालोंका  
तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और  
त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७५१. नाना जीवोंका आलम्बन लेकर कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—  
ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायके सब पदवालोंका  
काल सर्वदा है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके  
उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।  
स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । शेष  
पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-  
प्रमाण है । सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । शेष पदके उदीरकोंका  
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।  
सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल  
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग मिथ्यात्वके समान है ।  
इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय  
प्राप्त होता है उन्हींका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । सम्यग्मिथ्यात्व

§ ७५२. आदेशेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक्क० अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० ओघं । एवं सव्वणेरइय० ।

§ ७५३. पंचिंदियतिरिक्खतिए सव्वपयडी० अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । णवरि सम्म०-सम्मामि० ओघं । पंचिंतिरिक्ख०अपज० सव्वपयडीणं अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । सेसपदा जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । मणुसेसु मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक्क० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि मिच्छ०-णवुंस० अवत्त० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । इत्थिवे०-पुरिसवे० अप्प०-अवट्ठि० सम्म० अप्प० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एयम०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्मामि० अप्प० जह० उक्क० अंतोष्ठु० । अवत्त० सम्मत्तभंगो ।

गुणका एक जीवकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ७५२. आदेशसे नारकियोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए।

§ ७५३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भंग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्योंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका तथा सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग सम्यक्त्वके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें मिध्यात्व, नपुंसकवेद, और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा मनुष्य पर्याप्त तथा मिध्यात्व और स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा मनुष्यनी जीव ही करते हैं। यतः इनकी संख्या संख्यात है अतः मनुष्योंमें उक्त प्रकृतियोंकी अवक्तव्य स्थितिकी उदीरणा करनेवालोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ७५४. मणुसपज्ज०-मणुसिणी० सव्वपयडो० अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । सेसपदा जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । णवरि सम्म०-सम्मामि० मणुसभंगो । अणुसअपज्ज० सव्वपयडो० अप्प०-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०-भागो । सेसपदा० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।

§ ७५५. देवेषु सव्वपद० अप्प०-अवट्ठि० सव्वद्धा । सेमपदा० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । णवरि सम्म०-सम्मामि० ओघं । एवं भवणादि जाव सहस्सार ति । आणदादि णवगेवज्जा ति मिच्छ०-सम्म०-सोलसक०-इण्णोको० अप्प० सवाद्धा । सेमपदा० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । पुरिसवे० अप्प० सव्वद्धा । सम्मामि० ओघं । अणुहिमादि अवराजिदा ति सम्म० अप्प० सव्वद्धा । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । बारसक०-इण्णोको० अप्प० सव्वद्धा । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । पुरिसवे० अप्प० सव्वद्धा । एवं सव्वट्ठे । णवरि अवत्त० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा

§ ७५४. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग मनुष्योंके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ७५५. देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सहस्सार वल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। आनत कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। अनुदिशसे लेकर अपराजिततकके देवोंमें सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। बारह कपाय और छह नोकपायकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरक जीवोंका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसीप्रकार



ममया । एवं जाव० ।

७५६. अंतराणु० द्विविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० मव्वपदाणं णत्थि अंतरं । णवरि मिच्छ० अवत्त० जह० एयस०, उक्क० मत्त रादिदियाणि । णवुंस० अवत्त० जह० एयम०, उक्क० चउवीस-मुहूर्त्तं । मम्म० भुज० जह० एयस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । अप्प० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० मत्त रादिदियाणि । अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० अंगुलस्य असंखे०भागो । सम्मामि० अप्प०-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० अमंखे०भागो । इत्थिवेद-पुरिमवेद० भुज० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । अवत्त० णवुंस०भंगो । एवं तिगिक्खा० ।

अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

७५६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नाकपायके सब पदोंके उद्दीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वका अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात है । नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त्त है । सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात है । अल्पतर स्थितिके उद्दीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात है । अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यगिमिथ्यात्वकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । ऋग्वेद और पुरुषवेदकी भुजगार स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त्त है । अल्पतर और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका भंग नपुंसकवेदके समान है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आयके अनुसार व्यय होता है इस नियमके अनुसार उपशमसम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंके उत्कृष्ट अन्तरकालके समान यहाँ मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर मान दिन-रात कहा है । नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव सामान्यसे यदि अधिकसे अधिक काल तक न हो तो चौबीस मुहूर्त्त तक नहीं होते । इसीसे यहाँ इसकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस मुहूर्त्त कहा है । ऋग्वेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका अन्तरकाल इतना ही है, इसलिए उसे नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की है । जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वके सत्कर्मसे अधिक मिथ्यात्वकी स्थिति बाँधकर स्थितिघात किये बिना वेदकसम्यग्दृष्टि होते हैं उनके सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिउद्दीरणा बनती है । यतः यह उत्कृष्टरूपसे साधिक चौबीस दिन-रातके अन्तरसे प्राप्त होती है, इसजिसे सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिके उद्दीरकोंका उत्कृष्ट अन्तर-

७५७. आदेसेण एरइय० सोलमक०-ऋणो० भुज०-अवत्त० जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । सेमं णत्थि अंतरं । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० ओघं । एवं एवुंम० । एवरि अवत्त० णत्थि । मम्म० मम्मामि० ओघं । एवं सव्वणेरइय० ।

७५८. पचिंदियतिरिक्खतिय० मिच्छ० - मम्म० - मम्मामि० - सोलसक०- ऋणो० एण्यभंगो । तिण्णवेद० भुज० जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० ओघं । एवं सेमपदाणं एत्थि अंतरं । णवरि पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । जोण्णिसु पुग्गिमेव० एवुंम० एत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि । पचिंदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलमक०-मत्तणो० णार्यभंगो । एवरि मिच्छ० अवत्त० णत्थि । मणुमतिए पचिंतिरिक्खतियभंगो । एवरि मणुसिर्णा० इत्थिवे० अवत्त० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । मणुमअपज्ज० मव्वपग० मव्वपदा० जह० एगस०, उक्क० पत्तिदो० असंखे० भागो ।

काल साधिक चौबीस दिन-रात कहा है । सम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन-रात उपशमसम्यक्त्वके उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमे रखकर कहा है । शेष कथन मुगम है । आगे गतिमार्गणाके उत्तर भेदोमें यह अन्तरकाल इस अन्तरकालको ध्यानमे रखकर यथायोग्य जान लेना चाहिए ।

७५७. आदेशसे नारकियोमे सोलह कषाय और छह नोकरुपायकी भुजगार और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल ओघके समान है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ इसका अवक्तव्य पद नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सब नारकियोमें जानना चाहिए ।

७५८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकरुपायका भंग नारकियोके समान है । तीन वेदोंकी भुजगार स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य पदका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार शेष पदोंके उदीरकोंका अन्तर नहीं है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है तथा योनिनियोमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकरुपायका भंग नारकियोके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्व है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ७५९. देवेषु मिच्छ०-सोलसक०-अट्टणोक०-मम्म०-सम्मामि० पंचिदिय-तिरिक्त्वभंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिमवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिसि०-सोहम्मीसाणे त्ति । एवं मणकुमागादि सट्स्साग् त्ति । णवग्गि इत्थिवेदो णत्थि ।

§ ७६०. आणदादि जाव णवगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-छण्णोक० अप्प०-अवत्त० णग्ग्यभंगो । पुरिसवेद० अप्प० णत्थि अंतरं । सम्म० ओघं । एवरि अवट्ठि० णत्थि । अणुहिमादि सव्वट्ठा त्ति सम्म० अप्प० णत्थि अंतरं । अवत्त० जह० एयस०, उक्क० वामपुधत्तं पत्तिदो० संखे०भागो । वारमक०-छण्णोक०-पुरिसवेद आणदभंगो । एवं जाव० ।

§ ७६१. भावाणु० मव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ७६२. अप्पावहुआणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-णवुंस० मव्वत्थोवा अवत्त० । भुज०ट्ठिदिउदी० अणंतगुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । अप्प० मंखे०गुणा । मम्म० मव्वत्थोवा अवट्ठि०उदी० । भुज० असंखे०गुणा । अवत्त० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । सम्मामि० मव्वत्थो०

७५९. देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आठ नोकषाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थिति उदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म और ऐशानकल्पके देवोंमें जानना चाहिए। इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है।

७६०. आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रैव्यकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायकी अल्पतर और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग नारकियोंके समान है। पुरुषवेदकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इसकी अवस्थित स्थिति उदीरणा नहीं है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थासिद्धतकके देवोंमें सम्यक्त्वकी अल्पतर स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। इसकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे वर्षपृथक्त्व और पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण है। बारह कषाय, छह नोकषाय और पुरुषवेदका भंग आनतकल्पके समान है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

§ ७६१. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव है।

§ ७६२. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र हैं। इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव अन्तगुणो हैं। इनसे अर्वास्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणो हैं। इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणो हैं। सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थितिके उदीरक जाव सबसे स्तोत्र हैं। इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणो हैं। इनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणो हैं। इनसे अल्पतर

अवत्त०द्विदुदी० । अप्प०द्विदुदी० असंखे०गुणा । सोलसक०-द्वणो०क०  
सव्वत्थोवा भुज०द्विदुदी० । अवत्त०द्विदुदी० संखे०गुणा । अवद्वि०द्विदुदी०  
असंखे०गुणा । अप्प०द्विदुदी० संखे०गुणा । इत्थिवे०-पुरिसवे० मव्वत्थोवा अवत्त० ।  
भुज०द्विदुदी० संखे०गुणा । अवद्वि०द्विदुदी० असंखे०गुणा । अप्प०द्विदुदी०  
संखे०गुणा । एवं तिरिक्खा० ।

§ ७६३. आदेसेण णेरइय० सोलसक०-द्वणो०क०-सम्म०-सम्मामि० ओषं० ।  
मिच्छ० सव्वत्थोवा अवत्त०द्विदुदी० । भुज० असंखे०गुणा । अवद्वि० असंखे०गुणा ।  
अप्प०द्विदुदी० संखे०गुणा । एवं णवुंस० । एवरि अवत्त० एत्थि । एवं  
सव्वणेरइय० ।

§ ७६४. पंचिदियतिरिक्खतिए ओषं । णवरि मिच्छ०-णवुंस० सव्वत्थोवा  
अवत्त०द्विदुदी० । भुज०द्विदुदी० असंखे०गुणा । अवद्वि०उदी० असंखे०गुणा ।  
अप्प०द्विदुदी० संखे०गुणा । एवरि पज्जत्तएमु इत्थिवेदो एत्थि । णवुंसय०  
पुरिसभंगो । जोरिणीसु पुग्गम०-णवुंस० एत्थि । इत्थिवे० अवत्त० एत्थि ।

§ ७६५. पंचि०तिग्गि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-णवुंसय० सव्वत्थोवा

स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव  
सबसे स्तोक हैं । इनमे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सोलह कपाय और  
छह नोकपायकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे अवक्तव्य स्थितिके  
उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं ।  
इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य  
स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । इनमे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं ।  
इनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक  
जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए ।

§ ७६३. आदेशसे नारकियोमे सोलह कपाय, छह नोकपाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मि-  
थ्यात्वका भंग ओषके समान है । मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक  
हैं । इनसे भुजगार स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक  
जीव असंख्यातगुणे हैं । इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार  
नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ इसकी अवक्तव्य स्थितिके  
उदीरक जीव नहीं हैं । इसीप्रकार सब नारकियोमे जानना चाहिए ।

§ ७६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे ओषके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि  
मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगार  
स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे  
हैं । उनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे  
स्त्रीवेद नहीं है । नपुंसकवेदका भंग पुरुषवेदके समान है । यानिनी तिर्यञ्चोमे पुरुषवेद और  
नपुंसकवेद नहीं है । इनमे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है ।

§ ७६५. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व और नपुंसक-

भुज० । अवट्टि० अमंखे०गुणा । अप्पद० संखे०गुणा । मोलमक०-छण्णोक० ओघं ।  
 ७६६. मणुसेसु मिच्छ०-मोलमक०सत्तणोक० पंचिदियतिरिक्खभंगो । सम्म०  
 सव्वत्थोवा अवट्टि० । भुज० मंखे०गुणा । अवत्त० मंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा ।  
 मम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अप्प० संखे०गुणा । इत्थिवे०-पुरिमवे० मव्वत्थोवा  
 अवत्त० । भुज० संखे०गुणा । अवट्टि० मंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं  
 मणुसपज्ज० । णवरि संखेज्जगुणं कादच्चं । इत्थिवेदो णत्थि । एवुम० पुग्गिमभंगो ।  
 मणुमिणी० एवं चैव एवरि पुग्गिसवे०-णवुंम० णत्थि । इत्थिवेद० मणुमोघं ।

७६७. देवेसु मिच्छ०-मोलसक०-छण्णोक०-म्मम०-म्मामि० एारयभंगो ।  
 इत्थिवेद-पुरिमवेद० मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । एवं भवणादि जाव  
 सोहम्मिमाणे त्ति । एवं मणक्कुमागदि जाव महस्मार त्ति । एवरि इत्थिवेदो णत्थि ।  
 आणदादि णवगेवज्जा त्ति मिच्छ०-म्मामि०-सोलसक०-छण्णोक० मव्वत्थोवा  
 अवत्त० । अप्पद० अमंखे०गुणा । मम्म० मव्वत्थोवा भुज० । अवत्त० अमंखे०गुणा ।

वेदकी भुजगार स्थितिके उदीरक जाव सबसे स्तोक है । उनस अवस्थित स्थितिक उदारक जीव  
 असंख्यातगुणे है । इनस अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । सोलह कपाय और  
 छह नाकपायका भंग ओघके समान है ।

( ७६६. मनुष्योमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और मान नाकपायका भंग पञ्चेन्द्रिय  
 तिर्यञ्चोके समान हैं । सम्यक्त्वकी अवस्थित स्थितिक उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे  
 भुजगार स्थितिक उदीरक जाव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिक उदीरक जाव  
 संख्यातगुणे हैं । उनस अल्पतर स्थितिक उदारक जाव संख्यातगुणे हैं । सम्यगिमथ्यात्वकी  
 अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनस अल्पतर स्थितिक उदीरक जाव  
 संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका अवक्तव्य स्थितिक उदारक जाव सबसे स्तोक हैं ।  
 उनस भुजगार स्थितिक उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनस अवस्थित स्थितिके उदीरक जाव  
 संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर स्थितिके उदारक जाव संख्यातगुणे हैं । इसप्रकार मनुष्य  
 पयाप्तकाम जानना चाहिए । इतनी विशयता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । स्त्रीवेद  
 नहीं है । नपुंसकवेदका भंग पुरुषवेदके समान है । मनुष्यनियाम इतीप्रकार जानना चाहिए ।  
 इतनी विशयता है कि उनस पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । स्त्रीवेदका भंग सामान्य  
 मनुष्योके समान है ।

७६७ देवोमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, छह नाकपाय, सम्यक्त्व और सम्यगिमथ्यात्वका  
 भंग नारकयोके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग मिथ्यात्वके समान है । इतनी  
 विशयता है कि इनका अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवानियोसे लकर  
 सोधर्म और ऐशान कल्पनकके देवोमे जानना चाहिए । इसीप्रकार मनकुमार कल्पसे लेकर  
 सहस्रार कल्पनकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशयता है कि इनसे स्त्रीवेद नहीं है ।  
 आन्त कल्पसे लेकर नो प्रवेयकतकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यगिमथ्यात्व, सोलह कपाय और  
 छह नाकपायका अवक्तव्य स्थितिक उदारक जीव सबसे स्तोक है । इनसे अल्पतर स्थितिके  
 उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्वकी भुजगार स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं ।

अप्प० असंखे०गुणा । पुरिसवेद० एत्थि अप्पावहुअं । अणुहिमादि सव्वट्ठा त्ति मम्म०-  
वारसक०-अणुणो० मव्वत्थोवा अवत्त० । अप्प० प्रसंखे०गुणा । पुरिस० एत्थि  
अप्पावहुअं । णवरि सव्वट्ठे संखेज्जगुणं कादव्वं । एवं जाव० ।

भुजगारद्विदिउदीरणा ममत्ता ।

§ ७६८. पदणिकखेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वागणि—ममुक्कित्तणा  
मामित्तमप्पावहुअं च । समुक्कित्तणाणु० दुविहं—जहण्णुक्कस्मभेएण । उक्कस्से पयदं ।  
दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सोलमक०-एवणोक०  
अत्थि उक्क० वड्डी० हाणी अवट्ठाणं च । मम्मामि० अत्थि उक्क० हाणी । आदेसेण  
सव्वणोइय०-मव्वतिगिक्ख-मव्वमणुम्म-मव्वदेवा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति  
तासिमोघं । णवरि आणदादि एवगेवज्जा त्ति मम्म० अत्थि उक्क० वड्डी हाणी च ।  
अवट्ठाणं एत्थि । सेमपयडीगमत्थि उक्क० हाणी । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मम्म०-  
वारसक०-मत्तणोक० अत्थि उक्क० हाणी । एवं जाव० ।

§ ७६९. एवं जहण्णयं पि एदेव्वं ।

§ ७७०. सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—  
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-मोलमक० उक्क वड्ढिद्विदिउदी० कस्स ?

इनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है । इनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक  
जीव असंख्यातगुणे है । पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि  
तकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कपाय और छह नाकपायकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव  
सबसे श्रेष्ठ हैं । उनसे अल्पतर स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है । पुरुषवेदकी अपेक्षा  
अल्पबहुत्व नहीं है । इतनी विशंपता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यानगुणा करना चाहिए ।  
इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भुजगार स्थितिउदीरणा समाप्त हुई ।

§ ७६८. पदनिक्षेपमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।  
समुत्कीर्तनानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो  
प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कपाय और नौ  
नोकपायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि है । आदेशसे  
सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देव जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा करते हैं उनका  
भंग ओघके समान है । इतनी विशंपता है कि अनातकल्पसे लेकर नौ भ्रैवेयकनकके देवोंमें  
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है । अवस्थान नहीं है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि है ।  
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कपाय और सात नोकपायकी  
उत्कृष्ट हानि है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७६९. इसीप्रकार जघन्यका भी कथन करना चाहिए ।

§ ७७०. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश

अण्णद० जो तप्पाओग्ग-जहण्णट्टिदिमुदीरेमाणो उक्कस्मट्टिदिं पवंधो तस्स आवलिया-दीदस्म तस्स उक्क० वड्ढिउदी० । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरस्म जो उक्कस्मट्टिदिमुदीरेमाणो उक्कस्मट्टिदिखंडयं हणदि तस्स उक्क० हाणी । एवं णवणोक्क० । एवग्गि उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णद० जो तप्पाओग्गजहण्ण-ट्टिदिमुदीरेमाणो उक्कस्मट्टिदिं पडिच्चिदो तस्म आवलियादीदस्म उक्क० वड्ढी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । सम्म० उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णद० मिच्चत्तस्म उक्कस्म-ट्टिदिं बंधिऊण अंनोमुहुत्तेण ट्टिदिघादमक्कादूण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमय-वेदगमम्माइट्टिस्म उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० जो उक्कस्मट्टिदिमुदीरे-माणो उक्क० ट्टिदिखंडयं हणदि तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स ? अण्णद० जो पुव्वुप्पण्णादो सम्मत्तादो मिच्चत्तस्म मययुत्तरट्टिदिं बंधिऊण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयवेदगमम्माइट्टिस्म उक्क० अवट्ठाणं । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० जो उक्कस्मट्टिदिमुदीरेमाणो उक्क० ट्टिदिखंडयं हणदि तस्स उक्क० हाणी । सव्वणोरइय०-तिरिक्ख-पंचिदिय-तिरिक्खतिय-पणुमतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति जाओ पयडीओ उदी रज्जंति तासिमोघं ।

दो प्रकारका है—आय और आदेश । आयसे मिथ्यात्व और सालह कपायकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, एक आवलिके बाद अन्यतर उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर उस जीवके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार नौ नोकषायोकी अपेक्षा जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि इनकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिका नौ नोकषायरूप संक्रम करता है अन्यतर उसके एक आवलिके बाद उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट स्थिति बाँधकर स्थितिघात किये बिना अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ अन्यतर द्वितीय समयवर्ती उस वेदकसम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है । उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो पूर्वमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे ( पूर्वमें उत्पन्न हुई सम्यक्त्वकी स्थितिसे ) मिथ्यात्वकी एक समय अधिक स्थितिका बन्धकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ दूसरे समयमें स्थित हुए अन्यतर उस वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके उत्कृष्ट अवस्थान होता है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है । सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव तथा भववासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देव जि १ प्रकृतियोंको उदीरणा

§ ७७१. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उक्क० वड्डी कस्स ? अणणद० जो तप्पाओग्गजहणणट्टिदिमुदीरेमाणो तप्पाओग्गउक्क०-ट्टिदिमुदीरेदि तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अणणदरस्स मणुस्स-मणुस्मिणीए वा पंचिदियतिरिक्खजोणिणीयस्स वा उक्कस्सट्टिदिं घादयमाणो अपज्जत्तएसु उववएणो तस्स उक्क०ट्टिदिखंडगे हदे तस्स उक्क० हाणी ।

§ ७७२. आणदादि एवगेवजा त्ति मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० उक्क० हाणी कस्स ? अणणद० तप्पाओग्गउक्क०ट्टिदिमुदीरेमाणो पढमसम्मत्ताहिमुहेण पढमे ट्टिदिखंडए हदे तस्स उक्क० हाणी । मम्म० उक्क० वड्डी० कस्म ? अणणद० जो वेदगसम्मत्ताओग्गजहणणट्टिदिसंतकम्मि० सम्मत्तं पडिवण्णो तस्म विदियसमय-वेदगसम्माइट्टिस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्म ? अणणद० जो तप्पाओग्गउक्क०-ट्टिदिसंतकम्मि० अणंताणुवंधिं विसंजो जयस्स पढमे ट्टिदिखंडए हदे तस्स उक्क० हाणी । मम्मामि० उक्क० हाणी कस्म ? अणणद० अधट्टिदिं गालेमाणगस्स तस्स उक्क० हाणी ।

करते हैं उनमें उनका भंग ओघके समान है ।

§ ७७१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करता है अन्यतर उसके उत्कृष्ट स्थितिउदीरणा होती है । उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? जो मनुष्य या मनुष्यिनी या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च-योनि जीव उत्कृष्ट स्थितिका घात करता हुआ अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ अन्यतर उस जीवके उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका घात करनेपर उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है ।

§ ७७२. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिकी उदीरणा करनेवाला जो जीव प्रथम सम्यक्त्वके अभिमुख हांकर प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करता है अन्यतर उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? वेदकसम्यक्त्वके प्रायोग्य सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिसत्कर्मवाला जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ दूसरे समयमें स्थित अन्यतर उस वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके उत्कृष्ट वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है । उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मवाले जिस जीवने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए प्रथम स्थितिकाण्डकका घात किया है उसके उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अधःस्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके उसकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउदीरणा होती है ।



§ ७७३. अणुद्दिमादि मव्वट्टा त्ति सम्म०-वारसक०-सत्तणोक० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० अण्णताणुबंधिं विसंजोजयस्म पढमे द्विदिखंडए .हदे तस्स उक्क० हाणी । एवं जाव० ।

§ ७७४. जहण्णए पयदं । दृविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो समयूणद्विदि-मुदीरेमाणो उक्कस्सद्विदिमुदीरेदि तस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स ? अण्णद० जो उक्क०द्विदिमुदीरेमाणो समऊणद्विदिमुदीरेदि तस्स जह० हाणी । एगदरत्थावट्टाणं । सम्म० जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो पुव्वुप्पण्णादो सम्मत्तादो मिच्छत्तस्स दुसमयुत्तरं द्विदिं बंधिऊए सम्मत्तं पड्विण्णो तस्स विदियसमयवेदगसम्माइद्विस्स जह० वड्डी । जह० अवट्टाणमुक्कस्सभंगो । जह० हाणी कस्स ? अण्णद० अधद्विदिं गालेमाणयस्स तस्स जह० हाणी । सम्मामि० जह० हाणी कस्स ? अण्ण० अधद्विदिं गालेमाणगस्स ।

§ ७७५. आदेसेण सव्वणोरइय०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्स-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति तासिमोघं । आणदादि एवगेवज्जा त्ति

§ ७७३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवों सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवालेके प्रथम स्थितिकाण्डकका घात करनेपर उनकी उत्कृष्ट हानि स्थितिउद्दीरणा होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७७४. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायकी जघन्य वृद्धि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? जो एक समय कम स्थितिकी उद्दीरणा करनेवाला जीव उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा करता है अन्यतर उसके उन प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि स्थितिउद्दीरणा होती है । जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? जो उत्कृष्ट स्थितिकी उद्दीरणा करनेवाला जीव एक समय कम स्थितिकी उद्दीरणा करता है अन्यतर उसके उन प्रकृतियोंकी जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा होती है । तथा किसी एक स्थानपर जघन्य अवस्थान होता है । सम्यक्त्वकी जघन्य वृद्धि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? जो पूर्वमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वकी स्थितिसे मिथ्यात्वकी दो समय अधिक स्थितिका बन्ध कर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, दूसरे समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि अन्यतर उस सम्यग्दृष्टिके उसकी जघन्य वृद्धि स्थितिउद्दीरणा होती है । जघन्य अवस्थानका भंग उत्कृष्टके समान है । जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? अधःस्थितिकी गलानेवाले अन्यतर उस जीवके उसकी जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा किसके होती है ? अधःस्थितिकी गलानेवाले अन्यतर जीवके उसकी जघन्य हानि स्थितिउद्दीरणा होती है ।

§ ७७५. आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य, देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देव जिन प्रकृतियोंकी उद्दीरणा करते हैं उनका भंग ओघके समान है ।

सम्म० जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो सम्माइड्डी मिच्छत्तं गंतूण एगमुव्वेल्लणकंदय-  
मुव्वेल्लेऊण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स बिदियसमयवेदयसम्माइड्ढिस्स जह० वड्डी ।  
जह० हाणी कस्स ? अण्णद० अधट्ठिदिं गालेमाणगस्स तस्स जह० हाणी । मिच्छ०-  
सम्मामि०-सोलसक०-सत्तणोक० जह० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स अधट्ठिदिं गाले-  
माणगस्स । अणुद्दिमादि सव्वट्ठा त्ति मम्म०-वारसक०-सत्तणोक० जह० हाणी कस्स ?  
अण्णद० अधट्ठिदिं गालेमाणयस्स तस्स जह० हाणी । एवं जाव० ।

§ ७७६. अप्पावहुअं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—  
ओधेण आदेसेण य । ओधेण मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० सव्वत्थोवा उक्क० हाणी ।  
वड्डी अवट्ठाणं च विसेमाहियं । सम्म० सव्वत्थोवमुक्कस्समवट्ठाणं । उक्क० हाणी  
असंखे०गुणा । उक्क० वड्डी विसेमा० । सम्मामि० णत्थि अप्पावहुअं ।

§ ७७७. आदेसेण सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवा  
भवणादि जाव सहस्सार त्ति जाओ पयडीओ उदीरिजंति तासिमोघं । पंचिदिय-  
तिरिक्खअपज्ज०-मणुमअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-मत्तणोक० मव्वत्थोवा उक्क० वड्डी  
अवट्ठाणं च । उक्क० हाणी संखे०गुणा । आणदादि एवगेवज्जा त्ति एत्थि अप्पावहुअं ।

आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें सम्यक्त्वकी जघन्य वृद्धि स्थितिउदीरणा किसके  
हाती है ? जो सम्यग्दृष्टि मिथ्यात्वको प्राप्त होकर एक उद्वेलना काण्डककी उद्वेलना कर  
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, दूसरे समयमें स्थित अन्यतर उस वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके उसकी  
जघन्य वृद्धि स्थितिउदीरणा होती है । जघन्य हानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अधः-  
स्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके उसकी जघन्य हानि स्थितिउदीरणा होती है । मिथ्यात्व,  
सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी जघन्य हानि स्थितिउदीरणा किसके होती  
है ? अधःस्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके उनकी जघन्य हानि स्थितिउदीरणा होती है ।  
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी  
जघन्य हानि स्थितिउदीरणा किसके हाती है ? अधःस्थितिको गलानेवाले अन्यतर जीवके  
उनकी जघन्य हानि स्थितिउदीरणा होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७७६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है ।  
निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । आघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ  
नोकषायकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक  
है । सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी  
है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि विशेष अधिक है । सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है ।

§ ७७७. आदेशसे सब नारकी, तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और  
भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका  
भंग ओघके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व,  
सोलह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे  
उत्कृष्ट हानि संख्यातगुणी है । आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं

णवरि सम्म० मव्वत्थोवा उक्क० हाणी । वड्डी संखे०गुणा । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव० ।

§ ७७८. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-एवणोक्क-सम्म० जह० वड्डी हाणी अवट्ठाणाणि मरिसाणि । सम्मामि० णत्थि अप्पावहुअं ।

§ ७७९. आदेसेण मव्वणेग्इय०-सव्वतिरिक्ख०-सव्वमणुस-देवा भवणादि जाव सहस्सारा त्ति जाओ पयडीओ उदीरिज्जंति तामिमोवं । आणदादि एवणेवज्जा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । णवरि सम्म० मव्वत्थोवा जहणिया हाणी । जहणिया वड्डी असंखेज्जगुणा । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति णत्थि अप्पावहुअं । एवं जाव० ।

§ ७८०. वड्ढिट्ठिदिउदीरणाए तत्थ इमाणि तेरम अणियोगदाराणि—ममुक्कित्ताणा जाव अप्पावहुए त्ति । ममुक्कित्ताणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-इत्थिवे०-एवुंम० अत्थि निणिएवड्ढि-चत्तारिहाणि-अवट्ठिदाणि-अवत्त० । सम्मामि० अत्थि तिण्णिहाणि-अवत्त० । वारसक०-इण्णोक्क० अत्थि तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । चदुसंज०-पुरिसवे० अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । एवं मणुमतिए । एवरि पुरिसवे० अमंखे०गुणवड्डी० है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७८१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, मोलह कषाय, नौ नोकषाय और सम्यक्त्वकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान समान हैं । सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है ।

§ ७८२. आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य, देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उनका भंग ओघके समान है । आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । उसमें जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणी है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७८३. वृद्धि स्थितिउदीरणाका प्रकरण है । उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी तीन वृद्धि, चार हानि, अवस्थान और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । सम्यग्मिथ्यात्वकी तीन हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । बारह कषाय और छह नोकषायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थान और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना

एत्थि । पञ्जत्तएसु इत्थिवेदो एत्थि । मणुसिणी० पुरिसवे०-एवुंस० णत्थि ।

§ ७८१. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सम्मामि० ओघं । सम्म०-सोलसक०-सत्तणोक० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । एवरि णवुंस० अवत्त० एत्थि । एवं सव्वणेरइय० ।

§ ७८२. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-इण्णोक० णारय-भंगो । तिण्णिवेद० अत्थि तिण्णिवड्डि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । एवं पंचिदियतिरिक्ख-तिए । णवरि पञ्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवेद-णवुंस० णत्थि । इत्थिवेद० अवत्त० णत्थि । पंचिदियतिरिक्खअपञ्ज०-मणुसअपञ्ज० मिच्छ०-णवुंस० अत्थि तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवट्ठि० । सोलसक०-इण्णोक० णारयभंगो ।

§ ७८३. देवेषु दंसणतिय-सोलसक०-अट्ठणोक० तिरिक्खभंगो । णवरि इत्थिवेद-पुरिसवेद० अवत्त० णत्थि । एवं भवणादि जाव सोहम्मीसाणा त्ति । एवं सणकुमारादि जाव सहस्साग त्ति । णवरि इत्थिवेदो एत्थि ।

§ ७८४. आणदादि एवगेवज्जा त्ति मिच्छ० अत्थि असखे० भागहाणि-संखे०-भागहाणि-असखे० गुणहाणि-अवत्त० उदीर० । मम्म० तिण्णिवड्डि-दोहाणि-अवत्त०-

चाहिए । इतनी विशंपता है कि पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धि नहीं है । पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं हैं ।

§ ७८१. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । सम्यक्त्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए ।

§ ७८२. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायका भंग नारकियोंके समान है । तीन वेदोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है । योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित स्थितिउदीरणा है । सोलह कषाय और छह नोकषायका भंग नारकियोंके समान है ।

§ ७८३. देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, सोलह कषाय और आठ नोकषायका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सौधर्म और ऐशान कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए तथा इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है ।

§ ७८४. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । सम्यक्त्वकी तीन

उदी० । सम्मामि० अत्थि असंखे०भागहाणि-अवत्त० । सोलसक०-छण्णोक० अत्थि असंखे०भागहाणि-संखे०भागहाणि-अवत्त० । एवं पुरिसवेद० । णवरि अवत्त० णत्थि । अणुहिसादि सच्चट्टा चि सम्म०-बारसक०-छण्णोक० अत्थि दोहाणि-अवत्त० । एवं पुरिसवेद० । णवरि अवत्त० णत्थि । एवं जाव० ।

§ ७८५. सामित्ताणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अणंताणु०चउक० मच्चपदा कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । सम्म० सच्चपदा कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स । सम्मामि० सच्चपदा कस्स ? अण्ण० सम्मा-मिच्छाइट्टिस्स । बारस०-णवणोक० तिण्णिवट्ठि-अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । तिण्णहाणि-अवत्त० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टि० मिच्छाइट्टिस्स वा । एवरि चदुमंजल०-पुरिमवे० असंखे०गुणवट्ठि-हाणि० इत्थिवे०-णवुंस० असंखे०-गुणवट्ठि-हाणि० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स । एवं मणुसतिए । णवरि पुरिसवे०-चदुसंजल० असंखेज्जगुणवट्ठि० णत्थि । णिसेयपहाणत्ते चदुसंजल० असंखे०गुणवट्ठि० मणुसतिए वि संभवइ, खवगसेटीए किट्ठीवेदगम्मि संगहकिट्ठीणं संधीसु तदुवलंभादो । लोभसंजलणस्स पुण कालपट्ठाणत्ते वि असंखेज्जगुणवट्ठि० अत्थि, उवसमसेटीए सुहुम-

वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । सोलह कषाय और छह नोकषायकी असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और छह नोकषायकी दो हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७८५. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सब पद किसके हाते हैं ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके हाते है । सम्यक्त्वके सब पद किसके हाते हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके हाते हैं । सम्यग्मिध्यात्वके सब पद किसके हाते हैं ? अन्यतर सम्यग्मिध्यादृष्टिके हाते हैं । बारह कषाय और नौ नोकषायकी तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके हाती है । तीन हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके हाती है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलन और पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके हाती है । इसीप्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणा नहीं है । निपेकोंकी प्रधानतामें चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणा मनुष्यत्रिकमें भी सम्भव है, क्योंकि क्षपकश्रेणिमें कृष्टिवेदकके संप्रहकृष्टियोंका सन्धिधर्मोंमें वह पाई जाती है । परन्तु लोभसंज्वलनकी कालकी प्रधानतामें भी असंख्यात

क्रिड्विद्वेदगपठमसमए परिष्कुडमेव तदुवलंभादो । णवरि एवंविहसंभवो उच्चारणाकारेण  
ए विवक्खिओ । पज्जत्तएसु इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणीसु पुरिसवेद-णवुंस० णत्थि ।  
इत्थिवेद० अवत्त० सम्माइड्विस्स ।

§ ७८६. आदेसेण गोरइय० मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु०४ ओघं । सम्म०  
ओघं । णवरि असखे०गुणहाणि० णत्थि । बारसक०-अण्णोक० ओघं । णवरि  
चदुसंज० असखे०गुणवड्वि-हाणि० णत्थि । एवं णवुंस । णवरि अवत्त० णत्थि । एवं  
सव्वगोरइय० । तिरिक्खेसु पठमपुठविभंगो । णवरि तिण्णवे० तिण्णिवड्वि-हाणि-अवड्वि०  
ओघं । अवत्त० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्विस्स । एवं पंचिंदियतिरिक्खतिए । णवरि  
पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त०  
णत्थि । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति सव्वपयडीयां  
सव्वपदा कस्स ? अण्णदरस्स ।

§ ७८७. देवेसु मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म०-सोलसक०-अट्टणोक० तिरिक्ख-  
भंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवणादि जाव सोहमीसाणा

गुणवृद्धि स्थितिउदीरणा है, क्योंकि उपशमश्रेणियों सूक्ष्मकृष्टिवेदके प्रथम समयमें स्पष्ट रूपसे  
वह उपलब्ध होती है। इतनी विशेषता है कि इसप्रकारका सम्भव उच्चारणाकारने विवक्षित  
नहीं किया। पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है तथा मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं  
है। इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा सम्यग्दृष्टिके होती है।

§ ७८६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका  
भंग ओघके समान है। सम्यक्त्वका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात  
गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है। बारह कषाय और छह नोकषायका भंग ओघके समान है।  
इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि  
स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता  
है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए।  
तिर्यञ्चोंमें प्रथम पृथिवीके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तीन वेदोंकी तीन वृद्धि, तीन  
हानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है। अवक्तव्य स्थितिउदीरणा  
किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना  
चाहिए। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद नहीं है। योनिनियोंमें पुरुषवेद और न  
सकवेद  
नहीं है। इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य  
अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब कृतियोंके सब पद किसके  
होते है ? अन्यतरके होते हैं।

§ ७८७. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायका  
भंग तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य  
स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार भवनवासियोंसे लेकर सौधर्म और ऐशान कल्पतकके देवोंमें

त्ति । एवं सणकुमारादि महम्मर त्ति । णवरि इत्थिवेदो णत्थि ।

१ ७८८. आणदादि णवगेवजा त्ति मिच्छ०-अणंताणु०४ सव्वपदा कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्ढि० । सम्म० सगपदा मग्गाइड्ढिम्म । सम्मामिच्छ० सगपदा सम्मामिच्छाइड्ढिम्म । बारमक०-मत्तणोक्क० मगपदा कस्स ? अण्णद० मग्गाइड्ढि० मिच्छाइड्ढि० वा । एवं जाव० ।

७८९. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० तिण्णिवड्ढि० जह० एगम०, उक्क० वे समया । अमंखे०भागहाणि० जह० एयम०, उक्क० एकत्तीमं मागरोवमाणि मादिरेयाणि । तिण्णहाणि०-अवत्त० जहण्णुक्क० एयममओ । अवट्ठि० जह० एगममओ, उक्क० अंतोमु० । मम्म० अमंखे०भागहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० द्वावट्ठिमागगे० देख्खणाणि । सेमपदा० जह० उक्क० एगममओ । मम्मामि० अमंखे०भागहाणि० जह० उक्क० अंतोमु० । दोहाणि-अवत्त० जह० उक्क० एगम० । सोलमक०-भय-दुग्गुळ्ळ० अमंखे०भागवड्ढि० जह० एगम०, उक्क० सत्तारम समया । अमंखे०भागहाणि० जह० एगममओ, उक्क० अंतोमु० । सेमपदाणं मिच्छत्तमंगो । णवरि चदुमंजल० अमंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि० जह० उक्क० एगस० । पुरिमवे० अमंखे०-

जानना चाहिण । इसीप्रकार सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिण । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं हैं ।

१ ७८८. आनतकल्पसे लेकर नौ श्रेयैकतकके देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्कके सब पद किसके होते हैं ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होते हैं । सम्यक्त्वके अपने पद सम्यग्दृष्टिके होते हैं । सम्यग्मिथ्यात्वके अपने पद सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होते हैं । बारह कपाय और सात नोकपायके अपने पद किसके होते हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होते हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिण ।

७८९. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी तीन वृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है । तीन हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम छयासठ सागर है । शेष पद स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । दो हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सत्रह समय है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका भंग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि और

भागहाणि० जह० एगस०, उक० तेवद्विसागरोवमसदं । संखे०भागवडि० जह० उक० एगस० । सेसपदा संजलणभंगो । एवमित्थिवेद० । एवरि असंखे०गुणवड्डी एत्थि । असंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक० पणवण्णपलिदो० देसूणाणि । एवुंस० संजलणभंगो । एवरि असंखे०गुणवडि० एत्थि । असंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । हस्स-रदि० असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक० छम्मासं । सेसपदाणं भयभंगो । अरदि-सोग० असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । सेसपदाणं भयभंगो ।

असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एकसौ त्रेसठ सागर है । संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । शेष पदोंका भंग संज्वलनके समान है । इसीप्रकार स्त्रीवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणा नहीं है । असंख्यात भागहानि स्थिति उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है । नपुंसक-वेदका भंग संज्वलनके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणा नहीं है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । हास्य और रतिकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह महीना है । शेष पदोंका भंग भयके समान है । अरति और शोककी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष पदोंका भंग भयके समान है ।

**विशेषार्थ**—जो जीव अद्वात्तय या संक्लेशत्तयसे एक समयतक मिथ्यात्वकी स्थितिको बढ़ाकर बाँधता है और एक आवलिके बाद उसी रूपमें उसकी उदीरणा करता है । उसके मिथ्यात्वकी वृद्धि स्थितिउदीरणा पाई जाती है जो असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि इन तीनों रूप सम्भव है । इसलिए मिथ्यात्वकी इन तीन वृद्धि स्थिति-उदीरणाओंका जघन्य काल एक समय कहा है । इनका उत्कृष्ट काल दो समय है । खुलासा इस प्रकार है—प्रथम समयमें अद्वात्तयसे और दूसरे समयमें संक्लेशत्तयसे मिथ्यात्वका असंख्यात वृद्धिरूप स्थिति बन्ध कराके एक आवलिके बाद उसी रूपमें उदीरणा होनेपर मिथ्यात्वकी असंख्यात वृद्धि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त हो जाता है । किसी द्वीन्द्रिय जीवने संक्लेश त्तयसे एक समयतक मिथ्यात्वका संख्यातवृद्धि रूप स्थितिबन्ध किया । इसके बाद दूसरे समयमें वह मरा और त्रीन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर वहाँ प्रथम समयमें पुनः संख्यात भागवृद्धिको लिये हुए तत्प्रायोग्य स्थितिबन्ध किया । अनन्तर एक आवलिके बाद उनकी उसी क्रमसे उदीरणा हुई । इसप्रकार मिथ्यात्वकी संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है । तथा किसी एक एकेन्द्रिय जीवने एक विग्रहसे संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर असंज्ञीके योग्य मिथ्यात्वका स्थितिबन्ध करके संख्यात गुणवृद्धि की तथा दूसरे समयमें शरीरको ग्रहण करके संज्ञीके योग्य मिथ्यात्वका स्थितिबन्ध करके संख्यात गुणवृद्धि की । अनन्तर एक आवलिके बाद उनकी उसी क्रमसे उदीरणा की । इसप्रकार मिथ्यात्वकी संख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल दो समय प्राप्त होता है । जो जीव एक समयतक मिथ्यात्वके स्थितिसत्त्वसे एक समय कम स्थितिका बन्ध कर बन्धावलिके बाद



§ ७९० आदेशेण एरइय० मिच्छ०-सोलसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुंझाणं असंखे०-  
भागवड्डी जह० एयस०, उक्क० बेसमया मत्तारस समयया । असंखे०भागहाणि-अवड्ढि०  
जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । सेमपदाणं जह० उक्क० एगस० । सम्म० असंखे०-  
भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । सेसपदाणं जह० उक्क०  
एगस० । अरदि-सोगाणं हस्सभंगो । णवरि असंखे०भागहा० जह० एयस०, उक्क०  
पलिदो० असंखे०भागो । एवं एणुंस० । णवरि असंखे०भागहाणी ओघं । सम्मामि०  
ओघं । एवं सत्तमाए । एवरि सम्म० असंखे०भागहाणी जह० अंतोमु०, उक्क०

उसी क्रमसे उसकी उदीरणा करता है उसके मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है । तथा जो जीव नौवें प्रैवेयकमें इकतीस सागर कालतक मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा करके मनुष्योंमें उत्पन्न हो तत्प्रायोग्य काल तक असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा करता रहता है उसके मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर प्राप्त होता है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि नौवें प्रैवेयकमें जानेके पूर्व भी तत्प्रायोग्य कालतक असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा बन जाती है । मिथ्यात्वकी संख्यात भागहानि और संख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा अपने-अपने योग्य कारणकघातकी अन्तिम फालिके पतनके समय एक समयतक ही होती है तथा असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा मिथ्यात्वकी उपशमनाके कालमें एक समय तक होती है, इसलिए इन तीन हानियोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही प्राप्त होता है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । यहाँ मिथ्यात्व कर्मकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणा आदिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका जिस प्रकार खुलासा किया उसीप्रकार अन्य प्रकृतियोंके यथायोग्य पदोंका खुलासा कर लेना चाहिए । तथा गतिमार्गणाके भेद-प्रभेदोंमें भी इसीप्रकार विचार कर कालप्ररूपणा जान लेनी चाहिए ।

§ ७९०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वका दो समय तथा शेषका सत्रह समय है । असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अरति और शोकका भंग हास्यके समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका काल ओघके समान है । सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । इसनी विशेषता है कि सम्बक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट



देसूणाणि ।

§ ७९२. पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० असंखे०भागवड्ढि० जह० एयम०, उक्क० वेममया सत्तारम समय। असंखे०भागहाणि-अवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । संखे०गुणवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० वेसमया । सेसपदानं जह० उक्क० एयम० ।

§ ७९३. मणुसतिय० पंचिदियतिरिक्खनियभंगो । णवरि जासिं पयडीएणं असंखे०गुणहाणि० अत्थि तामि जह० उक्क० एगम० । णवरि सम्म० असंखे०भागहा० जह० अंतोमु०, उक्क० निण्णि पलिदो० देसूणाणि । पज्जत्त० इत्थिवे० णत्थि । सम्म० असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, उक्क० तं चैव । मणुसिणी पुरिसवे०-णवुंम० एत्थि । इत्थिवे० अवत्त० जहण्णुक० एगम० ।

§ ७९४. देवेषु मिच्छ०-सोलमक०-छण्णोक०-मम्मामि० पढमपुढविभंगो । णवरि मिच्छ० असंखे०भागहा० जह० एयस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० । हस्स-रदि० असंखे०भागहाणि० ओघं । इत्थिवेद-पुरिमवे० हस्सभंगो । णवरि अवत्त० एत्थि । असंखे०भागहाणि० जह० एगम०, उक्क० पणवणं पलिदो० देसूणाणि तेत्तीमं अराख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहूर्तं हे और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हे ।

§ ७९२. पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकामे मिध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल मिध्यात्वका दो समय तथा शेषका सत्रह समय हे । असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त हे । संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय हे । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे ।

§ ७९३. मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग हे । इतनी विशेषता हे कि जिन प्रकृतियोंकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा हे उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तमुहूर्त हे और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हे । पर्याप्तकामे स्त्रीवेद नहीं हे । इनमे सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल वही हे । मनुष्यनियोगे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं हे । इनमे स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे ।

§ ७९४. देवोंमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, छह नोकषाय और सम्यग्मिध्यात्वका भंग प्रथम पृथिवीके समान हे । इतनी विशेषता हे कि मिध्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति उदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल इकतीस सागर हे । हास्य और रतिकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका काल ओघके समान हे । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग हास्यके समान ह । इतनी विशेषता हे कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं हे । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल क्रमशः

सागरोवमाणि । सम्म० असंखे० भागहाणि० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० ।  
सेसपदाणं जह० उक० एगसमओ । एवं सोहम्मादि जाव सहस्सार त्ति । एवरि  
सगड्ढिदी । हस्स-रदि० अरदि-सोगभंगो । मिच्छ० असंखे० भागहाणि० जह० एगस०,  
उक० अंतोमुहुत्तं । णवरि सहस्सारे हस्स-रदि० देवोधं । सोहम्मीसाणे इत्थिवेद०  
देवोधं । उवरि एत्थि ।

‡ ७९५. भवण०-वाण्वे०-जोदिसि० सोहम्मभंगो । णवरि सगड्ढिदी । सम्म०  
असंखे० भागहाणि० जह० अंतोमु०, उक० सगड्ढिदी देसूणा । इत्थिवेद० असंखे०-  
भागहाणि० जह० एगस०, उक० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि पल्लिदो० सादिरेयाणि २ ।

‡ ७९६. आणदादि जाव एवगेवजा त्ति मिच्छ०-पुरिसवे० असंखे० भागहाणि०  
जह० अंतोमु०, उक० सगड्ढिदीओ एादव्वाओ । सेसपदाणं जह० उक० एगस० ।  
सम्म० असंखे० भागहाणि० जह० एगस०, उक० सगड्ढिदी देसूणा । सेसपदाणं जह०  
उक० एगस० । सम्मामि० अमंखे० भागहाणि० जह० उक० अंतोमु० । अवत्त०  
जह० उक० एगस० । सोलसक०-उण्णो० अमंखे० भागहाणि० जह० एगस०, उक०

कुछ कम पचवन पत्य और तेतीस सागर है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । शेष पदांका जघन्य  
और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसीप्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतक जानना  
चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । हास्य और रतिका भंग  
अरति और शोकके समान है । मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य  
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि सहस्रार कल्पमें  
हास्य-रतिका भंग सामान्य देवोंके समान है । सौधर्म और ऐशानकल्पमें खीवेदका भंग  
सामान्य देवोंके समान है । ऊपर खीवेद नहीं है ।

‡ ७९५. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें सौधर्म कल्पके समान भंग है ।  
इतनी विशेषता है कि अपनी स्थिति कहनी चाहिए । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है ।  
खीवेदकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल  
कुछ कम तीन पत्य, साधिक एक पत्य और सायिक एक पत्य है ।

‡ ७९६. आननकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व और पुरुषवेदकी  
असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी-  
अपनी स्थितिप्रमाण जानना चाहिए । शेष पदांका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।  
सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट  
काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष पदांका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।  
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।  
अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सोलह कषाय और छह  
नोकषायकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

अंतोमु० । सेसपदानं जहण्णुक० एगस० ।

७९७. अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति सम्म०-पुरिसवेद० असंखे०भागहाणि० जह० एगस० अंतोमु०, उक० सगट्टिदी । सेसपदा जह० उक० एगस० । वारसक०-द्वण्णोक० आणदभंगो । एवं जाव० ।

§ ७९८. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेशेण य । ओघेण मिच्छ० असंखे०भागवट्ठि-अवट्ठि जह० एगस०, उक० तेवट्ठिसागरोवमसदं तीहिं पल्लिदोवमेहिं सादिरियं । असंखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक० बेद्धावट्ठिसागरोवमाणिं देख्णानि । दोवट्ठि-हाणि० जह० एगस० अंतोमु०, उक० अणंतकालमसंखेजा० । असंखे०गुण-हाणि० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० दोएहं पि उवट्ठपोरगलपरियट्ठं । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० णत्थि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक० बेद्धावट्ठिसागरो० देख्णानि । एवमट्ठक० । णवरि असंखे०भाग-हाणि-अवत्त० जह० एगस० अंतोमु०, उक० पुव्वकोडी देख्णा । एवं हस्सरदि० । णवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एगस० अंतोमु०, उक० तेत्तीसं सागरोवमं

अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ७९७. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्व और पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य काल एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । बारह कषाय और छह नोकषायका भंग आनतकल्पके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ७९८. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंव और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्य अधिक साधिक एकसौ त्रैसठ सागर है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है । दो वृद्धि और दो स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । असंख्यात गुणहानिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । इसीप्रकार आठ कषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । इसीप्रकार हास्य और रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा

सादिरयं । एवमरदि-सोग० । एवरि असंखे० भागहाणि० जह० एयस०, उक्क० छम्मासं । एवं चदुसंजल०-भय-दुगुंछा० । एवरि असंखे० भागहाणि-अवत्त० जह० एयस० अंतोमु० । उक्क० अंतोमु० । एवरि चदुसंजलण० असंखे० गुणवड्ढि णत्थि अंतरं । असंखे० गुणहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्ढपोगलपरियट्टं । इत्थिवेद० असंखे०-भागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि०-संखे० गुणवड्ढि० जह० एयस०, संखे० भागवड्ढि हाणि-संखे०-गुणहाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिमणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्टा । असंखे० गुणहाणि० संजलणभंगो । एवं पुरिसवेद० । एवरि असंखे० गुणवड्ढि० एत्थि अंतरं । एवुंस० असंखे० भागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० जह० एयसमओ, उक्क० सागरोवम-सदपुधत्तं । सेसपदाणमित्थिवेदभंगो । एवरि संखे० भागवड्ढि० जह० एयस०, उक्क० तं चैव । सम्म०-सम्मामि० अमंखे० भागहाणि० जह० एयसमओ, सेमप० जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिमुवड्ढपोगलपरियट्टं ।

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इसीप्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार चार संज्वलन तथा भव और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि उदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । स्त्रीवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और संख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण है । असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका भंग संज्वलनके समान है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है । शेष पदोंका भंग स्त्रीवेदके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यात भागवृद्धि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वही है । सम्यक्त्व और सम्यगिमध्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, शेष पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

**विशेषार्थ—**भुजगारप्ररूपणामें मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थित स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पत्य अधिक एकसौ त्रेसठ सागर घटित करके बतला आये हैं वही यहाँ मिध्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । मिध्यात्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है उसे ध्यानमें रखकर यहाँ मिध्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त काल-

§ ७९९. आदेसेण णेरइय० मिच्छ० अमंखे० भागवड्ढि-हाणि-अवड्ढि० जह० एयम०, दोवड्ढि-हाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, असंखे० गुणहाणि० जह० पत्तिदो० असंखे० भागो, उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरो० देस्सणाणि । एवमणंताणु० ४-हस्स-रदीणं । णवरि असंखे० गुणहाणि० णत्थि । एवमरदि-सोग० । णवरि असंखे०-

प्रमाण कहा है। निरन्तर एकेन्द्रियोंमें रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। इस कालके मध्य मिथ्यात्वकी दो वृद्धि और दो हानि स्थितिउदीरणा नहीं होती, इसलिए इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल उत्कृष्टकालप्रमाण कहा है। एक जीवकी अपेक्षा प्रथमोपशम सम्यक्त्वका जघन्य अन्तरकाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए तो मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और उसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है तथा सामान्यसे सम्यक्त्वका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। इनके कालतक कोई जीव प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि न हो और मिथ्यादृष्टि बना रहे यह सम्भव है, इसलिए मिथ्यात्वके उक्त दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन-प्रमाण कहा है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सब पदोंका अन्तरकाल बन जानेसे उसे मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना की। मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं होती, इसलिए उसका निषेध किया है। यहाँ इतना और विशेष समझना चाहिए कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद मिथ्यादृष्टिके होता है, इसलिए मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अन्तरकालको ध्यानमें रखकर यहाँ उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण कहा है। जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है यह सुगम है। इसीप्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए मात्र इनकी उदीरणा क्रमसे पाँचवें और छठे गुणस्थानमें नहीं होती, इसलिए उन गुणस्थानोंके उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर यहाँ इनकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। इनका जघन्य अन्तरकाल क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त सुगम है। हास्य और रतिकी किसी जीवके सातवें नरकमें उदीरणा ही न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तैतीस सागर कहा है। अरति और शोककी किसी जीवके बारहवें कल्पमें छह माह तक उदीरणा न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल छह माह कहा है। चार संज्वलनकी उदीरणा उपशमश्रेणियोंमें अन्तर्मुहूर्त कालतक नहीं होती, तथा भय और जुगुप्साकी निरन्तर उदीरणाका नियम नहीं। हाँ संसार अवस्थामें अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त कालके बाद इनकी उदीरणा अवश्य होती है, इसलिए इनकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ७९९. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा सभीका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तैतीस सागर है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य और रतिकी अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार अरति

भागहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं बारसक०-भय-दुगुंछ० । णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतोमु० । एवं णवुंस० । एवरि अवत्त० णत्थि । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, सेपपदाणं जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरो० देख्खाणि । एवं सत्तमाए । पढमादि जाव छट्ठि त्ति एवं वेव । णवरि सगट्ठिदी देख्खा । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोग० भयभंगो ।

§ ८००. तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवद्धि-अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्खाणि । सेममोघं । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० णत्थि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देख्खाणि । एवमपच्चक्खाण०४ । णवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एयस० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडी देख्खा । एवमट्ठक०-द्वणोक्क० । एवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवे०-पुरिसवे० सव्वपदाणमोघं । एवुंस० हस्सभंगो ।

और शोककी अपेक्षा जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तरकाल एक समय है, शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है । इसीप्रकार सातवी पृथिवीमें जानना चाहिए । प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवीतक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कइनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति और शोकका भंग भयके समान है ।

८००. तिर्यञ्चोमें मिध्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । शेष भंग आघके समान है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । इसीप्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । इसीप्रकार आठ कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंका भंग आघके समान है । नपुंसकवेदका भंग हास्यके समान



एवरि असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । अवत्त० ओघं ।

§ ८०१. पंचिदियतिरिक्खतिय० मिच्छ० असंखे०भागवट्ठि-संखे०गुणवट्ठि-  
अवट्ठि० जह० एयसमओ, संखे०भागवट्ठि-संखे०गुणहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क०  
सव्वेसिं पुव्वकोडिपुधत्तं । असंखे०भागहाणि० तिरिक्खोघं । असंखे०गुणहाणि-अवत्त०  
जह० पल्लिदो० असंखे०भागो अंतोमु०, उक्क० सगट्ठिदी । संखे०भागहाणि० जह०  
अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० मादिरेयाणि । एवं सोलसक०-द्धणोक्क० । एवरि  
असंखे०गुणहाणि० णत्थि । असंखे०भागहाणि-अवत्त० तिरिक्खोघं । सम्म० तिण्णि  
वट्ठि-संखे०भागहाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, असंखे०भागहाणि० जह० एयस०,  
उक्क० मव्वेमिं मगट्ठिदी । संखे०गुणहाणि-अवट्ठि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडि-  
पुधत्तं । सम्मामि० असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, अवत्त० जह० अंतोमु०,  
उक्क० दोणहं पि सगट्ठिदीओ । दोहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।  
इत्थिवे०-पुरिसवेद० हस्सभंगो । णवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एयस०  
अंतोमुहुत्तं, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं । एवं णवुंस० । णवरि संखे०भागहा० जह०

हे । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटिपृथक्त्वप्रमाण है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग ओषके समान है ।

§ ८०१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चक्रिकमे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवट्ठि, संख्यात गुणवट्ठि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागवट्ठि और संख्यात गुणवट्ठि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-पृथक्त्वप्रमाण है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातबे भागप्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । संख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । इसीप्रकार सोलह कपाय और छह नोकपायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-उदीरणाका भंग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । सम्यक्त्वकी तीन वट्ठि, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । संख्यात गुणहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटिपृथक्त्वप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है । दो हानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग हास्यके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार

अंतोमु०, उक्० पुव्वकोडिपुधत्तं । णवरि पज्जत्त०-इत्थिवेदो णत्थि । जोणिणीसु पुरिसवे०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्तव्वं पि णत्थि । असंखे०भागहाणि० जह० एयसमओ, उक्० अंतोमु० ।

§ ८०२. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलमक०-सत्तणोक्० असंखे०भागवद्वि हाणि-संखेज्जगुणवद्वि-अवद्वि० जह० एयम०, उक्० अंतोमु० । सेमपदाणं जहएणुक्० अंतोमु० ।

§ ८०३. मणुसेसु मिच्छ० असंखे०भागवद्वि-संखेज्जगुणवद्वि-अवद्वि० जह० एयस०, संखे०भागवद्वि संखे०गुणहाणि० जह० अंतोमु०, उक्० मव्वेमि पुव्वकोडी देसुणा । सेमपदाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवमएताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० णत्थि । अवत्त० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवमद्वक० । णवरि असंखे०भागहा०-अवत्त० ओघं । एवं चदुसंजलण०-छणणोक् । णवरि असंखे०भागवद्वि-अवद्वि० जह० एयस०, उक्० अंतोमुहुत्तं । णवरि चदुमंज० असंखे०गुणहाणि० जह० अंतोमु०,

नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यात भागहानि स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्त्रप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेद नहीं है । तथा योनिनियामे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । तथा योनिनियामें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा भी नहीं है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ८०२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमि मध्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ८०३. मनुष्योंमें मध्यात्व, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष पदोंका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । अबक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोंके समान है । इसीप्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका भंग ओघके समान है । इसीप्रकार चार संज्वलन और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थिति-उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और

उक्० पु०व०कोडिपु०धत्तं । सम्म०-सम्मामि०-तिष्णिणवेदाणं पंचि०तिरिक्खभंगो । एववि  
तिएहं वेदाण सम्म० असंखे०गुणहाणि० संजलणभंगो । एववि पज्जत्त० इत्थिवेदो  
एत्थि । मणुमिणी० पुरिस० णवुंस० एत्थि । इत्थिवे० संजलणभंगो । णववि  
अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्० पु०व०कोडिपु०धत्तं ।

§ ८०४. देवेषु मिच्छ० असंखे०भागवद्धि०-अवद्धि० जह० एयस०, उक्०  
अट्टारम सागरो० सादिरेयाणि असंखे०भागहाणि० जह० एयस०, संखे०भागहाणि-  
अवत्त० जह० अंतोमु०, असंखे०गुणहाणि० जह० पल्लिदो० अमंखे०भागो, उक्०  
चदुएहं पि एकत्तीमं सागरो० देसूणाणि । सेमपदाणं जह० अंतोमु०, उक्० अट्टारम  
सागरो० सादिरेयाणि । एवमणंताणु०४ । णववि असंखे०गुणहाणि० एत्थि । एवं  
वारसक०-छरणोक० । णववि असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एगम० अंतोमु०,  
उक्० अंतोमु० । णववि हस्स-रदि० अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्० छम्मामं । अरदि-  
सोग० असंखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एयस० अंतोमु०, उक्० छम्मामं । सम्म०  
तिष्णिणवद्धि-संखे०भागहाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, असंखे०भागहा० जह० एयस०,  
उक्० सव्वेसिमैकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०गुणहाणि-अवद्धि० सम्मामि०

उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तीन वेदोंका भंग  
पंचेन्द्रिय त्रिचोके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन वेद और सम्यक्त्वकी असंख्यात  
गुणहानि स्थितिउदीरणाका भंग संज्वलनके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे  
स्त्रीवेद नहीं है, मनुष्यनियोमे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है। स्त्रीवेदका भंग संज्वलनके  
समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है  
और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है।

§ ८०४. देवोंमे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। संख्यात भागहानि  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य  
अन्तर पर्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है तथा चारोंका ही उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस  
सागर है। शेष पदोंका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर  
है। इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि  
असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है। इसीप्रकार बारह कषाय और छह नोकपायकी  
अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तमुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है।  
इतनी विशेषता है कि हास्य और रतिकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त  
है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अरति और शोककी असंख्यात भागहानि और  
अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तमुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर  
छह महीना है। सम्यक्त्वकी तीन वृद्धि, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका  
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है

दोहाणि० जह० अंतोमु०, उक्क० अट्टारस सागरो० सादिरेयाणि । असंखे० भागवड्ढि-  
 अवत्त० जह० एयस० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थिवेद०  
 असंखे० भागवड्ढि-अवट्टि० जह० एयस०, दोवड्ढि-हाणि० जह० अंतोमु०, उक्क०  
 सन्वेसिं पणवण्णं पलिदो० देसूणाणि । असंखे० भागहाणि० जह० एयस०, उक्क०  
 अंतोमु० । पुरिसवेद० भय-दुगुंळभंगो । एवरि अवत्तव्व० णत्थि । एवं भवणादि  
 जाव सहस्सारा ति । एवरि सगट्टिदीओ । हस्स-रदि-अरदि-सोग० भयभंगो । एवरि  
 सहस्सारे हस्स-रदि-अरदि-सोग० असंखे० भागहाणि-अवत्त० देवोधं । एवरि भवण०-  
 वाण०-जोदिसिं इत्थिवे० असंखे० भागवड्ढि-अवट्टि० जह० एयस०, दोवड्ढि-हाणि०  
 जह० अंतोमु०, उक्क० सन्वेमिं तिण्णि पलिदो० देसूणाणि पलिदो० सादिरेयाणि  
 पलि० सादिरे० । असंखे० भागहाणि० जह० एगम०, उक्क० अंतोमु० । सोहम्मीसाणे  
 इत्थिवेद० देवोधं । उवरि इत्थिवेदो णत्थि ।

§ ८०५. आणदादि जाव एवगेवजा ति मिच्छ० असंखे० भागहाणि० जह०  
 एयस०, संखे० भागहाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, असंखे० गुणहाणि जह० पलिदो०

और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । संख्यात गुणहानि और अवस्थित  
 स्थितिउदीरणाका तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी दो हानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त  
 है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है । असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
 उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम-इकतीस  
 सागर है । स्त्रीवेदकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर  
 एक समय है, दो वृद्धि और दो हानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है तथा  
 सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचबन पत्य है । असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य  
 अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । पुरुषवेदका भंग भय और जुगुप्साके  
 समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवनवाशियोंसे  
 लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी स्थिति  
 कहनी चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोकका भंग भयके समान है । इतनी विशेषता है कि  
 सहस्रार कल्पमें हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
 उदीरणाका भंग सामान्य देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर और  
 ज्योतिषी देवोंमें स्त्रीवेदकी असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर  
 एक समय है, दो वृद्धि और दो हानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और  
 सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य, साधिक एक पत्य और साधिक एक पत्यप्रमत्त है ।  
 असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर  
 अन्तर्मुहूर्त है । सौधर्म और ऐशानकल्पमें स्त्रीवेदका भंग सामान्य देवोंके समान है । आगे  
 स्त्रीवेद नहीं है ।

§ ८०५. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि  
 स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
 उदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर

असंखे०भागो, उक्० सव्वेसिं सगट्टिदी देसुणा । एवमणंताणु०४ । एवरि असंखे०-  
गुणहाणि० णत्थि । एवं बारसक०-द्वण्णोक० । णवरि असंखे०भागहाणि-अवत्त०  
जह० एयस० अंतोमु०, उक्० अंतोमु० । सम्म० असंखे०भागहाणि० जह० एयस०,  
असंखे०भागवट्टि-संखे०भागहाणि-अवत्त० जह० अंतोमु०, दोवट्टि० जह० पत्तिदो०  
असंखे०भागो, उक्० सव्वेसिं सगट्टिदी देसुणा । सम्मामि० असंखे०भागहाणि-अवत्त०  
जह० अंतोमु०, उक्० सगट्टिदी देसुणा । पुरिसवे० असंखे०भागहाणि० जह० उक्०  
एयस० । संखे०भागहाणि० मिच्छत्तभंगो ।

§ ८०६. अणुद्विसादि सव्वट्टात्ति सम्म० असंखे०भागहाणि० जह० उक्०  
एयस० । संखे०भागहाणि० जहण्णुक० अंतोमु० । अवत्त० णत्थि अंतरं । एवं पुरिसवे० ।  
णवरि अवत्त० णत्थि । बारसक०-द्वण्णोक० असंखे०भागहाणि० जह० एगस०,  
उक्० अंतोमु० । संखे०भागहाणि-अवत्त० जह० उक्० अंतोमुहुत्तं । एवं जाव० ।

§ ८०७. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य ।  
ओघेण मिच्छ०-णवुंम० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णिय० अत्थि । सेमपदा  
भयणिज्जा । सोलमक०-द्वण्णोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० णिय०

पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण  
है । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि  
असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार बारह कषाय और छह नोकषायकी  
अपेक्षा जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति-  
उदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।  
सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है, असंख्यात  
भागवृद्धि, संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है,  
दो वृद्धियोंका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा सबका उत्कृष्ट अन्तर  
कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य  
स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थिति-  
प्रमाण है । पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक  
समय है । संख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका भंग मिध्यात्वके समाप्त है ।

§ ८०६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि  
स्थितिउदीरणाका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । संख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका  
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । बारह कषाय  
और छह नोकषायकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिउदीरणाका जघन्य  
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गशातक जानना चाहिए ।

§ ८०७. नाना जीवोंका अवलम्बन कर भंगविचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका  
है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात  
भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणा नियमसे है । शेष पद भजनीय है । सोलह कषाय

अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्म० असंखे० भागहाणि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्मामि० सव्वपदा भयणिज्जा । इत्थिवेद-पुरिसवेद० असंखे० भागहाणि-अवट्ठि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं तिरिक्खा० ।

§ ८०८. आदेसेण एरइय० मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० असंखे० भागहाणि-अवट्ठि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्म०-सम्मामि० सव्वपदाणमोघं । एवं सव्वएरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसतिय-देवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति सव्वपयडीणमसंखे० भागहाणि-अवट्ठि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । णवरि सम्म०-सम्मामि० ओघं । मणुमअपज्ज० सव्वपयडी० सव्व० भयणिज्जा ।

§ ८०९. आणदादि णवगेवज्जा त्ति सव्वपय० असंखे० भागहाणि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । एवरि सम्मामि० सव्वपदाणि भयणिज्जाणि । अणुहि-सादि सव्वट्ठा त्ति सव्वपयडी० असंखे० भागहाणि० णियमा अत्थि । सेसपदा० भयणिज्जा । एवं जाव० ।

§ ८१०. भागाभागाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-एणुंस० असंखे० भागवड्डिउदी० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे०-

और छह नोकषायकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति-उदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। सम्यग्मिथ्यात्वके सब पद भजनीय हैं। स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय है। इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए।

§ ८०८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंका भंग ओघके समान है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक, सामान्य देव तथा भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय है। इतनी विशिष्टता है कि सम्यक्त्व सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं।

§ ८०९. आनतकल्पसे लेकर नौ प्रैवेयकतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। इतनी विशिष्टता है कि सम्यग्मि-थ्यात्वके सब पद भजनीय हैं। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणा नियमसे है। शेष पद भजनीय हैं। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

§ ८१०. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव सब जीवोंके किचने

ममहा० संखेजा भागा । अवट्टि० संखे०भागो । सेसपदा० अणंतभागो । एवं सोखसक०-अणोको० । णवरि अवत्त० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०-भागहा० असंखेजा भागा । सेसपदा० असंखे०भागो । इत्थिवे०-पुरिसवे० अवट्टि० संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेजा भागा । सेसपदा० असंखे०भागो । एवं विरिक्खा० ।

§ ८११. सव्वणेरइय-सव्वर्पंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज० देवा भवणादि जाव सहसारा त्ति सव्वपयडी० अवट्टि० संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेजा भागा । सेसपदा० असंखे०भागो । णवरि जम्मि सम्म०-सम्मामि० अत्थि तम्मि सव्वपदाणमोघं ।

§ ८१२. मणुसेसु सम्म०-सम्मामि०-इत्थिवेद-पुरिसवेद० अमंखे०भागहाणि० संखेजा भागा । सेसपदा० संखे०भागो । सेसपयडीणं णारयभंगो । पज्जत्त-मणुसिणी-सव्वट्टुदेवेसु सव्वपयडीणमसंखे०भागहाणि० संखेजा भागा । सेसपदा० संखे०भागो । आणदादि अवराजिदा त्ति अप्पपणो पयडीणमसंखे०भागहाणि० असंखेजा भागा । सेसपदा० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सोलह कपाय और छह नोकपायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मध्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।

§ ८११. सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभाग-प्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि जहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मध्यात्व है वहाँ सब पदोंका भंग ओघके समान है ।

§ ८१२. मनुष्योंमें सम्यक्त्व, सम्यग्मध्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष प्रकृतियोंकी अपेक्षा भंग नारकियोंके समान है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । आनतकल्पसे लेकर अपराजित कल्पतकके देवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गाणातक जानना चाहिए ।

§ ८१३. परिमाणानु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छं-  
णवुंम० असंखेज्जाभागवड्डि-हाणि-अवड्डि० केत्ति० ? अणंता । सेसपदा० केत्ति० ?  
असंखेज्जा । एवरि एवुंसं असंखे०गुणहाणि० केत्ति० ? संखेज्जा । सम्म० असंखे-  
गुणहाणि० के० ? संखेज्जा । सेसपदा० के० ? असंखेज्जा । एवमित्थिवेद-पुरिसवेद० ।  
एवरि पुरिसवे० असंखे०गुणवड्डि० के० ? संखेज्जा । सोलसक०-छण्णोक० मिच्छत्त-  
भंगो । एवरि अवत्त० अणंता । चदुसंजल० असंखे०गुणवड्डि-हाणि० केत्ति० ? संखेज्जा ।

§ ८१४. सव्वणोरइय०-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ज० देवा भवणादि  
जाव एवगेवज्जा त्ति अप्पणो पयडीणं सव्वपदा० के० ? असंखेज्जा ।

§ ८१५. तिरिक्खेसु मव्वपयडी० सव्वपदा० ओघं । मणुसेसु मिच्छं-एवुंसं  
असंखे०गुणहाणि०-अवत्त० के० ? संखेज्जा । सेसपदा० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं  
चदुसंजलण० । एवरि अवत्त० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्म०-मम्मामि०-इत्थिवे०-  
पुरिसवे० मव्वपदा० के० ? संखेज्जा । वारसक०-छण्णोक० सव्वपदा० के० ? असंखेज्जा ।  
मणुसपज्जत्त-मणुसिणी-सव्वदुदेवा० अप्पणो पयडी० मव्वपदा० के० ? संखेज्जा ।

§ ८१३. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहाणि और अवस्थित  
स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात  
हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी असंख्यात गुणहाणि स्थितिके उदीरक जीव कितने  
हैं ? संख्यात है । सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणहाणि स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात  
हैं । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार स्त्रीवेद और  
पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धिके  
उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । सोलह कषाय और छह नोकषायका भंग मिथ्यात्वके  
समान है । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव अनन्त हैं । चार  
संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहाणिके उदीरक जीव कितने हैं ?  
संख्यात हैं ।

§ ८१४. सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव तथा भवन-  
वासियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीव  
कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

§ ८१५. तिर्यक्चोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके उदीरक जीवोंका भंग ओघके समान  
है । मनुष्योंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात गुणहाणि और अवक्तव्य स्थितिके  
उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष पदोंके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।  
इसीप्रकार चार संज्वलनकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिके  
उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके  
सब पदोंकी स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । बारह कषाय और छह नोकषायके  
सब पदोंकी स्थितिके उदीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और



अणुदिसादि अवरजिदा त्ति मव्वपयडीणं मव्वपदा० के० ? असंखेज्जा । णवरि मम्म० अवत्त० केत्ति० ? मंखेज्जा । एवं जाव० ।

८१६. खेत्ताणु० दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-णवुंस० असंखे० भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० केवडिखेत्ते ? सव्वलोगे । सेसपदा० लोग० असंखे० भागे । एवं सोलमक०-इण्णोक्क० । णवरि अवत्त० मव्वलोगे । मम्म०-मम्मामि०-इत्थिवेद-पुरिसवेद० मव्वपदा० लोग० असंखे० भागे । एवं तिरिक्खा० । सेमगदीसु मव्वपयडी० मव्वपदा० लोग० असंखे० भागे । एवं जाव० ।

८१७. फोमणाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० अमंखे० भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । दोवट्ठि-हाणि० लोग० असंखे० भागो अट्टुचोद्दम० मव्वलोगो वा । अमंखे० गुणहाणि० लोग० अमंखे० भागो अट्टुचोद्दम० । अवत्त० लोग० अमंखे० भागो अट्टु-वारहचोद्दस० । एवं सोलमक०-इण्णोक्क० । णवरि अवत्त० मव्वलोगो । चट्टमंज० असंखे० गुणवट्ठि-

सर्वार्थभिद्धिके देवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उद्दीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उद्दीरक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव कितने हैं ? संख्यात है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

८१६. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकक्षेत्र है । शेष पद स्थितिके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और पुरुषवेदके सब पदोंकी स्थितिके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सामान्य नियंत्रणमें जानना चाहिए । शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उद्दीरक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

८१७. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरक जीवोंमें कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो वृद्धि और दो हानि स्थितिके उद्दीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ और बारह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका

हाणि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० सव्वपद० केव० पोमिदं ? लोग० असंखे०भागो । अट्टचोदस० । णवरि सम्म० असंखेज्जगुणहाणि० खेत्तं । इत्थिवे०-पुग्गिमेवे० तिण्णिणवड्ढि-अवड्ढि० के० फोमिदं ? लोग० असंखे०-भागो अट्टचोदम० । तिण्णिणहाणि० केव० पोमिदं ? लोग० असं०भागो अट्टचोदम० देसूणा मव्वलोगो वा । अवत्त० लोग० असंखे०भागो मव्वलोगो वा । असंखे०-गुणहाणि० खेत्तं । पुग्गिम० असंखे०गुणवड्ढि-हाणि० खेत्तं । णवुंस० मिच्छत्तमंगो । णवरि दोवड्ढि-हाणि-अवत्त० लोग० असं०भागो मव्वलोगो वा । असंखे०-गुणहाणि० खेत्तं ।

८१८. आदेसेण एग्गइय० मिच्छ०-सोलमक०-मत्तणोक० मव्वपदा० केव० पो० ? लोग० असंखे०भागो छचोदस० । णवरि मिच्छ०असंखे०गुणहाणि० खेत्तं । अवत्त० लोग० असंखे०भागो पंचचोदस० । सम्म०-सम्मामि० खेत्तं । एवं विदियादि

स्पर्शन किया है । चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंकी स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रक समान है । खींचेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तीन हानि स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । नपुंसकवेदका भंग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

**विशेषार्थ—**मिथ्यात्वादि किस प्रकृतिके कौन कौन पद हैं और उनका स्वामी कौन-कौन जीव है इसका स्वामित्वानुगमसे विचार कर स्पर्शन जान लेना चाहिए । इसीप्रकार चारों गतियों और उनके अवान्तर भेदोंमें भी स्पर्शन जान लेना चाहिए ।

८१८. आदेशसे नारकियोम मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नाकपायके सब पदोंकी स्थितिके उदीरक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे

जाव सत्तमा त्ति । एवरि सगपोसणं । एवरि सत्तमाए मिच्छ० अवत्त० खेत्तं । पट्टमाए खेतभंगो ।

८१९. तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे० भागवट्ठि-हाणि०-अवट्ठि० सव्वलोगो । दोवट्ठि-हाणि० लोग० असंखे० भागो मव्वलोगो वा । अवत्त० लोग० असंखे० भागो सत्तचोदस० । असंखे० गुणहाणि० खेत्तं । एवं णवुंम० । णवरि असंखे० गुणहाणि० णत्थि । अवत्त० लोग० असं० भागो सव्वलोगो वा । एवं सोलसक०-छण्णोक्क० । एवरि अवत्त० केव० पो० ? सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० खेत्तं । णवरि मम्म० असंखे० भागहाणि० लोग० असंखे० भागो छचोदस० । इत्थिवेद-पुरिसवेद० तिण्णि-वट्ठि०-अवट्ठि० खेत्तभंगो । तिण्णिहाणि-अवत्त० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा ।

८२०. पंचि० तिरिक्खत्थिय० मिच्छ०-मोलसक०-णवणोक्क० सव्वपद० लोग० असंखे० भागो मव्वलोगो वा । णवरि मिच्छ० अवत्त० लोग० असंखे० भागो

कुछ कम पाँच भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतकके नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पहिली पृथिवीमें स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

८१८. तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो वृद्धि और दो हानि स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीरणा नहीं है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार सोलह कपाय और छह नोकपायकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। खीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तीन हानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

८२०. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमं मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंने लोकके असंख्यातवें

सत्तचोद्दस० । असंखे०गुणहाणि० इत्थिवेद-पुरिसवेद तिण्णिवद्वि-अवद्वि०-अवत्त० एणु०म०-अवत्त० केव० पो० ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोघं । एवरि पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । जोणिसीसु पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवेद० अवत्त० एत्थि । पंवि०तिरिक्खअपज्ज-मणुमअपज्ज० मिच्छ०-सोलमक०-सत्तणोक० मव्वपद० केव० खेतं पोमिदं ? लोग० असंखे०भागो मव्वलोगो वा । मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियभगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० खेतं । मिच्छ०-चदुसंजल०-तिण्णिवेद० असंखे०गुणहाणि० खेतं । एवरि पज्ज० इत्थिवे० णत्थि । मणुसिणी० पुरिसवे०-णवु०म० णत्थि ।

१८२१. देवेषु अप्पणो पयडि० सव्वपद० लोग० असंखे०भागो अट्ट-चोद्दम० । णवरि मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० सम्म०-सम्मामि० मव्वपदा० इत्थिवे०-पुरिसवे० तिण्णिवद्वि-अवद्वि० अट्टचोद्दम० । एवं मोहम्ममीमाण० । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिमि० । णवरि जग्गि अट्टचोद्दम० तग्गि अट्टधुट्टा वा अट्टचोद्दम० ।

भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम सात भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसकी असंख्यात गुणहानि स्थिति, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति तथा नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेद नहीं है । योनिनियोमे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है तथा स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नाकषायके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग क्षेत्रके समान है । मिथ्यात्व, चार संज्वलन और तीन वेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेद नहीं है तथा मनुष्यनियोमे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है ।

१८२१. देवोमे अपनी-अपनी प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि स्थिति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंकी स्थिति तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी तीन वृद्धि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोने त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशानकल्पमे जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्यातिपी देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ 'त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।' यह कहा है वहाँ 'त्रसनालीके चौदह भागोमेसे कुछ कम साढ़े तीन और आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है' यह कहना चाहिए ।

§ ८२२. सणकुमारादि सहस्मार त्ति सव्वपयडी० सव्वपदा० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद्दस० । आणदादि अच्चुदा त्ति सव्वपयडि० सव्वपद० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचोद्दस० । उवरि खेत्तभंगो । एवं जाव० ।

§ ८२३. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० अमंखे०भागवड्ढि-हाणि-अवट्ढि० केवचिं ? मव्वद्धा । सेमपदा० जह० एयम०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । एवं णवुंम० । णवरि अमंखे०गुणहाणि० जह० एयम०, उक्क० मंखेजा ममया । एवं चदुमंजल० । णवरि अवत्त० मव्वद्धा । अमंखे०गुणवड्ढि० जह० एयम०, उक्क० संखेजा ममया । एवं वागमक०-द्वण्णोक० । णवरि अमंखे०-गुणवड्ढि-हाणि० णत्थि । सम्म० असंखे०भागहाणि० सव्वद्धा । सेमपदा० जह० एयस०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो । असंखे०गुणहाणि० जह० एयम०, उक्क० संखेजा ममया । सम्मामि० अमंखे०भागहा० जह० अंतोमु०, उक्क० पत्तिदो० अमंखे०भागो । सेमपदा० जह० एयम०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो । इत्थिवेद-

§ ८२२. सनत्कुमार बल्पसे लेकर सहस्मार बल्पतकके देवोमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके अमंख्यातवें भाग और त्रसनालीके चौदह भागोंसे कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गगातक जानना चाहिए ।

§ ८२३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मिश्र्यत्वकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका कितना काल है । सर्वदा काल है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार नपुंसकवदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसीप्रकार चार संज्वलनोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इसीप्रकार बारह कपाय और छह नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीरणा नहीं है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यग्मिश्र्यत्वकी असंख्यात भागहानिकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

पुरिसवेद० असंखे०भागहाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । सेसपदा० सम्मत्तभंगो । एवरि पुरिमवे० अमंखे०गुणवड्ढि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया ।

§ ८२४. आदेसेण सव्वणेग्इय०-पंचिंदियतिरिक्खनिय-देवा भवणादि जाव सहस्सारा ति अप्पप्पणो पयडि० असंखे०भागहाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एयम०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । णवरि सम्मामि० ओघं । सम्म० असंखे०भागहाणि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एगम०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो ।

§ ८२५. तिरिक्खेसु मव्वपयडी० सव्वपदा० ओघं । पंचिंदियतिरिक्खअप० सव्वपयडी० अमंखेज्जाभागहा०-अवट्टि० मव्वद्धा । सेसपदा० जह० एग०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो ।

§ ८२६. मणुसेसु मिच्छ०-एवुंम० पंचिंदियतिरिक्खभंगो । एवरि असंखे०-गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० मंखेज्जा समया । मम्म० असंखे०भागहाणि० इत्थिवे०-पुरिम० असंखे०भागहा०-अवट्टि० सव्वद्धा । सेसपदा० जह० एगम०,

स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका भंग सम्यक्त्वके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धिकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।

§ ८२४. आदेशसे सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें अपनी-अपनी प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघके समान है। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ८२५. तिर्यञ्चोमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका भंग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

§ ८२६. मनुष्योंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थिति तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उद्दीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उद्दीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

उक्क० मंखेजा समय। सम्मामि० असंखे०भागहा० जह० उक्क० अंतोमु० । सेसपदा० जह० एगम०, उक्क० मंखेजा समय। सोलसक०-इण्णोको० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि चदुसंज० असंखेज्जगुणहाणि० ओघं ।

॥ ८२७. मणुमपज्ज०-मणुमिणीसु सच्चपयडी० असंखे०भागहाणि-अवट्टि० सच्चद्धा । सेसपदा० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समय। णवरि सम्म०-सम्मामि० मणुसोघं । मणुमअपज्ज० सच्चपयडी० असंखे०भागहाणि०-अवट्टि० जह० एगस०, पलिदो० असंखे०भागो । सेसपदा० जह० एगस०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो ।

८२८. आणदादि जाव एवमेवज्जा ति मिच्छत्त-मम्म०-मोलमक०-मत्तणोक्क० अमंखे०भागहाणि० सच्चद्धा । सेसपदा० जह० एगम०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो । सम्मामि० असंखे०भागहाणि०-अवत्त० ओघं ।

॥ ८२९. अणुदिसादि सच्चद्धा ति मच्चपयडि० असंखे०भागहाणि० सच्चद्धा । सेसपदा० जह० एगम०, उक्क० आवलि० अमंखे०भागो । णवरि सम्म० अवत्त० जह० एगम०, उक्क० संखेजा समय। एवरि सच्चट्ठे मंखेज्जममया कादव्वा ।

संख्यात समय है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सोलह कषाय और छह नोकषायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका भंग ओघके समान है।

॥ ८२७ मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग सामान्य मनुष्योंके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

॥ ८२८. आनतकल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सोलह कषाय और सात नोकषायकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग ओघके समान है।

॥ ८२९. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका काल सर्वदा है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें आवलिके असंख्यातवें भागके स्थानमे

एवं जाव० ।

§ ८३०. अंतराणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-  
णवुंस असंखे० भागवडि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । सेसपदा० जह० एयस०, उक्क०  
अंतोमु० । णवरि संखे० गुणहाणि-अवत्त० जह० एयस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि ।  
णवुंस० अवत्त० भुज० भंगो । असंखे० गुणहाणि० जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्तं ।  
सम्म० अमंखे० भागहाणि० एत्थि अंतरं । अवट्टि०-अवत्त० भुजभंगो । सेसपदा०  
जह० एगम०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । असंखे० गुणहाणि० जह० एयस०,  
उक्क० द्दम्मामं । सम्मामि० सव्वपदा० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो ।  
सोलसक०-द्वणो० असंखे० भागवडि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० एत्थि अंतरं ।  
सेसपदा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । णवरि चदुसंज० असंखे० गुणवडि० जह०  
एयस०, उक्क० वासपुधत्तं । असंखे० गुणहाणि० जह० एयस०, उक्क० वास सादिरेयं ।  
णवरि लोसंभजल० असंखे० गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० द्दम्मामं । इत्थिवे०-  
पुरिसवे० असंखे० भागहाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । सेसप० जह० एयस०, उक्क०  
संख्यात समय कहना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ८३०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे  
मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थित  
स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक  
समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि संख्यात गुणहानि और  
अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात  
है । नपुंसकवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग भुजगारके समान है । असंख्यात  
गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व-  
प्रमाण है । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिउदीरणाका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित  
और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग भुजगारके समान है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रातप्रमाण है । असंख्यात  
गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना  
प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और  
उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सोलह कषाय और छह नोकपायकी  
असंख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागहानि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका  
अन्तरकाल नहीं है । शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट  
अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके  
उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । असंख्यात  
गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक  
वर्ष है । इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका  
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी  
असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । शेष पदोंकी



अंतोमु० । णवरि अवत्त० णवुंमयभंगो । अमंखे०गुणहाणि० जह० एयस०, उक्क० वामपुधत्तं । पुरिमवे० असंखे०गुणवड्ढि-हाणि० कोहमंजलणभंगो ।

॥ ८३१. आदेसेण णेरइय मिच्छत्त-मोलसक०-सत्तणोक० असंखे०भागहाणि-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । सेमपदा० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । णवरि मिच्छ० असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ओधं । सम्म०-मम्मामि० सव्वपदा० ओधं । एवं मव्वणेरइय० ।

॥ ८३२. तिरिक्खेमु मव्वपयडी० अप्पणो पदा० ओधं । पंचिंदिय-तिरिक्खतिण्ण णारमभंगो । णवरि तिरिण्णवेद० अमंखे०भागहा०-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । सेमपदा० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । अवत्त० ओधं । णवरि पज्जत्त० इत्थिवेदां णत्थि । जोणिणीसु पुग्गिमवे०-णवुंम० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज० सव्वपय० असंखे०भागहाणि-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । सेमपदा० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

॥ ८३३. मणुमतिण्ण पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म०-मम्मामि० ओधं ।

स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग नपुंसकवेदके समान है। असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। पुरुषवेदकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरकोंका भंग क्रोधसंज्वलनके समान है।

॥ ८३१. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय और सात नोकपायकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग आघके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका भंग आघके समान है। इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए।

॥ ८३२. तिर्यञ्चोमे सब प्रकृतियोंके अपने-अपने पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका भंग आघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे नारकियोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि तीन वेदोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका भंग आघके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेद नहीं है। योनिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है। स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थिति उदीरणा नहीं है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंकी असंख्यात भागहानि और अवस्थित स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

॥ ८३३. मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि

चदुसंजल०-तिण्णिवेद० असंखे०गुणहाणि० ओघं । णवरि पज्ज० इत्थिवेदो णत्थि । मणुसिणी० पुरिम०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० जह० एगम०, उक्क० वामपुधत्तं । जम्हि ब्रम्मासं वासं सादिरेयं तम्हि वामपुधत्तं । मणुमअपज्ज० सव्व-पयडीणं सव्वपदा० जह० एगम०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो ।

८३४. देवाणं पच्चिदियतिरिक्खभंगो । णवरि णवुंस० णत्थि । इत्थिवे०-पुरिमवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवणादि मोहम्मा त्ति । एव मणकुमारादि जाव सहस्सारा त्ति । णवरि इत्थिवे० णत्थि ।

८३५. आणदादि णवगेवज्जा त्ति मिच्छ० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । सेमप० जह० एयम०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । सम्म० तिण्णिवड्डि-दोहाणि-अवत्त० ओघं । मम्मामि० असंखे०भागहाणि-अवत्त० ओघं । मोलमक०-दण्णोक० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । संखे०भागहाणि० जह० एगस०, उक्क० सत्त रादिदियाणि । अवत्त० जह० एयम०, उक्क० अंतोमु० । एवं पुरिम० । णवरि अवत्त० णत्थि ।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग ओघक समान है। चार संज्वलन और तीन वदकी असंख्यात गुणहानिके स्थितिके उदीरकोका भंग ओघके समान हैं। इतनी विशेषता है कि पर्याप्तकोमे स्त्रीवेद नहीं है। मनुष्यनियामे पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है। स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। जहाँ छह माह और साधक एक वर्ष अन्तर कहा है वहाँ वर्षप्रथक्त्व कहना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंके सब पदोकी स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

८३४. देवोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें नपुंसकवेद नहीं है। तथा स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर सौधर्म-ऐशान कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए। तथा इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद नहीं है।

८३५. आनत कल्पसे लेकर ती प्रैवेयकृतकके देवोमे मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। शेष पदोंकी स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। सम्यक्त्वकी तीन वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका भंग ओघके समान है। सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका भंग ओघके समान है। सोलह कपाय और छह नोकपायकी असंख्यात भागहानिकी स्थितिके उदीरकोका अन्तरकाल नहीं है। संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है।

§ ८३६. अणुद्दिमादि सव्वद्वा त्ति सम्म० असंखे०भागहा० एत्थि अंतरं । संखे०भागहाणि-अवत्त० जह० एगम०, उक्क० वासपुधत्तं । सव्वद्दे पत्तिदो० संखे०-भागो । एवं पुरिसवे० । णवरि अवत्त० एत्थि । एवं बारसक०-ळण्णोक्क० । णवरि अवत्त० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

§ ८३७. भावाणुगमेण सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ८३८. अप्पावहुआणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-णवुंस० सव्वत्थो० असंखे०गुणहाणि० । अवत्त०उदीर० असंखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । संखे०गुणवट्ठि० असंखे०गुणा । संखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० अणंतगुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा ।

§ ८३९. मम्मत्त० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० असंखे०गुणा । संखे०जगुणवट्ठि० असंखे०गुणा । संखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।

§ ८३६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वकी असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरकोंका अन्तरकाल नहीं है । संख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है । सर्वार्थसिद्धिमें पत्यक संख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार बारह कषाय और छह नोकषायकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

§ ८३७. भावानुगमकी अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव हैं ।

§ ८३८. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ८३९. सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव

अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे०भागहा० असंखे०गुणा ।

§ ८४०. सम्मामि० सव्वत्थो० संखे०गुणहाणि० । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।

§ ८४१. बारसक०-द्वण्णोक० सव्वत्थो० संखे०गुणहाणि० । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । संखे०जगुणवड्ढि० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० अणंतगुणा । अवत्त० संखे०गुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा ।

§ ८४२. चदुसंजलण० सव्वत्थोवा असंखे०गुणवड्ढि० । असंखे०गुणहाणि० संखे०गुणा । संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । सेस कसायभंगो ।

§ ८४३. इत्थिवेद० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । संखे०गुणवड्ढि० असंखे०गुणा । संखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० असंखे०गुणा । अवत्त० संखे०गुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा ।

असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८४०. सम्यग्मिध्यात्वकी संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८४१. वारह कपाय और छह नोकपायकी संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है ।

८४२. चार संज्वलनकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोका है । उनसे असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । शेष भंग कपायोंके समान है ।

§ ८४३. छीवेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे है ।

८४४. पुरिसवेद० सव्वत्थोवा असंखे० गुणवड्ढि० । असंखे० गुणहाणि० संखे० गुणा । सेसमिस्थिवेदभंगो । एवं तिरिकखा० । णवरि चदुसंजलण-तिण्णिणवेद-सम्म० असंखे० गुणवड्ढि-हाणि० एत्थि ।

८४५. आदेसेण रोइय० मिच्छ० मव्वत्थोवा असंखे० गुणहाणि० । अवत्त० असंखे० गुणा । संखे० गुणहाणि० असंखे० गुणा । संखे० गुणवड्ढि० विसेमाहिया । संखे०-भागवड्ढि-हाणि० दो वि सरिमा संखे० गुणा । असंखे० भागवड्ढि० असंखे० गुणा । अवत्त० संखे० गुणा । अवड्ढि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० संखे० गुणा । सम्म० ओघ । णवरि असंखेज्जगुणहा० णत्थि । सम्मामि० ओघं ।

८४६. मोलसक०-द्धणोक्क० मव्वत्थोवा संखेज्जगुणहा० । संखे० गुणवड्ढि० विसेमा० । संखेज्जभागवड्ढि-हा० दो वि सरिमा संखे० गुणा । असंखे० भागवड्ढि० असंखेज्जगुणा । अवत्त० संखे० गुणा । अवड्ढि० असंखेज्जगुणा । असंखे० भागहा० संखे० गुणा । एवं णवुंम० । णवरि अवत्त० णत्थि । एवं पढमाए । विदियादि सत्तमा

८४७. पुरुषवन्दकी असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यातगुणे है । शेष भंग स्त्रीवेदके समान है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमि जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें चार संज्वलन, तीन वेद और सम्यक्त्वकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानि स्थिति उद्दीरणा नहीं है ।

८४५. आदेशसे नार्गकयोमि मियान्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे मख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे मख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव विशेष अधिक है । उनसे मख्यात गुणवृद्धि और संख्यात भागहानि इन दोनों ही स्थितियोंके उद्दीरक जीव समान होकर संख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवास्थित स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यातगुणे है । सम्यक्त्वका भंग ओघक समान है । इतना विशेषता है कि इसकी असंख्यात गुणहानि स्थिति उद्दीरणा नहीं है । सम्यग्मिव्यात्वका भंग ओघक समान है ।

८४६. सोलह कपाय और छह नोकपायकी संख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव विशेष अधिक है । उनसे मख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानि इन दोनों स्थितियोंके उद्दीरक जीव परस्पर समान होकर संख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उद्दीरक जीव मख्यातगुणे है । उनसे अवास्थित स्थितिके उद्दीरक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे असंख्यात गुणहानि स्थितिके उद्दीरक जीव संख्यातगुणे है । इसीप्रकार नपुंसकवन्दकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थिति उद्दीरणा नहीं है । इसीप्रकार पहली पृथिवीमे जानना चाहिए । दूसरेसे लेकर सातवी पृथिवीतकी

त्ति एवं चेव । एवरि मिच्छ०-सोलमक०-सत्तणोक० संखे०गुणवड्डि-हाणि० दो वि सरिसा । पंचिदियतिरिक्खतिए णारयभंगो । णवरि इत्थिवे०-पुरिसवे० कपायभंगो । णवुंस० मिच्छत्तभंगो । णवरि असंखे०गुणहाणि० एत्थि । पज्जत्त० इत्थिवेदो णत्थि । णवुंस० पुरिमवेदभंगो । जोण्णणीसु पुरिस०-णवुंस० णत्थि । इत्थिवे० अवत्त० णत्थि । पंचिदियतिरिक्खत्तपज्ज०-मणुसत्तपज्ज० मोलमक०-त्तणोक० पंचि०तिरिक्खभंगो । एवं मिच्छ०-णवुंस० । एवरि अवत्त० एत्थि ।

८४७. मणुसेसु मिच्छ०-णवुंस० मव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० संखे०गुणा । सेमं पंचिदियतिरिक्खभंगो । सम्म० सम्मामि० ओवं । णवरि संखेज्ज-गुणं कायव्वं । बारसक०-त्तणोक० पंचिदियतिरिक्खभंगो । चदुसंजल० सव्वत्थो० अमंखे०गुणहाणि० । संखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखेज्जगुणवड्डि० विसेमाहिया । सेसं पंचि०तिरिक्खभंगो । इत्थिवे०-पुरिम० एवं चेव । एवरि संखे०गुणं कायव्वं । एवं मणुमपज्ज० । णवरि संखे०गुणं कायव्वं । णवरि इत्थिवेदो एत्थि । णवुंस० पुरिम०भंगो । मणुमिणी० एवं चेव । एवरि पुरिस०-णवुंस० एत्थि । इत्थिवेद०

इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व, सोलह कषाय और सात नोकपाय-की संख्यात गुणवृद्धि और संख्यात गुणहानि इन दोनों स्थितियोंके उदीरक जीव समान हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे नारकियोंके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुष-वेदका भंग कषायके समान है । नपुंसकवेदका भंग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थितिउदीरणा नहीं है । पर्याप्तकोमं स्त्रीवेद नहीं है । नपुंसकवेदका भंग पुरुषवेदके समान है । यानिनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेद नहीं है । स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमं सोलह कषाय और छह नोकपायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । इसीप्रकार मिथ्यात्व और नपुंसक-वेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है ।

८४७. मनुष्योंमें मिथ्यात्व और नपुंसकवेदकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणें है । शेष भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भंग अधिक समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । बारह कषाय और छह नोकपायका भंग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । चार संज्वलनकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्ताक है । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव विशेष अधिक है । शेष भंग पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोमं जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेद नहीं है । नपुंसकवेदका भंग पुरुषवेदके समान है । मनुष्यनियोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसक-

मव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणहाणि० संखे०गुणा । सेसं तं चैव ।

‡ ८४८. देवाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । एव्वरि णवुंस० णत्थि । इत्थिवे०-  
पुरिसवे० अवत्त० णत्थि । एवं भवण०-वाणवे०-जोदिमि० । सोहम्मीसाण०  
बिदियपुठविभंगो । एव्वरि इत्थिवे०-पुरिसवेद० कमायभंगो । अवत्त० णत्थि ।  
णवुंस० णत्थि । एवं सणक्कुमागादि जाव महस्साग ति । एव्वरि इत्थिवेदो णत्थि ।

‡ ८४९. आणदादि णवगेवज्जा ति मिच्छ० मव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० ।  
संखे०भागहाणि० संखे०गुणा । अवत्त० अमंखे०गुणा । असंखे०भागहा० अमंखे०गुणा ।  
सम्म० मव्वत्थोवा अमंखे०भागवड्ढि० । संखे०गुणवड्ढि० अमंखे०गुणा । संखे०-  
भागवड्ढि० संखे०गुणा । संखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । अवत्त० अमंखे०गुणा ।  
असंखे०भागहाणि० अमंखे०गुणा । सम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । अमंखे०भागहा०  
असंखे०गुणा । मोलसक०-द्धणोको० सव्वत्थोवा संखे०भागहाणि० । अवत्त० अमंखे०-  
गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । एवं पुग्गिम० । एव्वरि अवत्त० णत्थि ।

वेद नहीं है । इनमें स्त्रीवेदकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । शेष उसी प्रकार है ।

८४८ देवोमे पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद नहीं है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । इसीप्रकार भवत्वासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । सौधर्म और ऐशान कल्पमें दूसरी पृथिवीके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदका भंग कषायके समान है । इनकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है । नपुंसकवेद नहीं है । इसीप्रकार सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद नहीं है ।

‡ ८४९. आनत कल्पसे लेकर नौ प्रवेयकतकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात गुणहानि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्वकी असंख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे संख्यात गुणवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागवृद्धि स्थितिके उदीरक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । सोलह कषाय और छह नोकषायकी संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र है । उनसे अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवक्तव्य स्थितिउदीरणा नहीं है ।

§ ८५०. अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति सम्म० सव्वत्थोवा अवच० । संखे०-  
भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । वारसक०-सत्तणोक०  
आणदभंगो । णवरि सव्वट्टे जम्हि असंखे०गुणा तम्हि सखेज्जगुणं कादव्वं । एवं जाव० ।

एवं वडिउदीरणा समत्ता ।

§ ८५१. एत्थ द्वाणपरूवणे कीरमाणे द्विदि-संकमभंगो । णवरि अप्पणो  
उक्कस्सद्विदिउदीरणमादिं कादूण जाव अप्पणो उदीरणा-पाअग्गजहण्णद्विसंतकम्मे  
त्ति ओदारिय । तदो 'को कदमाए द्विदीए पवेसगो' त्ति पदस्स अत्थो समत्तो ।

गेण्हियव्वं एवं द्विदिउदीरणा समत्ता ।



§ ८५०. अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वकी अवक्तव्य स्थितिके उदीरक जीव सबसे स्तोत्र हैं । उनसे संख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानि स्थितिके उदीरक जीव असंख्यातगुणे हैं । बारह कषाय और सात नोकषायका भंग आनतकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें जहाँ असंख्यातगुणा हैं वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इसप्रकार वृद्धिउदीरणा समाप्त हुई ।

§ ८५१. यहाँपर स्थानपरूपणा करनेपर स्थितिसंकमके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिउदीरणासे लेकर अपने-अपने उदीरणा प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मतक उतारकर ग्रहण करना चाहिए । इसके बाद 'को कदमाए द्विदीए पवेसगो' इस पदका अर्थ समाप्त हुआ ।

इसप्रकार स्थितिउदीरणा समाप्त हुई ।





## शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पं० | अशुद्धि                                      | शुद्धि                                                                                  |
|-------|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| १६    | १३  | जानना चाहिए । प्रथम नरकमे                    | जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए । प्रथम नरकमे |
| १८    | २४  | अनुदीरक होते है । पञ्चेन्द्रिय               | अनुदीरक होते है । योनिनी तिर्यञ्चोमें स्त्रीवेदकी अनुदीरणा नही है । पञ्चेन्द्रिय        |
| २४    | २   | पल्लिदोवमणि पुक्वकोडिपुवन्तं<br>णम्महियाणि ? | पुक्वकोडिपुधन्त ?                                                                       |
| २४    | १६  | मन्मुख क्षायिक सम्यग्दृष्टि                  | मन्मुख वेदक सम्यग्दृष्टि                                                                |
| २७    | १७  | रहता है ।                                    | सम्भव है ।                                                                              |
| ३१    | १६  | दो क्रोधोका नियमन                            | दो क्रोधोका तथा नपुंसकवेदका नियमन                                                       |
| ३१    | ३०  | स्त्रीवेदकी                                  | नपुंसकवेदकी                                                                             |
| ३३    | ७८  | मिया । उदीर०                                 | मिया उदीर०                                                                              |
| ६७    | ३४  | भीतर दी वार                                  | भीतर मयमागयमके साथ दी वार                                                               |

सूचना—यहाँपर हमने प्रकृत भागके कुछ उपयुक्त संशोधन दिए हैं । इसमें यदि विषय-सम्बन्धी कुछ संशोधन स्वाध्यायप्रेमियोंके ध्यानमें आवें तो उनकी सूचना मिलनेपर परामर्श करके उन्हें अगले भागमें दे दिया जायगा । जयवलाके पूरे मुद्रणके अन्तमें इन ग्रन्थके विषय-सम्बन्धी सब संशोधनोंको देनेवा भी हमारा विचार है ।







